



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

पृ. 7]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17—फरवरी 23, 2007 (माघ 28, 1928)

No. 7]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17—FEBRUARY 23, 2007 (MAGHA 28, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of  
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 11 जनवरी 2007

सं. ए. 19014/19/2006-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.12.2006 के आ.सं. 05/08/2006-सी.एस.-1 (डेस्क) (पी.टी.) के अनुसरण में श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री जी. राय (जन्म तिथि 04.05.1954) (सी.एस.एल.सं. 5646) को रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में 27 दिसम्बर, 2006 से अगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(i) तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा निम्नलिखित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या वरिष्ठता वरिष्ठ करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 19014/20/2006-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.12.2006 के आ.सं. 05/08/2006-सी.एस.-1 (डेस्क) (पी.टी.) के अनुसरण में शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री के. के. झा (जन्म तिथि 04.01.1958) (सी. एस. एल. सं. 5633) को रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में 26 दिसम्बर, 2006 (पूर्व) से अगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(i) तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड-I में या वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 19014/23/2006-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.12.2006 के आ.सं. 05/08/2006-सी.एस.-I (डेस्क) (पी.टी.) के अनुसरण में योजना आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री ए.एन. जैना (जन्म तिथि 21.11.1961) (सी. एस. एल. सं. 5519) को रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में 29 दिसम्बर, 2006 (पूर्वा) से अगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(i) तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड-I में या वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ए. 38014/9/2005-प्रशा. II--संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कार्यरत श्री किरोड़ी लाल, अधीक्षक (डी पी) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2007 (इक्कीस जनवरी, 2007) की अपराह को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद-500052, दिनांक 01 फरवरी 2007

सं. 15011/8/2002 (स्था.)--संघ लोक सेवा आयोग के पत्र सं. 3/24(22)/2006-ए डी टी-3 दिनांक 07.12.06 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्री के. सेन्थिल नाथन सहायक कमांडेंट, के. रि. पु. ब.

(आई. आर. एल. ए. सं. 5894) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में मुख्य कवायद अनुदेशक के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले लागू हो दिनांक 03 जनवरी 2007 के पूर्वाह से प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

2. उनको यह विकल्प दिया जाता है कि वे चाहें तो मूल पद के वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त कर सकते हैं या फिर अकादमी द्वारा प्रतिनियुक्ति पद पर विहित रु. 8,000-13,500/- देय वेतनमान में संबद्ध नियमों के तहत देय भत्तों के साथ वेतन पा सकते हैं। कार्यभार संभाले जाने के एक माह के अन्दर वे अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं और जो विकल्प चुना जाता है वह उनके लिए अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

डॉ. जी.एस. राजगोपाल  
निदेशक

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 फरवरी 2007

सं.-पी तीन-2/2007-कार्मिक-3--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप इस महानिदेशालय के प्रशासन-3 अनुभाग, के श्री जगदीश प्रसाद (इरला संख्या-5503) ने प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का पदभार दिनांक 30.11.2006 (अपराह) को त्याग दिया।

के. के. शिवा प्रसाद  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

महानिदेशालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ई-28017/6/नोटि/2007 कार्मिक-2/249--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री मुकुन्द लाल भट्टाचार्य, सरकारी सेवा से दिनांक 31.12.2006 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा उन्होंने सहायक कमांडेंट के औसुब इकाई आई.एस.पी. बर्नपुर (प.ब.) का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के औसुब

सं. ई-31013(1)/5/2006/कार्मिक- II/263--राष्ट्रपति, श्री एम.सी. बिश्वास कमांडेंट (31.12.2005 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त को 26.01.2002 (अपराह) से रु. 14,300-400-18,300/- के वेतन में नियमित आधार पर सैद्धान्तिक पदोन्नति होने पर के औसुब में कमांडेंट के रैंक में नियुक्त करते हैं।

2. नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार वे वरिष्ठ कमांडेंट के पद पर 27.01.2002 से 31.12.2005 तक वेतन और भत्तों की बकाया राशि के हकदार होंगे।

ह./- अपदनीय  
महानिदेशक/केओसुब

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 8 फरवरी 2007

सं.-33-जी.ई.-I/13-2006--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र देकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. श्री यू. भट्टाचार्य    | अधिवार्षिकी दिनांक 31.01.2007<br>(अपराह)           |
| 2. श्री व्ही. आर. पोहुरकर | अधिवार्षिकी दिनांक 31.01.2007<br>(अपराह)           |
| 3. श्री ऐ.के. प्रभाकर     | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 05.01.2007 (पूर्वाह) |
| 4. श्री बी.सो. मल्लिक     | त्याग-पत्र दिनांक 15.12.2006<br>(अपराह)            |

दीपक नारायण  
सहा. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. प्रशासन-III/पैन/5-2/खंड-VI/420--कार्यालय महालेखाकार (प्राप्ति, निर्माण एवं स्थानीय लेखापरीक्षा) प. बंगाल, के श्री चंचल कुमार चक्रवर्ती, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री कलपन चौधरी, लेखापरीक्षा अधिकारी, ने दिनांक 31-12-2006 (अपराह) से प्रभावी वार्धक्य पर सेवा निवृत्ति ग्रहण की।

बी.के. मुखर्जी  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प. बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 2 फरवरी 2007

सं. डब्ल्यू. एम. I/स्थापना/279--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतनमान रुपए 7,450-225-11,500/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
---------	-----

- |    |                       |
|----|-----------------------|
| 1. | श्री मलय चट्टोपाध्याय |
| 2. | श्री महादेब दास       |

उपरोक्त अधिकारियों प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ.आर.-22(1)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर (अपदनीय)  
उप महालेखाकार (लेखा)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय आंध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2 जनवरी 2007

सं. प्रशा. I (ले. व. ह.)/I/4-39/2006-07/115--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष अनुमति के साथ /लेखा अधिकारी का पदोन्नत किया जाता है ताकि नीचे दर्शाये गये नामित कर्मचारियों प्रस्तुत दिनांक से रुपए 8,000-13,500/- वेतनमान में स्थानापन्न रूप में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद में काम करेंगे।

क्रम सं.	नाम	लेखा अधिकारी के पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
----------	-----	---

- |               |                      |          |
|---------------|----------------------|----------|
| श्री/सर्वश्री |                      |          |
| 1.            | एस. नागलक्ष्मी       | 2-1-2007 |
| 2.            | वाई. साई प्रसाद राव  | 2-1-2007 |
| 3.            | ए. विवेकानन्दा राव   | 2-1-2007 |
| 4.            | वी. एस. सुर्यनारायणा | 2-1-2007 |
| 5.            | के. रामा मूर्ती      | 2-1-2007 |
| 6.            | ओ. राम कुण्णा राव    | 2-1-2007 |
| 7.            | सि. एच. नलशेखर राव   | 2-1-2007 |
| 8.            | जी. उषारानी          | 2-1-2007 |
| 9.            | जे. सी. सुब्बा राव   | 2-1-2007 |
| 10.           | पी. उमा सरस्वती      | 2-1-2007 |
| 11.           | के. सुब्बाराथुडू     | 2-1-2007 |
| 12.           | वी. एस. प्रकाश राव   | 2-1-2007 |

यदि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रिट अर्जी लंबित है। इसके अलावा भी यह पदोन्नति बिना किसी वरिष्ठ कर्मचारी का दबाव या बिना पूर्वग्रह आदेश को जारी किया जाता है।

एल.आर.के. शास्त्री  
उप महालेखाकार (प्रशा.)

हैदराबाद-500004, दिनांक 2 जनवरी 2007

सं. प्रशा. I ले.व.ह./1/4-6/2006-07/149--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष अनुमति के साथ सहायक लेखा अधिकारी को पदोन्नत किया जाता है ताकि नीचे दर्शाये गये नामित कर्मचारी प्रस्तुत दिनांक से रुपए 7,500-12,000/- वेतनमान में स्थानापन्न रूप में लेखा अधिकारी के पद में काम करेंगे।

नाम एवं लेखा अधिकारी के पद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

श्री वै. रवि कुमार, 2-1-2007

यदि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रिट अर्जी लंबित है। इसके अलावा भी यह पदोन्नति बिना किसी वरिष्ठ कर्मचारी का दबाव या बिना पूर्वग्रह आदेश को जारी किया जाता है।

सी.एम. ईश्वरय्या  
व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा. I/1/4-26/2006-07/150--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष अनुमति के साथ अनुभाग अधिकारी को पदोन्नत किया जाता है ताकि नीचे दर्शाये गये नामित कर्मचारियों प्रस्तुत दिनांक से रुपए 7,450-11,500/- वेतनमान में स्थानापन्न रूप में सहायक लेखा अधिकारी के पद में काम करेंगे :-

क्रम सं.	नाम	लेखा अधिकारी के पद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	श्री/सर्वश्री	
1.	यू. वी. अन्न पुर्णा	2-1-2007
2.	ए. लक्ष्मण मूर्ती	2-1-2007
3.	आर. सुधाकर	2-1-2007
4.	एन. रंगा बाबू	2-1-2007
5.	आर. चन्द्रशेखर	2-1-2007
6.	जानकी दिवाकरन	2-1-2007
7.	एस. राजश्री	2-1-2007
8.	के. मैयोली मुकुन्दन	2-1-2007
9.	वनिता वरदाराजन	2-1-2007
10.	पी. मृणालिनी	2-1-2007
11.	के. लक्ष्मी विजय दुर्गा	2-1-2007
12.	एम. हरि हरा प्रसाद	2-1-2007
13.	सी. एच. वीरबध्न राव	2-1-2007
14.	सी. एच. इन्दिरा ज्योती	2-1-2007

यदि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रिट अर्जी लंबित है। इसके अलावा भी यह पदोन्नति बिना

किसी वरिष्ठ कर्मचारी का दबाव या बिना पूर्वग्रह आदेश को जारी किया जाता है।

सी.एम. ईश्वरय्या  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. प्रशा-I भा.ले.वि.गुप ख/1850--दिनांक 02.01.2007 के का.आ.ग. सं. 695 में दिए गए पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा ने श्री प्रह्लाद दास, लेखा अधिकारी [जो वरिष्ठ उपमहालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवं लेखा) कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं] को वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- पर स्थानापन्न पदोन्नति उनके कनिष्ठ के पदभार ग्रहण की तिथि से सहर्ष प्रदान करते हैं (मूल नियमावली-22 के ठीक नीचे के नियम में विहित प्रावधान के अनुरूप)।

श्री प्रह्लाद दास, श्री डी. राम प्रसाद के ऊपर एवं कुमारी निलोत्पला महान्ती के नीचे वरिष्ठ लेखा अधिकारी संवर्ग पर बने रहेंगे।

यह पदोन्नति उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामले अंतिम निर्णय तथा उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है।

विजय कुमार महान्ति  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 18 जनवरी 2007

सं. प्रशा. I (भा.ले.वि.गुप ख/1852--दिनांक 02.01.2007 के का.आ.ग. सं. 685 में दिए गए पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप महालेखाकार, उड़ीसा ने निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय लेखा तथा परीक्षा विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियमावली, 2001 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण की तिथि अर्थात् दिनांक 02.01.2007 पूर्वाह्न से लेखा अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर सहर्ष प्रदान करती है।

1. श्री राजकिशोर त्रिपाठी
2. श्री महेन्द्र नाथ दास

यह पदोन्नति उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामले अंतिम निर्णय तथा उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है।

विजय कुमार महान्ति  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा. I (भा.ले.वि.गुप ख/1854--दिनांक 02.01.2007 के का.आ.ग. सं. 684 में दिए गए पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप महालेखाकार, उड़ीसा ने निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को

उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण की तिथि अर्थात् दिनांक 02.01.2007 पूर्वाह्न से वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- पर सहर्ष प्रदान करती है।

1. श्री रवि नारायण दास
2. सुश्री निलत्पोला महान्ती
3. श्री डी. रामप्रसाद

यह पदोन्नति उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामले अंतिम निर्णय तथा उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है।

बिजय कुमार महान्ति  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय, उड़ीसा

वाणिज्य, निर्माण एवं प्राप्ति

भुवनेश्वर, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. प्रशासन(व.नि.प्रा.) 17-2(ग) खंड-9/1297--इस कार्यालय के का.आ.ग. सं. 496 दिनांक 04.01.2007 द्वारा सूचित मुख्यालय के अनुभागीय कार्यालय आदेश सं. सि ए I/प्रशासन/01 दिनांक 02.01.07 के अनुसरण में श्री परमेश्वर पट्टनायक, लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) पदोन्नति होने पर वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- पर 05.01.2007 (पूर्वाह्न) से महालेखाकार का कार्यालय (वा.नि. एवं प्राप्ति) उड़ीसा, भुवनेश्वर के वाणिज्य लेखा परीक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण किए हैं।

व. लेखा परीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना तथा न्यायालय के विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सि. ए. टि. आदि के अंतिम शर्त पर की गई है।

हस्ताक्षर (अपठनीय)  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले. व.ह.) का कार्यालय, कोरल

तिरुवतपुरम, दिनांक 30 जनवरी 2007

सं. प्रशा. V/9-86/VI-महालेखाकार (ले. व.ह.)--इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को 8,000-275-13,500 रु. के वेतनमान में 01.01.2007 पू. से वरिष्ठ लेखा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती एलीकुट्टी के. ए.
2. श्रीमती फ्लोरेंस बेटसी फ्रांसिस
3. श्रीमती सुजाता के. आर.
4. श्रीमती गोपालकृष्णन नायर एन. (सं. 3)
5. श्रीमती शारदा एम. के.
6. श्रीमती एल.सी. वी. टी.

7. श्रीमती सुसम्मा तोमस
8. श्रीमती देवसिया ई.एम.
9. श्री गोल्डन एम. वी.
10. श्री परंगोडन के. सी.
11. श्रीमती राधा एम. सी.
12. श्रीमती क्लारम्मा अब्राहम टी.
13. श्रीमती प्रेमाकुमारी के.

एम.राजन पणिक्कर  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा. V/9-86/VI-महालेखाकार (ले. व.ह.)--इस कार्यालय की श्रीमती एस लक्ष्मी सहायक लेखा अधिकारी को 7,500-250-12,000 रु. के वेतनमान में 01.11.2006 पू. से लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम.राजन पणिक्कर  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशासन V/9-86/V-महालेखाकार (ले. व.ह.)--इस कार्यालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7,450-225-11,500/- रु. के वेतनमान में नाम के सामने दर्शाए तारीख से सहायक लेखा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	दिनांक
1	2	3
	श्री/सर्वश्री	
1.	जॉय पालायूर	01.01.2007 पू.
2.	गणेश कुमार एस.	01.01.2007 पू.
3.	मालिनी सी. वी.	01.01.2007 पू.
4.	मुरलीधरण के. एम.	01.01.2007 पू.
5.	सुरेश कुमार एन.	01.01.2007 पू.
6.	पद्मिनी पी.	01.01.2007 पू.
7.	जयकुमार के. पी.	01.01.2007 पू.
8.	अजिता एम. एम.	01.01.2007 पू.
9.	कृष्णन टी. वी.	01.01.2007 पू.
10.	जयकुमार के. के.	01.01.2007 पू.
11.	नटराजन वी.	01.01.2007 पू.

1	2	3	
12.	बीबा के. आर.	01.01.2007 पू.	कोलकाता से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर दिनांक 1-12-2006 (पूर्वाह) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।
13.	मल्लिका सी. जे.	02.01.2007 पू.	सरिता पुरी
14.	सुलेहा एल.	01.01.2007 पू.	उप निदेशक (प्रशा.)
		एम.राजन पणिक्कर उप महालेखाकार (प्रशासन)	खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो
	श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय (श्रम ब्यूरो)		नागपुर, दिनांक 18 जनवरी 2007
	शिमला-171004, दिनांक 31 जनवरी 2007		सं. ए-19011/448/2006--स्था. ए. पी. पी.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री. एम. एस. वाघमारे, वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक की भारतीय खान ब्यूरो, बंगलोर में दिनांक 26.12.2006 (अपराह) से उप खान नियंत्रक के पद पर पदोन्नति की जाती है।
	सं. 5/1/2006-एन.सी.पी.आई.--दिसम्बर, 2006 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 127 (एक सौ सत्ताईस) के अंक स्तर पर स्थिर रहा।	विरेन्द्र सिंह उप निदेशक	एस. दासगुप्ता वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी कृते महानियंत्रक
	वस्त्र मंत्रालय (हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)		
	नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2007		सं. ए-19011/445/2006.स्था. ए.पी.पी.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री के. एस. यादव, वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक की भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून में दिनांक 29.12.2006 (पूर्वाह) से उप खान नियंत्रक, के पद पर पदोन्नति की जाती है।
	सं. 12025/1/2006-डी.सी.एच./स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री टी.पी. अनन्तनारायणन को पदोन्नति के आधार पर हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में दिनांक 12.01.2007 के पूर्वाह से अग्रिम आदेशों तक के लिए सहायक निदेशक ग्रेड-I (ग्रुप 'क') नियुक्त करते हैं।	एस. दासगुप्ता वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी कृते महानियंत्रक	
	डॉ. डी. एस. गंगवार अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)		
	सं. 12025/1/2006-डी.सी.एच./स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्रीमती चारुमती कृष्णन को पदोन्नति के आधार पर हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में दिनांक 12.01.2007 के पूर्वाह से अग्रिम आदेशों तक के लिए सहायक निदेशक ग्रेड-I (ग्रुप 'क') नियुक्त करते हैं।	डॉ. डी. एस. गंगवार अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)	सं. ए-19011/447/2006.स्था. ए.पी.पी.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री हरकेश मीणा, वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक को भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर में दिनांक 26.12.2006 (अपराह) से उप खान नियंत्रक, के पद पर पदोन्नति की जाती है।
	लघु उद्योग मंत्रालय विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय		भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण
	नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2007		कोलकाता-700016, दिनांक 25 जनवरी 2007
	सं. ए-19018/1327/94-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, श्रीमती मालविका चौधरी, सहायक निदेशक (ग्रेड I) (रसायन) को लघु उद्योग सेवा संस्थान,		शुद्धिपत्र
			सं. 188/बी/ए-35018/सी.बी.ओ./2006/19-सी--इस कार्यालय की दिनांक 12.12.2006 की अधिसूचना संख्या 2197ए से 2223ए तथा

4132 एस.पी. से 4144 एस.पी./ए-35018/सी.वी.ओ./2006/19ए में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना की पंक्ति 2 तथा पंक्ति 6 में दिखाया गया अधिकारी व कार्यालय का नाम श्रीमती आरती श्रीवास्तव के स्थान पर श्रीमती आरती सी. श्रीवास्तव तथा इण्डियन आर्डिनेन्स फैक्टरी सर्विसेस (90) के स्थान पर इण्डियन आर्डिनेन्स फैक्टरी सर्विसेस (90) पढ़ा जाए।

अधिसूचना की अन्य विषय वस्तुएं अपरिवर्तित रहेंगी।

डी. टी. सिम्लेह  
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. सी-22/718-ए--निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एच. बी. हैडाऊ (अनु. जन जाति)	17.11.2006
	एम. गोपाल राव मेजर जनरल भारत के महासर्वेक्षक	

सं. सी-29/707--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' डिवीजन-1 (सर्वेक्षकों/सर्वेक्षण सहायकों) की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक ग्रुप 'बी' के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नति की जाती है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1.	श्री यू. वी. पुराणिक	02.08.2006
2.	श्री दिनेश सिंह राना	26.07.2006
3.	श्री सुंदर लाल जडली	04.09.2006
4.	श्री पी. रविन्द्रन	27.07.2006
5.	श्री पी. एस. भण्डारी	25.09.2006
6.	श्री डी. रामाकृष्णा कुरूप	26.07.2006
7.	श्री जे. पी. नौटियाल	28.07.2006 (पूर्वाह)
8.	श्री एन. पी. शाही	23.08.2006
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	20.09.2006

1	2	3
10.	श्री गुलजार सिंह (अनुसूचित जाति)	27.07.2006
11.	श्री प्रफुल्ल के. पानीग्रही	27.07.2006
12.	श्री बच्ची प्रसाद सिंह	27.07.2006
13.	श्री कृष्ण कान्त सिंह	23.08.2006
14.	श्री विराज कुमार शर्मा	04.09.2006
15.	श्री देवेन्द्र प्रसाद खण्डूरी	23.08.2006
16.	श्री अजय कुमार	23.08.2006 (पूर्वाह)
17.	श्री हरीश प्रकाश	23.08.2006
18.	श्री पी. के. उनियाल	23.08.2006
19.	श्री नारायण पेटल	23.08.2006
20.	श्री रंजीत चन्द्र पॉल	21.08.2006
21.	श्री एस. के. शर्मा	23.08.2006
22.	श्री विवेका नन्द	01.09.2006
23.	श्री दुर्गादास दास	21.08.2006
24.	श्री शिव नाथ ठाकुर	04.09.2006
25.	श्री बैशनब बेहरा	23.08.2006
26.	श्री आर. बी. थापा	12.09.2006
27.	श्री एम. एम. चोपड़ा	09.10.2006
28.	श्री एन. एम. सिरसिकर (अनुसूचित जन जाति)	02.08.2006
29.	श्री पी. के. प्रसाद (अनुसूचित जन जाति)	31.10.2006
30.	श्री महेन्द्र सिंह (अनुसूचित जाति)	24.08.2006
31.	श्री वेद प्रकाश (अनुसूचित जाति)	31.07.2006
32.	श्री बलबीर सिंह (अनुसूचित जन जाति)	27.12.2006

एम. गोपाल राव  
मेजर जनरल  
भारत के महासर्वेक्षक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 जनवरी 2007

सं. 17/43/2004-स्मारक--प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डी. आर. गेहलोत, निदेशक (स्मारक) एतद्वारा निदेश देता हूँ कि "उत्तरार्द्ध उत्सव-जनवरी-2007" के अवसर पर सूर्य मंदिर, मौढेश में दिनांक 20 जनवरी से 22 जनवरी 2007 तक आगन्तुकों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डी. आर. गेहलोत  
निदेशक (स्मारक)

## स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2007

सं. ए.-38013/3/2006-प्रशासन-I--सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री बलबीर सिंह संधु, अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 31.1.2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

अशोक कुमार ढींगरा  
उप निदेशक प्रशासन (ए.के.डी.)

सं. ए.-38012/5/2006-प्रशासन-I--सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री हुकम चन्द, निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 31.1.2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

अशोक कुमार ढींगरा  
उप निदेशक प्रशासन (ए.के.डी.)

रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में उसी विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी  
अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2007

सं. 6(2391)/04/प्रशा./782--राष्ट्रपति, श्री आर. सी. जोशी, आईएएस (एम एच : 73), अपर सचिव को दिनांक 2 जनवरी 2007 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में सचिव की श्रेणी और वेतन पर विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी  
अवर सचिव

## भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 24 जनवरी 2007

संदर्भ : पीडी/11 (2)/2006-आर-III/07/911--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री वी. जे. रेड्डियार, सहायक लेखाकार को दिनांक 27.11.2006 (पूर्वाह्न) से 29.12.2006 (अपराह्न) तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

(श्रीमती) वी. टी. राजन  
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400001, दिनांक 6 फरवरी 2007

सं. पऊआ-1(1)07/335--राष्ट्रपति, वर्ष 2007 के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग (पऊआ) का निम्नानुसार पुनर्गठन करते हैं :--

1. डॉ. अनिल काकोडकर, --- अध्यक्ष (पदेन)  
सचिव, भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग
2. श्री पृथ्वीराज चव्हाण, --- सदस्य  
राज्य मंत्री,  
प्रधानमंत्री कार्यालय
3. श्री एम. के. नारायणन, --- सदस्य  
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
4. श्री टी. के. ए. नायर, --- सदस्य  
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
5. श्री बी. के. चतुर्वेदी, --- सदस्य  
मंत्रिमंडल सचिव
6. श्री ए. के. झा, --- सदस्य (वित्त)  
वित्त सचिव और सचिव,  
आर्थिक कार्य विभाग
7. प्रो. सी. एन. आर. राव, --- सदस्य  
मानद अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू,  
प्रगत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र,  
बंगलौर
8. डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन, --- सदस्य  
पूर्व अध्यक्ष, पाऊआ
9. प्रो. पी. रामाराव, --- सदस्य  
इसरो डॉ. ब्रह्म प्रकाश प्रतिष्ठित प्रोफेसर
10. डॉ. एस. बनर्जी --- सदस्य  
निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र,  
मुंबई

## परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 15 जनवरी 2007

सं. 3/12/2006-प्रशा./76--राष्ट्रपति, श्रीमती उमा चंदोलिया, सहायक जन संपर्क अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-), परमाणु ऊर्जा विभाग, शाखा सचिवालय, नई दिल्ली, को दिनांक 27 दिसम्बर 2006 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में उसी विभाग में जन संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी  
अवर सचिव

सं. 6(2328)/2001-प्रशा./77--राष्ट्रपति, श्री हरिहरन पी. अय्यर, सहायक जन संपर्क अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-), परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई, को दिनांक 27 दिसम्बर 2006 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में उसी विभाग में जन संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी  
अवर सचिव

दिनांक 16 जनवरी 2007

सं. 6(2345)/2002-प्रशा./85--राष्ट्रपति, श्री डी. सुरेन्द्रन, अवर सचिव (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-), परमाणु ऊर्जा विभाग को दिनांक 20 दिसम्बर 2006 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा भावी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो

के. मुरलीधर  
सचिव  
परमाणु ऊर्जा आयोग



## राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. राराकेट/प्रशा./भ-904/79--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री प्रवीण शर्मा को दिनांक 2 जनवरी 2007 की पूर्वाह्न से राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में जन संपर्क अधिकारी के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में मूल रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 25 जनवरी 2007

संदर्भ : भापाबो/भर्ती/1(53)/2007--राष्ट्रपति, श्री संदीप मोहन वाघमारे को दिनांक जनवरी 10, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी (यंत्रीकरण) के पद पर भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), मुंबई में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

एन. जे. समयन  
प्रशासनिक अधिकारी

## इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 24 जनवरी 2007

सं. इगाप/ए-11013/2006-भर्ती/151--राष्ट्रपति महोदय, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने उल्लिखित तारीख से अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में प्रारंभिक वेतन 8,000/- रु. पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	प.प.सं./प्रभाग	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	6577/एफआरएफसीएफ	श्री सालोमोन नेसकुमार एस.	05.12.2006 (पूर्वाह्न)
2.	6578/एफआरएफसीएफ	श्री उन्नवर्मन एम.	05.12.2006 (पूर्वाह्न)
3.	6579/एफआरएफसीएफ	श्री वेंकटेश्वर जॉन हंटर डी.	05.12.2006 (पूर्वाह्न)
4.	6582/एफआरटीजी	सुश्री रेवती के.	15.12.2006 (पूर्वाह्न)
5.	6583/एफआरएफसीएफ	श्री अशोक एस.	22.12.2006 (पूर्वाह्न)

वी. दयालन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. ए-32013/3/2006-स्थापना-2--राष्ट्रपति महोदय, महानिदेशक, नागर विमानन कार्यालय के श्री ए. के. शरण, उप महानिदेशक, (तदर्थ आधार) को 16,400-450-20,000 रुपये के वेतनमान में दिनांक 25.01.2007 (पूर्वाह्न) से अगले 06 माह के लिए या जब तक यह पद नियमित रूप से भरा जाए, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर पुनः नियुक्त किया जाता है।

सुशील टी. विलियम्स  
उपनिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. ए-38012/7/2006-स्था. 2--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री पी. के. चट्टोपाध्याय, संयुक्त महानिदेशक, को दिनांक 31.01.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

सुशील टी. विलियम्स  
उपनिदेशक (प्रशासन)

## केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

निर्माण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 27/89/91-सीए(एनआर)/प्रशा./115/21--इस कार्यालय में कार्यरत श्रीमती इन्दर कौर कोचर, सहायक (वा. वि.) 31.01.2007 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर, सरकारी सेवा से निवृत्त हो रही हैं।

एस. एम. माथुर  
वास्तुक/संपर्क अधिकारी  
मु.वा. (उ.क्षे.)

## कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स इम्पीरियल पिगमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560 (3)/एस.ई.एस./2006/05/30437/8231--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स इम्पीरियल पिगमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स त्रिशूल इम्पेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560 (5)/एस.ई.एस./2003/55/10652/8912--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स त्रिशूल इम्पेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी

विधित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स केसो इंजीनियरिंग  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560 (5)/एस.ई.एस./2003/05/32443/8996--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केसो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सुन्दरम लीज़फिनकेप  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5)/एस.ई.एस./2003/55/69392/13255--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुन्दरम लीज़फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स डाई सोल्यूशंस  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560 (3)/एस.ई.एस./2005/55/105444/17276--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डाई सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स श्री एसस सर्विसेज़  
लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560 (3)/एस.ई.एस./2005/55/92410/17278--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स श्री एसस सर्विसेज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एक्सक्यूसिट बिल्डर्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560 (5)/एस.ई.एस./2003/55/30620/19484--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सक्यूसिट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स अरोहन विनायल्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560 (3)/एस.ई.एस./2005/55/65268/21734--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अरोहन विनायल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. कम्पनी रजि./दिल्ली एवं हरियाणा/560/सरलीकृत निर्गम योजना/2005--एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत सरलीकृत निर्गम योजना 2005 के अनुपालन में, अधोलिखित कम्पनियों के नाम, क्रम सं. 1 से 3005 तक, कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और ये कम्पनियां विधित हो गई हैं :--

क्रम	कम्पनी स.	कम्पनी का नाम
1	U51909DL1949PTC001578	पी डी गुप्ता(१९३९)प्राइवेट लिमिटेड
2	U99999DL1949PTC001618	बेटर ठीटर्ज प्राइवेट लिमिटेड
3	U45201DL1950PTC001865	महावीर कंस्ट्रक्शन को प्राइवेट लिमिटेड
4	U45201DL1952PTC002138	माल्हा एन्टरप्राइसीस प्राइवेट. लिमिटेड.
5	U99999DL1956PTC002613	दिल्ली स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	U99999DL1956PTC002641	एस मोहन सिंह अरोड़ा एण्ड को प्राइवेट लिमिटेड
7	U99999DL1956PTC002685	शाहजी एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U24231DL1957PLC002786	डू जय सिंह सन एण्ड को लिमिटेड
9	U51109DL1957PTC002807	शारको इन्डस्ट्रिस प्राइवेट लिमिटेड
10	U74140DL1960PTC003315	किन्समान प्राइवेट लिमिटेड
11	U22121DL1964PTC004142	पूरवोदय प्राइवेट.लिमिटेड.
12	U35923DL1964PTC004303	साहनी मालवीय ऑटोमोबाइल इन्डस्ट्रिस प्राइवेट लिमिटेड
13	U51909DL1909PTC004341	ईदिस्खेन कैमिकल्स मॅनुफ्रेक्चरिंग को.प्राइवेट.लिमिटेड.
14	U74899DL1965PTC004404	हेमकुंठ फ़िनान्सिएज़ एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U99999DL1968PTC004824	डूण सेल्स लिमिटेड
16	U99999DL1969PTC005034	डायमन्ड कोटेड पेपर्स लिमिटेड
17	UXXXXDL1969PTC005044	न्यू फ़ेड एण्ड को प्राइवेट लिमिटेड
18	U74899DL1969PTC005098	चाणक्य सर्विस स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
19	U22219DL1970PTC005206	ट्रेड पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U74140DL1970PTC005380	एक्सपोर्ट मार्केटिंग एण्ड मॅनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
21	U29260DL1901PLC005729	संसार मशीन्स लिमिटेड.
22	U24119DL1971PTC005757	दून सीन्टेटिक्स एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U34300DL1971PTC005789	पेर्मा बॉन्ड प्राइवेट लिमिटेड
24	U55101DL1971PTC005820	अप्सरा होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U26956DL1971PTC005835	कंस्ट्रक्शन मटेरिअल्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U74999DL1971PTC005864	इड्को डायस एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U31300DL1971PTC005880	ज्योति केबल एण्ड कंडक्टर्स प्राइवेट.लिमिटेड.
28	U24221DL1971PTC005922	हरियाणा पोतेरिस लिमिटेड
29	U74899DL1971PTC005923	नील टैक्सटाईल एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
30	U99999DL1972PTC005998	कविसा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U24299DL1972PTC006006	हरियाणा लेबोरेटरिस प्राइवेट लिमिटेड
32	U31300DL1972PLC006171	अंगड कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U99999DL1972PTC006214	टाइगर लोकस लिमिटेड
34	U65993DL1972PLC006223	वेन्केट्स इन्वेस्ट्मेंट्स लिमिटेड
35	U22212DL1972PTC006231	प्रेस एशिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
36	U74899DL1972PTC006256	किरण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

37	U74899DL1972PTC006259	ओमेगा स्वीच गीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
38	U74899DL1972PTC006393	ओम प्रकाश एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
39	U51420DL1972PTC006412	फेर्रो स्टील प्राईवेट लिमिटेड
40	U70109DL1973PTC006531	हितकारी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड.
41	U27107DL1973PTC006690	शीथार्थ स्टील प्राईवेट लिमिटेड
42	U34300DL1973PTC006748	रावल इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
43	U63090DL1973PTC006790	डॉली ट्रान्स्पोर्टर एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड.
44	U51909DL1973PTC006802	जनरल रेफ्राक्टोरीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
45	U29197DL1973PTC006808	हरियाणा फिल्टर मैन्युफैक्चररज प्राईवेट लिमिटेड
46	U21012DL1973PLC006853	राजकमल पेपर मील्स लिमिटेड
47	U74140DL1973PTC006945	इन्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल इन्फार्मेशन (ओवरसीज) प्राईवेट लिमिटेड
48	U74899DL1973PTC006978	ह्योईड्स(इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
49	U18101HR1973PTC006999	सेठ सूरजमल कॉटन गिन्निंग मील्स प्राईवेट लिमिटेड
50	U74899DL1974PTC007100	अमार्पअली सजावट प्राईवेट लिमिटेड
51	U74140DL1974PTC007106	इंटर सीज मैनेजमेंट सर्वीसीज प्राईवेट लिमिटेड
52	U99999DL1974PTC007128	मीना इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
53	U74899DL1974PLC007159	डंकन गिलबर्ग एण्ड मठेसन इंडिया लिमिटेड
54	U65992DL1974PTC007204	प्रेस्तिज फायनान्स एण्ड चित फुन्ड को प्राईवेट लिमिटेड
55	U27101DL1974PTC007329	सुपर अल्लोय्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
56	U18101DL1974PTC007331	सोनू गार्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
57	U65993DL1974PLC007366	वीर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
58	U99999DL1974PTC007390	राजगढ़िया कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
59	U17299DL1974PLC007413	शर्मा क्लोदिअस प्राईवेट लिमिटेड
60	U74899DL1975PTC007587	मानसमनु इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
61	U51909DL1975PTC007632	जनरल ओवरसीज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
62	U74899DL1975PTC007666	शशांक कन्फेक्शनर्स प्राईवेट लिमिटेड
63	U99999DL1975PTC007713	नोर्ह इंडिया मार्केटिंग को प्राईवेट लिमिटेड
64	U24299DL1975PTC007991	अजय डाय केम इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
65	U99999DL1975PTC008020	ए एस रिहाल एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
66	U01409DL1976PTC008178	बिसविन सादी पुब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
67	U24222DL1976PTC008188	सुगन चांद मुरारीलाल प्राईवेट लिमिटेड
68	U34300DL1976PTC008208	मेकस्टर टूल्स मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
69	U74899DL1976PTC008217	दी एक्सपोर्ट्स एण्ड फ्रिघ्ट प्राईवेट लीमीटीड
70	U74899DL1976PTC008266	दिल्ली रोकवूल को प्राईवेट लिमिटेड
71	U25199DL1976PLC008396	चौद्री अस्सोसिएट्स (पी) लिमिटेड
72	U24119DL1976PTC008449	सोना फाईनकेम प्राईवेट लिमिटेड
73	U51909DL1977PTC008506	लीनकज इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
74	U24239DL1977PTC008761	लिब्रो फार्मसेउ टिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

75	U24222DL1977PTC008765	विलसन कैमिकल्स एण्ड पैटर्स(दिल्ली) प्राईवेट लिमिटेड
76	U99999DL1977PTC008771	खन्ना अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
77	U34140DL1978PLC008846	बन्नु क्रोम लिमिटेड
78	U74999DL1978PTC008849	सारिका मोवीस प्राईवेट लिमिटेड
79	U74899DL1978PTC008882	इंटरलाईन्स कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
80	U18101DL1978PTC008960	जी एस आई एक्सपोर्ट्स उंटर्प्राइजेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
81	U99999DL1978PTC008979	विशाल एक्सपोर्ट्स रीमार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
82	U74899DL1978PTC009013	ईस्टर्न एक्सपोर्ट सर्विस (इंडिया) रिवाटे लिमिटेड
83	U24222DL1978PTC009022	देकोरा पिग्मेंट्स एण्ड पैटर्स प्राईवेट लिमिटेड
84	U24299DL1978PTC009111	ब्रिटे डायस एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
85	U61100DL1978PTC009152	गोल्डन हिंद शिपिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
86	U51109DL1978PTC009226	सुपर इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
87	U99999DL1978PTC009253	युनिवरसल लीनकज एण्ड ब्राकेस प्राईवेट लिमिटेड
88	U74899DL1983PTC009291	बजाज टेप मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
89	U74300DL1978PTC009360	गुप्ता पॅकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
90	U74899DL1978PTC009371	लीमसन ड्रिन्क्स प्राईवेट लिमिटेड
91	U51909HR1979PTC009456	अम्बाल ऑटो सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
92	U15137DL1979PTC009462	हिमाचल प्रेसवैड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
93	U99999DL1979PTC009464	हापूरिआ पेपर मील्स प्राईवेट लिमिटेड
94	U74899DL1979PTC009490	अशोक ज़िप फ़ास्टनर्ज प्राईवेट लिमिटेड
95	U51909DL1979PTC009519	वीनस मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
96	U67120DL1979PTC009528	श्री मंगलम फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
97	U14101HR1979PTC009565	आदर्श अंग्रेजी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
98	U99999DL1979PTC009577	राजीव प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
99	U99999DL1979PTC009662	आनंद अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
100	U21012DL1979PTC009686	बजाज पेपर मील्स प्राईवेट लिमिटेड
101	U51311DL1979PTC009710	रबको एक्सपोर्ट्स(इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
102	U99999DL1979PTC009712	डायमन्ड लिथोग्राफी प्राईवेट लिमिटेड
103	U74992DL1979PTC009803	पंजाब रुपी-रोलींग प्राईवेट लिमिटेड
104	U99999DL1979PTC009847	राज स्वीन्दर्ज एण्ड कोन्तायनर्ज प्राईवेट लिमिटेड
105	U74999DL1979PTC009860	बलजीत कृष्ण प्राईवेट लिमिटेड
106	U25199DL1979PTC009883	मॉडर्न टायर मोल्ड्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
107	U67120DL1979PTC009884	दीपक होल्दीस प्राईवेट लिमिटेड
108	U24239DL1979PTC010025	नेक्टारीन फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड
109	U31909DL1979PLC010050	ए.ए.एक्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
110	U51909DL1979PTC010093	इंटरकॉन्टिनेन्टल मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
111	U51109DL1980PTC010105	टी एस जी कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
112	U74899DL1980PTC010132	बी एम खन्ना अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड

113	U15321DL1980PTC010235	सोल्वलीच(इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
114	U74899DL1980PTC010326	गैलक्सी मारीट्राॅनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
115	U65992DL1980PTC010360	गौरी फायनान्स एण्ड चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
116	U28939DL1980PLC010404	युनिवरसल र्हाइन नडेल लिमिटेड
117	U74899DL1980PTC010405	अरूण प्रीसिशन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
118	U25119DL1980PTC010408	कलकत्ता रब्वर फ्रॅक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
119	U15419DL1980PTC010554	समर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
120	U65992DL1980PTC010588	स्तुटी चित एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
121	U22219DL1980PTC010637	इन्वोवेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
122	U92330DL1980PTC010665	बंधवगड़ विल्ड लाईफ़ कॅप एण्ड सफ़ारी प्राईवेट लिमिटेड
123	U99999DL1980PTC010696	ए बी एलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
124	U65992DL1980PTC010703	श्री राम चित एण्ड फायनान्स को प्राईवेट लिमिटेड
125	U99999DL1980PTC010740	सोमानी प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज़ लिमिटेड
126	U24232DL1980PTC010742	अरोड़ा फार्मा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
127	U65992DL1980PTC010852	अशू चित फुन्ड एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
128	U24248DL1980PTC010961	वोकस्पोर्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
129	U29191DL1980PTC010985	रसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
130	U92113DL1980PTC010991	ग्रेपेविन मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
131	U67120DL1980PTC011084	सकू फ़िनान्सिएज़ प्राईवेट लिमिटेड
132	U74899DL1980PTC011109	अंगड ट्रेडिंग एण्ड अर्जुन शिपिंग को प्राईवेट लिमिटेड
133	U99999DL1981PTC011248	भवानी फायनान्स को प्राईवेट लिमिटेड
134	U74899DL1981PTC011275	अंजना एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
135	U74899DL1981PTC011402	कन चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
136	U19129DL1981PTC011411	जयपरुल्स प्राईवेट लिमिटेड
137	U99999DL1981PTC011507	अग्रवाल ओईल ट्रेडिं प्राईवेट लिमिटेड
138	U99999DL1981PTC011538	कूलमेर पेपज़ लिमिटेड
139	U74899DL1981PTC011584	विन्लेब इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
140	U99999DL1981PTC011629	पालिका चित फुन्ड एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
141	U74210DL1981PTC011658	सचदेव सन एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
142	U74899DL1981PTC011682	इंटेग्रेटेड देविसीज़ प्राईवेट ल्मीटेड
143	U74899DL1981PTC011689	कैकी बिसनेस मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
144	U99999DL1981PTC011814	प्लक मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
145	U25209DL1981PTC011848	दुआ पॉलीमर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
146	U99999DL1981PTC012103	पंथ चित फुन्ड एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
147	U74899DL1981PTC012240	जेठानी चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
148	U19129DL1981PTC012263	स्टार लेंडरवैर प्राईवेट लिमिटेड
149	U65902DL1981PTC012343	रूबी चित फुन्ड एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड.
150	U99999DL1981PTC012344	मल्मेक पेपर बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड

151	U27204DL1981PTC012352	नर्बदा इन्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
152	U99999DL1981PTC012396	एन के एम इन्डस्ट्रिज फ्रैक्चर प्राईवेट लिमिटेड
153	U99999DL1981PTC012403	अलाईड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
154	U39109HR1981PTC012509	मारी गोल्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
155	U99999DL1981PTC012795	ए बी सी मेटल इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
156	U31909DL1981PTC012860	केपी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
157	U26941DL1981PTC012902	लॉर्ड कृष्ण सिमेंट इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
158	U65992DL1982PTC012944	श्री अगरसन चित एण्ड फायनान्स को प्राईवेट लिमिटेड
159	U26103DL1982PTC012993	स्वदेशी बोतलींग को प्राईवेट लिमिटेड
160	U74899DL1982PTC013008	मल्टी बील्डिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन को प्राईवेट लिमिटेड
161	U99999DL1982PTC013022	मधु चावला प्राईवेट लिमिटेड
162	U74899DL1982PTC013092	नारायण इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
163	U74899DL1982PTC013103	सिटी ट्रेडिंग एण्ड लीसिंग को प्राईवेट लिमिटेड
164	U45203DL1982PTC013294	रुची इस्टेट एण्ड बील्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
165	U74899DL1982PTC013304	कोयो फायनान्स एण्ड चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
166	U70101DL1982PTC013416	बेदी चहल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
167	U74140DL1982PTC013417	मशल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
168	U74899DL1982PTC013442	ओवरसीज इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
169	U99999DL1982PTC013617	प्रकाश एन्जीनियरींग प्राईवेट लिमिटेड
170	U25110DL1982PTC013633	मॉडर्न वलकन एण्ड अलाईड इन्फ्रैक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
171	U21099DL1982PLC013670	मुकुल एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
172	U74899DL1982PTC013697	प्रकाश प्रेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
173	U92111DL1982PTC013822	थर्द डिमेन्शन प्राईवेट लिमिटेड
174	U65992DL1982PTC013846	नामरेता चिटफुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
175	U99999DL1982PTC013876	सर्ज मेटल प्राईवेट लिमिटेड
176	U74899DL1982PLC013934	श्रम ऑफिसर्स वेलफेयर फ्रॉन्डेशन लिमिटेड
177	U99999DL1982PTC013949	मॉडर्न तुबे एण्ड फ्लप मैन्युफैक्चरिंग को प्राईवेट लिमिटेड
178	U27109DL1982PTC013955	मनोज स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
179	U29129DL1982PTC013960	वस इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड.
180	U29302DL1982PTC014002	शक्ती चिराग प्राईवेट लिमिटेड
181	U65992DL1982PTC014010	अवील चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
182	U74899DL1982PTC014037	पूनम प्रोडक्ट प्रमोशन एण्ड कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
183	U99999DL1982PTC014108	पारस रुब केम प्राईवेट लिमिटेड
184	U74899DL1982PTC014154	ओंकार अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
185	U55101DL1982PTC014170	कम्फर्ट ग्रुप ऑफ होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
186	U74999DL1982PLC014284	पंकज पारूल लिमिटेड
187	U51496DL1982PTC014349	नारायण केम डिस्ट्रिब्यूटर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
188	U74899DL1982PTC014385	दिल्ली स्ट्रॉंग पैंक प्राईवेट लिमिटेड

189	U51102DL1982PTC014443	जी के ओरिएण्टल क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
190	U99999DL1982PTC014457	प्रोपकारी चित फुन्ड को. प्राइवेट लिमिटेड
191	U99999DL1982PTC014465	रुम्बळे रावेल्स प्राइवेट लिमिटेड
192	U51392DL1982PTC014467	सोफीस्टिकेटेड सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
193	U24231DL1982PTC014489	प्रोग्रेसीव फर्मसॉटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
194	U74899DL1982PTC014582	पारस फ्राईबर्ग प्राइवेट लिमिटेड
195	U74899DL1982PTC014739	विंग्स ट्रेवल एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड
196	U34106DL1982PTC014752	ए.जी. ऑटो मैन्युफैक्चररज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
197	U51909DL1982PTC014843	एस एण्ड जी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
198	U51311DL1982PTC014907	साइबा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.
199	U99999DL1982PTC014916	जावद इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
200	U99999DL1983PTC014955	अखिल एजेंट्स एण्ड ट्रेडर्स लिमिटेड
201	U99999DL1983PTC015034	खुल्लर एण्ड अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
202	U99999DL1983PTC015090	इंटेलेक टेक प्राइवेट लिमिटेड
203	U99999DL1983PTC015094	सुमन लेंडरक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
204	U74140DL1983PTC015119	मन्शीघल अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
205	U99999DL1983PTC015124	एंपेक्स फ्लेक्सिबल्स प्राइवेट लिमिटेड
206	U99999DL1983PTC015126	प्रगति एंडवान्स हेल्थिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
207	U65992DL1983PTC015214	धानय फायनान्स एण्ड चित फुन्ड प्राइवेट लिमिटेड
208	U74899DL1983PTC015231	सिंह स्मिग्स प्राइवेट लिमिटेड
209	U74899DL1983PTC015283	सुपर होलडिंग प्राइवेट लिमिटेड
210	U74300DL1983PTC015325	शिखा अंडवर्तायजिंग प्राइवेट लिमिटेड
211	U65992DL1983PTC015345	एकदाश चित फुन्ड एण्ड फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड
212	U74899DL1983PTC015399	कॉन्टिनेन्टल जेनराटर्स प्राइवेट लिमिटेड
213	U99999DL1983PTC015440	चुग चित फुन्ड प्राइवेट लिमिटेड
214	U31200DL1983PTC015465	अरूण फेन्स प्राइवेट लिमिटेड
215	U65992DL1983PTC015467	एंपेक्स चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
216	U33111DL1983PTC015483	मॉडर्न मॉडकलकेअर प्राइवेट. ट्.ड.
217	U55101DL1983PTC015556	सुपिरयर होटेल एण्ड प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
218	U65992DL1983PTC015611	विशाल चित फुन्ड प्राइवेट लिमिटेड
219	U99999DL1983PTC015630	हरियाणा लामाणीलीस प्राइवेट लिमिटेड
220	U31909DL1983PTC015675	एको इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
221	U65992DL1983PTC015701	सुटअबले फायनान्स एण्ड चित फुन्ड प्राइवेट लिमिटेड
222	U99999DL1983PTC015730	लायन बील्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
223	U99999DL1983PTC015737	अजय प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
224	U99999DL1983PTC015745	परवार एन्जीन्यरींग प्राइवेट लिमिटेड
225	U32109DL1983PTC015749	आर्तित्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
226	U74992DL1983PTC015811	कृष्ण पॅकेजींग इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड



227	U24299DL1983PTC015829	मूरठल कैमिकल्स एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
228	U65993DL1983PLC015850	वेल्डिंक इन्वेस्टमेंट एण्ड लीसिंग कम्पनी लिमिटेड.
229	U51109DL1983PTC015970	कोणार्क सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
230	U99999DL1983PTC016063	दयाल मेटल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
231	U74899DL2004PTC016082	कार्गो मोटर्स क्राजस्थान प्राईवेट लिमिटेड
232	U99999DL1983PTC016137	श्रुति लीसिंग को लिमिटेड
233	U19129DL1983PTC016292	तनु लीठर्ज प्राईवेट लिमिटेड
234	U74899DL1983PTC016314	सूम्पा फायनान्सियल रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
235	U99999DL1983PTC016333	मानसरोवर चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
236	U74940DL1983PTC016362	मेट्रोपोलीतन फोटोटाईप सेटर्ज एण्ड प्रिंटर प्राईवेट लिमिटेड
237	U99999DL1983PTC016383	डिम्पल इन्डस्ट्रिअल कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
238	U29299DL1983PLC016386	अनुभव इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
239	U99999DL1983PTC016390	कम्बाइन इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
240	U65992DL1983PLC016473	चौग चिट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
241	U99999DL1983PTC016493	डिअर चित एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
242	U99999DL1983PTC016725	कम्प्यूटील फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
243	U99999DL1983PTC016758	पारिख एण्ड रेलन ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
244	U34300DL1983PTC016798	वी. ऑटोवेल्ड प्राईवेट लिमिटेड
245	U99999DL1983PTC016877	अनसन ट्रेड एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
246	U74899DL1983PTC016933	विप्रर कॉन्टिनेन्टल प्राईवेट लिमिटेड
247	U74899DL1983PTC016949	वैल्डन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
248	U26105DL1983PTC016973	जतिन अभिजीत एण्ड आसोशीट्स प्राईवेट लिमिटेड
249	U65992DL1983PTC017073	जूलियट चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
250	U74910DL1983PTC017112	म्बा रेसोसीज़ मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
251	U92111DL1983PTC017148	युनाईटेड आर्टिस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
252	U99999DL1983PTC017156	एकोन्टेर्म सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
253	U18101DL1983PTC017184	कांता इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
254	U87120DL1983PTC017233	अतिथी फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड.
255	U99999DL1984PTC017325	मल्टीटेक कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
256	U99999DL1984PTC017326	टेक्नोक्राट कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
257	U51909DL1984PTC017439	यश पॉल गुप्ता ट्रेडर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
258	U65993DL1984PLC017575	राजगढ़िया लीसिंग एण्ड फायनान्स कम्पनी लिमिटेड
259	U99999DL1984PTC017592	चिब्वर कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
260	U65992DL1984PTC017622	कटारिया फायनान्स एण्ड चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
261	U51909DL1984PTC017841	पाल्कोस इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
262	U74940DL1984PTC017747	रेनबो कलर फोटोस प्राईवेट लिमिटेड
263	U99999DL1984PTC017748	पी के कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
284	U65992DL1984PTC017749	भगीरथ प्लेस चिट्स प्राईवेट लिमिटेड

265	U51909DL1984PTC017775	विर्गो ट्रेडिंग को प्राईवेट लिमिटेड
266	U99999DL1984PTC017829	अलंकार ट्रेडिंग को प्राईवेट लिमिटेड
267	U99999DL1984PTC018076	हितैशी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
268	U18101DL1984PTC018110	अन बी (मार्केटिंग) प्राईवेट लिमिटेड.
269	U99999DL1984PTC018122	प्रोजेक्सिब मैनेजमेन्ट सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
270	U65921DL1984PTC018239	आस्ट्रोइड्स कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड.
271	U99999DL1984PTC018289	ओम माब्ल्स लिमिटेड
272	U65992DL1984PTC018324	पासिफिक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
273	U65910DL1984PTC018378	ओम्निवा लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
274	U63090DL1984PTC018413	मांडवी क्लीअरिंग एजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
275	U99999DL1984PTC018549	योक अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
276	U65992DL1984PTC018575	सब नगर चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
277	U65923DL1984PTC018642	अर्डरा इन्वेस्टमेंट को प्राईवेट लिमिटेड
278	U74899DL1984PTC018663	संजय हार्डवेयर मील स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
279	U74899DL1984PTC018665	ओम शांती चित फुन्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
280	U99999DL1984PTC018708	स्पांगले विनियोग लिमिटेड
281	U65929DL1984PTC018709	गगनदीप ट्रेडिंग एण्ड फायनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड.
282	U22219DL1984PTC018755	मूलटिकोम अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
283	U99999DL1984PTC018791	एस.मोहन चित फुन्ड को प्राईवेट लिमिटेड
284	U51909DL1984PLC018849	पीक एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
285	U99999DL1984PTC018898	गुलमार्ग इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
286	U29299DL1984PTC018935	घज़ियाबाद सिलिकट्स प्राईवेट लिमिटेड.
287	U21099DL1984PTC018965	जेम्स कर्टन्स एण्ड पेंकेजींग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
288	U74899DL1984PTC018969	ओ पी एम एस इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
289	U99999DL1984PTC018975	चौकसन्स चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड.
290	U99999DL1984PTC019047	इन्डो होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
291	U33119DL1984PTC019061	टेक्नोमेड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
292	U70101DL1984PTC019079	कोठारी सिने आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
293	U74899DL1984PTC019108	रामपुर मेंटल दी कास्ट प्राईवेट लिमिटेड
294	U99999DL1984PTC019125	रघुमान कोशटिकत्र प्राईवेट लिमिटेड
295	U99999DL1984PTC019126	पक्स्मा कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
296	U72200DL1901PTC019132	कारावन बिसनेस मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड.
297	U74899DL1984PTC019210	अतिथी चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
298	U74899HR1984PTC019245	अर्जता प्रिटींग मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
299	U99999DL1984PTC019377	गौरी शंकर चित फुन्ड को प्राईवेट लिमिटेड
300	U99999DL1901PTC019395	इंडियन एन्जीन्यरींग एण्ड कर्माशिल कॉर्पोरेशन. प्राईवेट लिमिटेड
301	U99999DL1984PTC019529	आरेम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
302	U31909DL1984PTC019537	स्पेक्ट्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

303	U74899DL1984PTC019560	आंध्र बंगाल रोडलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
304	U99999DL1901PTC019737	स्पेक्स स्मेलिंग एण्ड रेफ्रिनिंग को. प्राईवेट. लिमिटेड.
305	U74899DL1985PTC019790	पिक्सोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
306	U99999DL1985PTC019820	रुही कॅमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
307	U99999DL1985PTC019856	पॉलीकेम रुबबर प्राईवेट लिमिटेड
308	U99999DL1985PTC019867	तरून इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
309	U32106DL1985PTC019891	के.सी.एस. इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
310	U99999DL1985PTC019900	लखनऊ पेपर एण्ड अलाईड को.प्राईवेट.लिमिटेड.
311	U70101DL1985PTC019950	अडलखा इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
312	U65999DL1985PTC019956	वेद कपूर फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
313	U24131DL1985PTC020038	ओशन प्लाईवुड इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
314	U52110DL1985PLC020048	एशियन ओवरसीज एण्ड सिक्युरिटीज लिमिटेड
315	U31101DL1985PLC020098	एगॉडिन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
316	U65992DL1985PTC020170	यूर चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड.
317	U74899DL1985PTC020171	के.पी.कपूर इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
318	U74899DL1985PTC020307	जेम टूल रूम प्राईवेट लिमिटेड
319	U74899DL1985PTC020321	नू लूक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
320	U29299DL1985PTC020334	ईरोड गागे इंडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
321	U99999DL1985PTC020380	लखोटिया इन्वेस्टमेंट एण्ड कन्सलतन्ट्स लिमिटेड
322	U27109DL1985PLC020382	काशीपुरा स्टील्स लिमिटेड
323	U99999DL1985PTC020516	प्राग मोटर एण्ड जनरल फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
324	U21012DL1985PTC020536	माकोबा ट्रेडिंग को.प्राईवेट लिमिटेड
325	U34300HR1985PLC020590	के.एन.के.कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
326	U99999DL1987PTC020590	क्वक कूर्पोनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
327	U30009DL1985PTC020608	मोडुलस मैनेजमेंट सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
328	U65992DL1985PTC020633	इसर टक्कर चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
329	U74899DL1985PTC020708	सुधा पेंकेजींग प्राईवेट लिमिटेड
330	U85110DL1985PTC020798	सामा नरसिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
331	U99999DL1985PTC020808	अगरवाल डिस्ट्रिब्यूटिंग को.लिमिटेड
332	U99999DL1985PTC020880	टोपन रेसोसीज प्राईवेट लिमिटेड
333	U51909DL1985PTC020883	रोमा टेक प्राईवेट लिमिटेड
334	U74899DL1985PTC020904	शुभम पेंकस्ट्रैप (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
335	U29199DL1985PTC020915	इम्प्लेक मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
336	U99999DL1985PTC020924	होम गैजेट्स प्राईवेट लिमिटेड
337	U74899DL1985PTC021115	बेरी चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
338	U18101DL1985PTC021162	कुमार अपरेट अक्ससरीस को. प्राईवेट लिमिटेड
339	U65992DL1985PTC021247	गन्धर्व चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
340	U51101DL1985PTC021250	लोर्ड गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड

341	U99999DL1985PTC021347	नोर्थलैंड इन्डस्ट्रिस लिमिटेड
342	U99999DL1985PTC021351	इन्डो जापान मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड
343	U74899DL1985PTC021368	परम शुभम चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
344	U51311DL1985PTC021458	मिड लीन्क्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
345	U29120DL1985PTC021473	के सी पंप एण्ड मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
346	U26922HR1985PTC021494	अनुराग ट्युब्स प्राईवेट लिमिटेड
347	U74899DL1983PTC021497	प्रणव अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
348	U99999DL1985PTC021510	दीपशिखा चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
349	U74899DL1985PTC021588	सत्य दीप वेल्डमेथ प्राईवेट लिमिटेड
350	U74210DL1985PTC021589	ए.आई.कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड.
351	U24203DL1985PTC021617	मुलतानी आयुर्वेदिक फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड
352	U29212DL1985PTC021746	अंक्युटे मेटल एण्ड एन्जीन्यरींग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
353	U99999DL1985PTC021789	के.के. सिमेंट प्राईवेट लिमिटेड
354	U74899DL1985PTC021825	हिन्नोनिक्स कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
355	U34101DL1985PLC021981	एगोडिन ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्सल्ड
356	U99999DL1985PTC022003	माच्छेस इंजीनियर्स लिमिटेड
357	U21014DL1985PTC022021	चित्रा प्लास्टिक इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड.
358	U99999DL1985PTC022040	त्यागी सिक्यूरिटी सर्विसीझ प्राईवेट लिमिटेड
359	U17115DL1985PTC022125	बालाजी पॉलीफैब प्राईवेट लिमिटेड
360	U99999DL1985PTC022249	सुमित बिल्डिंज प्राईवेट लिमिटेड
361	U99999DL1985PTC022250	अटलांटिक अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
362	U99999DL1985PTC022283	अफी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
363	U65910DL1985PTC022324	वर्षा लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड
364	U65993DL1985PTC022337	मेकस्टर इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
365	U31909DL1985PTC022558	गार्डनर डेन्वर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
366	U74899DL1986PTC022586	वटकॉप्स कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
367	U55101DL1985PTC022675	कमल लोचन होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
368	U24239DL1985PTC022735	मिटीस ही-टेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
369	U74899DL1985PTC022740	कॉस्मॉस तन्नेरिस प्राईवेट लिमिटेड
370	U65999DL1985PTC022776	सुर्य ग्रौठ फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
371	U74899DL1985PTC022889	पीटर (एस) मॅचेस प्राईवेट लिमिटेड
372	U99999DL1985PTC022896	गिरराज इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
373	U32100DL1986PTC022995	अस्तीर कम्युनिकेशन एण्ड सिक्यूरिटी सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
374	U99999DL1986PTC023025	अमृत पाल एण्ड सागू अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
375	U99999DL1986PTC023136	गिरराज इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
376	U74899DL1986PTC023158	राजशी पॉलीमार्ब एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
377	U99999DL1986PTC023167	शिवालिक एंक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
378	U74899DL1986PTC023189	मेहरा होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड

379	U45202DL1986PLC023219	मदान कंस्ट्रक्शन एण्ड फायनान्स लिमिटेड
380	U29150DL1986PTC023266	डेल्टा इन्वोप्टेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
381	U99999DL1986PTC023335	एच.एस. फायनान्सियल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
382	U65929DL1986PTC023423	सेन्चरी २१वाद्य फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
383	U45202DL1986PTC023427	अम्बुजा बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
384	U99999DL1986PTC023441	खन्ना इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
385	U99999DL1986PTC023484	स्वस होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड
386	U99999DL1986PTC023525	डेल्टा प्रोमोटर्ज़ एण्ड बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
387	U99999DL1986PTC023582	चावीछाया चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
388	U45203DL1986PTC023606	शीव शक्ती कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
389	U74210DL1986PTC023614	शफीना कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
390	U65992DL1986PTC023658	अंदलुस चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
391	U74899DL1986PTC023665	एस एस अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
392	U34101DL1986PLC023737	काफ़िला ऑटो उद्योग लिमिटेड
393	U30007DL1986PTC023743	कम् कम्प्यूटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
394	U21011DL1986PTC023769	साकेत निवास को प्राईवेट लिमिटेड
395	U65999DL1986PLC023780	सर्वप्रिय लीसिंग एण्ड इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड
396	U99999DL1986PTC023800	ली एक्सपोर्टिङ्ग प्राईवेट लिमिटेड.
397	U74899DL1986PTC023848	रॉकवेल प्रिन्टर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
398	U73200DL1986PTC023925	क्रांति डिज़ाईन एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड.
399	U17115DL1986PTC023998	वेलकम टैक्सटाईल इन्डस्ट्रियस प्राईवेट लिमिटेड.
400	U18101DL1986PTC024009	मैडन फॉर्म लीगेरिस प्राईवेट लिमिटेड.
401	U51909DL1986PTC024019	इंडियन एक्सप्रेसन्स प्राईवेट लिमिटेड.
402	U65992DL1986PTC024141	जी.के. चित फुन्ड पी.लिमिटेड.
403	U65992DL1986PTC024152	मोलेश्री चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड.
404	U29295DL1986PTC024269	टोरो स्टैपींग्स प्राईवेट लिमिटेड.
405	U99999DL1986PTC024275	गिरराज बील्डर्ज़ पी.लिमिटेड.
406	U65992DL1986PTC024286	राज पुरा चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड.
407	U99999DL1986PTC024331	कमल लोचन टिम्स प्राईवेट लिमिटेड.
408	U25191DL1986PTC024367	एन.बी.पॉली प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
409	U71230DL1986PTC024384	बलबीर लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड.
410	U63040DL1986PTC024484	अष्ट ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड.
411	U99999DL1986PTC024485	रोहन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड.
412	U45201DL1986PTC024532	फेलफर बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड.
413	U99999DL1986PTC024591	मान इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड.
414	U99999DL1986PTC024617	कर्म चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड.
415	U99999DL1986PTC024631	ओवरसीज़ स्टान्डार्ड्स डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड.
416	U74899DL1986PTC024637	सिफ़ फायनान्सियल प्राईवेट लिमिटेड

417	U74899DL1986PTC024655	निकोर्द ही-टेक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
418	U99999DL1986PTC024779	स्पेशियल फ्रास्टनर्ज प्राइवेट. लिमिटेड.
419	U15409DL1986PTC024866	सरना फ्रास्ट फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
420	U01111DL1986PLC024873	मरुधर फ्राम्स लिमिटेड.
421	U65921DL1986PTC024907	कोल्ड्स लीसिंग प्राइवेट.लिमिटेड.
422	U15319DL1986PLC024924	टोकस फूड्स एण्ड मरीन्स लिमिटेड.
423	U70101DL1986PTC025079	उफील कंस्ट्रक्शन बील्डर्ज प्राइवेट. लिमिटेड.
424	U31200DL1986PTC025112	मोंडयुलर सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
425	U51909DL1986PTC025180	महावीर रेफ्रिजरेशन प्राइवेट. लिमिटेड.
426	U00000DL1986PTC025240	अस्तीर इंटरमैडिका प्राइवेट लिमिटेड
427	U65910DL1986PLC025358	लक्ष्मी कमर्शियल होल्डींग्स लिमिटेड.
428	U70101DL1986PTC025360	बृज प्रोपर्टीस प्राइवेट. लिमिटेड.
429	U99999DL1986PTC025392	संतोष पॉलीमर्ज प्राइवेट. लिमिटेड.
430	U99999DL1986PTC025412	कमल लोचन मिनिना एण्ड सिमेंट इन्डस्ट्रिज प्राइवेट. लिमिटेड.
431	U60210DL1986PTC025484	मेवाड कैरिअर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
432	U45201DL1986PTC025532	इन्स्टीले कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
433	U32204DL1986PLC025564	फ्रैन्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
434	U74140DL1986PTC025623	आई.एम.जी. आर्किटेक्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
435	U74140DL1986PTC025634	नेटवर्क कन्सलतन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.
436	U99999DL1986PTC025637	कमल लोचन कोर्पोरेशन (भारत) लिमिटेड.
437	U74899DL1986PTC025673	अमृता एजन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
438	U99999DL1986PTC025733	पवन प्रोपर्टीस लिमिटेड
439	U65992DL1986PTC025846	सुखानंद चित फुन्ड प्राइवेट लिमिटेड.
440	U74992DL1986PTC025871	रालन फ़ोर्म्स प्राइवेट लिमिटेड.
441	U45201DL1986PTC025909	गणेश फ़ार्म प्राइवेट लिमिटेड.
442	U50300DL1986PTC025958	भल्ला एजन्सीस प्राइवेट लिमिटेड.
443	U34300DL1986PTC025959	भल्ला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड.
444	U74899DL1986PTC025997	गोलिचा कन्सलतन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
445	U32204DL1986PTC026053	क्लेमेस्सी एलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
446	U99999DL1986PTC026140	बी.के.रोलर फ़्लोर मील्स प्राइवेट लिमिटेड.
447	U65992DL1986PTC026194	बलबीर चित फुन्ड प्राइवेट लिमिटेड.
448	U51909DL1986PTC026215	एडक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड.
449	U74899DL1986PTC026226	नवप्रीत चित फुन्ड प्राइवेट लिमिटेड
450	U99999DL1986PTC026269	हरजस अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
451	U99999DL1986PTC026289	गोल्ड फ़ाब्स प्राइवेट. लिमिटेड.
452	U65993DL1986PTC026331	सारस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
453	U65910DL1986PTC026462	निर्मल लीसिंग एण्ड ग्रीट फुन्ड प्राइवेट. लिमिटेड.
454	U24239DL1986PTC026516	कृष्ण मार्क अस्सोसिएट्स प्राइवेट. लिमिटेड.

455	U74899DL1987PTC026605	पालम फायनान्स एण्ड लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड
456	L29199DL1987PLC026608	टेक्नो मशीन्स इंटरनेशनल लिमिटेड
457	U30007DL1987PTC026628	गैल्लिन सोफ्ट्वेयर प्राईवेट लिमिटेड
458	U74899DL1987PTC026637	सूर्य रबर्ज प्राईवेट लिमिटेड
459	U51311DL1987PTC026667	डी सी पी अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
460	U51109DL1987PTC026735	सोबर्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
461	U74899DL1987PTC026751	घटजी टूंस प्राईवेट लिमिटेड
462	U65992DL1987PTC026755	प्रातोश चिटफुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
463	U17114HR1987PLC026768	हरियाणा पॉलीटेक्स लिमिटेड
464	U99999DL1987PTC026823	एक्स्कुइसिट कोलेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
465	U99999DL1987PTC026834	वेल्लेक स्वीच गीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
466	U74899DL1987PTC026874	अतिथी लीसिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
467	U65992DL1987PTC026935	अॅक्शन चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
468	U65921DL1987PTC026955	चौमुखी फायनान्स एण्ड इन्वेस्ट्मेन्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
469	U51109DL1987PTC026998	रजनी मार्केटिंग एण्ड लीसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
470	U74140DL1987PTC027047	ग्रेट कॉन्ट्रैक्टर्स एण्ड सप्लायर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
471	U65992DL1987PTC027048	परिचय चित फुन्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
472	U74421DL1987PTC027151	हिमालय पिपे इन्डस्ट्रिज प्राईवेट. लिमिटेड.
473	U63031DL1987PTC027169	सुपर डिलक्स मोबर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
474	U99999DL1987PTC027194	कोर्नॉट लोकर्स लीसिंग प्राईवेट. ल्ड.
475	U65993DL1987PTC027315	शारदा फायनान्सियल कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
476	U65993DL1987PTC027317	दुर्गा ट्रेडर्स एण्ड होल्डींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
477	U65993DL1987PTC027343	रेलन फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
478	U74899DL1987PTC027372	भागचंदका होम अप्लिआन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
479	U17299DL1987PTC027379	गुंजन फ्रॅन्चिज एण्ड गार्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
480	U74995DL1987PTC027384	महेश्वरी लिआसन एण्ड इन्वेस्ट्मेन्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
481	U15143HR1987PTC027413	स्वस्तिक प्रोटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
482	U32303DL1987PTC027428	गोल्डटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
483	U99999DL1987PTC027496	बिगस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
484	U99999DL1987PTC027500	सिनियर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
485	U99999DL1987PTC027526	डेक्कन गाइड्स प्राईवेट लिमिटेड
486	U99999DL1987PTC027575	वी.वाय. चित फुन्ड प्राईवेट. लिमिटेड
487	U17219DL1987PTC027587	नवजोभान टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
488	U01409DL1987PTC027761	ग्रीनलैंड फ़ोरेस्त्री एण्ड फ़ार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
489	U74899DL1987PTC027897	केसेल चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
490	U92113DL1987PTC027915	इन्डो विडिओ फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
491	U99999DL1987PTC027921	इन्डो वीजन टेड्स प्राईवेट लिमिटेड
492	U27202DL1987PTC027937	क्राउन ट्युब्स प्राईवेट. लिमिटेड

493	U67120DL1987PTC027986	शिव ट्रेडर्स एण्ड होल्डींग्स प्राईवेट लिमिटेड
494	U74899DL1987PTC027991	समता चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
495	U16003DL1987PTC028025	हरि दर्शन टोबेकोस प्राईवेट लिमिटेड
496	U74899DL1987PTC028114	आधारशीला कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
497	U24231DL1987PTC028184	स्म्य फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
498	U74899DL1987PTC028186	सिद्धांत इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
499	U72200DL1987PTC028189	रियल टाईम इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
500	U74899DL1987PTC028246	दिवीके इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
501	U51109DL1987PTC028255	शिव दयाल जुगल किशोर प्राईवेट लिमिटेड
502	U21099DL1987PLC028261	स्डव स्पेशलिटी कॉर्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
503	U74899DL1987PTC028286	टूरन ओ मट अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
504	U28301HR1987PTC028301	टीकम चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
505	U65992DL1987PTC028301	टीकम चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
506	U99999DL1987PTC028309	जे.आर.बी. अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
507	U45201DL1987PTC028310	इंद्रप्रस्थ इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
508	U74140DL1987PTC028329	रिलीफ कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
509	U74899DL1987PTC028330	सुरेमा ट्रेडिंग को प्राईवेट लिमिटेड
510	U25209DL1987PTC028353	एस्कॉन पॉलीमर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
511	U29299DL1987PTC028375	रिलीफ इन्वोप्लेन्ट इनैड प्राईवेट लिमिटेड
512	U99999DL1987PTC028421	सेठी अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
513	U99999DL1987PTC028458	अंकिता कार्दियो इन्वासिव प्राईवेट लिमिटेड
514	U99999DL1987PTC028460	सोम टैक्सटाईल्स इंडस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
515	U36992DL1987PLC028470	एस.आर.एस. ज़िपज़ प्राईवेट लिमिटेड
516	U31200DL1987PTC028500	श्रक एलेक्ट्रामेकॉन प्राईवेट लिमिटेड
517	U29211DL1987PLC028528	गूड इर्थ इंटरनेशनल लिमिटेड
518	U61100DL1987PTC028548	रेमी शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
519	U65992DL1987PTC028587	रीधम चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
520	U74899DL1987PTC028626	एस मेकॉतिल्स प्राईवेट लिमिटेड
521	U99999DL1987PTC028674	श्रुति इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
522	U45201DL1987PTC028685	सेठी कम्पैर्यल्स प्राईवेट लिमिटेड
523	U52110DL1987PLC028686	इंद इम्पेक्स ओवरसीज़ लिमिटेड
524	U65992DL1987PTC028749	गारनेट चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
525	U74140DL1987PTC028757	फस्ट सिटी कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
526	U21022DL1987PTC028790	क्लस्स पेंक प्राईवेट लिमिटेड
527	U65992HR1987PTC028798	बड़खल चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
528	U19201DL1987PTC028809	बेस्ट बूत एण्ड शुस प्राईवेट लिमिटेड
529	U74899DL1987PTC028841	शिखा इंजीनियर प्राईवेट लिमिटेड
530	U22219DL1987PTC028859	फ़ोर्तुणे प्रीट कम्युनिकेशन सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड



531	U33112DL1987PTC028866	ईद कोयकी नीडल्स प्राईवेट लिमिटेड
532	U99999DL1987PTC028883	आलम कम्प्यूटर सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड
533	U45201DL1987PTC028940	आर्क सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड
534	U16009DL1987PTC029065	प्लेसंत ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
535	U23203DL1987PTC029090	सुपर शाइन स्टोव इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
536	U45201DL1987PTC029118	जी.एस.बील्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
537	U15134DL1987PTC029153	नोर्थलैंड फूट इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
538	U65910DL1987PLC029190	फिनकैप लीसिंग एण्ड होल्दींग्स लिमिटेड
539	U99999DL1987PTC029211	आधुनिक बील्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
540	U99999DL1987PTC029227	रोलैक्स एक्जॉडिशनर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
541	U63013DL1987PTC029254	बडं कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
542	U92111DL1987PTC029258	दिल्ली फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
543	U74899DL1987PTC029335	सन्को चित फ़ुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
544	U65922DL1987PTC029346	ओरिएन्ट हाऊज़िंग एण्ड देवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
545	U51909DL1987PTC029350	सामंत अप्लिआन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
546	U74899DL1987PTC029359	एल्की ऑटो फ़िनान्सिएज़ प्राईवेट लिमिटेड
547	U74994DL1987PTC029375	कासने इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
548	U24231DL1987PTC029421	विश्व कन्स्यूमर गूड्स प्राईवेट लिमिटेड
549	U74994DL1987PTC029449	आर.के. फ़ुर-कॉन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
550	U99999DL1987PTC029475	करीष्मा कन्सल्टंट प्राईवेट लिमिटेड
551	U74140DL1987PTC029508	ऐश्वर्या मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
552	U65993DL1987PTC029549	एम.बी.इम्पेक्स एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
553	U32109DL1987PTC029590	खेरा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
554	U45201DL1987PTC029659	ऊनिक्क अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
555	U45202HR1987PTC029712	राजहंस बील्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
556	U71290DL1987PTC029758	जी एम इ सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
557	U29803DL1987PLC029803	ऊशभ मेटल्स लिमिटेड
558	U74899DL1989PTC029830	ओवल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
559	U21029DL1987PTC029858	नीरज पेकागिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
560	U99999DL1987PTC029914	झूले लाल चित फ़ुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
561	U74899DL1987PTC029939	ओम ब्रेस प्राईवेट लिमिटेड
562	U28992DL1987PTC029992	ऊनी देविसीज प्राईवेट लिमिटेड
563	U74940DL1987PTC030031	देबोनेर फ़िल्म्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
564	U63090DL1987PTC030052	यू ए इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
565	U74899DL1987PTC030082	लॉर्ड बिटुमेन प्राईवेट लिमिटेड
566	U33301DL1987PTC030150	फोर सीसन्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
567	U74210DL1987PTC030160	टेलीमेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
568	U74899DL1987PTC030168	सुपर इंडिया टूथ एण्ड टूथल्स प्राईवेट लिमिटेड

569	U74899DL1988PTC030177	गेमराय डीझाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
570	U74210DL1988PTC030191	जी.जी. कॉन्ट्रैक्टर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
571	U55101HR1988PTC030230	भार्गव ब्रधर्ज प्राईवेट लिमिटेड
572	U99999DL1988PTC030249	एस आर कुइप्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
573	U51497HR1988PTC030287	जे.एस.एम.ऑग्रो मार्ट प्राईवेट लिमिटेड
574	U65992DL1988PTC030322	तलवार चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
575	U65992DL1988PTC030329	सीयर्स चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
576	U65992DL1988PTC030331	रुकू चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
577	U65992HR1988PTC030396	नमित चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
578	U65992HR1988PTC030407	प्रोफाइल चित फुन्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड.
579	U29297HR1988PTC030409	ओकीणिआ कुइप्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड.
580	U74899DL1988PTC030415	कैरी मोरे होईस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
581	U99999DL1988PTC030423	विवा विडिओ लिमिटेड
582	U24110HR1988PTC030437	इम्पीरियल पिग्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
583	U65992HR1989PTC030468	राली चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
584	U99999DL1988PTC030508	पारूल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
585	U15310HR1989PTC030509	वैभव रोलर फ़्लोर मील्स प्राईवेट लिमिटेड
586	U29297HR1989PTC030516	इंडियन वाकिन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड.
587	U15203DL1988PTC030538	एस.आर. फुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
588	U70101DL1988PTC030548	एम.के. इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
589	U99999DL1988PTC030558	ब्रिस्ट लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड
590	U65992HR1989PTC030580	कक्स एण्ड बेक्स चिट्स प्राईवेट लिमिटेड.
591	U65921HR1989PTC030581	भसीन हीरे परचेस प्राईवेट लिमिटेड.
592	U99999DL1988PTC030611	राज कशियोन्स प्राईवेट लिमिटेड
593	U70200HR1989PTC030618	वी.के. कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड.
594	U81909HR1989PLC030625	अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड.
595	U45203DL1988PTC030656	खड्से साह कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
596	U25201DL1988PTC030685	अब्सो पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
597	U36911DL1989PLC030687	आनंद ज्यूलर्ज लिमिटेड
598	U70101HR1989PTC030723	प्रकाश वीर उज्जवल प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड.
599	U65992HR1989PTC030739	रोश चिट्स प्राईवेट लिमिटेड.
600	U74899DL1988PTC030739	सनशाईन होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड
601	U21023DL1988PTC030744	ईद ब्रेवेट्स प्राईवेट लिमिटेड
602	U65992HR1989PTC030764	डेविस चिट्स प्राईवेट लिमिटेड.
603	U51909DL1988PTC030808	रिंकी मार्केटिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
604	U45201DL1988PTC030818	दुर्गा प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
605	U28992HR1990PTC030843	स्किपर पेंकेजींग प्राईवेट लिमिटेड
606	U74899DL1988PTC030850	मोडिया कन्सल्टन्सी ब्यूरो पी लिमिटेड

607	U65921HR1990PTC030864	ग्रिड फायनान्स एण्ड लीसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
608	U14295HR1990PTC030900	ठेम्पकोस्टिक इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
609	U70101DL1988PTC030953	जूही अस्सोसिएट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
610	U65992HR1990PTC031042	चैताली चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
611	U33115HR1990PTC031043	ओरसूर ड्रेसिंग्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
612	U74899DL1988PTC031074	मोतीनगर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
613	U65992DL1988PTC031076	मंगलम चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
614	U29306HR1990PTC031083	अल्ट्रा रेफ्रिजरेटर प्राईवेट. लिमिटेड.
615	U65992HR1990PTC031112	पविश चित फुन्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
616	U65992HR1990PTC031146	पिन चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
617	U99999DL1988PTC031146	सत्यम सिक्यूरिटी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
618	U65992HR1991PTC031154	सरला चिट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
619	U74899DL1988PTC031154	मेघा देविसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
620	U52392HR1991PTC031155	पासिफिक कम्प्यूटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
621	U99999DL1988PTC031156	एस.पी.आई. बिबरेजीस प्राईवेट लिमिटेड
622	U65992HR1991PTC031203	मखीजा चित फुन्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
623	U99999DL1988PTC031218	मास चित फुन्ड पी. लिमिटेड.
624	U18101DL1988PTC031241	शिव फ्रैब्रिक्स पी. लिमिटेड.
625	U65992HR1991PTC031284	कुन्ड कुन्ड चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
626	U31300DL1988PTC031323	आर.डी. पॉवरलाईन्स पी. लिमिटेड.
627	U29302DL1988PTC031352	अग्रवाल अप्लिआन्सीज़ पी. लिमिटेड.
628	U17297DL1988PTC031380	दिल्ली इम्पेक्स एण्ड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
629	U65992HR1991PTC031435	अनोखी चिट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
630	U65923HR1991PLC031460	त्रिनेत्र क्रेडिट्स हीरे एण्ड लीसिंग लिमिटेड.
631	U65992HR1991PTC031474	धरम दीप चिट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
632	U29141HR1992PTC031535	आर.एन. मक्कड़ एण्ड को. प्राईवेट. लिमिटेड.
633	U24299DL1988PTC031570	ओज़िन कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
634	U32730DL1988PTC031592	सम्राट तुबे प्राईवेट लिमिटेड.
635	U65992HR1992PTC031645	सुपरफाईन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
636	U72200DL1988PTC031647	मेकस्टर सॉफ्टवेयर सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड.
637	U71302DL1988PTC031655	साई क्रीटिव विशन्स प्राईवेट लिमिटेड.
638	U01119DL1988PTC031694	पुरी प्लंटेन्स प्राईवेट लिमिटेड.
639	U65992HR1992PTC031699	सेवन उप चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
640	U27109HR1992PLC031718	सोना मिग्मा फ़ौंड्री लिमिटेड.
641	U24241HR1992PTC031731	जे.टी. हैलथ केअर प्राईवेट. लिमिटेड.
642	U65992HR1992PTC031747	टी.एम.सी. चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
643	U29170HR1992PTC031766	बत्रा स्टील ट्युब्स प्राईवेट लिमिटेड
644	U65910HR1992PTC031794	वेल लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.

645	U65992DL1988PTC031800	सप्तवर्ना चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
646	U65992HR1992PTC031821	नाजी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
647	U65992HR1992PTC031826	अटन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
648	U22190DL1988PTC031828	सिद्धार्थ फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
649	U65993HR1992PTC031837	डेकेन्सी लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
650	U65992HR1992PTC031857	डी.डी.एस.के. चित फ़ुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
651	U99999DL1988PTC031910	गोकिला इलेक्ट्रिक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड.
652	U65992HR1993PTC031914	वीजय भारत चित फ़ुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
653	U74899DL1988PTC031922	बालाजी वऊल्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
654	U74950DL1988PTC031950	पंजाब बोल्तींग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड.
655	U65992HR1993PTC031968	आणीदीप चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
656	U70950DL1988PTC031985	रिदुआल पेकॉगिंग्स प्राईवेट लिमिटेड.
657	U65992HR1993PTC031989	इ.पी. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
658	U74899DL1988PTC031998	ब्रेत्रिस एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड.
659	U65992HR1993PTC032007	वाकर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
660	U27106HR1993PTC032009	क्लासिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
661	U15201HR1993PTC032048	योगेश मीळकोप्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
662	U65992HR1993PTC032051	अतीनिव चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
663	U65992HR1993PTC032052	रेवाड़ी चित फ़ुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
664	U74999HR1993PTC032068	कटारिया पोतेरिस प्राईवेट लिमिटेड
665	U27106HR1993PTC032077	जयज्योति स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
666	U45201HR1993PTC032082	बूटर्ज बील्डर्ज एण्ड देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
667	U70101DL1988PTC032086	मिक प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड.
668	U99999DL1988PTC032101	सुविधा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
669	U17115HR1993PTC032110	मीनाक्षी स्पीडर्स प्राईवेट लिमिटेड
670	U65992HR1993PTC032115	लारा चित फ़ुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
671	U99999DL1988PTC032125	एन.एल.लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड.
672	U74899DL1988PTC032127	हरजीत ब्रोस एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
673	U31909HR1993PTC032140	पेर्मदीप इन्वोप्येन्ट प्राईवेट लिमिटेड
674	U85110HR1993PTC032146	शांती होस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
675	U65992HR1993PTC032152	के भूषण चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
676	U74140HR1993PTC032153	त्र कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
677	U65992HR1993PTC032191	शेरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
678	U15549HR1994PLC032196	श्रीमती लिक्वर्स लिमिटेड
679	U18101DL1988PTC032225	एलेगन्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
680	U65910DL1988PLC032251	रिधि लीसिंग लिमिटेड.
681	U17231HR1994PTC032256	जी.टी. कोट्सीन प्राईवेट लिमिटेड
682	U27207HR1994PTC032267	महावीर रेफ़ोईल्स प्राईवेट लिमिटेड.

683	U99999DL1988PTC032276	नवयुवक बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
684	U74899DL1988PTC032279	लखनपाल मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टन्सी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
685	U65992HR1994PTC032283	बेसिल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
686	U65992HR1994PTC032288	आयना चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
687	U74140DL1988PTC032300	प्रसाद अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड.
688	U74130DL1988PTC032313	ओरिएन्ट कर्माशिल सर्वीसीज प्राईवेट लिमिटेड.
689	U36991DL1988PTC032316	दीपी स्टेशनरी स्पेशीयलिटीस प्राईवेट लिमिटेड.
690	U55101DL1988PTC032319	हकिम रंगीलाल जैन एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड.
691	U34102HR1994PTC032333	पुश ऑटो कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
692	U74899DL1994PTC032344	जय गोपाल देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
693	U65992HR1994PTC032346	पुष्प कमल चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
694	U65921DL1988PTC032350	एस.एस. क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड.
695	U99999DL1988PTC032368	बृज नरसिंग होम प्राईवेट लिमिटेड.
696	U19210DL1988PTC032374	लक फूटवेअर प्राईवेट लिमिटेड.
697	U65992HR1994PTC032376	अकाउंट चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
698	U18101HR1994PTC032402	एन यू टेक्स एण्ड ओईल्स प्राईवेट लिमिटेड
699	U74999HR1994PTC032403	कार्बो सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
700	U65992HR1994PTC032438	जय माता चिट्पूरानी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड.
701	U20221HR1994PTC032476	डिप्लोमेट इंडिया प्लाईवुड प्राईवेट लिमिटेड
702	U65992HR1994PTC032479	एस्टीम चिट्स एव टूल्स
703	U65993HR1994PTC032483	स्प्रिंट सिक्युरिटीज प्राईवेट. लिमिटेड.
704	U65993HR1994PTC032490	शुभ लाभ चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
705	U51909DL1988PTC032510	जगदंबा ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
706	U15142HR1995PTC032516	पी पी अग्रोइल्स प्राईवेट लिमिटेड
707	U65992HR1995PTC032520	वेका चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
708	U67190HR1995PTC032533	पर्सो होल्डींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
709	U67190HR1995PTC032550	श्री सिद्ध ब्ल्यजी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
710	U72200HR1995PTC032604	हाइड्रोमेक टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
711	U99999DL1988PTC032604	सुमंत सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
712	U65992HR1995PTC032616	चैनानी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
713	U32309DL1988PTC032621	क्रिस्टल क्लियर विडिओ प्राईवेट लिमिटेड
714	U52339HR1995PTC032641	मिटू ट्रेडर्स एण्ड मर्चेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
715	U67120HR1995PTC032650	जुड्स कैपिटल एण्ड सिक्युरिटीज प्राईवेट. लिमिटेड.
716	U51311DL1988PTC032672	
717	U99999DL1995PTC032680	बंसल बायोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
718	U17119HR1995PTC032717	मंगला जूट एण्ड फ़ैब्रिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
719	U15412HR1995PTC032732	बजाज बिस्किट्स इंडस्ट्री प्राईवेट. लिमिटेड.
720	U15140HR1995PTC032737	फ़तेहाबाद ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.

721	U65992HR1995PTC032766	उर्ध्व चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
722	U27200HR1995PTC032773	एच.आर. मेटल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
723	U51909DL1988PTC032778	मनोहर इलेक्ट्रिक एण्ड मशीने स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
724	U67120HR1995PTC032780	त्रिनिटी फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
725	U65992HR1995PTC032842	मंगा बक्स चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड.
726	U32900HR1995PTC032843	तेलेसॉफ्ट सोलुशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
727	U85195HR1995PTC032846	अम्बाला सी.टी. स्केन एण्ड रिसर्च लैब प्राईवेट. लिमिटेड.
728	U32109DL1988PTC032854	स्विरे माग्नेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
729	U51219HR1995PLC032895	गुप्ता ग्रीन ईर्थ प्लंटेशन लिमिटेड.
730	U17211HR1995PTC032907	एस.पी. इन्वस्ट्रिअल टैक्सटाईल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
731	U65920HR1995PLC032919	एल्लर क्रेलीसे लिमिटेड.
732	U74999HR1995PTC032926	फरिदाबाद लोकज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
733	U65992DL1988PTC032944	एवेर्स्मोले चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
734	U70101DL1988PTC032953	जेसन लीन्क्स बील्डर्ज़ एण्ड देवेलोपर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
735	U65992HR1996PTC032965	कावेरी-गंगा चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
736	U65992HR1996PTC032976	एन्नेक्से चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
737	U67190HR1996PTC032977	तोषना इन्वेस्ट्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
738	U65992HR1996PTC032982	मामाजी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड.
739	U27310HR1996PTC032992	चौधरी मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड.
740	U67190HR1996PTC032993	युगलिपी फ़िन्लीसे प्राईवेट लिमिटेड.
741	U65992HR1996PTC033004	चित्रागुप्त चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
742	U65992HR1996PTC033049	ग्रैंडवे चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
743	U99999DL1988PTC033058	वत प्लास्टोक्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
744	U70101DL1988PTC033059	पीकोक फ़ार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
745	U65910HR1996PTC033080	हित फ़िन्लीसे एण्ड इन्वेस्ट्मेंट प्राईवेट लिमिटेड
746	U72200HR1996PTC033123	चेतना सॉफ़्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
747	U99999DL1988PTC033135	सी.एस.एस. पॉलीमेक प्राईवेट लिमिटेड
748	U31300HR1996PTC033137	वीनस मन्फ़ेक्चरिंग को. प्राईवेट. लिमिटेड.
749	U70101DL1988PTC033145	जनक अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
750	U74140DL1988PTC033152	बिप कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
751	U65921HR1996PLC033166	धनमाया फ़िन्लीस प्राईवेट. लिमिटेड.
752	U99999DL1988PTC033166	रानीगन्ज कैमिकल्स लिमिटेड.
753	U65992HR1996PTC033170	अड्डल चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
754	U65992HR1996PTC033182	जे.तनेजा चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
755	U74899DL1988PTC033183	मंगा टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
756	U65992DL1988PTC033186	मंदाकनी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
757	U72200HR1996PTC033192	इंटेलेक्ट नेटवर्क (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
758	U50403HR1996PTC033287	ऑटो स्कूटर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

759	U36911DL1988PTC033325	रेगेंट कूलटूरेड डायमन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
760	U17297HR1996PTC033331	ओष्क टैक्सटाईल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
761	U65992HR1996PTC033359	तमाना चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
762	U36941DL1988PTC033396	नेवागे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
763	U74899DL1988PTC033398	अभीशंक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
764	U51909DL1988PTC033409	पूलस्त्रोना केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
765	U74899DL1988PTC033453	एन ए ऑटोवेल्ड एन्जीन्यरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
766	U65992HR1997PTC033467	सुशी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
767	U24231HR1997PTC033538	यमुना फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड
768	U36101DL1988PTC033542	फुट्रिक बिसनेस फ्रानिचर्स प्राईवेट लिमिटेड
769	U99999DL1988PTC033552	इन्डो इटैलियन अॅम्युजमेंट पार्क लिमिटेड
770	U65921HR1997PLC033571	जय गणेश फ़िन्लीसे लिमिटेड
771	U74140DL1988PTC033643	कुछल मॅनेजमेन्ट कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
772	U51392HR1997PTC033646	कटारिया सिरॅमिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
773	U65992DL1988PTC033671	स्लीक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
774	U65992HR1997PTC033692	एरोलाईट चित फ़ुन्ड प्राईवेट.लिमिटेड.
775	U15209DL1988PTC033726	नूट्रि चिकन प्राईवेट लिमिटेड
776	U99999DL1988PTC033727	नेहा डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड
777	U99999DL1988PTC033728	शैली एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
778	U85110HR1997PTC033760	पळवाल स्टोन क्लिनिक (पी) लिमिटेड.
779	U65992HR1997PTC033773	बाबादीप चित फ़ुन्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
780	U65992HR1997PTC033794	मा धनलक्ष्मी चिट्स (प्राईवेट) लिमिटेड.
781	U65992HR1998PTC033847	डूरट चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
782	U65992HR1998PTC033857	स्काईलाईन चित फ़ुन्ड (पी) लिमिटेड.
783	U74899DL1998PTC033894	ग्रीएल देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
784	U65992HR1998PTC033925	न्टर स्टोफ चित फ़ुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
785	U65992HR1998PTC033935	ओम नाम्य शिवे चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
786	U27104HR1998PTC033942	एम.वी.जे. स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड.
787	U45202HR1998PTC033958	निरंजन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
788	U65992HR1998PTC033959	देव्योग चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
789	U65910DL1988PLC033960	छातिसगढ़ लीसिंग एण्ड फायनान्स लिमिटेड
790	U29191HR1998PTC033998	मेटालिघट एन्जीनीअरींग (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
791	U32109HR1998PTC034022	शिव फ़िल्म्स एण्ड म्युज़िक को. (पी) लिमिटेड.
792	U26109HR1998PTC034083	रॉयलटेक डेकोरटिंग ग्लास प्राईवेट.लिमिटेड.
793	U80211HR1998PTC034085	कर्म एडुकेशन इन्स्टिट्यूट प्राईवेट.लिमिटेड
794	U63040DL1988PTC034125	आई.के. ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
795	U99999DL1999PTC034141	एक्सोने ड्रग्स को. प्राईवेट लिमिटेड
796	U74140HR1999PTC034175	पीनेकल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.

797	U30007DL1988PTC034175	भारती फ्लैटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
798	U18101DL1988PTC034191	वॉलेन्टिनस फ्रेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
799	U18101DL1988PTC034193	अल्फा फ्रेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
800	U18101DL1988PTC034197	एस फ्रेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
801	55034199	लोटस फ्रेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
802	U18101DL1988PTC034202	अक्रपूर फ्रेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
803	U29211HR1999PTC034204	जी.एच.एस. ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
804	U72200HR1999PTC034209	विशेष इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
805	U67120DL1988PLC034234	युनिवरसल प्रोफाईल्स लिमिटेड
806	U65992HR1999PTC034235	पी. सिंह चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
807	U71230DL1988PTC034257	रीधम लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड
808	U65992HR1999PTC034283	कादंबरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
809	U74999HR1999PTC034313	अल्ट्रा पॅकटेक प्रिव्ते लिमिटेड
810	U99999DL1988PTC034314	सूनिन्दरा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
811	U45203DL1988PTC034348	खड्डर बील्डिङ प्राईवेट लिमिटेड
812	U34349HR1999PTC034349	दहीमा सॉफ्टवेयर एण्ड कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
813	U74999HR1999PTC034350	रेसकॉन सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
814	U02221DL1988PTC034358	डिस्कओवर प्रिंटर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
815	U27101HR1999PTC034362	न्यू हरियाणा स्टील इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
816	U72900HR1999PTC034363	अवंत गर्दे वेबाद प्राईवेट लिमिटेड
817	U45201HR2000PTC034412	अल एक्स्पर्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
818	U24239DL1988PLC034442	हममेर फार्मा लिमिटेड
819	U74899DL1988PTC034457	वीनार टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
820	U01112DL1988PTC034469	दोआबा अग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
821	U72200HR2000PTC034493	पिक्स्टेल कम्युनिकेशन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
822	U72200HR2000PTC034504	सोमस्पेस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
823	U99999DL1989PTC034525	रीलायन्स डेटागैट्स प्राईवेट लिमिटेड
824	U72200HR2000PLC034534	फ्रच सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड
825	U74899DL1989PTC034557	सिद स्मी एन्जीन्यरींग एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
826	U51909DL1989PLC034559	सर्व सेल्स लिमिटेड
827	U99999DL1989PTC034582	अॅनालिसीस कंस्ट्रक्शन्स लीमियाटेद
828	U24249DL1989PLC034658	भास्कर कोलोर्स लिमिटेड
829	U99999DL2001PTC034662	न्यू तेले इंडिया आडवर्टिसिङ प्राईवेट लिमिटेड
830	U65992HR2001PTC034709	दुडेजा चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
831	U24232HR2001PTC034713	हेलिकोन हेल्थकेअर प्राईवेट लिमिटेड
832	U74999HR2001PTC034718	कन्ज इमिग्रेशन कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
833	U70101DL1989PLC034733	इन्डो हाऊज़िंग देवलपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड
834	U15312HR2001PLC034739	आर पी बसमाती राईस लिमिटेड



835	U22110HR2001PTC034794	गूरगांव येलो पागेस पुब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
836	U72900HR2002PTC034896	दे मट्रिक्स टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
837	U74899DL1989PTC034908	नारायण ब्रधर्ज प्रिवेट लिमिटेड
838	U74899DL1989PTC034935	प्रगति कैरिअर्स प्राईवेट लिमिटेड
839	U64202HR2002PTC034948	त्रिनेत इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
840	U74140DL1989PTC034962	इसाम कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
841	U31909HR2002PTC034982	देवन्शू इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
842	U51909HR2002PTC034996	माऊंट एवरेस्ट नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
843	U51909HR2002PTC035010	क्रिस्टल इन्फोवीज़न प्राईवेट लिमिटेड
844	U63090HR2003PTC035040	दादा सिंहा टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
845	U05151DL1989PTC035045	राजेश अंग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
846	U67120DL1989PTC035047	श्री हिमगिरी होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड
847	U60231DL1989PTC035086	अनंत सैनिक ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
848	U74899DL1989PTC035087	चाणक्य सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
849	U99999DL1989PTC035110	डिसेंट टावर्ज प्राईवेट लिमिटेड
850	U51909HR2003PTC035125	ओज़ोन मेर्कैटिल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
851	U65992HR2003PTC035168	कर्म चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
852	U22190DL1989PTC035242	माईक्रो प्रीट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
853	U24129HR2003PTC035256	ही-टेक (इंडिया) पेस्ट कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
854	U51909HR2004PTC035308	ग्री फ़ैठ वीज़न मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
855	U35914DL1989PTC035308	आर.एस. मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
856	U51909DL1989PTC035375	एस सेल्स प्रमोटर्ज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
857	U30007HR2004PLC035382	ट्रक डिगीटल टेक्नोलोजीस लिमिटेड
858	U51109DL1989PTC035460	उन्कल एजंट्स प्राईवेट लिमिटेड
859	U26921DL1989PTC035470	ऊनी-अगुआफ़लो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
860	U24111DL1989PLC035544	टेलिक ही-केम इंडिया लिमिटेड.
861	U74300DL1989PTC035555	मेघदूत ऑडियोविज़िंग कन्सल्टंट प्राईवेट लिमिटेड
862	U29111DL1989PTC035585	कैपिटल स्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
863	U99999DL1989PTC035590	पी.एल.एफ़. इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
864	U99999DL1989PTC035619	टी.आर.वी. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
865	U51109DL1989PTC035785	मैक्सलोन ज़िपज़ प्राईवेट लिमिटेड.
866	U74899DL1989PTC035819	लारा अपरेल्स एण्ड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
867	U65910DL1989PTC035967	सन रेफ़ाक्टोरीस एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड.
868	U74140DL1989PTC036006	गर्ग-यवन कुमार एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड.
869	U99999DL1989PTC036105	रेगेन्सी फ़ूटवीर्स लिमिटेड.
870	U65910DL1989PTC036141	पेस लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड.
871	U70109DL1989PTC036218	सारा प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड.
872	U51109DL1989PTC036266	शेरातन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.

873	U99999DL1989PTC036277	ईशान इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
874	U51420DL1989PTC036296	सिद्धार्थ कास्टिंग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
875	U32305DL1989PTC036331	कराय मार्टिन टेलीविसे कॉबीन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
876	U74899DL1989PTC036363	इन्डो अमेरिकन कमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
877	U45201DL1989PTC036381	प्रभा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
878	U99999DL1989PTC036411	एच.सी. सेन एण्ड को. फार्मा प्राईवेट.लिमिटेड.
879	U51109DL1989PTC036469	ट्रेचन डेकोस प्राईवेट.लिमिटेड.
880	U51226DL1989PTC036556	चोकरी बेरीनाग टी प्राईवेट.लिमिटेड.
881	U51109DL1989PTC036559	इम्प्रेशन एक्सपोर्ट प्राईवेट.लिमिटेड.
882	U74899DL1989PTC036628	डी सी अंडवर्टायजिंग एण्ड कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
883	U17115DL1989PTC036642	ग्रेस फ़ैब्रिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
884	U74899DL1989PTC036648	सोनी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
885	U51909DL1989PTC036663	राम नाथ मोंगा डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
886	U74899DL1989PTC036733	सरस्वती अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
887	U72250DL1989PTC036815	इंवेड सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
888	U17111DL1989PLC036895	विकी विन्त्स लिमिटेड.
889	U72300DL1989PTC036896	आभा मीडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
890	U30007DL1989PTC036912	वस्स कोमूटर्ज़ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड
891	U74210DL1989PTC036940	इंटेग्रेटेड पॉवरटेक प्राईवेट.लिमिटेड.
892	U71100DL1989PTC036978	जी.एन. इन्फॉर्मेटिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
893	U74140DL1989PTC037071	प्रिया कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
894	U29299DL1989PTC037166	सोमसन्स फ़ास्टनर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
895	U70101DL1989PTC037197	ब्रेमसन बील्डर्ज़ एण्ड प्रोपर्टीस प्राईवेट. लिमिटेड.
896	U67190DL1989PTC037214	बाबूजी इम्पेक्स सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
897	U32109DL1989PTC037258	एस टेलीकोम प्राईवेट.लिमिटेड.
898	U00330DL1989PTC037262	बाग्री अस्सोसिएट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
899	U30007DL1989PTC037314	न्यू एरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
900	U99999DL1989PTC037392	म्सोफ़्ट सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
901	U45201DL1989PTC037411	सपना कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
902	U99999DL1989PTC037624	गोल्ड लाईन एन्जीन्यरींग प्राईवेट.लिमिटेड.
903	U99999DL1989PTC037682	संपत्ती कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
904	U65903DL1989PTC037711	स्वामी होलडिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
905	U99999DL1989PTC037750	एकंग सॉफ़्टवेयर प्राईवेट.लिमिटेड.
906	U99999DL1989PTC037903	ल्मन ऑटो दीलर्ज़ एण्ड लेस्सोर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
907	U99999DL1989PTC037910	स्कोप अंडवर्टायजिंग एण्ड एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
908	U74899DL1989PTC037952	बालकन्स कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
909	U29191DL1989PTC038005	सुन्धान्शू इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
910	U29219DL1989PTC038031	अनीलीन फ़ैब्रिकेटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.

911	U99999DL1989PTC038055	संपत्ती इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
912	U65923DL1989PTC038232	ए.पी. क्रेडिट्स एण्ड लीसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
913	U50404DL1989PTC038245	जी.जी. मोटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
914	U65910DL1989PTC038289	जी.आर. प्रोमोटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
915	U36999DL1989PTC038323	मेकस्टर एलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर प्राईवेट.लिमिटेड.
916	U74899DL1989PTC038426	पी डी स्टील प्राईवेट लिमिटेड
917	U51109DL1989PTC038502	केलासो इंजनीयर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
918	U99999DL1989PTC038536	टी.एल. कैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
919	U99999DL1989PTC038547	चरणजीत वील्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
920	U99999DL1989PTC038624	अनू इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्सुमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
921	U31300DL1989PTC038687	पाल्मो केबल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
922	U99999DL1989PTC038731	जॉली फूड्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
923	U74999DL1989PTC038734	ज्वा आकोन्टेर्म इन्सूलेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
924	U74999DL1989PTC038752	सीनरगी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
925	U33119DL1989PTC038753	एकोकाई लेबोरेटरिस प्राईवेट. लिमिटेड.
926	U45201DL1990PTC038822	बृज टावर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
927	U70200DL1990PTC038831	रुप लक्ष्मी अस्सोसिएट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
928	U74899DL1985PTC038886	कन अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
929	U67120DL1990PTC038887	ए.आर. इंटरग्रेड सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
930	U99999DL1990PTC038950	राजीव सेल्स एण्ड कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
931	U74899DL1990PTC038959	क्वालिटी केबल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
932	U31102DL1990PTC039052	ब्लूम ट्रान्स्मिशन प्राईवेट. लिमिटेड.
933	U99999DL1990PTC039087	अडी इवो इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
934	U74140DL1990PTC039113	धृव मैनेजमेन्ट कन्सलतन्ट्स एण्ड सर्वेअर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
935	U85110DL1990PTC039114	एवर्लिके सेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
936	U99999DL1990PTC039120	डोल्फीन कम्पोनेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
937	U24299DL1990PTC039127	घोरज मशीन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
938	U74210DL1990PTC039128	हीरा प्रोमोटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
939	U74899DL1990PTC039137	बी.आर. एन्जीन्यरींग प्राईवेट लीमीटेड
940	U01111DL1990PTC039233	महारानी फ़ोरेस्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
941	U01122DL1990PTC039234	राम प्लंटेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
942	U63040DL1990PTC039344	पेंडोस ट्रेवल एण्ड टूर प्राईवेट. लिमिटेड.
943	U99999DL1990PTC039353	वी.पी. अप्लिआन्सीज़ लिमिटेड.
944	U17117DL1990PTC039405	गोयल फ़िलामेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
945	U99999DL1990PTC039412	एकता फ़ूरनीशर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
946	U74899DL1990PTC039426	कॉकड ट्रान्सफ़ोरमरज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
947	U51909DL1990PTC039442	फिलिप्स डैम्प प्राईवेट. लिमिटेड.
948	U34300DL1990PTC039471	इस स्पेंस एण्ड कम्पोनेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.

949	U74140DL1990PTC039537	फ्रिन्टेक मैनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
950	U99999DL1990PTC039541	महावीर पौडज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
951	U74899DL1990PTC039573	एन.एस. ओवरसीज़ (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.
952	U45201DL1990PTC039624	कॉम्पैक्ट इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
953	U74140DL1990PTC039658	टास्की मैनेजमेन्ट कन्सल्टन्सी प्राईवेट.लिमिटेड.
954	U36109DL1990PTC039763	अट्टिक इंटीरियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
955	U65992DL1990PTC039767	जिनवानी चित फुन्ड प्राईवेट.लिमिटेड.
956	U72300DL1990PTC039912	आर.बी. पेरिफेरल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
957	U28999DL1990PTC039942	एस.बी. केबल अन्सिलिआरीस प्राईवेट.लिमिटेड.
958	U99999DL1990PTC039963	एम.एम. ग्राणीट प्राईवेट.लिमिटेड.
959	U74899DL1990PTC039975	राजदूत कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
960	U65910DL1990PTC040035	सुमी प्रोपर्टीस प्राईवेट. लिमिटेड.
961	U29295DL1990PTC040097	पुष्प वायर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
962	U36991DL1990PTC040104	कुशन जेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
963	U15142DL1990PLC040107	वलभ रेफ्रिनेरिस लिमिटेड.
964	U32109DL1990PTC040128	अर्जुन माग्नेटिक टेप्स प्राईवेट. लिमिटेड.
965	U51909DL1990PTC040165	एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
966	U51909DL1990PTC040171	एवरेस्ट रेफ्रिजेशन इक्वीप्मेन्ट प्राईवेट.लिमिटेड.
967	U65992DL1990PTC040222	बाबा लालजी चित फुन्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
968	U30006DL1990PTC040242	डेस्कटॉप माइक्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
969	U24222DL1990PTC040434	निर्मल पैटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
970	U74899DL1990PTC040436	नेबुला चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
971	U74899DL1990PTC040473	प्रिन्क अपरेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
972	U45201DL1990PTC040576	दुआ प्रोजेक्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
973	U51909DL1990PTC040610	सी जय पी इम्पेक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
974	U74300DL1990PTC040622	अडक अंडवर्टायजिंग एण्ड डिस्पले कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
975	U99999DL1990PTC040625	टी.पी.आई. बेरिंग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
976	U67120DL1990PTC040650	रज़ज़ले-दज़ज़ले होल्दींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
977	U74899DL1990PTC040653	आदिनाथ ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
978	U51496DL1990PTC040711	आर.जी. एन्टरप्राइसीस प्राईवेट.लिमिटेड.
979	U27109DL1990PTC040860	झाझरिया स्टील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
980	U74899DL1990PTC040897	लघू चिट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
981	U70101DL1990PTC040905	जसवंत प्रोमोटर्ज़ एण्ड बील्डर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
982	U74899DL1990PTC040951	ओंकार टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
983	U99999DL1990PTC040969	करसन लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
984	U27109DL1990PTC040991	महेंद्र सन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
985	U65992DL1990PTC041008	दज़ज़ले चित फुन्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
986	U74899DL1990PTC041009	आर्य प्रिंटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड

987	U74899DL1990PTC041096	कोल्ड्स फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
988	U65993DL1990PTC041207	प्रिया क्रेडिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
989	U51229DL1990PTC041240	इंडियन स्पाइसीज एण्ड प्रोसेस्ड फूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
990	55041356	स्विट्ज़ मेडिकल सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
991	U74899DL1990PTC041443	होलिहोक्स एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड
992	U57909DL1990PTC041470	कृबल इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
993	U74899DL1990PTC041506	सन बेबी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
994	U27109DL1990PTC041526	संत स्टील्स प्राईवेट.लिमिटेड.
995	U65929DL1990PTC041617	वसुधा फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
996	U92111DL1990PTC041626	शैली विडिओ वीजन प्राईवेट. लिमिटेड.
997	U99999DL1990PTC041647	भीवाडी अलॉयस प्राईवेट. लिमिटेड.
998	U74899DL1990PTC041662	मिस हएडेस कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
999	U99999DL1990PTC041680	आर.वीकास लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1000	U74899DL1990PTC041688	टिगी वेअर एक्स्पोंट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1001	U51311DL1990PTC041689	रिंकु बिनतवेअर (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1002	U29308DL1990PTC041748	टाइटन अप्लिआन्सीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1003	U74140DL1990PTC041768	सुब्राजीत मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टन्सी सर्वीसीज प्राईवेट.लिमिटेड.
1004	U74210DL1990PTC041793	सीफिन (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1005	U23100DL1990PTC041826	राणा कोल प्राईवेट. लिमिटेड.
1006	U51109DL1990PTC041827	उन्नती ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1007	U24131DL1990PTC041842	जं पॉली फाईबर प्राईवेट. लिमिटेड.
1008	U65992DL1990PTC041913	गनौर चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1009	U65921DL1990PTC042031	चक्र लीसिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
1010	U99999DL1990PTC042068	क इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
1011	U27100DL1990PTC042103	अरजीत स्टील एण्ड अलॉयस प्राईवेट.लिमिटेड.
1012	U99999DL1990PTC042140	अरूशी स्टील एण्ड अलॉयस प्राईवेट.लिमिटेड.
1013	U74899DL1990PTC042148	अनिका एक्स्ट्राप्रिसेस प्राईवेट. लिमिटेड
1014	U27103DL1990PTC042194	वीक्रम कास्टिंग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1015	U34300DL1990PLC042202	एम.एस.एलस्तोमर्ज एण्ड अलाइड इन्डस्ट्रिज प्राईवेट. लिमिटेड.
1016	U74899DL1990PTC042231	पारूल फ्रेशन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1017	U51103DL1990PTC042248	रेगेन्सी सेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1018	U45201DL1990PTC042346	शारदा लैंड एण्ड देवलपमेन्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
1019	U51909DL1990PLC042409	कुमार इंटरनेशनल लिमिटेड.
1020	U51310DL1990PLC042416	गुरुद्व कमर्शियल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड.
1021	U65910DL1990PTC042482	ड्र. रामजीलाल सिक्का एण्ड सन्स फ़िनान्सिएज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
1022	U72200DL1990PTC042517	रूप चांद ज्यूएलर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1023	U24139DL1991PTC042586	अद्वान्स प्क प्रोफ़ाईल्स (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.
1024	U99999DL1991PTC042658	निरोस अंडवर्टायजिंग प्राईवेट. लिमिटेड.

1025	U65992DL1991PTC042736	शेर-आई-पंजाब चित फुन्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
1026	U65910DL1991PTC042742	लाईफटाईम लीसिंग एण्ड होल्दींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1027	U65993DL1991PTC042798	राजेंद्र मेकांतिल प्राईवेट.लिमिटेड.
1028	U32109DL1991PTC042821	शार्पलाईन कम्युनिकेशन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1029	U51909DL1991PTC042839	सुमन ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1030	U99999DL1991PTC042875	देकोठर्म एन्जीन्यरींग प्रोजेक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1031	U67120DL1991PTC042906	अतूत फायनान्स एण्ड टन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड
1032	U74999DL1991PTC042968	एन.ए. इंजीनियर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1033	U18101DL1991PLC043021	विज़र्ड अपरेल्स लिमिटेड.
1034	U99999DL1991PTC043032	संजीवनी प्लास्ट इन्डस्ट्रिज प्राईवेट. लिमिटेड.
1035	U51909DL1991PTC043204	आर. पी. क्रिएशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1036	U24304DL1991PTC043266	बिमल सीन्टेटिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1037	U74899DL1991PTC043276	जय दी एन्टरप्राईसीस प्राईवेट लिमिटेड
1038	U63040DL1991PTC043287	एस.एस. फ्रेट प्राईवेट.लिमिटेड.
1039	U18101DL1991PTC043381	तना-बना डीज़ाईन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1040	U74899DL1991PTC043401	एक्स्प्रेस होल्दींग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1041	U99999DL1991PTC043561	निर्मल रेसीन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1042	U74899DL1991PTC043613	कपूर एण्ड कपूर बुइइलडर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1043	U74994DL1991PTC043666	ऊनिक्र डेसीनर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1044	U29193DL1991PTC043727	आककुदुक्ट सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1045	U65910DL1991PTC043755	हनुमान लीसिंग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1046	U74999DL1991PTC043770	क्रॉस पॉट हॉटलींग फेसिलिटीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1047	U18101DL1991PTC043809	ईस्ट वेंस्ट अपरेल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1048	U99999DL1991PTC043942	अन्वीक सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1049	U74899DL1991PTC043977	बाटलीवाला एण्ड करानी अस्सेट्स मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
1050	U23201DL1991PTC043988	मॉडर्न लुब्रिकांट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1051	U63040DL1991PTC044004	स्प्लेंदोर इंडिया टूवल एण्ड टूल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1052	U99999DL1991PTC044020	एच.एच. ट्रेडर्ज प्राईवेट. लिमिटेड
1053	U65992DL1991PTC044034	मैगी चिट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1054	U51909DL1991PTC044084	सर्वोदय मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1055	U70101DL1991PTC044101	हनुमान प्रोमोटर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1056	U24132DL1991PTC044145	आर.जी.आर. पॉलीमर प्राईवेट.लिमिटेड.
1057	U70101DL1991PTC044154	मोंगा बील्डर्ज एण्ड प्रोमोटर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1058	U36991DL1991PTC044167	एक्सक्लुजिव ओफ़िशियल एड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1059	U71290DL1991PTC044169	एस.एस.एस. लीसिंग एण्ड क्रेडिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1060	U74899DL1991PTC044237	सेन्चरी लॉजिक सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1061	U17231DL1991PTC044304	एन.सिंगला स्पिनिंग एण्ड वीवींग मील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1062	U70101DL1991PTC044319	घरोन्हा देवेलोपर्ज एण्ड बील्डर्ज प्राईवेट.लिमिटेड.

1063	U64120DL1991PTC044355	ट्वेंटी फर्स्ट सेन्चरी कौरिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1064	U45201DL1991PTC044386	पैनी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट.लिमिटेड.
1065	U50101DL1991PTC044387	पेडिग्री कार्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1066	U35900DL1991PLC044390	एस्काईएस मास्स ट्रासित सिस्टम्स लिमिटेड
1067	U74140DL1991PTC044394	वरा कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1068	U99999DL1991PTC044422	सिस्टम्स इन्वेस्ट्मेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1069	U99999DL1991PTC044504	सण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1070	U74899DL1991PTC044526	साउथ दिल्ली इन्वेस्ट्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1071	U45203DL1991PTC044535	कारावन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1072	U26939DL1991PTC044549	श्री गंगा पोतेरिस प्राईवेट.लिमिटेड.
1073	U26109DL1991PTC044550	तिरिपुती ग्लास इन्डुस्ट्रीस प्राईवेट.लिमिटेड.
1074	U32109DL1991PTC044601	ओडोल्फिआ मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1075	U74899DL1991PTC044745	ओम श्री क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
1076	U74899DL1991PTC044785	एक्स्केलोन टेक्नो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1077	U15549DL1991PTC044888	प्राग ब्रेवेरिस प्राईवेट. लिमिटेड.
1078	U29299DL1991PTC044913	ओश्वनिक वाटर इंजीनियर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1079	U51507DL1991PTC044959	जीता लैब सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1080	U74999DL1991PTC044965	प्रिंस ज्यूएलर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1081	U45201DL1991PTC044994	लखनऊ कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट.लिमिटेड.
1082	U99999DL1991PTC045061	बुलंद सिमेंट वक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1083	U65910DL1991PTC045067	ए.एस. क्रेडिट एण्ड लीसिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
1084	U21022DL1991PTC045239	गीता कोन्तायनर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1085	U29191DL1991PTC045338	रीलायन्स कूलींग सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1086	U99999DL1991PTC045415	पेट्रियट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1087	U27101DL1991PTC045421	रेदीऊम मेटल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1088	U51909DL1991PTC045444	आयुशी अँगो इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1089	U99999DL1991PTC045472	मानूय इन्वेस्ट्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1090	U74999DL1991PTC045477	ओन्लीन ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1091	U99999DL1991PTC045482	पेन्गुइन रेफ्रिग्रेशन प्राईवेट.लिमिटेड.
1092	U45201DL1991PTC045527	विंसन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1093	U99999DL1991PTC045554	भरामन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1094	U52399DL1991PTC045617	शबाब-इ-खल प्राईवेट.लिमिटेड.
1095	U65992DL1991PTC045685	अनुग्रह चित फुन्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
1096	U74899DL1991PTC045703	दीप सागर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
1097	U45201DL1991PTC045726	ढाका बोल्टर्ज़ एण्ड फ़िनान्सिएज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
1098	U99999DL1991PTC045741	केप्रीकॉन डाटमेटिक प्राईवेट.लिमिटेड.
1099	U65929DL1991PTC045774	निदान जनरल फायनान्स एण्ड लीसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1100	U74899DL1991PTC045882	त्रिवेद कोल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड

1101	U45102DL1991PTC045931	मदन बील्डर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1102	U51909DL1991PTC046058	ग्रीएल ट्रेडलीन्क्स प्राईवेट लिमिटेड
1103	U99999DL1991PTC046088	बुन्स लीसिंग लिमिटेड.
1104	U33119DL1991PTC046180	डॉन मेडिकल देविसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1105	U74899DL1991PTC046199	अम्यो फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1106	U99999DL1991PTC046290	दानब्रोस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1107	U65992DL1991PTC046315	सनमून चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1108	U74899DL1991PTC046603	वेल्कम सर्वीस प्राईवेट.लिमिटेड.
1109	U65993DL1991PTC046657	देवी क्रेडिट एण्ड होल्डींग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1110	U65993DL1991PTC046659	जय माता क्रेडिट एण्ड होल्डींग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1111	U74899DL1991PTC046678	सिया राम कुमार प्रीसिशन कम्पोनेट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1112	U74899DL1991PTC046679	सिया राम कुमार मन्मलेक्टूरिंग को. प्राईवेट.लिमिटेड.
1113	U65993DL1991PTC046686	झीलम क्रेडिट एण्ड होल्डींग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1114	U65993DL1991PTC046687	उत्तरखंड क्रेडिट एण्ड होल्डींग्स प्राईवेट लिमिटेड
1115	U67120DL1991PTC046689	प्रोफिन क्रेडिट एण्ड होल्डींग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1116	U65993DL1991PTC046696	मंसा क्रेडिट एण्ड होल्डिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
1117	U99999DL1991PTC046698	ब्रौन्शील्ड मेकॉतिल प्राईवेट.लिमिटेड.
1118	U74899DL1991PTC046790	गोल्डन हील अविषाशन प्राईवेट लिमिटेड.
1119	U65929DL1991PTC046799	सिकॉन क्रेडिट एण्ड होल्डींग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1120	U65929DL1991PTC046801	शतद्रु क्रेडिट एण्ड होल्डींग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1121	U65929DL1991PTC046802	महोदय फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट.लिमिटेड.
1122	U65929DL1991PTC046809	गूडवे क्रेडिट एण्ड होल्डींग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1123	U99999DL1991PTC046925	सुदेव फायनान्सल कन्सलतन्ट्स लिमिटेड
1124	U65992DL1992PTC046948	परीक चित फुन्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
1125	U65929DL1992PTC046949	गूड फोर्तुणे लीसिंग एण्ड फायनान्स को. प्राईवेट. लिमिटेड.
1126	U28910DL1992PLC047020	इंद्रप्रस्थ फ्रोगिंग्स लिमिटेड.
1127	U99999DL1992PTC047037	क्वालिटी ठैमो-स्टेट प्राईवेट.लिमिटेड.
1128	U99999DL1992PTC047095	ही-चॉईस लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1129	U70101DL1992PTC047134	यागाश इस्टेट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट. लिमिटेड.
1130	U99999DL1992PTC047139	मॉडेना अपरेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1131	U99999DL1992PTC047280	सॅम एअरकंडिशनिंग एण्ड रेफ्रिजरेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1132	U51909DL1992PTC047302	इम ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1133	U74210DL1992PTC047346	अनाब्रोस लीसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1134	U51909DL1992PTC047459	स्टान्डार्ड्स मीडिया (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.
1135	U65910DL1992PTC047461	उडित हाऊज़िंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1136	U99999DL1992PTC047509	सटप्पुश इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1137	U99999DL1992PTC047543	पोल्प स्टील ल्युब्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1138	U92432DL1992PTC047584	सनराईज़ रेडियो (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.



1139	U51909DL1992PTC047589	दिलराज इम्पेक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1140	U74999DL1992PTC047599	दिल्ली सेल्स प्रमोशन मशीन प्राईवेट.लिमिटेड.
1141	U99999DL1992PTC047647	सनस्टार इन्डस्ट्रिस लिमिटेड.
1142	U65910DL1992PTC047687	कैकी प्लंटेशन प्राईवेट.लिमिटेड.
1143	U99999DL1992PTC047705	आविट मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
1144	U74899DL1992PTC047785	म्व कन्सुटलन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1145	U74899DL1992PTC047797	गजल पार्क औटडूर केंटरस प्राईवेट. लिमिटेड.
1146	U72300DL1992PTC047806	प्राकृती सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1147	U65929DL1992PTC047817	कबीर क्रेडिट्स एण्ड सिक्युरिटीज प्राईवेट.लिमिटेड.
1148	U63090DL1992PTC047851	दिल्ली सोलापुर रोडलाइन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1149	U99999DL1992PTC047906	इंटरटेक कंस्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1150	U99999DL1992PTC047982	रेडे श्याम देवकी नंदन प्राईवेट.लिमिटेड.
1151	U45201DL1992PTC048127	पॅरामाउन्ट स्क्वैडरल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1152	U99999DL1992PTC048136	इंटकट लीसिंग एण्ड फायनान्स लिमिटेड.
1153	U74300DL1992PTC048152	मजिकल औटडूर टॉकोस प्राईवेट.लिमिटेड.
1154	U74899DL1992PTC048167	मोनेट अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1155	U74899DL1992PTC048182	पक्सी ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
1156	U55101DL1992PTC048194	एस एण्ड डबल्यू होटेल्स एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1157	U74899DL1992PTC048230	सानूकी मर्चेंडिज कोमाप्नी प्राईवेट लिमिटेड
1158	U19201DL1992PTC048275	सिस लेंडर प्राईवेट. लिमिटेड.
1159	U99999DL1992PTC048317	एस.एम.एल. बील्डर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1160	U26921DL1992PTC048333	शोभिका पोतेरिस प्राईवेट. लिमिटेड.
1161	U74899DL1992PTC048363	जे यू एस एम एक्सप्लॉट सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1162	U99999DL1992PTC048408	नोर्थलैंड अंग्रो इन्डस्ट्रिस लिमिटेड.
1163	U65910DL1992PTC048452	लाज लीसिंग एण्ड क्रेडिट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1164	U99999DL1992PTC048524	जेती होटेल प्राईवेट.लिमिटेड.
1165	U21012DL1992PTC048546	राम नाथ एण्ड सन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1166	U74999DL1992PTC048571	बको सर्वीसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
1167	U99999DL1992PTC048653	उल्टिमाटे प्रिंटर प्राईवेट. लिमिटेड.
1168	U70101DL1992PTC048700	आक्स फायनान्स एण्ड लीसिंग को प्राईवेट.लिमिटेड.
1169	U74899DL1992PTC048701	आकारशान कम्प्युटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1170	U31300DL1992PTC048722	सेलेक्ट्रोन केबल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1171	U63040DL1992PTC048725	पुण्डुन्दी जुनाले सफरीस इंडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
1172	U99999DL1992PTC048755	एस एण्ड ए ज्यूएलर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1173	U74899DL1992PTC048823	अवोन स्कल्स प्राईवेट लिमिटेड
1174	U99999DL1992PTC048824	विवा स्टील लिमिटेड
1175	U74899DL1992PTC048840	इलेक्ट्रोमोबाइल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1176	U99999DL1992PTC048871	मास्टर-टैक्स इन्डस्ट्रिस लिमिटेड

1177	U99999DL1992PTC048881	हम क्रेडिट एण्ड लीसिंग लिमिटेड.
1178	U99999DL1992PTC048939	मनामा मोटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1179	U99999DL1992PTC048949	रोजता चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1180	U65921DL1992PTC048960	जे.एच. फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1181	U99999DL1992PTC048969	एन.आर. वूलेन एण्ड स्पिनिंग मील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1182	U99999DL1992PTC049010	बचानी एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
1183	U27209DL1992PTC049086	विन्के मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1184	U72200DL1992PTC049171	जाप्फाक्स बिसनेस सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1185	U18101DL1992PTC049187	एल्वा फेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1186	U74999DL1992PTC049192	सलोनी मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
1187	U99999DL1992PTC049341	रेन्यसन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1188	U99999DL1992PTC049354	एम.आर. मित्तल एण्ड सन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1189	U99999DL1992PTC049386	र सनफ्लावर फार्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1190	U01122DL1992PTC049440	जे एण्ड जे अग्रिकल्चरल प्राईवेट. लिमिटेड.
1191	U27106DL1992PTC049525	नीलांचल स्टील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1192	U65910DL1992PTC049531	पंक फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1193	U65993DL1992PLC049564	स्वराज फायनान्स लिमिटेड
1194	U51505DL1992PLC049608	आई.टी.पी. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1195	U74899DL1992PTC049619	एन जे डिझाइन बील्ड प्राईवेट लिमिटेड
1196	U99999DL1992PTC049628	कम्ड धातू कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1197	U45402DL1992PTC049656	किंगस्टन सैनिटरी अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1198	U14211DL1992PLC049674	शुभम युनिवरसल लिमिटेड
1199	U65993DL1992PLC049700	मेहरसन्स लीसिंग एण्ड फायनान्स लिमिटेड
1200	U99999DL1992PTC049703	सेनराज क्रेडिट्स एण्ड लीसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1201	U29299DL1992PTC049772	दत्त मशीन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1202	U99999DL1992PTC049847	महामती एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1203	U74140DL1992PTC049883	स्मित सिक्युरिटीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1204	U74999DL1992PTC049962	बृंदावन ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1205	U51109DL1992PTC050047	नीलम बिसनेस प्लेस प्राईवेट. लिमिटेड.
1206	U45201DL1992PTC050049	स्म कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1207	U99999DL1992PTC050058	बन्डर अंग्रो प्लंटेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1208	U51109DL1992PTC050063	बी आई ओ लीनकज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1209	U51909DL1992PTC050118	अल्ट्रा मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1210	U99999DL1992PTC050123	पिक विक फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड.
1211	U99999DL1992PTC050149	सुदेव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड.
1212	U99999DL1992PTC050224	साध्वी आर्ट वक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1213	U66010DL1992PTC050303	मनले शर्मा अडजूस्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1214	U00000DL1992PTC050340	अपोलो क्लोदिअस प्राईवेट लिमिटेड

1215	U74899DL1992PTC050343	सुन्दरराज चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
1216	U29299DL1992PTC050356	अवियाफ्रोन्ट एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1217	U72300DL1992PTC050361	पेफेक्ट दाता सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1218	U21014DL1992PTC050442	सिम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1219	U52104DL1992PTC050519	रिहा फॉरीन ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1220	U99999DL1992PTC050613	सत्यसायि इंडिया लिमिटेड.
1221	U63090DL1992PTC050625	नेसेत एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
1222	U99999DL1992PTC050676	ट्रिपसन होल्दींग्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1223	U99999DL1992PTC050724	एस ऑटोकोम्प प्राईवेट लिमिटेड
1224	U99999DL1992PTC050773	नोर्थन कोन्वेअर्ज (इंडिया) लिमिटेड
1225	U99999DL1992PTC050857	एस्स जी परेंटेरल लिमिटेड
1226	U63040DL1992PTC050907	अपन ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
1227	U67120DL1992PTC050968	टी.एम.सी. ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1228	U51109DL1992PTC050980	मारिरा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1229	U67190DL1992PTC050993	जे.एम. अनिल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1230	U74899DL1992PTC051047	धाल चित्स प्राईवेट लिमिटेड
1231	U74899DL1992PTC051099	भारत इन्फोर्मेशन सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1232	U32101DL1992PTC051128	सर एस गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1233	U22300DL1992PTC051196	नूरी फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
1234	U74999DL1992PTC051277	आस्ट्रा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1235	U27106DL1992PTC051329	एन.कुमार मेटल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1236	U21012DL1992PTC051332	अखी टिस्सुस प्राईवेट लिमिटेड
1237	U51109DL1992PTC051342	रजत क्राफ़्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1238	U74899DL1992PTC051363	मंगल कमिकल इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1239	U74899DL1992PTC051371	योगेश टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
1240	U74899DL1992PLC051453	वकमेर कन्सल्टंट लिमिटेड
1241	U67190DL1992PTC051518	आर्च क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
1242	U99999DL1993PTC051613	एम एस लेबोरेटोरिस लिमिटेड.
1243	U99999DL1993PTC051666	वी जी अंग्रो इन्डस्ट्रिज़ लिमिटेड
1244	U74899DL1993PTC051763	थराग अनहह कन्सल्टन्सी प्राईवेट लिमिटेड
1245	U65910DL1993PTC051895	स्पार्कल प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
1246	U99999DL1993PTC051909	जी दाता सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
1247	U99999DL1993PTC051912	नोईदा पेपर माट प्राईवेट लिमिटेड
1248	U74899DL1993PTC051915	दातालाईन कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1249	U99999DL1993PTC051919	सोनिक एन्टरप्राइसीस लिमिटेड
1250	U29131DL1993PTC051928	सिल्वरलाईन स्टेपींग्स प्राईवेट लिमिटेड
1251	U45201DL1993PTC051931	जेम एरोमेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1252	U74899DL1993PTC051939	काल्डिन कन्सल्टन्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

1253	U74210DL1993PTC051991	एपेक्स डेसिग्नेर होसेस प्राईवेट लिमिटेड
1254	U74899DL1993PTC052166	सूद कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
1255	U51909DL1993PTC052207	आर मर्चेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1256	U51909DL1993PTC052231	मेलॉज एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
1257	U27320DL1993PTC052290	रेडलीन स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
1258	U17115DL1993PTC052429	गिल्लसन टेक्सक्विन इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1259	U99999DL1993PTC052529	इक्वल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
1260	U45201DL1993PTC052566	एस.जे. प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
1261	U74899DL1993PTC052643	तूरबो कन्ट्रोल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1262	U99999DL1993PTC052711	राजधानी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1263	U99999DL1993PTC052718	वेलकम क्रेडिट एण्ड सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1264	U92419DL1993PTC052722	एस अविशासन सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1265	U74899DL1993PTC052730	नवसन फायनान्सियल सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1266	U65993DL1993PTC052773	बिकल्प होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड
1267	U74899DL2004PTC052779	दुम्पटको रोडवेज़ प्राईवेट लिमिटेड
1268	U74899DL1993PLC052946	अलिट लिटेक हालोगेन लैंप्स लिमिटेड
1269	U99999DL1993PTC053015	टुडे एण्ड टोमोरो इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्स लिमिटेड
1270	U65921DL1993PTC053096	विश्व भारती हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
1271	U99999DL1993PTC053133	सीको ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1272	U99999DL1993PTC053142	अम्बितियोउस पॉलीकेम प्राईवेट लिमिटेड
1273	U67120DL1993PTC053250	फ़िडेलिटी पोर्टफ़ोलियो प्राईवेट लिमिटेड
1274	U99999DL1993PTC053270	हरियाणा स्पीडज़ प्राईवेट लिमिटेड
1275	U74899DL1993PTC053325	कम्पोनेंट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1276	U51311DL1993PTC053340	अय्यर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1277	U99999DL1993PTC053409	श्री. इंडिया चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
1278	U74899DL1993PTC053455	आरिहंत पूरिफ़िएर प्राईवेट लिमिटेड
1279	U74899DL1993PTC053510	अमी प्रोमोटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1280	U74899DL1992PTC053582	ताळक फ़ेशन प्राईवेट लिमिटेड
1281	U99999DL1993PTC053646	शेरपुरिया लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
1282	U67120DL1993PTC053699	सुजाता सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड.
1283	U22219DL1993PTC053710	प्रताप मेडिकल पुब्लिशर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड.
1284	U99999DL1993PTC053735	एन एस पी क्रेडिट एण्ड पोर्टफ़ोलियो लिमिटेड
1285	U74899DL1993PTC053897	बन्का एण्ड बन्का मेडिकल स्पेशीयलिटीस प्राईवेट लिमिटेड
1286	U99999DL1993PTC053923	तोकेन शिम्स लिमिटेड
1287	U99999DL1993PTC053937	जिफी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड.
1288	U67120DL1993PTC053967	आशोर्मेन कंपिटल प्राईवेट लिमिटेड
1289	U99999DL1993PTC053981	रात्र लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड.
1290	U72200DL1993PTC054022	वी आर प्रोम्ट कम्प्युटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड

1291	U51494DL1993PTC054029	पिक्चिक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड.
1292	U99999DL1993PTC054075	टेककित इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिशर्स
1293	U27109DL1993PTC054082	एक्सीलेंट स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
1294	U99999DL1993PTC054102	गीतांजली क्रिएशन्स लिमिटेड.
1295	U74899DL1993PTC054131	दास कृष्ण फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1296	U72200DL1993PTC054223	इन्फ्लुएन्स सॉल्यूशंस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1297	U99999DL1993PTC054252	एस एम एल रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1298	U99999DL1993PTC054254	जमे भारत लेंडर प्राईवेट लिमिटेड
1299	U92141DL1993PTC054295	कृति एक्सप्रेसन्स प्राईवेट लिमिटेड
1300	U73100DL1993PTC054357	दत्त एनर्जी देविसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1301	U99999DL1993PTC054415	पूनम प्लेटेशन्स लिमिटेड
1302	U74899DL1993PLC054500	इन्डो अग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
1303	U74140DL1993PTC054577	
1304	U19121DL1993PTC054585	स्कॉलर बाग्स प्राईवेट लिमिटेड
1305	U94940DL1993PTC054615	डी.सी. ओपसेटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1306	U51909DL1993PTC054617	गूडविल मर्चेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1307	U99999DL1993PTC054630	नेक्स्ट जेनरेशन सिस्टम्स लिमिटेड
1308	U99999DL1993PTC054648	तजस्वी लामिनट्स प्राईवेट लिमिटेड
1309	U99999DL1993PTC054733	सुरक्षा वरुल्ड्स लिमिटेड
1310	U99999DL1993PTC054850	स्टर्लिंग एअरवेज़ प्राईवेट लिमिटेड
1311	U74899DL1993PTC054852	पंपेस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1312	U99999DL1993PTC054897	अटेसुआ फ़ार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
1313	U99999DL1993PTC055090	तुषार क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1314	U51909DL1993PTC055092	सुमारा इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
1315	U74899DL1993PTC055096	एच डी पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1316	U74300DL1993PTC055137	ला चिक अड्स एण्ड फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
1317	U99999DL1993PTC055144	स्पस पैकैजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड.
1318	U99999DL1993PTC055189	वीला कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1319	U99999DL1993PTC055234	माइक्रोवर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1320	U74140DL1993PTC055285	क्रियोना मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1321	U74140DL1993PTC055319	स्पन टेक्निकल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1322	U63040DL1993PTC055325	असहरी टूल्स सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1323	U99999DL1993PTC055338	अटेसुआ लीसिंग लिमिटेड
1324	U45402DL1993PTC055342	मार्निफ़िकर इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1325	U99999DL1993PTC055363	ए.पी. रौनक ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1326	U74899DL1993PTC055366	कॉस्ट प्लस प्राईवेट लिमिटेड
1327	U51505DL1993PTC055369	मल्टी स्कैन अवेयरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1328	U99999DL1993PTC055372	रूपश्री एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1329	U74140DL1993PLC055395	एको प्राइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
1330	U63040DL1993PTC055477	शिविका टूवलस प्राइवेट लिमिटेड
1331	U99999DL1993PTC055499	वेल्लकम सिक्युरिटीज लिमिटेड
1332	U99999DL1993PTC055521	बेल्चेडेर लैंद एण्ड फ़ार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1333	U34300DL1993PTC055522	इक्स्ल कारदान शाफ़्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1334	U24119DL1993PTC055684	एस.शंकर कॅमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1335	U74899DL1993PTC055723	मोदी क्रीता प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड
1336	U51494DL1993PTC055763	कास लैंदर प्राइवेट लिमिटेड
1337	U65910DL1993PTC055769	कन फ़ार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1338	U74140DL1993PTC055798	कनवल एग्निनीसण्ड कन्सलतन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1339	U34300DL1993PTC055840	डीजल कुइप्मेंट्स सर्वोसीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1340	U74899DL1993PTC055855	देव टेलीकोम कन्सल्टन्सी सर्वोसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
1341	U51397DL1993PTC055874	अचिवेरा ट्रेड लीन्क्स प्राइवेट लिमिटेड
1342	U72200DL1993PTC055882	जे.सी.इ. कैंड टेक सर्वोसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
1343	U51109DL1993PTC055914	आर्क इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1344	U67210DL1993PTC055932	एस.आई. कन्सलतन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1345	U24233DL1993PTC056153	सिस्टमिक लेबोरेटरिस प्राइवेट लिमिटेड
1346	U99999DL1993PTC056223	सिद्धी श्री पेपर को. प्राइवेट लिमिटेड
1347	U99999DL1993PTC056377	इंटर वर्ल्ड लिमिटेड
1348	U70101DL1993PTC056416	आचार्य अंडचाराय देवेलोपज़ प्राइवेट लिमिटेड
1349	U65992DL1993PTC056431	मा अंबा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1350	U74899DL1993PLC056462	सीन्धूजा अंग्रो एण्ड हाऊज़िंग इंडिया लिमिटेड
1351	U74210DL1993PTC056471	अमरा कन्सलतन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1352	U74899DL1993PTC056481	बुक सेल इंडिया कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1353	U99999DL1993PTC056493	सीमा पोतेरिस प्राइवेट लिमिटेड
1354	U24222DL1993PTC056497	एन.डी. रंगवाला प्राइवेट लिमिटेड
1355	U99999DL1993PTC056656	हंडिगेस इंडिया लिमिटेड
1356	U74899DL1994PLC056743	ज़ी कोर्द इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
1357	U57909DL1994PTC058749	शीतल एजन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
1358	U99999DL1994PTC056802	आर.जी. सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड
1359	U74899DL1994PTC056988	योग वासिस्था फ़िल्म्स प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1360	U99999DL1994PTC057024	नथु मल देस राज रंगवाला लिमिटेड
1361	U51909DL1994PTC057032	त्रिकॉन ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
1362	U67120DL1994PTC057149	म्ब्स इजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1363	U99999DL1994PTC057168	एशिआटिक पेट्रोक्मिकल्स लिमिटेड
1364	U74140DL1994PTC057229	स्नरगी मल्टो फ़ूड एण्ड सर्वोसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
1365	U45909DL1994PTC057284	श्री नाथ इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1366	U74899DL1994PLC057293	जैकसन मोबाइल कम्प्युटर्स लिमिटेड

1367	U74899DL1994PTC057356	पोलिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1368	U99999DL1994PTC057364	लैंडमार्क इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1369	U24239DL1994PTC057411	मैक्सकरे फ़ोर्मुलेशन प्राईवेट लिमिटेड
1370	U72200DL1994PTC057432	इह एस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1371	U74899DL1994PTC057443	सिंगला सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1372	U74899DL1994PTC057471	रीलायन्स प्रीसिशन एन्जीन्यरींग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
1373	U99999DL1994PTC057485	कौन्सेल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1374	U74140DL1994PTC057566	टेक्नोलॉजिकल सर्वीसीज़ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1375	U74899DL1994PTC057570	मोना हीरे परचेस प्राईवेट लिमिटेड
1376	U99999DL1994PTC057658	अरावली वुड इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1377	U51311DL1994PTC057662	पल अंडवर्तयजिंग प्राईवेट लिमिटेड
1378	U67120DL1994PTC057670	अस्सोसिएट सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1379	U74899DL1994PTC057688	फेअर फ्रेंड्स पेंकेजींग प्राईवेट लिमिटेड
1380	U74899DL1994PTC057696	कांतेक्स एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
1381	U65952DL1994PTC057744	फ़्लोरिदा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
1382	U74899DL1994PTC057780	वीनू फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1383	U22219DL1994PTC057782	अनामिका प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1384	U99999DL1994PTC057875	प्क फायनान्स लिमिटेड
1385	U74899DL1994PTC057900	त्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1386	U74899DL1994PTC057973	ए के एस सी एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
1387	U24246DL1994PTC058080	प्रिटी होटेल्स बॉडीकेअर प्राईवेट लिमिटेड
1388	U30007DL1994PTC058138	जे.सी. नेटवर्क एण्ड कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1389	U51494DL1994PTC058165	फ़िनेस्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1390	U25209DL1994PTC058177	गीता इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
1391	U73100DL1994PTC058320	वांडर लावे इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1392	U70101DL1994PTC058346	जवानयाह्वा एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1393	U32204DL1994PTC058446	मेट्कोम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1394	U99999DL1994PTC058465	हीनदान फ़ार्म्स लिमिटेड.
1395	U99999DL1994PTC058466	ऊनिक्ल कॉर्पोरेट अड्वान्सर्स लिमिटेड
1396	U99999DL1994PTC058507	श्रीग टेक्निकल एण्ड इन्वेस्टमेंट्स कन्सल्टन्ट्स लिमिटेड
1397	U51109DL1994PTC058524	लीला एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
1398	U51311DL1994PTC058556	गौतम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1399	U74899DL1994PTC058590	जी जी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
1400	U74899DL1994PTC058591	मालाव पॉलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
1401	U99999DL1994PTC058616	कृषी एक्सपोर्ट्स ओवरसीज़ इंडिया लिमिटेड
1402	U74899DL1994PTC058660	जे जे लोकस एण्ड ग्राणीट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1403	U65992DL1994PTC058759	ए.एस. कुक्रेजा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
1404	U99999DL1994PTC058762	वर्धमान एलेक्ट्रोड्स लिमिटेड

1405	U99999DL1994PTC058888	शशांक ल्युब्स एण्ड पिपेस प्राईवेट लिमिटेड
1406	U99999DL1994PTC058962	मेडटेक डायग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
1407	U30007DL1994PTC058970	इ इ इलेक्ट्रो क्लिपिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1408	U74899DL1994PTC059058	हल्दी राम नामकीन भंजूर प्राईवेट लिमिटेड
1409	U74995DL1994PTC059257	वैष्णवी ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
1410	U74899DL1994PTC059258	साशा फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
1411	U99999DL1994PTC059323	शारतनवाल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
1412	U74250DL1994PTC059328	प्रिमीयर ज़िन्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1413	U99999DL1994PTC059367	नेट्कोम सॉफ्टवेयर एण्ड सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड
1414	U74899DL1994PTC059471	इंत एक्स्ट डेकोरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1415	U74899DL1994PTC059491	रवीश चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
1416	U74899DL1994PLC059518	हक्ल ग्लोबल अलिआन्सीज लिमिटेड
1417	U25202DL1994PTC059526	लम्को कन्स प्राईवेट लिमिटेड
1418	U74999DL1994PTC059533	युनाईटेड नेटवर्क दिल्ली प्राईवेट लिमिटेड
1419	U99999DL1994PTC059667	वीकास इफेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1420	U74899DL1994PTC059696	कृति लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
1421	U74140DL1994PTC059806	सिवील एण्ड सिविक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1422	U74899DL1994PTC059808	प्रोविन्स होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1423	U99999DL1994PTC059819	आडोनीस क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
1424	U99999DL1994PTC059835	फ़ामिली पुब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1425	U74899DL1994PTC059898	बियोग फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1426	U99999DL1994PTC059913	मुरगन पोर्टफोलियो एण्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1427	U29220DL1994PTC059970	दीवान एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1428	U74899DL1994PTC059996	हएसूना इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
1429	U65992DL1994PTC060019	अस्सरा चित प्राईवेट लिमिटेड
1430	U74899DL1994PTC060085	अजरा तेलकम्युनिकेशन्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1431	U45201DL1994PTC060094	भारद्वाज कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1432	U74899DL1994PTC060155	कौगर सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1433	U99999DL1994PTC060173	त्रस्ट कैपिटल सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1434	U55101DL1994PTC060181	रीआ होटेल एण्ड रेस्तरांट प्राईवेट लिमिटेड
1435	U99999DL1994PTC060225	आर.एस. रोडलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
1436	U99999DL1994PTC060253	टेक्नीड (इंडिया) लिमिटेड
1437	U74899DL1994PTC060286	प्लांट मेरेकिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1438	U67120DL1994PTC060407	क्ल सिक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1439	U17112DL1994PLC060549	आधुनिक टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1440	U99999DL1994PTC060551	मेहर एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
1441	U99999DL1994PTC060578	स्मस इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्सियल सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1442	U67120DL1994PTC060612	सकुजा सिक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड.



1443	U99999DL1994PTC060754	ट्रेदी ट्रोपिकल फूड्स लिमिटेड
1444	U99999DL1994PTC060839	बर्कलायस फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1445	U99999DL1994PTC061025	गणपति एअर प्राईवेट लिमिटेड
1446	U99999DL1994PTC061082	पविश ओवरसीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1447	U70101DL1994PTC061198	ओनिर इंस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
1448	U74899DL1994PTC061202	मेहरा एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
1449	U51398DL1994PTC061284	स्टोन प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
1450	U65992DL1994PTC061319	दावर चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1451	U99999DL1994PTC061370	अक्षिस सॉफ्टवेयर एण्ड शॉर सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1452	U32109DL1994PTC061468	सी एण्ड कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1453	U17222DL1994PTC061488	अमेरिनो प्राईवेट लिमिटेड
1454	U74899DL1994PTC061577	एस के मेहेस मॅनूफ़ेक्चररज़ प्राईवेट लिमिटेड
1455	U74999DL1994PTC061624	एरो इन्सुलेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1456	U31907DL1994PTC061666	हेक्सगोन विसुआल कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
1457	U99999DL1994PTC061711	मनाली ट्रेवल्स एण्ड टूरस प्राईवेट लिमिटेड
1458	U99999DL1994PTC061723	हरिओम फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1459	U18101DL1994PTC061736	दीपिका फ़ैशन प्राईवेट लिमिटेड
1460	U99999DL1994PTC061832	सन ग्लान अन्नेसिक्स इंडिया लिमिटेड
1461	U67120DL1994PTC061839	जग्गी फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1462	U74899DL1994PTC061906	लप्र सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1463	U74899DL1994PTC061909	ताशीमा मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टन्सी प्राईवेट लिमिटेड
1464	U99999DL1994PTC061913	फ़िनोन फायनान्सियल एण्ड कैपिटल सर्वीसीज़ लिमिटेड
1465	U99999DL1994PTC062047	ड्रक कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1466	U74899DL1994PTC062128	कम्फ़र्टाबल ग़ौठ फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1467	U74899DL1994PLC062138	एस्कोट्स हेल्थ केअर सर्वीसीज़ लिमिटेड
1468	U74899DL1994PTC062153	बी एस्स एअर एण्ड शिपिंग कार्गो एजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1469	U31300DL1994PTC062208	ऋषि एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
1470	U74899DL1994PTC062292	डोल्फीन कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1471	U65921DL1994PTC062335	तप्स प्रोपर्टीस एण्ड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1472	U29919DL1994PTC062473	ईड्वेस तुबेटेक प्राईवेट लिमिटेड
1473	U74899DL1994PTC062499	स्विफ़्ट नेटवर्किंग प्राईवेट लिमिटेड
1474	U74899DL1994PTC062504	शिखर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1475	U67120DL1994PTC062517	अम-प्रो ग्रुप होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड
1476	U14101DL1994PTC062535	ओएसिस मार्बे प्राईवेट लिमिटेड
1477	U51311DL1994PTC062560	श्रीस्ती सीन्टेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1478	U24244DL1994PTC062658	रिचमन कॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1479	U19122DL1994PTC062735	बेनीसन लेंदर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1480	U74899DL1994PTC062760	बी एन रब्बर प्राईवेट लिमिटेड

1481	U99999DL1994PTC062767	निरास कम्पटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1482	U99999DL1994PTC062850	आल्ट्रा मोडे प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1483	U74899DL1994PLC062851	एस्टीम लीसिंग लिमिटेड
1484	U74920DL1994PTC062881	डनहील सिक्यूरिटी सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1485	U74899DL1994PLC062904	एस्टीम कैपिटल सर्विसीज़ लिमिटेड.
1486	U15531DL1994PTC062906	फ़्लकॉन डिस्टिलेरिस एण्ड ब्रेवीस प्राईवेट लिमिटेड
1487	U67120DL1994PTC062927	त्रिपाठी सिक्यूरिटिज़ एण्ड कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
1488	U99999DL1994PTC062983	उर्मश इन्वेस्ट्मेन्ट एण्ड सिक्यूरिटिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1489	U67120DL1994PTC062988	आंडा सिक्यूरिटिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1490	U99999DL1994PTC063049	फ़ोर्तुणे गैल लिमिटेड
1491	U55101DL1994PTC063094	पंचशील होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1492	U74999DL1994PTC063281	अभिजीत अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1493	U74899DL1994PTC063292	सुपर स्टारलाईन ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
1494	U17299DL1994PTC063403	प्राग कोटिस्पन प्राईवेट. लिमिटेड.
1495	U99999DL1994PTC063499	कोन्सेप्शन एन्टरप्राइसीस (एच.के.) लिमिटेड.
1496	U74999DL1994PTC063610	सौन्डिक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
1497	U67120DL1994PTC063675	एम एण्ड एम पोर्टफ़ोलियो प्राईवेट. लिमिटेड.
1498	U74140DL1994PTC063695	मोइडोरे सर्विसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1499	U55101DL1994PTC063699	चावलास चिक-इन्-रेस्टोरेंट प्राईवेट. लिमिटेड.
1500	U74899DL1994PTC063735	बन्नात आक्कुआ मिनरल्स लिमिटेड
1501	U70101DL1994PTC063744	नीलांचल देवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1502	U74999DL1994PTC063779	नोवेली एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1503	U99999DL1994PTC063781	वर्मा ग्राफिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1504	U41000DL1994PTC063798	आर्सनल रैसोर्क देवलपमेन्ट एण्ड मंगाएमेन्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
1505	U74899DL1994PTC063799	ज़ूम सक्वी फ़र्मसटिकल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1506	U63040DL1994PTC063837	कनव एअर सर्विसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1507	U74899DL1994PTC063843	कन्हेय्या प्लंटेशन प्राईवेट लिमिटेड
1508	U74899DL1994PTC063888	चारु सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1509	U67120DL1994PTC063914	प्रधान फ़िन्लीसे प्व ट्रस्ट
1510	U74899DL1995PTC063968	काईनेटिक बील्डिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1511	U74899DL1995PTC064006	मंडी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1512	U51211DL1995PTC064042	रिककी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1513	U31200DL1995PTC064070	प्रिमीयर कन्ट्रोल इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1514	U99999DL1995PTC064120	हस्पल फायनान्स लिमिटेड.
1515	U74899DL1996PTC064280	कम ऑटोमोटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
1516	U99999DL1995PTC064340	पॉल काव्य सर्विसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1517	U74899DL1995PTC064449	मिड्सीए इन्फ़ोर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1518	U99999DL1995PTC064601	रसीवासिया फायनान्स लिमिटेड.

1519	U51494DL1995PTC064618	प्रधान एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
1520	U67120DL1995PTC064623	गोल्ड वर्थ होलडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1521	U99999DL1995PTC064630	अन्नूश्री एक्सो प्राईवेट लिमिटेड
1522	U99999DL1995PTC064640	मुकुल फ़िन्वेस्ट (इंडिया) लिमिटेड.
1523	U50102DL1995PTC064663	सीनियोर ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1524	U67110DL1995PTC064853	बोलुसाणी एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1525	U17222DL1995PTC064868	आर्ट एंपोरिअम प्राईवेट. लिमिटेड.
1526	U99999DL1995PTC064882	शिवालिक पेट्रोलेउम लिमिटेड
1527	U67120DL1995PTC065004	गुरु हरकिशन इन्वेस्ट्मेन्ट एण्ड लीसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1528	U67120DL1995PTC065062	वोल्कानो इन्वेस्ट एण्ड सॉफ़्टवेयर प्राईवेट. लिमिटेड.
1529	U99999DL1995PTC065087	अंग्रोगोल्ड प्लंटेशन्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड.
1530	U65929DL1995PTC065110	न्यूरा कैपिटल एण्ड फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1531	U99999DL1995PTC065118	सुरिंद्र फ़िनकैप प्राईवेट. लिमिटेड.
1532	U74899DL1995PLC065179	व्वाल सिक्युरिटिज़ फायनान्स लिमिटेड
1533	U99999DL1995PTC065190	देव ड्रोप्स ऑर्गानिकस लिमिटेड
1534	U74899DL1995PTC065268	आरोहन विनील्स प्राईवेट लिमिटेड
1535	U74899DL1995PTC065301	विटे पिगियोन्स प्राईवेट लिमिटेड.
1536	U74899DL1995PTC065341	अर्जय तेलिकम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1537	U99999DL1995PTC065366	वर्टेक्स एलेक्टर इंडिया लिमिटेड.
1538	U99999DL1995PTC065379	चीवर्थ इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1539	U65910DL1995PTC065415	एल.के. फ़िन्लीसे प्राईवेट. लिमिटेड.
1540	U99999DL1995PTC065422	व्म इन्वेस्ट्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1541	U36999DL1995PTC065452	धरसन्स एम एण्ड आर इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1542	U74899DL1995PLC065537	जाककी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
1543	U74899DL1995PTC065631	बी ए टी ए इन्वेस्ट्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1544	U99999DL1995PTC065779	स्टार बिल्डिंग. एण्ड मायन्टेनान्स सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1545	U92114DL1995PTC065800	अरुण कोल प्रोडक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1546	U99999DL1995PTC065916	केमीमेस इंडिया लिमिटेड.
1547	U99999DL1995PTC065924	ऊमेस्नेह सिक्युरिटिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1548	U67120DL1995PTC066086	आरिहंत शॉर सर्वीसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
1549	U74899DL1995PLC066095	सीगूलल पोर्टफ़ोलियो लिमिटेड
1550	U99999DL1995PTC066098	मोदी कम्युनिकेशन सर्वीसीज़ लिमिटेड.
1551	U99999DL1995PTC066102	सीगूलल ओवरसीज़ लिमिटेड.
1552	U99999DL1995PTC066130	ग्रं ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
1553	U74899DL1995PTC066155	दिफरेन्ट हुएस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1554	U74140DL1995PTC066174	एम एम फ़िनाद प्राईवेट. लिमिटेड.
1555	U67110DL1995PTC066203	प्रीसिशन फ़िनकैप प्राईवेट. लिमिटेड.
1556	U50101DL1995PTC066364	एफिशियंट मोटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.

1557	U99999DL1995PTC066392	दुर्गा टेक्नोलॉजिस्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
1558	U45210DL1995PTC066415	कनवर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
1559	U67120DL1995PTC066523	बिग शौस इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1560	U99999DL1995PTC066529	निर्वाण कंपिटल एण्ड फायनान्स्यल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1561	U99999DL1995PTC066589	शिखर सिक्युरिटीज़ एण्ड फायनान्स लिमिटेड.
1562	U99999DL1995PTC066594	होरिज़ोन लीसिफ़न प्राईवेट. लिमिटेड.
1563	U74899DL1995PTC066608	उन्नत ऑग्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
1564	U99999DL1995PTC066658	विशाल फायनान्स्यल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1565	U99999DL1995PTC066753	धौलधर ट्रेवल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1566	U74899DL1995PTC066814	बजाज बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1567	U74899DL1995PTC066851	टी.एम.ए. फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1568	U74899DL1995PLC066917	हनूना टोय्स लिमिटेड
1569	U74899DL1995PTC066979	मासन्स क्वालिटी देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1570	U99999DL1995PTC066997	डायनामिक गार्मेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1571	U99999DL1995PTC067090	रीगल मेडिकरे प्राईवेट. लिमिटेड.
1572	U65929DL1995PTC067187	हप्क फायनान्स एण्ड लीसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1573	U99999DL1995PTC067229	जग महावीर ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1574	U45201DL1995PTC067242	क्रांति इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1575	U72900DL1995PTC067265	मूलटिकोम इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1576	U99999DL1995PTC067313	भाग्यश्री फायनान्स्यल सर्वीसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
1577	U99999DL1995PTC067382	ताब कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1578	U74899DL1995PTC067426	चिनार एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
1579	U99999DL1995PTC067435	पैरागॉन इन्वेस्टिगेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1580	U99999DL1995PTC067532	ब्लूमेन फ्लोरा (इंडिया) लिमिटेड.
1581	U99999DL1995PTC067539	त्रम डिस्ट्रिब्यूटर्स लिमिटेड
1582	U74899DL1995PTC067575	शक्ती फ़िन्लीसे प्राईवेट लिमिटेड
1583	U21014DL1995PTC067636	प्वम एन्जीन्यरींग प्राईवेट. लिमिटेड.
1584	U99999DL1995PTC067668	त्रम टायर्स लिमिटेड
1585	U31101DL1995PTC067752	ब्लैंक एमेराल्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.
1586	U31909DL1995PTC067780	यशी इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1587	U22219DL1995PTC067785	मूलटिकोम इंटरक्टिव प्राईवेट. लिमिटेड.
1588	U74899DL1995PTC067973	त्रिशूल सिक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1589	U74899DL1995PTC067977	लीनोक्स प्लंटेशन प्राईवेट लिमिटेड
1590	U35111DL1995PTC067983	सीलीन्क्स मॉरिटाइम (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1591	U99999DL1995PTC068040	शुभम फ़िनकैप प्राईवेट. लिमिटेड.
1592	U51909DL1995PLC068089	कमोडिटीज़ मार्किटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1593	U99999DL1995PTC068174	मेटा मीडिया इंडिका प्राईवेट. लिमिटेड.
1594	U99999DL1995PTC068218	जिंदल ग्लोबल फायनान्स्यल सर्वीसीज़ लिमिटेड.

1595	U99999DL1995PTC068232	रोन्स ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1596	U63040DL1995PTC068257	कोको ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1597	U74899DL1995PTC068284	पोईसे ट्रैवलस प्राईवेट लिमिटेड
1598	U99999DL1995PTC068289	घनश्याम अंग्रो प्राईवेट. लिमिटेड.
1599	U65929DL1995PTC068299	हर्ष लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1600	U99999DL1995PTC068352	वाणीश ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1601	U99999DL1995PTC068407	अग्रो फायनान्स्यल सर्वीसीज़ लिमिटेड.
1602	U63040DL1995PTC068522	रूद्र ट्रेवल जन्कशन प्राईवेट. लिमिटेड.
1603	U24231DL1995PTC068526	रेडी स्टॉक मेडइक्वीप (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1604	U74899DL1995PTC068635	स्टील पेफ़ोराटर्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1605	U99999DL1995PTC068665	एकुइटोरिल सिक्युरिटीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1606	U74899DL1995PTC068683	फ़र होरिज़ोन ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
1607	U67120DL1995PTC068732	छेत्री इन्वेस्टमेंट्स एण्ड सिक्युरिटीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1608	U65923DL1995PTC068755	सुखमणि फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1609	U99999DL1995PTC068790	ऑल स्टेट अंग्रिकल्चर प्राईवेट. लिमिटेड.
1610	U74899DL1995PLC068799	सील फायनान्स लिमिटेड
1611	U72300DL1995PTC068836	सिस्टम्स दातामैटिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1612	U99999DL1995PTC069000	राज राजेश्वरी फ़िन्लीसे लिमिटेड.
1613	U74899DL1995PTC069036	कम्प्यूटर वीला (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1614	U99999DL1995PTC069072	ब्रिनेल सिक्युरिटीज़ लिमिटेड.
1615	U74899DL1995PTC069148	डायमन्ड देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1616	U99999DL1995PTC069149	सुनीला फायनान्स्यल सर्वीसीज़ लिमिटेड.
1617	U74899DL1995PTC069257	सरीन फ़ार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
1618	U74899DL1995PTC069301	अलका इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1619	U74899DL1995PTC069316	अमृत विन्स प्राईवेट लिमिटेड
1620	U74899DL1995PLC069370	एस्कोटर्स टेलीकोम सर्वीसीज़ लिमिटेड
1621	U74899DL1995PTC069398	मेट्रो फ़्रेंड्स एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1622	U27201DL1995PTC069487	जय श्री राम मेंटल इन्डस्ट्रिज़ (पी) लिमिटेड.
1623	U74899DL1995PTC069505	स्टोक्स आर उस प्राईवेट लिमिटेड
1624	U74899DL1995PTC069528	इन्वेक्स फायनान्स्यल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1625	U99999DL1995PTC069561	संसन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1626	U99999DL1995PTC069577	त्रिभुवन क्रेडिट्स लव्ट लिमिटेड
1627	U67120DL1995PTC069578	श्रेष्ठ होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड
1628	U99999DL1995PTC069710	आक्सल स्टॉक ब्रोकरज़ लिमिटेड.
1629	U99999DL1995PTC069816	अब्रेन्ट ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड.
1630	U67120DL1995PTC069843	पंडा सिक्युरिटीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1631	U51102DL1995PTC069870	सुसाजोम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1632	U99999DL1995PTC069881	आंचल एन्टरप्राइसीस (पी) लिमिटेड.

1633	U99999DL1995PTC069882	टच वुड फायनान्सियलसर्वीसीज़ लिमिटेड.
1634	U74899DL1995PTC069916	राजीव मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
1835	U99999DL1995PTC069937	मैगा पॉवर दीसेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1636	U45201DL1995PLC069943	म्या कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
1637	U74899DL1995PTC069988	फ़िनस्टॉक इन्वेस्टमेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1638	U74899DL1995PTC069994	कुंज इन्फॉर्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1639	U99999DL1995PTC070009	जेनेसिस ग्लोबल लिमिटेड.
1640	U74899DL1995PTC070012	बेस्ट कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1641	U74899DL1995PTC070019	बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर प्राईवेट लिमिटेड
1642	U99999DL1995PTC070052	पसुपति सिक्युरिटीज़ लिमिटेड.
1643	U67120DL1995PTC070053	ओरिएन्टल क्रिएशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1644	U33301DL1995PTC070055	नेमेक्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1645	U99999DL1995PTC070202	नानडे कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट, लिमिटेड.
1646	U99999DL1995PTC070209	कुश इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1647	U99999DL1995PTC070252	इस्सो फ़ाब्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1648	U65992DL1995PTC070263	ओम शीव साई चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1649	U63040DL1995PTC070343	एन.आई. एअर ट्रेवल सर्विस प्राईवेट. लिमिटेड.
1650	U99999DL1995PTC070353	कॉन्टिनेन्टल टैक्स प्रिंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1651	U67120DL1995PTC070365	अपार्टमेंट सिक्युरिटीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1652	U74899DL1995PTC070377	पसुपति होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड
1653	U99999DL1995PTC070436	सहगल इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1654	U74899DL1995PTC070536	आर डी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1655	U99999DL1995PTC070583	इंटरस्टार सिक्युरिटीज़ लिमिटेड
1656	U18101DL1995PTC070607	सुंदर अशिता टैक्सटाइल कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
1657	U74899DL1995PTC070629	इल्लिके इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1658	U99999DL1995PTC070668	प्रोम्ट एलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लिमिटेड.
1659	U74899DL1995PTC070681	केअरवेल होलडिंग प्राईवेट लिमिटेड.
1660	U65929DL1995PLC070769	अदिफ़न लीसिंग एण्ड होलडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1661	U74899DL1995PTC070781	गेनुइन बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1662	U31200DL1995PTC070827	इन्फ़्लुक्स इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1663	U47101DL1995PTC070645	ग्रीन व्यु प्रमोटर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1664	U51909DL1995PTC070861	माग्निफ़िक इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1665	U99999DL1995PTC070866	मुकेश सर्फ़ेस ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड.
1666	U74899DL1995PTC071107	एलिस फ़िनकैप प्राईवेट लिमिटेड
1667	U65999DL1995PTC071154	येलो रोज़ फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट. लिमिटेड.
1668	U11101DL1995PTC071170	मोदी लुब्रिकांट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1669	U35301DL1995PTC071307	पेन्च पॉवर सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1670	U22121DL1995PTC071325	सेगमेंट बुक डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.

1671	U18109DL1995PLC071327	पंजाब बोरिंग सेंटर प्राइवेट. लिमिटेड.
1672	U74899DL1995PTC071342	सिटी ओप्टिशीयन्स प्राइवेट लिमिटेड
1673	U99999DL1995PTC071397	इन्च इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1674	U45201DL1995PTC071401	ए.एस. बोल्टड्रॉ प्राइवेट. लिमिटेड.
1675	U99999DL1995PTC071421	आर.आर.बी. प्रोफेशनल सर्विसीज प्राइवेट. लिमिटेड.
1676	U99999DL1995PTC071441	फर्स्ट फ्रॉन्ट होल्दींग्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1677	U31101DL1995PTC071495	सिक्योर पावरटेक प्राइवेट. लिमिटेड.
1678	U99999DL1995PTC071560	ए.बी. लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1679	U99999DL1995PTC071562	रिम्पसन लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1680	U51109DL1995PTC071632	बॉडी बेस्ट अपरेल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1681	U74300DL1995PTC071645	विक्टोरिआ पब्लिसिटी प्राइवेट. लिमिटेड.
1682	U74899DL1995PTC071786	कन्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1683	U18101DL1995PTC071810	देविका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1684	U30007DL1995PTC071836	निले कम्प्यूट्रॉनिक्स कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1685	U99999DL1995PTC071873	एकेस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड.
1686	U51909DL1995PTC071944	सुखमणि ट्रेड एण्ड टूल्स (पी) लिमिटेड.
1687	U67120DL1995PTC072015	कल्म फ्रिन्-वेस्ट प्राइवेट. लिमिटेड.
1688	U99999DL1995PTC072126	केमोमेस ऑर्गानिक्स लिमिटेड.
1689	U99999DL1995PTC072127	केमोमेस एन्जोन्यरींग लिमिटेड.
1690	U99999DL1995PTC072160	वर्टेक्स इन्फोटेक प्राइवेट. लिमिटेड.
1691	U99999DL1995PTC072175	अप्रोआच इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1692	U36999DL1995PTC072208	सुब्रास-असेक (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
1693	U74899DL1995PTC072224	कम इन्वेस्टमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1694	U99999DL1995PTC072248	ब्लुचिप फिन्लोसे प्राइवेट. लिमिटेड.
1695	U51311DL1995PTC072265	टी एम एच मेकॉर्दिसिंह हाऊस प्राइवेट. लिमिटेड.
1696	U60210DL1995PTC072312	त्रितन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड.
1697	U10200DL1995PTC072358	पी एल सन्स कोल सेल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1698	U74899DL1995PTC072374	इश्वर लोसीफिन प्राइवेट लिमिटेड
1699	U74899DL1995PTC072404	राजरथ सोफ्टवेयर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
1700	U51211DL1995PTC072433	इन्कोम ट्रेडिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
1701	U99999DL1995PTC072498	रबकॉन (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
1702	U99999DL1995PTC072502	कम्म ड्रास एजन्सीस प्राइवेट. लिमिटेड.
1703	U99999DL1995PTC072519	शिव शक्ती सर्विसीज प्राइवेट. लिमिटेड.
1704	U99999DL1995PTC072563	पी.एम.सी.बिन्त्स लिमिटेड.
1705	U63013DL1995PTC072700	ओबिल कार्गो प्राइवेट. लिमिटेड.
1706	U99999DL1995PTC072849	अपूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1707	U74899DL1995PTC072875	कोस्टप्लुस विलास प्राइवेट लिमिटेड
1708	U99999DL1995PTC072954	राज सन्हील चिट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1709	U99999DL1995PTC072962	सान्यो फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट. लिमिटेड.
1710	U99999DL1995PTC072967	शगुन लेबोरेटरीस प्राइवेट. लिमिटेड.
1711	U74899DL1995PTC072974	रोशनी रिसोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1712	U99999DL1995PTC073065	मोरस कैमिकल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1713	U32204DL1995PTC073091	शुबकिरण चिट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1714	U63040DL1995PTC073095	रियल टुरीझ्म (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.

1715	U99999DL1995PTC073123	अजंता प्लास्टिक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1716	U99999DL1995PTC073193	अस्सोसिएटेड प्रोपर्टीस प्राइवेट. लिमिटेड.
1717	U73100DL1995PTC073199	राम गंगा सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
1718	U99999DL1995PTC073224	इ.आई. सिक्यूरिटीज प्राइवेट. लिमिटेड.
1719	U99999DL1995PTC073280	कांका फ़िनलीसे लिमिटेड.
1720	U99999DL1995PTC073337	कैलाशपति फायनान्स एण्ड लीसिंग लिमिटेड.
1721	U74899DL1995PTC073357	गोयल सन्स फ़िन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
1722	U67110DL1995PTC073441	जे जी जी पोटफ़ॉलियो प्राइवेट. लिमिटेड.
1723	U65993DL1995PTC073443	कस्तूरी होल्डींग्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1724	U99999DL1995PTC073449	कैलिफ़ोर्निया डिज़ाइन एण्ड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड.
1725	U99999DL1995PTC073475	फ़ुट्टर गोल्ड सिक्यूरिटीज प्राइवेट. लिमिटेड.
1726	U70101DL1995PTC073485	भीकानी देवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड.
1727	U70101DL1995PTC073487	भीकानी प्रॉमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड.
1728	U99999DL1995PTC073498	द्वारकेश मुटु आल वर्निफ़िट कम्पनी लिमिटेड
1729	U99999DL1995PTC073580	इंटरग्राफ़ एक्सपोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1730	U74899DL1995PTC073638	एम-रामन मैचम प्राइवेट लिमिटेड
1731	U74899DL1995PLC073663	कमानो फ़िनलीसेम एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड.
1732	U99999DL1995PTC073666	म्स फायनान्सियल सर्विसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
1733	U99999DL1995PTC073785	आर.जे. होटल्स लिमिटेड.
1734	U99999DL1995PTC074050	बिगावेसा लीनी हेल्थकेअर (इंडिया) लिमिटेड
1735	U32109DL1995PTC074078	लामेस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1736	U99999DL1995PTC074104	सनाती संप्रटी इन्वोपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1737	U74899DL1995PTC074114	इन्वोर्टेक् इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1738	U51311DL1995PTC074160	स्तिलींग-कूपर अपरेल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1739	U70101DL1995PTC074192	रेगलेंट इस्टेट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1740	U74899DL1995PTC074218	सणहली फ़्लोरिनेक प्राइवेट लिमिटेड
1741	U92111DL1995PTC074251	अमलीन सिनग्राफ़िक्स इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
1742	U74899DL1995PTC074267	एब एक्सिम्को प्राइवेट लिमिटेड
1743	U74899DL1995PTC074275	रेबेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
1744	U99999DL1995PTC074298	टी.सी.जी. पावर लिमिटेड.
1745	U74899DL1995PTC074306	कन्हा ग्रीन फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1746	U74899DL1995PLC074352	रैमुस टेलीस्टडियोस लिमिटेड
1747	U74899DL1995PTC074377	शिवाली फ़्लोरा प्राइवेट लिमिटेड
1748	U99999DL1995PTC074402	सुतेक इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
1749	U99999DL1995PTC074430	इम इंडिया लिमिटेड.
1750	U63013DL1995PTC074494	ओनवे एक्सप्रेस प्राइवेट. लिमिटेड.
1751	U74899DL1995PTC074500	नोईसेकोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1752	U65992DL1995PTC074506	अकान्शा चिट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1753	U99999DL1995PTC074513	रस्तोगी फ़िन्सेक प्राइवेट लिमिटेड
1754	U74920DL1995PTC074600	पोइसे सिक्यूरिटी कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1755	U99999DL1995PTC074665	पेलिकन कम्प्युनिकेशन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1756	U99999DL1995PTC074677	संग फ़्रोइड फायनान्सियल सर्विसीज़ पी.लिमिटेड.
1757	U99999DL1995PTC074694	अनमोल देवेलोपर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1758	U74899DL1995PTC074777	स्टीलेश अंडवटॉयजिंग एण्ड मार्केटिंग सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड



1759	U99999DL1995PTC074802	स्मिथ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
1760	U74899DL1995PTC074806	ज्व लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड
1761	U99999DL1995PTC074809	ओजल कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1762	U74899DL1995PTC074866	ताजपुरिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1763	U99999DL1995PTC074878	केप प्रोमोटर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1764	U74899DL1995PTC074979	ताजपुरिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1765	U63022DL1995PTC075011	परमानंद कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
1766	U31200DL1996PTC075097	मोडलेक कन्ट्रोल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1767	U65910DL1996PTC075135	ताजपुरिया फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड
1768	U99999DL1996PTC075142	कावेरी गंगा फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
1769	U24246DL1996PTC075151	एक्स नतुरे केअर प्राइवेट लिमिटेड
1770	U99999DL1996PTC075166	बी पी हॉटिकल्चर एण्ड अग्रो डेवलपमेंट लिमिटेड.
1771	U99999DL1996PTC075173	रेने एडुकेटर्स एण्ड कोन्वोइंग सिस्टम प्राइवेट. लिमिटेड.
1772	U99999DL1996PTC075177	ऑल अलुमिनीऊम अलॉयस कास्टिंग्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1773	U51909DL1996PTC075191	सिधल मल्टीसर्वीसोइज प्राइवेट. लिमिटेड.
1774	U99999DL1996PTC075239	जगतौ सिक्यूरिटीज प्राइवेट. लिमिटेड.
1775	U21012DL1996PLC075247	जीवन मीडिया इंडिया लिमिटेड.
1778	U99999DL1996PTC075263	ट्रेडमान (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1777	U24139DL1996PTC075264	सकुरा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1778	U51505DL1996PTC075302	लिआंत इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1779	U67120DL1996PTC075304	एल.डी.जी. होल्दींग्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1780	U99999DL1996PTC075339	गोल्डक्रॉप सिक्यूरिटीज प्राइवेट. लिमिटेड.
1781	U99999DL1996PTC075346	सन्वेरी रील्टर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1782	U99999DL1996PTC075355	आर्यन मोल्दींग्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1783	U99999DL1996PTC075441	यंग क्लड फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड
1784	U99999DL1996PTC075451	ज्वक तापेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1785	U99999DL1996PTC075527	तुला सिक्यूरिटीज प्राइवेट. लिमिटेड.
1786	U99999DL1996PTC075549	संदेश कन्ट्रोल्स एण्ड सिस्टम्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1787	U99999DL1996PTC075564	शीन्कोम इन्फोटेक प्राइवेट. लिमिटेड.
1788	U99999DL1996PTC075575	मंगा पेंट टेक्नोलोजीस प्राइवेट. लिमिटेड.
1789	U65910DL1996PLC075588	सीन्थुजा फिन्लीसे इंडिया लिमिटेड.
1790	U99999DL1996PTC075678	सुनार्क डेवलपर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1791	U99999DL1996PTC075693	सत्यावल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1792	U01119DL1996PLC075696	स्वड फ्लॉरिटेक लिमिटेड.
1793	U60231DL1996PTC075699	सनराइज फ्रेट लोनकर्स प्राइवेट लिमिटेड
1794	U99999DL1996PTC075733	अन गो फार्मा को. प्राइवेट. लिमिटेड.
1795	U65910DL1996PLC075734	सनस्टार फायनान्सियल सर्वीसोइज लिमिटेड.
1796	U99999DL1996PTC075741	श्रीयन्स इम्पेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1797	U99999DL1996PTC075743	माइक्रो मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
1798	U99999DL1996PTC075759	कृतिका अपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड.
1799	U99999DL1996PTC075762	शम्मी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1800	U99999DL1996PTC075763	दीवान चांद अस्सोसिएट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
1801	U99999DL1996PTC075765	सनम लेबल्स प्राइवेट लिमिटेड.
1802	U65910DL1996PTC075790	अन्नपूर्णा फिन्लीसिंग प्राइवेट लिमिटेड

1803	U70101DL1996PTC075795	वराइटी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1804	U29303DL1996PTC075813	डी पी एरोन प्राईवेट लिमिटेड
1805	U99999DL1996PTC075860	निखंज फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1806	U99999DL1996PTC075876	मल्टि रियल इस्टेट डेवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1807	U99999DL1996PTC075887	एन.बी. ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1808	U99999DL1996PTC076040	विन-डब कम्प्यूटर सॉल्यूशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1809	U99999DL1996PTC076075	सती प्लेटेशन प्राईवेट लिमिटेड
1810	U99999DL1996PTC076115	बिदुमेन एमूलेशन मैन्युफ्रेक्चरर्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1811	U74090DL1996PTC076155	आरिजोना अंडवॉटरजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1812	U99999DL1996PTC076162	शोफ्रा टेक्नोलॉजी प्राईवेट. लिमिटेड.
1813	U52311DL1996PLC076187	एक्स्टोल (इंडिया) लिमिटेड
1814	U99999DL1996PTC076274	पारसिव कन्ट्रोल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1815	U99999DL1996PTC076276	प्लायटिमे क्रिएशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1816	U67120DL1996PTC076332	जे जे स्टॉकफ्रिन प्राईवेट लिमिटेड
1817	U99999DL1996PTC076361	स्टिक फ्रिन्वेस्ट लिमिटेड.
1818	U99999DL1996PTC076406	मोरे सिक्युरिटीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1819	U52322DL1996PLC076423	लोटस फिलामेंट्स लिमिटेड.
1820	U01122DL1996PLC076464	प्रुडेंट रिसोर्ट्स एण्ड फ्लोरीएस्टाट्स लिमिटेड.
1821	U36911DL1996PTC076468	बी के ज्यूएलर्स पॉइंट प्राईवेट लिमिटेड
1822	U99999DL1996PTC076512	प्रजत फायनान्स एण्ड लीसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1823	U74999DL1996PTC076518	वैली स्मेल्टर्स एण्ड रेफ्रिजर्स प्राईवेट लिमिटेड
1824	U99999DL1996PTC076543	पेरीग्रिन टूल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1825	U99999DL1996PTC076599	फोरमोस्ट कम्प्यूटर टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
1826	U99999DL1996PTC076635	स्वक एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1827	U99999DL1996PTC076643	सेवक अपार्टमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1828	U51397DL1996PTC076680	अनूपराव इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
1829	U74899DL1996PTC076720	कप्स फ्रिन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
1830	U65992DL1996PTC076730	लाजवंती चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
1831	U99999DL1996PTC076760	न्वम गौगैस प्राईवेट. लिमिटेड.
1832	U52335DL1996PLC076824	आरम्को इंडिया लिमिटेड.
1833	U99999DL1996PTC076858	अमन डेरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1834	U99999DL1996PTC076864	दी के तेलकन्सल्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
1835	U99999DL1996PTC076875	तनेजा सन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1836	U99999DL1996PTC076938	संग फ्रोइड इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1837	U65922DL1996PLC077026	इम्पीरियल बील्डकॉन लिमिटेड.
1838	U99999DL1996PTC077029	सबरवाल होस्पिटैलिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1839	U51909DL1996PTC077075	एन के भार्गव एण्ड कम्पनी प्रिवाटेड लिमिटेड
1840	U51505DL1996PTC077083	अन्सीन्ट टेक्नो क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
1841	U55101DL1996PTC077132	आराम रिसोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1842	U99999DL1996PTC077140	सर्कल पॉइंट न्यूसिस्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1843	U65992DL1996PTC077150	टिदल चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
1844	U99999DL1996PTC077196	टिम्स एज्युकेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
1845	U51909DL1996PTC077207	कटल्स एक्सपोर्ट्स एण्ड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1846	U92990DL1996PTC077220	विजयन कन्नमपिल्ली प्राईवेट लिमिटेड

1847	U99999DL1996PTC077266	ब्रस होल्दींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1848	U65921DL1996PTC077275	शिवांगी कंपिटल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1849	U01117DL1996PTC077314	राजधानी प्लंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1850	U36911DL1996PTC077323	अग्रवाल आर्ट जेवेल प्राईवेट लिमिटेड
1851	U99999DL1996PTC077353	ब्लैक कैट कम्प्यूटर सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1852	U99999DL1996PTC077416	युनाईटेड इंडिया ऑग्रोकेम प्राईवेट. लिमिटेड.
1853	U99999DL1996PTC077417	युनाईटेड इंडिया बील्ड-कॉन प्राईवेट. लिमिटेड.
1854	U15419DL1996PLC077422	जयहिन्द फ़ूड एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स लिमिटेड.
1855	U25209DL1996PTC077465	पी पी एम एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
1856	U65923DL1996PTC077474	तनेजा फ़िन्लीसे प्राईवेट लिमिटेड
1857	U99999DL1996PTC077488	परटेक वीज़न इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1858	U99999DL1996PTC077496	पोलिग्न स्टेप्न फ़िन्लीसे प्राईवेट लिमिटेड.
1859	U65921DL1996PLC077554	फ़ोरेकास्ट फायनान्सियल मैनेजमेन्ट लिमिटेड.
1860	U99999DL1996PTC077585	सुदिती फायनान्स एण्ड लीसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1861	U99999DL1996PTC077592	न्टम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1862	U99999DL1996PTC077594	अंकित फ़िन्लीसे प्राईवेट. लिमिटेड.
1863	U99999DL1996PTC077822	महादेव फ़िन्लीसे प्राईवेट. लिमिटेड.
1864	U32204DL1996PLC077842	इन्लेब टेलीकोम लिमिटेड
1865	U70101DL1996PTC077861	कोन्नेक्स बील्डींग एण्ड एन्जीन्यरींग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1866	U99999DL1996PTC077874	सेस एण्ड चीरन प्राईवेट. लिमिटेड.
1867	U99999DL1996PTC077917	राम्पुशप्लोन प्राईवेट. लिमिटेड.
1868	U99999DL1996PTC077940	प्रशांत हाऊसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1869	U99999DL1996PTC077949	हार्ड वुड प्लंटेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1870	U99999DL1996PTC077958	रा कॉर्पोरेट सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1871	U99999DL1996PTC077990	मुद्रा ट्रेवल प्राईवेट. लिमिटेड.
1872	U99999DL1996PTC078018	नामी अँक्वा फ़ूडकेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1873	U99999DL1996PTC078046	आकृति इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1874	U99999DL1996PTC078052	ऊमेस्नेह लीसिंग एण्ड क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1875	U99999DL1996PTC078085	तनेजा चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1876	U32305DL1996PTC078097	ब्लूमिंग दाल्स म्यूझिक प्राईवेट लिमिटेड
1877	U99999DL1996PTC078099	ब्लूमिंग दाल्स कोटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1878	U00000DL1996PTC078125	ट्रेज़र चेस्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1879	U99999DL1996PTC078204	पासिफ़िक एअरकॉन प्राईवेट. लिमिटेड.
1880	U99999DL1996PTC078208	करम चांद चुनी लाल ज्यूएलज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1881	U99999DL1996PTC078215	मनचंदा इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1882	U99999DL1996PTC078307	रिसिह स्टार लैंड देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड.
1883	U99999DL1996PTC078320	निवास अँग्रो एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड.
1884	U51224DL1996PTC078372	राजधानी हाऊस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1885	U01122DL1996PTC078415	राजधानी प्रलोरिटेक प्राईवेट लिमिटेड
1886	U51909DL1996PTC078420	अबले नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
1887	U99999DL1996PTC078433	राजधानी इन्डोफ़ूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1888	U99999DL1996PTC078600	आस्ट्रल तेले फ़ोन्डेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
1889	U99999DL1996PTC078622	पृथ्वी प्राकृती इस्टेट्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1890	U99999DL1996PTC078632	हेड्रेक इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टन्ट्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.

1891	U99999DL1996PTC078633	सविता ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1892	U99999DL1996PTC078642	टोटल टेलीकोम (आई) प्राईवेट. लिमिटेड.
1893	U99999DL1996PTC078690	सामीशा फ़िन्वेस्ट लिमिटेड.
1894	U99999DL1996PTC078793	कडक टेक्नोक्रेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1895	U99999DL1996PTC078800	ऑनिकस ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1896	U99999DL1996PTC078802	अब्सोल्यूट फ़िनकैप प्राईवेट. लिमिटेड.
1897	U99999DL1996PTC078806	वेल कनौन फ़िन्वेस्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
1898	U99999DL1996PTC078816	वक्सोन अंग्रो कैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1899	U33112DL1996PTC078929	जुकरक्स फ़र्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1900	U99999DL1996PTC078974	अप्रल ट्रेवल्स एण्ड टूरस प्राईवेट. लिमिटेड.
1901	U99999DL1996PTC078991	संकेत फ़िन्लीसीन एण्ड मार्केटिंग लिमिटेड.
1902	U85110DL1996PLC079001	आस्त्रोन लेबोरेटोरिस लिमिटेड
1903	U99999DL1996PTC079091	जे.डी. ब्रधर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1904	U99999DL1996PTC079098	कोड इंडिया सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1905	U99999DL1996PTC079147	सन्चसेर ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1906	U67120DL1996PTC079243	पहूजा पार्थ होल्डींग्स प्राईवेट लिमिटेड
1907	U99999DL1996PTC079269	युनाईटेड इंडिया ट्रेक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
1908	U99999DL1996PTC079313	साहिबजी बेरिंग्स कम्पनी (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1909	U99999DL1996PTC079376	तान्या तीन कोन्तायनर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1910	U99999DL1996PTC079420	साउथ टाउन बील्डर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1911	U27106DL1996PTC079478	श्री धारी स्टील रोलिंग मील्स प्राईवेट लिमिटेड
1912	U99999DL1996PTC079571	फ़ेड्स फ़िल्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1913	U99999DL1996PTC079760	मेरीगोल्ड लैंड देवेलोपर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1914	U99999DL1996PTC079769	श्रेमन अंग्रो फ़ाम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1915	U99999DL1996PTC079830	स्टान्डर्ड बुक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1916	U99999DL1996PTC079843	दीनान्क फायनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1917	U99999DL1996PTC079988	युनाईटेड इंडिया रिसोर्ट्स एण्ड क्लब्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1918	U99999DL1996PTC080004	अमसन्स डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1919	U99999DL1996PTC080031	अस नेट्कोम नेतवर्क्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1920	U99999DL1996PTC080064	सचदेव कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1921	U99999DL1996PTC080115	शिवानी ट्रेड लीन्क्स प्राईवेट लिमिटेड
1922	U63040DL1996PTC080205	लेक्सुस ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
1923	U99999DL1996PTC080251	न्यू जंता कैरिअर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1924	U99999DL1996PTC080263	कन्सोर्टीअम होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1925	U99999DL1996PTC080264	आस्ट्रा एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड
1926	U99999DL1996PTC080265	राधा कर्ना चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1927	U67120DL1996PTC080293	एसकवायर फ़िनकैप प्राईवेट लिमिटेड
1928	U99999DL1996PTC080302	पैटल एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड.
1929	U99999DL1996PTC080335	प्ब प्लंटेरान्स लिमिटेड.
1930	U99999DL1996PTC080350	इंटरनेट फायनान्सियल सर्वीसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1931	U64202DL1996PTC080377	क्लोबल्स्टार इंडिया सेंटलाईट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
1932	U99999DL1996PTC080379	अबकस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1933	U99999DL1996PTC080442	इन्सेस्सांत एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1934	U99999DL1996PTC080467	लाईफटाईम हाऊसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.

1935	U99999DL1996PTC080475	लाईफ्टाईम ग्रीन (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1936	U99999DL1996PTC080480	डेनिम ऑटोमोबाइल इन्डस्ट्रिज प्राईवेट. लिमिटेड.
1937	U99999DL1996PTC080484	आर्च ट्रेडिंग को प्राईवेट लिमिटेड
1938	U99999DL1996PTC080625	अटन फ़िन्वेस्ट (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1939	U63031DL1996PTC080663	बाबा रोड कॅरिअर प्राईवेट लिमिटेड
1940	U99999DL1996PTC080774	आर्यव्रता इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1941	U99999DL1996PTC080827	नायर अंग्रो रीप प्राईवेट. लिमिटेड.
1942	U99999DL1996PTC080847	युनाइटेड होस्पीटैलिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1943	U99999DL1996PTC080901	हिमालय रील्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1944	U74300DL1996PTC080958	एन्कम्पास्स प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1945	U74899DL1996PTC080971	एरोबे मेदीकेअर प्राईवेट लिमिटेड
1946	U99999DL1996PTC081014	अनन्य ऑर्गानिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1947	U67110DL1996PTC081057	एम्प्लोयी दाता कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
1948	U99999DL1996PTC081059	पुरी इंटरनेशनल (बॉम्बे) प्राईवेट. लिमिटेड.
1949	U99999DL1996PTC081202	लाईफ्टाईम स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड.
1950	U99999DL1996PTC081203	लाईफ्टाईम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
1951	U99999DL1996PTC081252	वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1952	U51909DL1996PTC081268	सोना इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1953	U31909DL1996PTC081269	इन्फो पॉवर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1954	U51909DL1996PTC081270	दाता एण्ड पॉवर (आई) प्राईवेट लिमिटेड
1955	U99999DL1996PTC081279	पी आर वायर्स एण्ड केबल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1956	U99999DL1996PTC081285	स्टार टेक प्राईवेट लिमिटेड
1957	U64201DL1996PTC081289	पेसेर सल्लोरा लीटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
1958	U99999DL1996PTC081301	संभव स्टील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1959	U99999DL1996PTC081361	महमा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1960	U99999DL1996PTC081411	रोशिनि पोर्टफ़ोलियोस प्राईवेट. लिमिटेड.
1961	U99999DL1996PTC081454	डी एण्ड आर ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1962	U99999DL1996PTC081471	दिल्ली पोलुशन कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
1963	U01111DL1996PLC081510	जी प्लेटेशन्स लिमिटेड
1964	U99999DL1996PTC081512	ट्व मीडिया (इंडिया) सुब्बा प्राईवेट लिमिटेड.
1965	U62100DL1996PLC081589	रीलैक्स इन फ़िल्ट्र लिमिटेड
1966	U99999DL1996PTC081647	निसाग फ़ायर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1967	U99999DL1996PTC081653	खुराना एस्टीम एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1968	U99999DL1996PTC081672	एक्स-कालिबर कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1969	U99999DL1996PTC081809	ब्रश एण्ड वूड्स मल्टी मोडे पब्लिसिटी प्राईवेट लिमिटेड
1970	U65910DL1996PTC081814	टी एल लीसिंग एण्ड फ़ायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
1971	U25209DL1996PTC081914	गूडविल प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
1972	U24239DL1996PTC081943	देवभूमि हेबल्स प्राईवेट लीमिटेड
1973	U74140DL1996PLC081978	मैनेजमेंट पीपल (इंडिया) लिमिटेड
1974	U99999DL1996PTC081984	जयशिव मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड
1975	U99999DL1996PTC082154	लोटस ताब्लेवारे प्राईवेट लिमिटेड
1978	U99999DL1996PTC082210	अमिगो एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड.
1977	U51109DL1996PLC082226	शक्ती सन्स मर्चेंडिस लिमिटेड.
1978	U99999DL1996PTC082232	ऋषि अयुर ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड

1979	U01111DL1996PLC082296	कृष्ण फ़्लोरितेक लिमिटेड
1980	U99999DL1996PTC082361	मैक्सवर्थ मेकॉलिल प्राइवेट लिमिटेड
1981	U99999DL1996PTC082387	मैडिटेरानीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1982	U99999DL1996PTC082401	आसरा फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड.
1983	U99999DL1996PTC082481	सोनाली बील्डिग प्राइवेट लिमिटेड
1984	U99999DL1996PTC082483	अक्वाटेक इंटरनेशनल लिमिटेड
1985	U99999DL1996PTC082500	अभीवादन इम्पेक्स एण्ड ट्रेडिग लिमिटेड.
1986	U45207DL1996PLC082550	ओम्पेक इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
1987	U99999DL1996PTC082552	रामन ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1988	U99999DL1996PTC082610	अश्विनी ट्रेडिग प्राइवेट लिमिटेड
1989	U74300DL1996PTC082612	क्रोटिव रूट्स प्राइवेट लिमिटेड
1990	U99999DL1996PTC082618	पल्लवी हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड.
1991	U51311DL1996PTC082757	नोईदा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1992	U32109DL1996PLC082830	अमी इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रासिफिक) लिमिटेड
1993	U25209DL1996PTC082984	पसोल इलेक्ट्रो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
1994	U99999DL1996PTC083075	ह्यून्डे पॉवर इंडिया लिमिटेड
1995	U74210DL1996PTC083101	स्वव कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1996	U74140DL1996PTC083159	स्ना औत सौकिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1997	U99999DL1996PTC083319	कामाक्षी लामिनाट्स प्राइवेट लिमिटेड.
1998	U99999DL1996PTC083345	राधा कृपा होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड
1999	U74995DL1996PLC083366	कस्टमर कम्युनिकेशन सर्वीसीज़ लिमिटेड
2000	U99999DL1996PTC083424	श्रव कन्सल्टंट प्राइवेट लिमिटेड
2001	U52520DL1996PLC083466	प्रधान प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग लिमिटेड
2002	U99999DL1996PTC083479	पूजाज्योत इंजीनियर्स एण्ड बील्डिग प्राइवेट लिमिटेड.
2003	U99999DL1996PTC083481	प्रधान मुद्रा आल बेनिफिट्स लिमिटेड
2004	U34300DL1996PTC083516	लक्ष्मी मीलेनीयम प्राइवेट लिमिटेड
2005	U55101DL1996PLC083528	प्रधान टूरीज़म एण्ड रिसोर्ट्स देवलपमेन्ट लिमिटेड
2006	U67120DL1996PTC083678	बृजवासी फ़िनकैप सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2007	U51311DL1996PLC083688	सनर्मा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड.
2008	U74999DL1996PTC083693	स्केनदिया कन्सल्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2009	U99999DL1996PTC083698	औरोविले इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2010	U65923DL1996PTC083725	रोहीन्या फ़िन्वेस्ट एण्ड लीसे प्राइवेट लिमिटेड
2011	U63040DL1996PTC083800	वरुण इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2012	U63102DL1996PTC083839	अनापूरन कार्गो मोवज़ प्राइवेट लिमिटेड
2013	U99999DL1996PTC083842	पापिरुस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
2014	U99999DL1996PTC083860	कृष्णशीश फ़िनान्सिज़ प्राइवेट लिमिटेड
2015	U99999DL1996PTC083864	आभाशीश फ़िनान्सिज़ प्राइवेट लिमिटेड
2016	U50300DL1996PTC083922	जय बाबा रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
2017	U99999DL1996PTC083925	मोनार्क फ़िन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
2018	U99999DL1996PTC083928	संधू स्क्वटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2019	U99999DL1996PTC083974	परयस टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
2020	U99999DL1996PTC084038	स्पीडेक्स फ़ार्म्स प्राइवेट लिमिटेड.
2021	U99999DL1996PTC084093	सी.सी.पी. ईस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
2022	U99999DL1996PTC084100	कर्मा हाऊसिंग एण्ड बील्डिंग (पी) लिमिटेड.

2023	U99999DL1997PTC084172	अम्स ओवरसीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड.
2024	U99999DL1997PTC084175	परम इन्फोटेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
2025	U99999DL1997PTC084176	यू-लिके टूवल्स एण्ड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
2026	U99999DL1997PTC084255	जगुआर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड.
2027	U99999DL1997PTC084300	ओवल डीज़ाईन्स प्राइवेट लिमिटेड
2028	U99999DL1997PTC084344	सेल फ़ोने हीरे कम्पनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2029	U99999DL1997PTC084351	कृषनवतूर लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड.
2030	U36104DL1997PTC084490	मैक्सिम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2031	U99999DL1997PTC084539	बीनर टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2032	U18101DL1997PTC084595	सनया फ़ेशन्स प्राइवेट लिमिटेड.
2033	U99999DL1997PTC084598	कार्तिकय इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2034	U65921DL1997PLC084684	कोज़ी फ़िन्लीसे लिमिटेड.
2035	U74999DL1997PTC084812	एक्सीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
2036	U26941DL1997PLC084826	पान्जिम सिमेंट लिमिटेड
2037	U99999DL1997PTC084827	फ़र्स्ट लैंडर प्राइवेट लिमिटेड
2038	U99999DL1997PTC084889	मैपल मैनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2039	U99999DL1997PTC084927	ए-ओने आईल मील्ल्स (पी) लिमिटेड.
2040	U67190DL1997PLC084936	द्विस्ती फायनान्स लिमिटेड
2041	U99999DL1997PTC085051	जम्ब्रो फ़िन्लीसे (पी) लिमिटेड.
2042	U99999DL1997PTC085145	रूस्स्की डीजल मंगापावर प्राइवेट लिमिटेड
2043	U51109DL1997PTC085158	मार्वेलौस मार्केटिंग एण्ड अंडवटायजिंग प्राइवेट लिमिटेड
2044	U29113DL1997PTC085196	स्ती-स्पेशियल टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड.
2045	U99999DL1997PTC085209	मॉडयुलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
2046	U99999DL1997PTC085247	एम.एम. टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2047	U99999DL1997PTC085285	डी.के. सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2048	U65993DL1997PTC085317	वर्दमन होल्डिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2049	U99999DL1997PTC085432	तन्विन एन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड
2050	U99999DL1997PTC085547	ज्सी सिक्यूरिटी एण्ड सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2051	U99999DL1997PTC085550	तेज बंधु फ़ार्म्स प्राइवेट लिमिटेड.
2052	U99999DL1997PTC085589	राज शॉर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड.
2053	U99999DL1997PTC085628	श्री दुर्गा कॅरिअर्स (पी) लिमिटेड.
2054	U67120DL1997PTC085632	ग्रीवी सिक्यूरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2055	U36992DL1997PTC085641	के राजपाल फ़ास्टनर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
2056	U99999DL1997PTC085687	आरिसिस ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
2057	U99999DL1997PTC085694	आस्था फूड्स प्राइवेट लिमिटेड.
2058	U99999DL1997PTC085719	मल्लिका देवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड.
2059	U99999DL1997PTC085720	तुलीका प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड.
2060	U99999DL1997PTC085818	मेट्रिक्स रेसोर्सीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.
2061	U99999DL1997PTC085858	पुष्प एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.
2062	U99999DL1997PTC085876	एम.डी. फ़िन्लीसे प्राइवेट लिमिटेड
2063	U92199DL1997PTC085959	एवंट मैनेजमेन्ट कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2064	U67120DL1997PLC085968	श्रीजी फ़िनकॅप लिमिटेड
2065	U36911DL1997PLC086048	इन्डो स्टोन लिमिटेड
2066	U99999DL1997PTC086054	ब्लैक चॅनेल कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.

2067	U99999DL1997PTC086108	अग्रवाल एक्सक्लुजिव स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड
2068	U99999DL1997PTC086128	अॅक्शन पॉलीमर सण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2069	U65993DL1997PTC086168	बेनग्रैंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लीमीटेड
2070	U51909DL1997PTC086238	हाई स्काई ट्रेड लिन्क्स प्राइवेट लीमिटेड
2071	U99999DL1997PTC086292	गेनीऊस मेकैन्टिल प्राइवेट लिमिटेड
2072	U99999DL1997PTC086346	टोप्स एअर एण्ड सी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2073	U99999DL1997PTC086362	अहुजा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड.
2074	U99999DL1997PTC086383	मॅक्सकॉर्प फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड.
2075	U99999DL1997PTC086409	अरोड़ा सेल्युलर प्राइवेट लिमिटेड
2076	U99999DL1997PTC086500	चौधरी कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2077	U99999DL1997PTC086502	पिरामिड म्यूज़िक (पी) लिमिटेड.
2078	U99999DL1997PTC086517	एनल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2079	U99999DL1997PTC086523	अभिषेक कोन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड.
2080	U31102DL1997PTC086604	हएसूना इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2081	U99999DL1997PTC086625	डी.सी. वरुल्ट्स (पी) लिमिटेड.
2082	U99999DL1997PTC086675	एकुइनोक्स इन्फ़ोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
2083	U99999DL1997PTC086676	इन्डो टेक लिमिटेड
2084	U65922DL1997PTC086790	क्वम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2085	U01121DL1997PTC086844	एंबार्क अंग्रो प्राइवेट लिमिटेड
2086	U24231DL1997PLC086972	अपिकल टेक्नोलोजीस लिमिटेड
2087	U99999DL1997PTC087008	रेदीऊम शुस प्राइवेट लिमिटेड.
2088	U99999DL1997PTC087103	श्री बालाजी मेडिकोस प्राइवेट लिमिटेड.
2089	U51102DL1997PTC087127	मॅरी एन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड
2090	U99999DL1997PTC087220	सूमंग मॅनुफ़ेक्चरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2091	U55101DL1997PTC087277	अहिंसा रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2092	U99999DL1997PTC087322	ब्व नेटवर्क इन्वोवेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड.
2093	U99999DL1997PTC087334	पावणीत फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड
2094	U99999DL1997PTC087349	टी एस वी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2095	U99999DL1997PTC087442	क्जेन वेब मास्टर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
2096	U24119DL1997PTC087459	समेक्स पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड.
2097	U99999DL1997PTC087467	स्टाईलेक्स क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड.
2098	U45205DL1997PTC087596	कापसन्स बील्डर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
2099	U30007DL1997PTC087599	इक्क्स इन्फ़ोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
2100	U18101DL1997PTC087626	मणीत एन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड
2101	U99999DL1997PTC087686	न्यू वीज़न एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
2102	U99999DL1997PTC087696	एच.पी. बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड
2103	U99999DL1997PTC087723	ब्रोडकास्ट टेक्नोलोजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.
2104	U99999DL1997PTC087826	वे डिज़ाईन प्राइवेट लिमिटेड
2105	U99999DL1997PTC087831	प्रिड फर्मसटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2106	U99999DL1997PTC087971	अनुभव कन्सेप्शनेस प्राइवेट लिमिटेड
2107	U99999DL1997PTC088072	देल्वे कम्प्यूटर अॅकडेमी प्राइवेट लिमिटेड
2108	U99999DL1997PTC088077	संटेक सिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
2109	U51909DL1997PTC088091	वीरगोस ट्रेड लिन्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2110	U99999DL1997PTC088108	जीत पैंट्स प्राइवेट लीमीटेड.



2111	U99999DL1997PTC088116	ट्रोजन कम्प्यूटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2112	U99999DL1997PTC088127	प्राग होटल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2113	U99999DL1997PTC088131	प्रम ज्व होल्दींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2114	U99999DL1997PTC088169	फ्रॉस्टएअर प्राईवेट. लिमिटेड.
2115	U99999DL1997PTC088287	नंदा सेन्धरी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2116	U99999DL1997PTC088322	ए.एस.फ्रास्टनर्ज (पी) लिमिटेड.
2117	U99999DL1997PTC088352	पिक-पेक पॅकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
2118	U99999DL1997PTC088356	जन्ड फ्रिन्लीसे प्राईवेट लिमिटेड
2119	U99999DL1997PTC088382	रीगल फायर वक्स प्राईवेट लिमिटेड
2120	U99999DL1997PTC088525	एम.एन. सूरवीएर सर्विस प्राईवेट. लिमिटेड.
2121	U99999DL1997PTC088571	रोमा इंटाब्ल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2122	U01122DL1997PLC088577	सिद्धार्थ फूट प्रोसेस्सिंग लिमिटेड.
2123	U99999DL1997PTC088619	फुटूरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेटलिमिटेड
2124	U24231DL1997PLC088708	आस्टीम फार्मासटिकल (इंडिया) लिमिटेड
2125	U99999DL1997PTC088729	ब्रथर्ज प्रिंटर एण्ड पुब्लिशर्ज प्राईवेट लिमिटेड
2126	U99999DL1997PTC088740	रेमदी रिसोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2127	U99999DL1997PTC088774	टिमेक्स शॉर सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2128	U99999DL1997PTC088799	क्लब हिमालय प्राईवेट लिमिटेड
2129	U67190DL1997PLC088807	राजाभीशेक फायनान्स लिमिटेड
2130	U55101DL1997PLC088836	वल्डवाइंड होलिडेस लिमिटेड.
2131	U99999DL1997PTC088906	विलसन आर्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2132	U99999DL1997PTC088916	वर्डन एअर ट्रेवलस प्राईवेट. लिमिटेड.
2133	U18101DL1997PTC088936	अँक्वेरिअस नरराव फ्रैन्चिज प्राईवेट लिमिटेड
2134	U70102DL1997PTC089043	मग्मा प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
2135	U99999DL1997PTC089065	रुन्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2136	U99999DL1997PTC089079	आरोस हैर मॅजिक (पी) लिमिटेड.
2137	U99999DL1997PTC089082	आरोस मॅजिक एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड.
2138	U51105DL1997PTC089128	सिने विडिओ पावर प्राईवेट लिमिटेड
2139	U99999DL1997PTC089221	स्लम सिक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2140	U99999DL1997PTC089243	आई.एस.एस. फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
2141	U65993DL1997PTC089246	गुरदयाल फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2142	U99999DL1997PTC089256	एप एन्जीन्यरींग प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2143	U67190DL1997PTC089275	फेअर व्यु कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2144	U99999DL1997PTC089291	मास्टर फ़ोर्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2145	U80302DL1997PTC089349	सविता कम्प्यूटर एप्लिकेशन एण्ड टेक्नोलोजी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2146	U29130DL1997PLC089370	स्मक स्टीरिंग सिस्टम्स लिमिटेड.
2147	U99999DL1997PTC089417	फायनान्स लीनकर्ज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2148	U99999DL1997PTC089450	डी.ओ. प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2149	U99999DL1997PTC089497	ला कॅरिअर्स (पी) लिमिटेड.
2150	U99999DL1997PTC089509	समधन पावरट्रॉनिक्स पी लिमिटेड.
2151	U99999DL1997PTC089510	रुन्स कम्पोनेंट्स प्राईवेटलिमिटेड
2152	U99999DL1997PTC089534	म्बस. एनजी (पी) लिमिटेड.
2153	U41505DL1997PLC089615	युरोईंडिया एनजी लिमिटेड
2154	U99999DL1997PTC089625	हुकम चांद गुप्ता प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड

2155	U72200DL1997PLC089776	विद्मोल प्रशा लिमिटेड
2156	U01122DL1997PLC089803	लेम्बल प्लेटेशन लिमिटेड.
2157	U99999DL1997PTC089829	अनुशका बील्डजं एण्ड देवेलोपजं प्राईवेट लिमिटेड
2158	U72200DL1997PTC089830	क्वेम ग्राफिक्स प्राईवेट. लिमिटेड
2159	U74899DL1997PTC089846	आर्टवक्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
2160	U99999DL1997PTC089851	गेनीऊस टोय्स एण्ड गेम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2161	U99999DL1997PTC089956	मॅजिकटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2162	U63040DL1997PLC089960	गूडमन टूवल्स लिमिटेड
2163	U24347DL1997PLC089973	अड्नं रोस ओवरसीज लिमिटेड
2164	U74300DL1997PLC090023	एस्सेनेक्स अंडवर्टायजिंग लिमिटेड.
2165	U29120DL1997PTC090032	आरिसे पंप्स प्राईवेट लिमिटेड
2166	U99999DL1997PTC090093	वेल्डन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
2167	U99999DL1997PTC090143	मिलन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
2168	U02001DL1997PLC090177	वुड केअर प्लंटेशन लिमिटेड.
2169	U99999DL1997PTC090215	यशना एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
2170	U70109DL1997PTC090291	आकार रील्टस प्राईवेट लिमिटेड
2171	U99999DL1997PTC090296	रीलायन्स सिलिका एण्ड कैमिकल्स (पी) लिमिटेड.
2172	U45201DL1997PTC090300	स्वीटहोम बील्डकॉन एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2173	U01122DL1997PLC090362	सहायक फोरेस्ट (इंडिया) लिमिटेड
2174	U99999DL1997PTC090374	अवियाशन सर्वीसीज राजदूत प्राईवेट. लिमिटेड.
2175	U65992DL1997PTC090391	यूचोईस चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
2176	U74220DL1997PTC090436	लियाबले सर्वेअर्स प्राईवेट लिमिटेड
2177	U99999DL1997PTC090445	अप्ल अण्डिलआक्सीज (पी) लिमिटेड.
2178	U73100DL1997PTC090517	एफ सी एस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2179	U99999DL1997PTC090519	एफ.सी.एस.आल्टर्नेटिव एनर्जीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2180	U99999DL1997PTC090520	एफ.सी.एस. जेनेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2181	U33119DL1997PLC090563	एफ.सी.एस. बियोर्मोडक लिमिटेड
2182	U99999DL1997PTC090576	सीनर्गिक कन्सल्टन्सी एण्ड सर्वीसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2183	U99999DL1997PTC090577	अकॉर्ड ऑटो ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2184	U99999DL1997PTC090589	म्वग प्रोपर्टिस प्राईवेट लिमिटेड
2185	U74999DL1997PTC090612	ओज़ लीन्क इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2186	U45201DL1997PTC090643	आस्ट्रा ट्यूमेक कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
2187	U80302DL1997PTC090745	आस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2188	U99999DL1997PTC090783	बाबा सुपरकेम प्राईवेट. लिमिटेड.
2189	U99999DL1997PTC090809	वर्धमान पॉलीपिपेस प्राईवेट लिमिटेड
2190	U99999DL1997PTC090810	हरि कृष्ण एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2191	U72100DL1997PTC090851	कम्फाक्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2192	U99999DL1997PTC090862	ग्रीनस्पैन टेक्नोलोजी (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2193	U99999DL1997PTC090918	ओवरसीज मॉडकल एडुकेशन सेन्टर प्राईवेट. लिमिटेड.
2194	U51399DL1997PTC090949	ल्म इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2195	U99999DL1997PTC090970	अम्बीन्स टेक्स्टिलेस (पी) लिमिटेड.
2196	U99999DL1997PTC091052	ववसी ओईल एण्ड गैस प्राईवेट. लिमिटेड.
2197	U99999DL1997PTC091082	के.एस. रब्बर प्राईवेट. लिमिटेड.
2198	U99999DL1997PTC091096	लिबींग स्टोन इनलै डीज़ाईन्स प्राईवेट लिमिटेड

2199	U24232DL1997PTC091127	गैलेंट हेल्थ केअर प्राइवेट लिमिटेड
2200	U36911DL1997PLC091178	आस्ट ग्लोबल लिमिटेड.
2201	U17119DL1997PTC091224	विभूती फ़िल्मामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2202	U99999DL1997PTC091238	प्रोटेक्ट हेल्थ (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
2203	U99999DL1997PTC091258	आई.टी. सकील प्लस पी व्. लिमिटेड.
2204	U99999DL1997PTC091277	एक्स्पट्रिट एस्सेन्टिआल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2205	U99999DL1997PTC091306	गिल संघू कैरिअर्स प्राइवेट लिमिटेड
2206	U99999DL1997PTC091414	थर्द रॉक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2207	U99999DL1998PTC091445	श्री साई ट्रैवल एण्ड कार्गो (पी) लिमिटेड.
2208	U31200DL1998PTC091456	अब्सोलुत पॉवर प्राइवेट लिमिटेड.
2209	U99999DL1998PTC091464	नरसिंह कर्मशिल प्राइवेट. लिमिटेड.
2210	U30009DL1998PTC091520	सोफ्टोच इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2211	U29262DL1998PTC091563	वृन्दावन फ़ाबरिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2212	U33111DL1998PLC091571	डिसन लेंक्स लिमिटेड.
2213	U99999DL1998PTC091575	गौरव टूंस एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2214	U99999DL1998PTC091593	मन्जू मेमोरिल ट्रेड (पी) लिमिटेड.
2215	U99999DL1998PTC091680	सूनागोल्ड फ़ूड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2216	U99999DL1998PTC091791	रेफ़रेन्स पोइंट (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
2217	U99999DL1998PTC091800	राजस्थान मैन्युफ़ैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड.
2218	U74140DL1998PTC091838	त्रिवंजन टेक्नोलोजीस प्राइवेट. लिमिटेड.
2219	U99999DL1998PTC091884	साप्तागिरी मेडिसिस्टम्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2220	U92114DL1998PTC091907	फ़ूलल लाइट्स फ़िल्म को. (इंडिया) प्रिवीट लीमीटेड
2221	U99999DL1998PTC092017	आल्फ़्स मरीन्स एण्ड फ़िनस्टॉक प्राइवेट. लिमिटेड.
2222	U99999DL1998PTC092018	अकी मरीन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2223	U24120DL1998PLC092039	उतमा ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र लिमिटेड
2224	U99999DL1998PTC092099	ट्रेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2225	U99999DL1998PTC092127	जे.एम.डी. अवियाशन प्राइवेट. लिमिटेड.
2226	U99999DL1998PTC092128	मार्स अवियाशन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2227	U72200DL1998PTC092163	मन्क सॉफ़्टवेयर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
2228	U99999DL1998PTC092192	पायल स्ट्रिप्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2229	U24231DL1998PTC092240	हेमवीर कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2230	U99999DL1998PTC092246	स्मृति किरन टी.वी. ताळक्स एण्ड तेलेकम्युनिकेशन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2231	U99999DL1998PTC092293	ऊनीकूल फ़ूड एण्ड ड्रिन्क्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2232	U99999DL1998PTC092339	ब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2233	U99999DL1998PTC092340	उड्भाव अस्सोसिएट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2234	U99999DL1998PTC092385	जी.आर. इलेक्ट्रो मीकैनिक्ल देविसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2235	U74899DL1998PTC092405	अंकुर गूड लिविंग अप्लिआन्सीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2236	U74140DL1998PLC092410	श्री एसीज़ सर्विसीज़ लिमिटेड.
2237	U99999DL1998PTC092428	एकेस कन्सल्टिंग इन्सूरंज़ एण्ड क्लाइम मनाजंज़ इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
2238	U99999DL1998PTC092457	रोनिकस फ़र्मसटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2239	U99999DL1998PTC092511	ललित फ़्रेट मॉवज़ प्राइवेट लिमिटेड
2240	U99999DL1998PTC092571	एस.पी.एस. अर्घेसिव टेप्स प्राइवेट लिमिटेड
2241	U74140DL1998PTC092594	रसोई कन्सलतन्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2242	U65993DL1998PLC092605	एफ़ सी एस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

2243	U99999DL1998PTC092659	ज़ियोन मॅनेजमेन्ट सोलुशन्स (पी) लिमिटेड.
2244	U99999DL1998PTC092730	अर्वीक फ़िनान्सेयल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2245	U45202DL1998PTC092793	वॅनगाड इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2246	L51909DL1998PLC092804	एफ़ सी एस एअरवेज़ लिमिटेड
2247	U51909HR1998PLC092804	एफ़ सी एस एअरवेज़ लिमिटेड
2248	U99999DL1998PTC092830	इमेज पॅकेजींग प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2249	U24231DL1998PLC092869	केअर रेमेदीस (इंडिया) लिमिटेड.
2250	U99999DL1998PTC092957	डिनामोटिव मोटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2251	U51397DL1998PTC092960	ओम्पेक नतूरल एण्ड एन्वियोन्मेन्टल लेबॉरेटरिस प्राईवेट.लिमिटेड.
2252	U99999DL1998PTC093032	लाज अर्थेसिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2253	U99999DL1998PTC093043	एफ़.सी.एस. शुगर लिमिटेड
2254	U99999DL1998PTC093048	रेणुका सन्तरप्राईसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2255	U51109DL1998PTC093113	विदुशी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
2256	U74999DL1998PTC093190	इंटेरिओर डिज़ाइन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2257	U99999DL1998PTC093191	अवीक ग्यम एण्ड स्पा प्राईवेट. लिमिटेड.
2258	U99999DL1998PTC093212	ऑटो रिस्क मॅनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2259	U99999DL1998PTC093278	मटेरिअल्स रिसर्च ग्रुप (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
2260	U99999DL1998PTC093444	आक्षीता ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2261	U99999DL1998PTC093466	के एल एम डिज़ाइन (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2262	U99999DL1998PTC093477	अलफ़्री फ़ूड प्राईवेट लिमिटेड
2263	U99999DL1998PTC093516	जूस्ते फ़्रेट लॉजिस्टिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2264	U52109DL1998PTC093559	गिगा टेस्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2265	U72300DL1998PTC093625	इन्फ़ोवेंड सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2266	U45201DL1998PTC093656	गोगी बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
2267	U99999DL1998PTC093712	लिब्बी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2268	U24246DL1998PTC093727	मज़िज़ो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2269	U99999DL1998PTC093768	कौलाहोरी कम्युनिकेशन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2270	U99999DL1998PTC093781	फ़ोरेवर लिबींग हेल्थकेअर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2271	U99999DL1998PTC093821	जी.वी. चीकित्सल्या प्राईवेट. लिमिटेड.
2272	U70101DL1998PTC093836	ब्स इंडिया (पी) लिमिटेड
2273	U99999DL1998PTC093841	मेरी गोल्ड सिंग वाटर अंग्रो इन्डस्ट्रिस प्राईवेट. लिमिटेड.
2274	U36911DL1998PTC093912	बाला जी जेम्स प्राईवेट लिमिटेड
2275	U99999DL1998PTC093941	त्र दुरीज़म प्राईवेट लिमिटेड
2276	U99999DL1998PTC093942	श्री एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
2277	U99999DL1998PTC093958	श्रृष्टि फ़ोरेस्ट्स (इंडिया) लिमिटेड.
2278	U99999DL1998PTC094131	कॉस्मोपॉलिटन कौरिएज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2279	U24130DL1998PLC094251	चॅम्पियन फ़र्टिलीज़र्ज़ एण्ड कॅमिकल्स लिमिटेड.
2280	U99999DL1998PTC094268	मॅंगा होटेल्स एण्ड लीसूर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2281	U99999DL1998PTC094325	पॅलिकन हेल्थ केअर (पी) लिमिटेड.
2282	U74950DL1998PTC094489	रुप्स पॅकेजींग इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
2283	U99999DL1998PTC094531	पक्स्ट्रक प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड.
2284	U99999DL1998PTC094602	भास सजिकल एण्ड ड्रेस्सिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2285	U99999DL1998PTC094652	अंकित पॉलीकेम प्राईवेट. लिमिटेड.
2286	U74300DL1998PTC094721	विन पेकर्ज़ एण्ड मोवर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड

2287	U99999DL1998PTC094756	आर्को केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
2288	U99999DL1998PTC094763	हेल्थकेअर कन्सल्टिंग इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
2289	U99999DL1998PTC094780	रन्गल सिक्कुरिटी एण्ड इन्वेस्टिगेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2290	U99999DL1998PTC094858	अंग मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2291	U99999DL1998PTC094879	अग्निहोत्री कंस्ट्रक्शन प्राईवेट.लिमिटेड.
2292	U99999DL1998PTC094886	बाबा गोरखनाथ चिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2293	U74999DL1998PTC094888	यानसी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2294	U99999DL1998PTC094895	दिनेश गोपाल सर्वेअर्स (प्राईवेट) लिमिटेड.
2295	U99999DL1998PTC094924	मिनवा प्रेस (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2296	U65910DL1998PTC094988	नव दुर्गा लीसिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
2297	U99999DL1998PTC095004	ब्रोस्त फास्टफूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2298	U99999DL1998PTC095008	जे.आर.जी. कम्युनिकेशन (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2299	U99999DL1998PTC095056	इन्स्पिरेशन ट्रेवल्स एण्ड एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
2300	U18204DL1998PTC095077	कपूर एंब्रोइड्री मील्स (पी) लिमिटेड.
2301	U99999DL1998PTC095082	मार्स क्रिस्टल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2302	U99999DL1998PTC095125	ईदस्टॉक इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
2303	L74899DL1998PLC095131	कूमऊन मिनरल्स एण्ड कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड.
2304	U99999DL1998PTC095241	सावित्री जीवन देवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2305	U74300DL1998PTC095243	मोडेम अंडवर्टायजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2306	U99999DL1998PTC095250	हैवै सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
2307	U99999DL1998PTC095313	अब्क टेक्निकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2308	U99999DL1998PTC095389	बजरंग इंटीरियर्स (पी) लिमिटेड.
2309	U99999DL1998PTC095397	एन.बी. इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
2310	U99999DL1998PTC095484	स्प्रिट पोर्टफोलियो एण्ड रिसर्च प्राईवेट.लिमिटेड.
2311	U51904DL1998PTC095497	पेलिकन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2312	U15315DL1998PTC095514	उत्कृष्ट फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2313	U65992DL1998PTC095559	डिशू चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
2314	U72400DL1998PTC095576	केदेसिन लेक्सिकन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2315	U99999DL1998PTC095588	शमील प्रीट एण्ड पेंक (पी) लिमिटेड.
2316	U99999DL1998PTC095615	अमिको ट्रेवल एण्ड टूरस प्राईवेट लिमिटेड
2317	U99999DL1998PTC095626	क्वप चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
2318	U99999DL1998PTC095648	ह्यो-संग (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2319	U99999DL1998PTC095698	वोयगर्ज इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
2320	U99999DL1998PTC095699	लव्भै पब्लिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2321	U99999DL1998PTC095723	मेडिकल सेन्टर ऑफ बाॅस्टन (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2322	U72900DL1998PTC095732	इन्फोमिका इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2323	U99999DL1998PTC095867	शिवानी ग्रुप्स (पी) लिमिटेड.
2324	U99999DL1998PTC095890	ऑप्टिकल कॉर्नर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2325	U99999DL1998PTC095953	थेला सोलुशन्स एण्ड सिस्टम्स लिमिटेड.
2328	U74899DL1998PLC095954	सास एडुसोफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड
2327	U99999DL1998PTC096098	इन्फोटेकनोमेट कम्युनिकेशन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2328	U29219DL1998PTC096115	टूल्स एण्ड टेक्नोलोजी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2329	U74210DL1998PTC096120	एस के एम अस्सोसिएट्स प्रिवेटेल लिमिटेड
2330	U51397DL1998PTC096162	सारटॉम ट्रेड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड

2331	U63090DL1998PTC096181	मंगा कार्गो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2332	U99999DL1998PTC096203	सेकुरित इंडिया (पी) लिमिटेड.
2333	U74999DL1998PTC096221	मोनीटक्स मार्केटिंग सर्वीसीज़ (पी) लिमिटेड
2334	U99999DL1998PTC096245	रामको केमिकल्स लिमिटेड
2335	U74140DL1998PTC096261	क्रेडन्स पब्लिक रीलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2336	U80302DL1998PTC096343	बील्ड वेल कम्प्यूटर सेन्टर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2337	U22110DL1998PTC096353	कोम्पेक्स कम्प्यूटर पुब्लिशिंग पी लिमिटेड
2338	U99999DL1998PTC096397	हर्जी ट्रेडिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन को. (प्राइवेट) लिमिटेड.
2339	U80302DL1998PTC096506	आईम्स अकॅडेमिक प्राइवेट लिमिटेड
2340	U72200DL1998PTC096608	दाता स्टार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2341	U99999DL1998PTC096631	हमीद ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2342	U99999DL1998PTC096640	आर एण्ड टी सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड.
2343	U99999DL1998PTC096642	प्रॉट कन्सलतन्ट्स (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
2344	U40109DL1998PTC096651	डी इ एस आई पॉवर (महानदी) प्राइवेट लिमिटेड
2345	U99999DL1998PTC096693	मेरिटेक इंडिया ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड.
2346	U99999DL1998PTC096732	स्वस्तिका कन्ट्रोल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2347	U99999DL1998PTC096780	हाडी ट्रेवल्स एण्ड टूरस इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
2348	U30007DL1998PTC096785	अम्बीन्स इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड
2349	U99999DL1998PTC096809	अटन हेंगज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2350	U99999DL1998PTC096908	आकृति इंटरनेशनल क्लोथिंग को. (पी) लिमिटेड.
2351	U99999DL1998PTC096939	सीएनएन फायनान्स एण्ड लीसिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
2352	U99999DL1998PTC096964	मैक्सिम ट्रेड्स इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
2353	U99999DL1998PTC097059	राठौड़ टेक्सटाइल मीलस प्राइवेट. लिमिटेड.
2354	U99999DL1998PTC097108	इन्फ्लेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2355	U99999DL1998PTC097163	स्पीडलाईन कौरिएज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2356	U99999DL1998PTC097164	फ़ास्ट चेन कौरिएज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2357	U99999DL1998PTC097165	प्रोम्टलीन कौरिएज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2358	U99999DL1998PTC097166	राईत टाइम कौरिएज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2359	U99999DL1998PTC097194	इक इंटेकोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2360	U22110DL1998PTC097324	स्टान्डर्ड लॉ बुक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2361	U70101DL1998PTC097359	प्राइम दिआग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2362	U99999DL1998PTC097410	क्राणेक्स इन्फोसिस प्राइवेट. लिमिटेड.
2363	U72200DL1998PTC097483	सॉफ्टवेयर इन्फोकोम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.
2364	U99999DL1998PTC097535	संपर्क टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड.
2365	U51391DL1998PTC097683	स्टार नेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2366	U29220DL1998PLC097730	श्री महालक्ष्मी नारायण फ़ास्टनज़ (इंडिया) लिमिटेड.
2367	U99999DL1998PTC097741	वाइट स्टार एज्युकेशन (पी) लिमिटेड.
2368	U99999DL1998PTC097743	गुमान मैनेजमेन्ट कन्सलतन्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2369	U99999DL1999PTC097779	वाइट स्टार कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2370	U99999DL1999PTC097817	हिमालयन एअर सर्वीसीज़ (पी) लिमिटेड.
2371	U99999DL1999PTC097861	निष्ठ फ़ेशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2372	U99999DL1999PTC097920	आशीर्वाद फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2373	U99999DL1999PTC098006	कुरेले इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट. लिमिटेड.
2374	U99999DL1999PTC098053	सानू - आकोम प्राइवेट लिमिटेड

2375	U67190DL1999PTC098118	श्री श्रीनिवासा फ़ोरेक्स एण्ड एक्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2376	U99999DL1999PTC098119	रुद्र दीप सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2377	U99999DL1999PTC098128	अक्षीता फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2378	U72200DL1999PTC098221	गोल्ड रीड इन्वोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2379	U99999DL1999PTC098255	ट्रिडेंट ग्रेन प्राईवेट. लिमिटेड.
2380	U18101DL1999PTC098302	अमन गार्मेंट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
2381	U24231DL1999PTC098347	एम बी लेबॉरेटरिस प्राईवेट लिमिटेड
2382	U99999DL1999PTC098365	कमल मेहता सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2383	U99999DL1999PTC098464	ट्रोईका टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2384	U72900DL1999PTC098534	इयोल टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
2385	U99999DL1999PTC098552	शाइन लेबॉरेटरिस प्राईवेट लिमिटेड
2386	U74210DL1999PTC098567	टेक्साको इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2387	U99999DL1999PTC098604	स्पेंसर केबल्स लिमिटेड
2388	U31300DL1999PLC098605	अम्बुजा केबल्स लिमिटेड.
2389	U72200DL1999PTC098665	सूरे सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2390	U99999DL1999PTC098691	महान ट्राएक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
2391	U99999DL1999PTC098695	तसकर फ़ुइर्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2392	U99999DL1999PTC098888	अहुजा इंटेलिगेन्स नेटवर्क प्राईवेट. लिमिटेड.
2393	U51109DL1999PTC098980	चीवेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2394	U51909DL1999PTC098982	पालोमिनो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.
2395	U63090DL1999PTC098994	पोलिंग् स्टेण् अटलांटिक फ़्रेट लॉजिस्टिक प्राईवेट. लिमिटेड.
2396	U99999DL1999PTC099078	टोरुस इन्फोवे प्राईवेट. लिमिटेड.
2397	U99999DL1999PTC099095	एस्स के डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2398	U74899DL1999PLC099101	लूर्मेक्स मीरर्स लिमिटेड
2399	U63012DL1999PTC099104	न्यू इंडिका कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
2400	U99999DL1999PTC099113	वुडआर्च कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2401	U99999DL1999PTC099117	अक्षिस्टेल कम्युनिकेशन्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
2402	U99999DL1999PTC099120	अस्कोन पौएरेड फ़ेन्सीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2403	U55101DL1999PTC099141	विवा टूर्स एण्ड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2404	U99999DL1999PTC099144	स्यबेरनत सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2405	U99999DL1999PTC099164	एमन्को इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2406	U99999DL1999PTC099166	अलिआन्स एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
2407	U99999DL1999PTC099232	महावीर बायो-मास्स एनर्जी प्राईवेट. लिमिटेड.
2408	U99999DL1999PTC099244	सनआई कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
2409	U99999DL1999PTC099293	लक्ष्मी बील्डर्ज़ एण्ड कंस्ट्रक्शन को. प्राईवेट लिमिटेड
2410	U99999DL1999PTC099350	श्री टेक्नो क्राफ़्ट (प्राईवेट) लिमिटेड.
2411	U99999DL1999PTC099353	बुइयान्स एस ट्रेवल एण्ड कार्गो (प्राईवेट) लिमिटेड.
2412	U99999DL1999PTC099406	अनमोल गगन ऑटो इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2413	U99999DL1999PTC099428	सुभा वन्दूर्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2414	U52395DL1999PLC099454	शीव.शक्ती मिनरल ट्रेडर्स लिमिटेड.
2415	U99999DL1999PTC099465	ओरियन ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2416	U99999DL1999PTC099584	श्मिड बील्डर्ज़ (पी) लिमिटेड.
2417	U51909DL1999PTC099607	मोनद इम्पेक्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
2418	U30007DL1999PTC099750	स्वस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड

2419	U72300DL1999PTC099974	असियागेत कॉमर्स (प्राइवेट) लिमिटेड.
2420	U51909DL1999PTC100013	सौभाग्य सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2421	U72900DL1999PTC100127	नेस्टर इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड
2422	U72900DL1999PLC100172	गंगा वीजन लिमिटेड.
2423	U51311DL1999PTC100196	श्री सन्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2424	U51909DL1999PTC100197	स्टालोणे ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2425	U72900DL1999PTC100198	क्रस्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2426	U51909DL1999PTC100199	अन्सा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2427	U52321DL1999PTC100200	जिगल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2428	U55101DL1999PTC100202	हॉटविंग्स रेस्टोरंट प्राइवेट लिमिटेड
2429	U99999DL1999PTC100306	शकुमबारी सीडलींग्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2430	U24233DL1999PTC100324	स्पेक्त्रम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2431	U34300DL1999PTC100453	फुकलीन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2432	U31909DL1999PTC100480	बेस्ट पॉवर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2433	U67120DL1999PTC100523	अहुजा केप्सवीसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2434	U55101DL1999PTC100535	स्नो प्लत्तेर रिसोर्ट्स एण्ड होटेल्स (प्राइवेट) लिमिटेड.
2435	U17111DL1999PTC100536	रसीवासिया फ़िलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2436	U35911DL1999PTC100604	हनी ज्यूएलज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2437	U52322DL1999PTC100623	रीवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
2438	U52322DL1999PTC100659	मा रीलायन्स यान प्राइवेट. लिमिटेड.
2439	U51505DL1999PTC100757	नक्क एन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड
2440	U72200DL1999PTC100621	सुदीन एडुसोफ़्ट सर्विसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2441	U72200DL1999PTC100865	नेकसर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2442	U63012DL1999PTC100878	सेवनसीज़ कागों हाऊस प्राइवेट. लिमिटेड.
2443	U74920DL1999PTC100885	स्पेंसर सिक्यूरिटी इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड.
2444	U72200DL1999PTC100930	एटरनल इन्फोसोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2445	U22219DL1999PTC100980	जैनको आर्ट इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
2446	U24231DL1999PLC100982	वेव इन्स्टिट्यूट ऑफ़ हाई टेक्नोलॉजीस लिमिटेड
2447	U52392DL1999PTC100988	सेल प्रोडक्ट्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2448	U52392DL1999PTC101037	स्वस्मीठ सॉफ़्टवेयर सीनगीस एण्ड इन्फोटेक प्राइवेट. लिमिटेड.
2449	U18101DL1999PTC101074	प्रिन्क अपरेल्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2450	U51109DL1999PTC101161	स्काईलैंड लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2451	U72200DL1999PTC101172	आअ सॉफ़्टवेयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2452	U51109DL1999PTC101183	अलिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2453	U72200DL1999PLC101190	पी एस जे कॅमिकल्स लिमिटेड
2454	U72300DL1999PTC101297	जे.एस. ईडसॉफ़्ट सिस्टम्स कन्सलतन्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2455	U67120DL1999PTC101312	मक इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2456	U74140DL1999PTC101320	टिएर सेवन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2457	U74140DL1999PTC101341	टी क्यू एम सर्विसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2458	U74899DL1999PTC101373	पीनेकल ऑटोमेशन सिस्टम्स एण्ड सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2459	U45201DL1999PTC101396	ग्रपेक्ट इंजीनियर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2460	U55101DL1999PTC101427	जैन फ़ोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2461	U33119DL1999PTC101446	सहगल नरसिंग होम प्राइवेट. लिमिटेड.
2462	U52190DL1999PTC101448	दज़लींग मार्केटिंग एण्ड सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड



2463	U18101DL1999PTC101451	इक्प इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2464	U79300DL1999PTC101506	हेडवे मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2465	U45201DL1999PTC101516	सीनोप्सिस बील्डकॉन प्राईवेट. लिमिटेड.
2466	U74899DL1999PTC101632	प्रतुओर डेनअल ग्लोबल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2467	U25209DL1999PTC101679	मसाणिआ पिपेस प्राईवेट. लिमिटेड.
2468	U74899DL1999PTC101794	मैडन वेन्चर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2469	U72300DL1999PTC101824	सी०प०रेटे एक्स्टेंडेड वारंटीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2470	U99999DL1999PTC101859	अँक्वा रिसर्च (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2471	U74920DL1999PTC101900	काश सिक्कुरिटी डिटेक्टिव एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2472	U74140DL1999PTC101904	सुनील मारुत कन्सलतन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड.
2473	U65910DL1999PTC101914	सोलो फ़िन्नीसे प्राईवेट लिमिटेड
2474	U18101DL1999PTC101955	बंसी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
2475	U64120DL1999PLC101995	कंट्रीवाइड कौरिएज़ लिमिटेड
2476	U22100DL1999PTC102019	एलिकिसर पुब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
2477	U22110DL1999PTC102034	दिहवर एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
2478	U15549DL1999PTC102077	अँक्वासॉफ़्ट वाटर प्राईवेट लिमिटेड
2479	U74950DL1999PTC102091	अमिया दत्त जनरल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
2480	U24239DL1999PTC102094	फोयनिशोन हेबल्स प्राईवेट लिमिटेड.
2481	U23209DL1999PTC102097	परॉन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2482	U22219DL1999PTC102100	सिटी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
2483	U72200DL1999PTC102117	मिगस ओन सॉफ़्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
2484	U24239DL1999PTC102155	आल्बियोन फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
2485	U18101DL1999PTC102169	इंटरस्टार एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2486	U09211DL1999PTC102251	आर.पी.एस. मास्स कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
2487	U74899DL1999PTC102292	आर.एस.पी. एन्कोर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट.लिमिटेड.
2488	U18101DL1999PTC102302	अर्बन डीज़ाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
2489	U72100DL1999PTC102421	लोटस इन्फोटेक सोलुशन्स (इनिडा) प्राईवेट लिमिटेड
2490	U09211DL1999PTC102427	गेन्क्स प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
2491	U31909DL1999PTC102475	वोईला आई टी सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2492	U15141DL1999PTC102550	आर.आई ओईल्स एण्ड फ़ूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2493	U32109DL1999PTC102599	लहेर ऑटो स्पेस प्राईवेट लिमिटेड
2494	U32101DL1999PTC102602	अम टेक टोट प्राईवेट लिमिटेड
2495	U74899DL1999PTC102609	इन्फोशर टेक्नोलोजीस लिमिटेड
2496	U74140DL1999PTC102653	जे एण्ड वी कन्सल्टिंग सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2497	U60210DL1999PTC102687	गोयल फ़्रेट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2498	U74140DL1999PTC102740	बेफ़्रा टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
2499	U72900DL1999PTC102790	इन्फोनेत सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड.
2500	U32101DL1999PTC102800	देई-इची इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
2501	U00000DL1999PTC102845	एमगे सॉफ़्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
2502	U32101DL1999PTC102860	अपार्टमेन्ट पुपिल प्रोमोशन्स प्राईवेट लिमिटेड.
2503	U75111DL1999PTC102881	अमर देको प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड. ए
2504	U74140DL1999PLC102911	नेत पकैप्शन लिमिटेड
2505	U29233DL1999PTC102923	सीन्मैडिक फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
2506	U74899DL1999PTC102971	नथूस केटरस प्राईवेट. लिमिटेड.

2507	U27203DL1999PLC102984	सूरज अलुमिनिअम लिमिटेड
2508	U70101DL1999PTC102998	क्व कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2509	U76120DL1999PTC103030	ग्लेक कैपिटल मार्केट प्राईवेट लिमिटेड.
2510	U25199DL2000PTC103075	कृष्ण टेक्नोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
2511	U72900DL2000PTC103143	इंटेलिजेंट सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2512	U74999DL2000PTC103185	इंद्र नारायण हर नारायण स्टील प्राईवेट लिमिटेड.
2513	U45201DL2000PTC103233	श्री गंगा बील्डिंज प्राईवेट लिमिटेड
2514	U72200DL2000PTC103280	स्वर्ण कम्प्यूटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
2515	U72900DL2000PTC103330	अस्क पेरिफेरल पीपल प्राईवेट लिमिटेड
2516	U72900DL2000PTC103351	अक्सोन टेकसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
2517	L74899DL2000PLC103360	युरो सोल्यूशन लिमिटेड
2518	U74899DL2000PTC103377	युनिटी सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2519	U74999DL2000PTC103566	वी.जी. फ्रेंच प्राईवेट लिमिटेड
2520	U15209DL2000PTC103636	गम्मा कंट्रोल फ्रीड प्राईवेट लिमिटेड
2521	U72900DL2000PTC103682	वाइरस टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
2522	U74899DL2000PTC103721	बिग टॉप मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड.
2523	U74899DL2000PTC103762	ब्लक इनट्रेड प्रिवियाटे लिमिटेड
2524	U72900DL2000PTC103780	इ-नेट डेवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड.
2525	U30002DL2000PTC103788	इन्फोलीन्क सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2526	U99999DL2000PTC103844	ब्लू मून मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2527	U74899DL2000PTC103880	प्रतस पेट्रोकेम लिमिटेड.
2528	U72900DL2000PTC103962	ईंदिमार्ट.कॉम सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड.
2529	U24239DL2000PTC103985	विरोसट हेल्थ केअर प्राईवेट लिमिटेड
2530	U99999DL2000PTC104083	इम्स टेक्नोलॉजीस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2531	U72200DL2000PTC104117	फ्रलुक्सर्ट ओन्लीन सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2532	U45900DL2000PTC104151	नेत जेम्स इन्फोर्मेशन सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
2533	U72200DL2000PTC104165	नुआम्स एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
2534	U25209DL2000PTC104191	दिगम्बर फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
2535	U18101DL2000PTC104202	डैफोडिल्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
2536	L74899DL2000PLC104222	माईक्रो सॉफ्टएस प्रोडक्ट्स लिमिटेड.
2537	U72200DL2000PTC104312	सेमकुल सोफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
2538	U74899DL2000PTC104333	स्काई अस्सोसिएट्स एक्सप्रेस लिमिटेड.
2539	U74899DL2000PTC104346	कुक्कु सिक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2540	U72900DL2000PTC104347	डिगीताल क्रेडले स्क्वैरसिआ प्राईवेट लिमिटेड
2541	U72900DL2000PTC104366	मोबीऊस बंद सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2542	U72300DL2000PTC104375	ओस्त इ-कॉमर्स टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
2543	U72200DL2000PTC104381	इयोनटेक सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
2544	U74899DL2000PTC104398	प्रोगसोफ्ट टेक्नोलॉजी सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2545	U93010DL2000PTC104404	उर्स (इंडिया) क्वालिटी रजिस्ट्रार प्राईवेट लिमिटेड
2546	U72900DL2000PTC104472	मैजिक पफ़ोर्मन्स मॅनेजमेन्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2547	U74300DL2000PTC104493	नेकतूर मार्केटिंग सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2548	U74140DL2000PTC104503	एन आर्ट कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2549	U63013DL2000PTC104553	नेक्स्सुस लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2550	U16101DL2000PTC104569	हीना सिलेक्शन प्राईवेट लिमिटेड

2551	U72900DL2000PLC104575	इन इ-कॉमर्स सोफ़्टवेयर लिमिटेड
2552	U74899DL2000PTC104603	ठकराल अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड.
2553	U74899DL2000PTC104657	नुक्लेउस्सोफ़्टवेयर.कोम प्राईवेट लिमिटेड
2554	U74899DL2000PTC104662	आनलोगिक इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2555	U34101DL2000PTC104799	ट्रान्स फ्रेंच प्राईवेट लिमिटेड
2556	U51109DL2000PTC104833	श्रीव कृपा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2557	U32109DL2000PTC104851	मल्ब्रोस इत एनाबलेड सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2558	U74999DL2000PTC104862	शिवांगी ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2559	U72900DL2000PTC104945	एस्सजय सॉफ़्टवेयर सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2560	U67120DL2000PTC104952	प्रिमल सिक्कुरिटिज़ प्राईवेट लिमिटेड
2561	U70101DL2000PTC104960	जय आद्य प्रोमोटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
2562	U24239DL2000PTC104973	एस्थर फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2563	U34300DL2000PTC105008	युरेसिआ एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
2564	U12900DL2000PTC105033	इन्सिडे एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड.
2565	U92120DL2000PTC105036	वी.एस. कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2566	U74300DL2000PTC105118	आशये अडवर्टायजिंग सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
2567	U74899DL2000PTC105129	इ-डिप्युजन.कोम प्राईवेट लिमिटेड
2568	U51109DL2000PTC105168	ब्स होम स्पेशीयलिटीस प्राईवेट लिमिटेड
2569	U24119DL2000PTC105263	बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2570	U72900DL2000PTC105276	त्रिशा इन्फोकोस्म प्राईवेट लिमिटेड
2571	U72900DL2000PTC105321	इंज़ी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड.
2572	U63013DL2000PTC105343	बिमे कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
2573	U74899DL2000PTC105367	कोब्रैन टेक्नोलोजीस लिमिटेड
2574	U72900DL2000PTC105390	विद्युत इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2575	U18101DL2000PTC105393	क्वार्ट्ना हांडीक्राफ़्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
2576	U72200DL2000PLC105400	लालाजी इन्फोटेक लिमिटेड
2577	U72900DL2000PTC105444	दिय सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2578	U45201DL2000PTC105496	इंटेग्रेटेड डिज़ाइन एण्ड बील्ड टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
2579	U80903DL2000PTC105520	सुदीन ट्रेनिंग सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2580	U74999DL2000PTC105533	आक.इ.एस. एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
2581	U74140DL2000PTC105534	कनोलेदगेपुब.कोम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2582	U72900DL2000PTC105544	स्मॉ सॉफ़्टवेयर एण्ड एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड
2583	U72900DL2000PTC105656	नस्कैट नेतवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
2584	U72200DL2000PLC105677	गेत वेब दोमायन्स कोम लिमिटेड
2585	U74899DL2000PTC105699	नुवेब इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2586	U72200DL2000PTC105719	इन्फिनिट नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
2587	U00000DL2000PTC105720	गोल इंडिया पोर्टल प्राईवेट लिमिटेड
2588	U72900DL2000PTC105724	ताराना.कोम प्राईवेट लिमिटेड
2589	U28939DL2000PTC105746	सूरत सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2590	U22122DL2000PTC105803	बाबा पुब्लीन्क्स प्राईवेट लिमिटेड
2591	U72900DL2000PTC105809	अवा इ-कोम एण्ड वेब सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2592	U51109DL2000PLC105839	सफ़ेक्स मेल लिमिटेड
2593	U55101DL2000PTC105885	रेनबो रेस्टोरंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2594	U72900DL2000PTC105900	स्पिडज़ डॉट कोम प्राईवेट लिमिटेड

2595	U99999DL2000PLC105931	एक्स्टीले.कोम लिमिटेड
2596	U72900DL2000PTC105934	मिड्यार टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
2597	U29199DL2000PTC106014	पेलिकन ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
2598	U72900DL2000PTC106061	नेउरॉ वक्स डॉट कोम प्राईवेट लिमिटेड
2599	U95000DL2000PTC106116	अब्क प्रोटेक्शन प्राईवेट लिमिटेड
2600	U92111DL2000PTC106122	अड्वक्स प्रीट-ओ-पेक प्राईवेट लिमिटेड
2601	U72900DL2000PTC106125	वेनडिंग रेसोर्क.कोम प्राईवेट लिमिटेड
2602	U51109DL2000PTC106221	जॉय इम्पेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2603	U70101DL2000PTC106265	ए - झेड होम स्टोर प्राईवेट लिमिटेड
2604	U80903DL2000PTC106339	ओब्ट कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2605	U74899DL2000PTC106369	ओरिएन्ट सल्ट्स लिमिटेड
2606	U63040DL2000PTC106417	टिमियोउत प्रोग्राम्स प्राईवेट लिमिटेड
2607	U72900DL2000PTC106535	टिवन सोफ़्टेक प्राईवेट लिमिटेड
2608	U72200DL2000PTC106547	मेलॉज ड्रीम्स ओन लाईन प्राईवेट लिमिटेड
2609	U72900DL2000PTC106581	सिलिकोन इंटेग्रेटेड सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2610	U72900DL2000PTC106613	क्राफ्टसीनिडिया.कोम प्राईवेट लिमिटेड
2611	U55109DL2000PTC106641	डाईनास्टी होलिडय होम्स प्राईवेट लिमिटेड
2612	U40101DL2000PTC106680	बल एनर्जी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2613	U74899DL2000PLC106712	हेल टेक्नोलोजी इंडिया लिमिटेड.
2614	U72900DL2000PTC106786	बीटले सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2615	U50101DL2000PTC106826	शिव कार्स प्राईवेट लिमिटेड
2616	U72100DL2000PTC106834	नौ नेतवक्स प्राईवेट लिमिटेड
2617	U51197DL2000PTC106870	पंडित हेर्बोतिक प्राईवेट लिमिटेड
2618	U74140DL2000PTC106879	बर्कोफ़िक्स सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2619	U72900DL2000PTC106886	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर ओन लाईन सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2620	U95000DL2000PTC106913	जी१० रेसोर्क (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2621	U55101DL2000PTC106916	बी १ बिबरेजीस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2622	U74899DL2000PTC106922	सोस कम्प्युटर्ज़ इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2623	U15202DL2000PTC106956	नीस्ड्रीज़ फुड प्राईवेट लिमिटेड
2624	U18101DL2000PTC106996	थोर्टीन ओन्लीन प्राईवेट लिमिटेड
2625	U27109DL2000PTC107072	गंडुट ओईल एण्ड गैस टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
2626	U45201DL2000PTC107075	श्री साई नाथ कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2627	U72200DL2000PTC107102	अग्निहोत्री सॉफ़्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
2628	U51109DL2000PTC107105	रूद्र अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
2629	U18101DL2000PTC107106	त्रिनेत्र अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
2630	U51495DL2000PTC107199	सैवाना होम फ़रनीशिंग प्राईवेट लिमिटेड
2631	U31909DL2000PTC107213	जैकसन पावर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड.
2632	U74899DL2000PLC107214	शांत इत कन्सोलिडेशन्स लिमिटेड
2633	U74899DL2000PTC107271	रिशमन् फ़िशोरिस प्राईवेट लिमिटेड
2634	U74899DL2000PTC107324	गजा तारा टूवल प्राईवेट लिमिटेड
2635	U72200DL2000PTC107340	आदित्य कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
2636	U74920DL2000PTC107403	इफ़न-सिक्चरिटी एण्ड डेटेक्टी सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2637	U99999DL2000PTC107424	दिल्ली इत वेन्चर दो ठौसण्ड लिमिटेड
2638	U74899DL2000PLC107425	दिल्ली इत वेन्चर कैपिटल लिमिटेड

2639	U72900DL2000PTC107463	गैप्लेक्स इंटरनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2640	U72900DL2000PTC107536	लटेरल सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2641	U45220DL2000PTC107590	डी.के.इन्सूलेशन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2642	U18101DL2000PTC107646	मधु जैन क्लोथिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2643	U80903DL2000PTC107670	उन्निप सोफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2644	U51311DL2000PTC107686	ओदिदकड्स.कोम प्राइवेट लिमिटेड
2645	U52212DL2000PTC107689	डी.आर. मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2646	U72100DL2000PTC107691	डायनामिक सूरे-सॉफ्ट सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2647	U72200DL2000PTC107763	एक्राफ्ट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
2648	U51109DL2000PTC107800	लांडसेड शिपिंग एजन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
2649	U52392DL2000PTC107802	जेट इन्फॉर्मेटिक्स कम्प्युटर एप्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2650	U51223DL2000PTC107816	रिशमन सी. फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
2651	U64120DL2000PTC107820	यू.एस. एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
2652	U72900DL2000PTC107874	क्वमन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2653	U92111DL2000PTC107948	जी.एम. एंटरटेनमेंट एण्ड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2654	U51503DL2000PTC107957	मीटिका ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2655	U64201DL2000PTC107958	टोटल एकेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2656	U72300DL2000PTC108066	न्यू एरा.कोम प्राइवेट लिमिटेड
2657	U72300DL2000PTC108098	वर्टिकलस्परेस.कोम प्राइवेट लिमिटेड
2658	U65992DL2000PTC108102	हमसंग चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2659	U74140DL2000PTC108103	गेस्टल्ट कंपिटल कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2660	U72200DL2000PTC108106	टंडन क्लारेटडन मिक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2661	U72900DL2000PTC108188	नेक्स्ट सोफ्टवेयरस प्राइवेट लिमिटेड
2662	U74899DL2000PTC108204	सिन मिनर्वा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2663	U65992DL2000PTC108212	सुदीक्षा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2664	U74140DL2000PTC108221	क्रोस्मिद नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
2665	U80101DL2000PTC108228	सार्थक शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड
2666	U63040DL2000PTC108267	जब मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2667	U74140DL2000PTC108297	देसी जॉब ओप्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2668	U99999DL2000PTC108321	मोनाक मरीन प्राइवेट लिमिटेड
2669	U74920DL2000PTC108463	दभंगा बुलल्स सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2670	U64202DL2000SGC108466	ईक इन्फो-तेलेकम्युनिकेशन (इंडिया) लिमिटेड
2671	U14295DL2000PTC108474	शीव राम एजन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
2672	U60100DL2000PTC108484	रिशमन मरीन प्राइवेट लिमिटेड
2673	U00000DL2000PTC108544	पनवै नेत वर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2674	U74999DL2000PTC108571	डेल्टा अवियोनिक्स मटेरिअल्स प्राइवेट लिमिटेड
2675	U00000DL2000PTC108574	कमला रतन एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड
2676	U28291DL2000PTC108583	सनटेक पॉलीमर्ज प्राइवेट लिमिटेड
2677	U80101DL2000PTC108586	आदर्श एडुकेशन कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2678	U00000DL2000PTC108649	धर्मयुग मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2679	U00000DL2000PTC108658	ब्रोकेन हिल्लस ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2680	U72200DL2000PTC108689	वरदान इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
2681	U74899DL2000PTC108696	डेकोर डिज़ाईट.कोम प्राइवेट लिमिटेड
2682	U00000DL2000PTC108765	वसू इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

2683	U72200DL2000PTC108786	कॉर्पोरेट वेंच्यु सॉफ्टवेयर प्राइवेट. लिमिटेड.
2684	U74899DL2000PTC108833	फिस्मे सर्वोसीझ प्राइवेट लिमिटेड
2685	U45201DL2000PTC108863	रेगेंट स्क्वेर प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2686	U74899DL2000PTC108909	बी बी टूवल्स प्राइवेट लिमिटेड
2687	U72200DL2000PLC108926	निककी इन्फो टेक्नोलोजीस लिमिटेड
2688	U00000DL2000PTC106981	फ़ोजन नतूरल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2689	U74899DL2000PTC109022	ऑनलीन इंडियाप्रक्स प्राइवेट लिमिटेड
2690	U74899DL2001PTC109100	अंजु कम्प्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2691	U72900DL2001PTC109157	ऊनीकोम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2692	U24231DL2001PTC109181	सियाको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2693	U74899DL2001PTC109268	इन्मार्क कन्सेप्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.
2694	U74899DL2001PTC109287	बालाजी पुब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
2695	U74899DL2001PTC109301	वैशाली लेंडर प्राइवेट लिमिटेड
2696	U72200DL2001PTC109361	कॉम्पेक इन्फोनेक्स्ट सर्वोसीझ प्राइवेट लिमिटेड
2697	U74899DL2001PTC109362	सोनी कम्प्युटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2698	U74899DL2001PTC109450	मंगा टेप्स प्राइवेट लिमिटेड
2699	U74899DL2001PLC109466	नेतवेव टेक्नोलोजी लिमिटेड
2700	U74899DL2001PTC109492	एक्सट्स अंडवर्कयजिंग प्राइवेट लिमिटेड
2701	U72200DL2001PTC109535	क्स्योफ टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
2702	U74899DL2001PTC109546	ऊनी-टेल कम्प्युनिकेशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2703	U72200DL2001PTC109602	करन गंगा मल्टीसॉफ्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2704	U01409DL2001PTC109635	कोन्सर्निंग पेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2705	U74899DL2001PTC109639	अश ट्रैवल एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड
2706	U45201DL2001PTC109662	सिंह टॉमर कन्स्ट. कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2707	U74899DL2001PTC109697	नोबल फ़ेशन प्राइवेट लिमिटेड
2708	U74899DL2001PLC109699	प्लस इंडेमिती सर्वोसीझ लिमिटेड
2709	U00000DL2001PTC109716	केदारसन एण्ड कम्पनी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2710	U74899DL2001PTC109754	देव्लोपिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2711	U74899DL2001PTC109775	ड्राइव सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2712	U52392DL2001PTC109806	टेलफ़ी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2713	U63023DL2001PTC109810	डिजीताल मोवेवै प्राइवेट लिमिटेड
2714	U74899DL2001PTC109815	किंग्सगेट रेसोसीझ मनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड किंग
2715	U92199DL2001PTC109974	आर.एम. एंटरतायनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2716	U67110DL2001PTC109976	इनक्स पब्लिक पीरिंग पोईत प्राइवेट लिमिटेड
2717	U92113DL2001PTC110024	न्यूशौन्ड प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2718	U72100DL2001PTC110086	लोटस डिज़ाइन कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2719	U67120DL2001PTC110160	ऑनलीन इंडिया कंपिटल ब्रोकरागेस प्राइवेट लिमिटेड
2720	U74994DL2001PTC110174	डिज़ाइनवेज इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2721	U72900DL2001PTC110302	दुकेस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2722	U72900DL2001PTC110322	आकर्श कम्प्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2723	U99999DL2001PTC110398	मीडिया ग्लिडज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2724	U72900DL2001PTC110533	इरइक सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2725	U99999DL2001PTC110539	यग ट्रान्स्क्रिप्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2726	U99999DL2001PTC110545	इंड्यनोईल पेट्रोकेम लिमिटेड.

2727	U52190DL2001PTC110554	सबा इन्दुषा एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
2728	U72200DL2001PTC110590	नोईदा कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
2729	U67190DL2001PTC110624	एपेक्स पोर्टफोलियोस प्राईवेट लिमिटेड
2730	U3410DDL2001PTC110644	टोरेल ऑटो गैस कुइपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2731	U63011DL2001PTC110712	हाग कागो सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2732	U74300DL2001PTC110811	न्यू अंडवर्टाइनमेंट मीडिया एंटरटेन्मेंट प्राईवेट. लिमिटेड
2733	U99999DL2001PTC110864	डिस्कोवेर्यूलल सर्कल टूंस एण्ड टूवलस प्राईवेट. लिमिटेड.
2734	U72200DL2001PTC111061	आर एस डी इन्फोलाईट प्राईवेट लिमिटेड
2735	U72900DL2001PTC111079	अबका वेब सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2736	U45203DL2001PTC111119	हृद्स प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2737	U99999DL2001PTC111130	स्पेयलाइज़ड सिस्टम कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2738	U72200DL2001PTC111151	क्लीम्बेक इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2739	U74210DL2001PTC111187	ओनियो इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
2740	U74999DL2001PTC111228	जियोकॉन एंडवान्सड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2741	U74140DL2001PTC111445	सौथेंद कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2742	U72200DL2001PTC111463	लुथा आई टी प्लानेट प्राईवेट लिमिटेड
2743	U72200DL2001PTC111488	आकृति सॉफ्टवेयर प्राईवेट. लिमिटेड.
2744	U51109DL2001PTC111520	अप्पा इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2745	U31300DL2001PTC111546	नोईदा इन्सुलाटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2746	U74300DL2001PTC111587	टप्स मिद मागनत प्राईवेट. लिमिटेड.
2747	U74999DL2001PTC111615	योक्टन स्टील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2748	U74920DL2001PTC111619	म्या (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2749	U35999DL2001PTC111675	टोरेल गैस कुइपमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2750	U24233DL2001PTC111695	रिष्टिलफे प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2751	U72900DL2001PTC111715	समधन इन्फोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2752	U92112DL2001PTC111829	डी के फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
2753	U33112DL2001PTC111858	दिशा होस्पिटल्स एण्ड हेल्थ केअर प्राईवेट. लिमिटेड.
2754	U66010DL2001PTC111906	अस्सोसिएट्स इंडिया इन्व्हेन्स एजेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2755	U63090DL2001PTC111913	इक टूवल ग्रीनवेज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2756	U18109DL2001PTC111916	कर्मिक अटेलिएर प्राईवेट. लिमिटेड.
2757	U15412DL2001PTC111991	एस ए एस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2758	U62100DL2001PTC112062	जेंटस्ट्रीम एरोस्पेस प्राईवेट. लिमिटेड.
2759	U27101DL2001PTC112086	मत्शीन अलोयस प्राईवेट. लिमिटेड.
2760	U72900DL2001PTC112091	आर्का सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2761	U51900DL2001PTC112179	सब एक्स्पॉर्ट इम्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
2762	U74140DL2001PTC112206	टेक्स इंजीनियर्स एण्ड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2763	U74999DL2001PTC112280	गूडहोम मार्केटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2764	U92112DL2001PTC112295	क्विज़ फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड.
2765	U29142DL2001PTC112331	व्कन एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड
2766	U19201DL2001PTC112334	फ़ैबटैक्स ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2767	U74999DL2001PTC112336	टू वीज़न मार्केटिंग एण्ड सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2768	U74999DL2001PTC112345	रियल वर्थ डिस्कॉल्ट काइर्स प्राईवेट लिमिटेड
2769	U80301DL2001PTC112363	नेटिसट एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड
2770	U74140DL2001PTC112389	सपूर कॉर्पोरेट रेसोर्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड

2771	U72200DL2001PTC112473	नेबुला अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
2772	U45202DL2001PTC112497	संचित टावर्ज प्राईवेट लिमिटेड
2773	U72900DL2001PTC112576	इनक्वायरी स्टेशन नेटवर्क (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2774	U51399DL2001PTC112616	डी.एल. नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2775	U22190DL2001PTC112634	पोसितिव प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
2776	U74999DL2001PTC112688	लाईफ गार्ड प्रिवीलेज कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
2777	U22122DL2001PTC112751	सन्सीन पुब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
2778	U52392DL2001PTC112755	एन टी वीजन प्राईवेट लिमिटेड
2779	U63040DL2001PTC112758	मेक्यूई अवियाशन सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2780	U72300DL2001PTC112823	आईस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2781	U18101DL2001PTC112829	ए-टेक्स डिज़ाइन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2782	U74999DL2001PTC112853	ओ.जे. इन्चुरेन्स सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2783	U72900DL2001PTC112968	एल.के. कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
2784	U74999DL2001PTC112991	अवियोडर सिस्टम्स कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2785	U65999DL2001PTC113043	लाईफजन इन्चुरेन्स अडिक्सोर्स प्राईवेट लिमिटेड
2786	U74999DL2001PTC113090	लिन्नन विक्टरी नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2787	U74999DL2001PTC113260	गोल्डन इमिग्रेशन सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2788	U51909DL2001PTC113335	प्रथम एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
2789	U74999DL2001PTC113445	स्प्रा वीजन इंटरनल डिस्कॉन्ट काउर्स प्राईवेट लिमिटेड
2790	U74140DL2001PTC113448	ब्रुड एण्ड बीजन सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2791	U72200DL2001PTC113478	ओक्शोट कन्सल्टिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2792	U73200DL2001PTC113563	पैरामाउन्ट टेक्निकल सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2793	U72200DL2001PTC113587	नुक्लेउस सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
2794	U72200DL2001PTC113615	आई-पद सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2795	U72200DL2001PTC113616	परफेक्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2796	U72200DL2001PTC113617	परादोक्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2797	U72200DL2001PTC113618	नोशन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2798	U72200DL2001PTC113620	आई-वर्कल्ट सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
2799	U32109DL2002PTC113663	तम्सो इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2800	U72200DL2002PTC113720	हप्स सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2801	U74140DL2002PTC113754	आबिनागे कंपिटल मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
2802	U51397DL2002PLC113788	गी सन्स हेल्थ केअर लिमिटेड
2803	U74999DL2002PTC113892	एल.वी नेटवर्क मार्केटिंग प्रिक्वाए लिमिटेड
2804	U51909DL2002PTC113944	कम्पलेट कन्ड्युमर केअर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2805	U65992DL2002PTC113978	बेस्ट लक चित फुन्ड प्राईवेट लिमिटेड
2806	U72200DL2002PTC113988	वी-जन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2807	U72200DL2002PTC113990	आई-जन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2808	U51909DL2002PTC114038	मीलियोनेर्स चॉइस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2809	U74999DL2002PTC114055	अनजानी मार्शल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2810	U18101DL2002PTC114120	नं किहींग गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड
2811	U63090DL2002PTC114130	आगमन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
2812	U74920DL2002PTC114156	कदरंट सिक्यूरिटी सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2813	U72900DL2002PTC114167	नेट्रिउम टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
2814	U72900DL2002PTC114194	कोफ़ेशन टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड डी



2815	U72200DL2002PTC114305	सिगनागे सोफ़्टवेक प्राईवेक ललमलटेड
2816	U72200DL2002PTC114307	कैनदोर इन्फोटेक प्राईवेक ललमलटेड
2817	U51397DL2002PTC114480	साणीध्या ँक्सपोट्स प्राईवेक ललमलटेड
2818	U51909DL2002PTC114539	गर्व ओवरसीज़ प्राईवेक ललमलटेड
2819	U51311DL2002PTC114551	ज़ा मार्ट प्राईवेक ललमलटेड
2820	U72200DL2002PTC114601	नेट्वर्क स्यबर इंडिया प्राईवेक ललमलटेड
2821	U74999DL2002PTC114673	टोपाज़ कन्ट्रोलस ँण्ड सलस्टम्स प्राईवेक ललमलटेड
2822	U72900DL2002PTC114678	सेन ब्रधर्ज़ नेट्वर्क प्राईवेक ललमलटेड
2823	U64120DL2002PTC114737	अम्ट्रक पकैल सवलस प्राईवेक ललमलटेड
2824	U25209DL2002PTC114763	बैजनाथ पॉलीमर्ज़ प्राईवेक ललमलटेड
2825	U72900DL2002PTC114845	ओम कॉल कोन्नेक्ट प्राईवेक ललमलटेड
2826	U22219DL2002PTC114979	वेकटर ँण्ड रस्टर डीज़ाईन्स प्राईवेक ललमलटेड
2827	U34300DL2002PTC115054	पंचशील रजलस्ट्रेशन प्लेट्स प्राईवेक ललमलटेड
2828	U72900DL2002PTC115220	इकोन कॉटैक्ट सेन्टर प्राईवेक ललमलटेड
2829	U31909DL2002PTC115221	क्रलस्टन इलेक्ट्रकल इंजीनलरलस प्राईवेक ललमलटेड
2830	U63040DL2002PTC115337	ँस टी ँस ट्रैवल ँण्ड मार्केटलंग नेट्वर्क प्राईवेक ललमलटेड
2831	U85110DL2002PTC115351	सलद्धांत होस्पलटल प्राईवेक ललमलटेड
2832	U15531DL2002PTC115365	आईकोबेव डलस्ट्रलब्युटस प्राईवेक ललमलटेड
2833	U18101DL2002PTC115451	ओमेगा फ्रैब्रलक्स प्राईवेक ललमलटेड
2834	U51909DL2002PTC115490	ट्रम्प मार्केटलंग प्राईवेक ललमलटेड
2835	U64201DL2002PTC115514	रेगेंट तेले कम्युनलकेशन्स प्राईवेक ललमलटेड
2836	U74140DL2002PTC115579	अडस्प कन्सलतन्ट्स प्राईवेक ललमलटेड
2837	U64120DL2002PTC115587	सुपरलर कौरलर्ज़ प्राईवेक ललमलटेड
2838	U51909DL2002PTC115744	फ्रास्ट ग्रो मार्केटलंग प्राईवेक ललमलटेड
2839	U22110DL2002PTC115787	गटे मार्केटलंग ँण्ड अंडवर्टांयलंग प्राईवेक ललमलटेड
2840	U72200DL2002PTC115817	प्रोआकलटव्स सोलुशन्स प्राईवेक ललमलटेड
2841	U92132DL2002PTC115821	मुस्कन म्युज़लक ँटर्तांयनर प्राईवेक ललमलटेड
2842	U72900DL2002PTC115831	ँज़बलज़ सोलुशन्स प्राईवेक ललमलटेड
2843	U51909DL2002PTC115905	नम्रुपा ट्रेडर्ज़ प्राईवेक ललमलटेड
2844	U31200DL2002PTC115912	वन-ऊनी ँन्जीन्यरींग प्राईवेक ललमलटेड
2845	U51909DL2002PTC115917	रलद्धी सलषी नेट्वर्क प्राईवेक ललमलटेड
2846	U72900DL2002PTC115922	इन्वन्टलव इन्फोर्मेेशन टेकनोलोजीस प्राईवेक ललमलटेड
2847	U15122DL2002PTC115925	प्रीयन्हा सी फूड्स प्राईवेक ललमलटेड
2848	U45202DL2002PTC115966	नारायण प्रोजेक्ट्स प्राईवेक ललमलटेड
2849	U63013DL2002PLC115995	इंगल लोजलस्टलक्स इंडिया ललमलटेड
2850	U18101DL2002PTC116156	कॉटन कोलोस होसलएरी प्राईवेक ललमलटेड
2851	U55101DL2002PTC116231	जशन स्वीट्स ँण्ड लाईट बलट्स प्राईवेक ललमलटेड
2852	U74994DL2002PTC116257	सलंह इंटलरलरलस प्राईवेक ललमलटेड
2853	U38911DL2002PTC116277	डलगेम्स ओवरसीज़ प्राईवेक ललमलटेड
2854	U72900DL2002PTC116286	स्टारलीन्क्स इंडिया प्राईवेक ललमलटेड
2855	U51909DL2002PTC116328	ग्र ट्रैवेली ओने मार्केटलंग प्राईवेक ललमलटेड
2856	U51909DL2002PTC116331	योकेमार्टे मार्केटलंग प्राईवेक ललमलटेड
2857	U72900DL2002PTC116470	वलठल इन्फोर्मेेशन प्राईवेक ललमलटेड
2858	U34300DL2002PTC116485	पूरन ऑटो डलस्ट्रलब्युटस प्राईवेक ललमलटेड

2859	U72900DL2002PTC116491	यू वी डिज़ाइन लैब प्राइवेट लिमिटेड
2860	U51909DL2002PTC116568	नागदेव सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2861	U99999DL2002PTC116650	बम एशिया मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड
2862	U51909DL2002PTC116716	न्यू मार्केटिंग सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2863	U51909DL2002PTC116834	एकुओरमनत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2864	U62100DL2002PTC116889	विस्ता एअर सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2865	U40108DL2002PTC116959	सत्य इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2866	U32109DL2002PTC116987	केमील मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2867	U72900DL2002PTC117046	सहसारा होमबिज़ सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2868	U32109DL2002PTC117100	इन्वोर्विटिव प्रोतेक प्राइवेट लिमिटेड
2869	U51311DL2002PTC117179	जोस टैक्सटाईल प्राइवेट लिमिटेड
2870	U29299DL2002PLC117219	क्लीन पॉवर लिमिटेड टूरस फ़्रोम टी.एन.टो दिल्ली
2871	U51397DL2002PTC117236	एंबार्क सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2872	U74999DL2002PTC117271	चॉईस एअरकंडिशनिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
2873	U74140DL2002PTC117287	एम.एस. मार्कोन सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2874	U45201DL2002PTC117385	बृंदावन रोल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2875	U51909DL2002PTC117386	उडित शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2876	U51909DL2002PTC117398	लकस्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2877	U45201DL2002PTC117413	जेनिआ एण्ड फ़र्न इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2878	U51397DL2002PTC117476	ऊमंग मेकॉटिल सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2879	U27203DL2002PTC117583	अंकसर मेटल टीक प्राइवेट लिमिटेड
2880	U21012DL2002PTC117602	आर्ट मेघ पेपर स्टोर प्राइवेट लिमिटेड
2881	U51909DL2002PTC117693	जोव मार्केटिंग सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2882	U24231DL2002PLC117699	अजीत मित्तल हेल्थ केअर लिमिटेड
2883	U72900DL2002PTC117737	बग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2884	U92199DL2002PTC117880	थर्द आई एंटरटेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड
2885	U74140DL2002PTC117903	जेनेसिस फ़िसकल लीन्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2886	U30007DL2002PTC118046	डांग कम्प्यूटर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
2887	U74300DL2003PTC118352	इन्फोमैक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2888	U45201DL2003PTC118512	स्कील्फुल देवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2889	U72900DL2003PTC118537	फ़िडेलिआ टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2890	U27109DL2003PTC118608	कंटारिया निंकास्ट अलॉयस प्राइवेट लिमिटेड
2891	U51909DL2003PTC118661	सन्लीदिंग मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2892	U74920DL2003PTC118693	रुई सिक्कुरिटी फ्लेसमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
2893	U51909DL2003PTC118765	रेस फ़ोर यौ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2894	U74140DL2003PTC118799	जी सिक्स कोनूलतन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2895	U72200DL2003PLC118925	अब(इंडिया) इन्फोटेक लिमिटेड
2896	U51909DL2003PTC119056	गेव कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2897	U63090DL2003PTC119167	पी पी ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2898	U26959DL2003PTC119187	युतिलिटी क्रीक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2899	U72900DL2003PTC119353	एल्वी सोफ़्टेक सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2900	U80102DL2003PTC119399	राईत स्टेप लॉनिंग सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2901	U51311DL2003PTC119483	क्स्क एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
2902	U63040DL2003PTC119698	वेस्टर्न होलिडेस एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड

2903	U74300DL2003PTC119791	मकेप्टिप औत्सौक सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2904	U74140DL2003PTC119860	कोपोरटे हर्ड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2905	U65910DL2003PTC119947	एलांद लीसिंग एण्ड फायनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2906	U74140DL2003PTC119999	अऊबूरन कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
2907	U63040DL2003PTC120071	पेफेक्ट सोल्यूशन टूलिज प्राईवेट लिमिटेड
2908	U33130DL2003PTC120078	इन्सिस्ट अटोमटिका इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2909	U24231DL2003PTC120146	रदित लाईफ़्री मनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
2910	U24239DL2003PTC120158	एफ फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
2911	U34300DL2003PTC120321	फ़र्ज़ेडगैलेक्ट्रिक पीरना इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2912	U63040DL2003PTC120332	टिवन्स टूंस एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
2913	U85110DL2003PTC120377	ड्र.रीटा सजिकल लेंसर क्लिनिक प्राईवेट लिमिटेड
2914	U32109DL2003PTC120394	साधना होम अपिल आन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2915	U72900DL2003PTC120422	सन्जीता पॉवर सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2916	U74140DL2003PTC120555	हेमिल्टन इमिग्रेशन सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2917	U51909DL2003PTC120556	नियो विन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2918	U24231DL2003PTC120730	डी पी हेल्थ केअर प्राईवेट लिमिटेड
2919	U22219DL2003PTC120845	स्पेक्ट्राविशन डीज़ाईन्स एण्ड प्रिंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2920	U80211DL2003PTC120856	शकुन ओवरसीज़ एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड
2921	U32109DL2003PTC120929	स्पीक अपिल आन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2922	U51909DL2003PTC120974	बजाज टॉपलाइन मर्चेंडिसिंह प्राईवेट लिमिटेड
2923	U74140DL2003PTC120984	ए.के.लॉनिंग डिमेन्शन प्राईवेट लिमिटेड
2924	U15209DL2003PTC121027	डी एस डेरी एड्स प्राईवेट लिमिटेड
2925	U72900DL2003PTC121155	मेकूरई एकोम प्राईवेट लिमिटेड
2926	U51909DL2003PTC121219	स्टीलेट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2927	U24231DL2003PTC121269	अद्वांतागे फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2928	U92111DL2003PTC121346	कॉम्पिटेंट प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
2929	U72900DL2003PTC121584	श्रीजन कम्प्यूटेक सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2930	U63013DL2003PTC121662	तिरुपति बालाजी कार्गो पैकज एण्ड मोवज़ प्राईवेट लिमिटेड
2931	U51909DL2003PTC121731	किनको इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2932	U51311DL2003PTC121764	आल्फ़्स फ़ूरनीशींग प्राईवेट लिमिटेड
2933	U80903DL2003PTC121820	इन्फ़िनिती एडू-पॉर्ट प्राईवेट लिमिटेड
2934	U74999DL2003PTC121861	सब्बरवाल क्रेडिट कलेक्शन प्राईवेट लिमिटेड
2935	U74930DL2003PTC121914	स्तुति फेसिलिटीस सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2936	U50300DL2003PTC122045	अण ऑटो सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2937	U74999DL2003PTC122177	कम्पा फ़ोरेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2938	U45200DL2003PTC122292	इव्स प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2939	U72900DL2003PTC122438	एकेस अर्चिव टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
2940	U24239DL2003PTC122528	दिल्ली फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2941	U55201DL2003PTC122531	मुघलै किचेन प्राईवेट लिमिटेड
2942	U51909DL2003FTC122638	स्वाजन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2943	U74994DL2003PTC122796	लेटन्स सिगनागेस प्राईवेट लिमिटेड
2944	U51909DL2003PTC122973	मोमेन्दुम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2945	U72900DL2003PTC122985	अब्रिज इन्फोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2946	U50300DL2003PTC123027	एको पल ऑटोमोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड

2947	U51909DL2003PTC123069	ओपनोर्तुनिती नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2948	U74300DL2003PTC123173	नुवू स्टुडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2949	U18101DL2003PTC123187	लेप्टन्स फ्रेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2950	U51909DL2003PTC123286	सिगन नेटवर्क कन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2951	U72900DL2003PTC123311	वर्क कॉमवॉइस टेक्नोलॉजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2952	U72900DL2003PTC123567	उल्टिमेडिआ अप्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2953	U63040DL2003PTC123607	नोमादिक ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
2954	U72900DL2003PTC123636	पार्सिफिक इट्स ओल्सौक प्राइवेट लिमिटेड
2955	U74899DL2003PTC123731	सनहील इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2956	U72900DL2003PTC123744	ट्रिल्टन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2957	U74899DL2003PTC123760	ऊनिक्र क्रिकेट चालगे.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
2958	U74110DL2004PTC124187	द्विवेदी लॉ ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड
2959	U74999DL2004PTC124214	हरमीत बील्डमट प्राइवेट लिमिटेड
2960	U51909DL2004PTC124405	शेरी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2961	U63040DL2004PTC124473	स्कायडील्स वॉयेज प्राइवेट लिमिटेड
2962	U29199DL2004PTC124478	क्यू.एस. कन्ट्रोल्ल्स इंटेग्राटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2963	U29199DL2004PTC124635	कोब्रोव इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2964	U74110DL2004PTC124658	कडब लिक्विडेशन सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2965	U65910DL2004PLC124716	तेलेवीज़न इष्टीन फ़िनकंप लिमिटेड
2966	U74999DL2004PTC125022	फ़ेथैस एन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड
2967	U45201DL2004PTC125025	अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एण्ड एन्जीनियरींग कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2968	U24239DL2004PTC125031	हेबोरेक्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2969	U55201DL2004PTC125039	वावेन्स अफ़िफ़नीतीस हाईवे रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2970	U74300DL2004PTC125261	सुपर सिग्नागेस प्राइवेट लिमिटेड
2971	U63090DL2004PTC125536	बी एल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2972	U74140DL2004PTC125569	टेक्स्पीडिआ ह मनाग्मेन्ट सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड.
2973	U92312DL2004PTC125648	आई.पी.म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड
2974	U72900DL2004PTC125722	ओस्कॉन इ-सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2975	U50300DL2004PTC125905	गणपत ब्रेक एण्ड क्लुच प्राइवेट लिमिटेड
2976	U74140DL2004PTC125921	एफिशियंट शीप सर्विसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2977	U50200DL2004PTC125929	गणपति कारकेअर प्राइवेट लिमिटेड
2978	U45201DL2004PTC125992	मुडन्स बील्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
2979	U55204DL2004PTC126461	एस केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड
2980	U63040DL2004PTC126607	नुगेन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
2981	U80301DL2004PTC126991	तकियोने स्कुल ऑफ़ मास्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2982	U51909DL2004PTC127060	आर.वी.डी. एन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड
2983	U51909DL2004PTC127422	पर्मार्थ इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2984	U74220DL2004PTC127470	न्यू एरा सर्टिफ़िकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2985	U51311DL2004PTC127755	प्यूर हक गार्मेन्ट अक्सेसरीस प्राइवेट लिमिटेड
2986	U72300DL2004PTC128094	अदा इन्फ़ोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2987	U27109DL2004PTC128157	आर एम बी मेटल क्राफ़्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2988	U41000DL2004PTC128487	रेनबो अक्वा टेक प्राइवेट लिमिटेड
2989	U74140DL2004PTC128718	मेनन एण्ड मेनन मॅनेजमेन्ट कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2990	U55110DL2004PLC129076	सेदना हेल्थ केअर लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
2991	यू64202डीएल2004 पीटीसी129089	मैसर्स प्रिमुस टेलीकम्यूनिकेशन्स मोबाइल्स सर्वीसीस प्राइवेट लिमिटेड
2992	यू32109डीएल2004 पीटीसी130550	मैसर्स ए. ए. पॉवर लाईन इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2993	यू74999डीएल2004 पीटीसी130969	मैसर्स ताजिमार्ट इम्पेक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2994	यू18101डीएल2004 पीटीसी131234	मैसर्स केवाईएमएस गार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2995	यू74999डीएल2005 पीटीसी132239	मैसर्स चेतिसिंग इन्फिनिति हैल्थ सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2996	यू18101डीएल2005 पीटीसी132341	मैसर्स विक्टर नितफॉब प्राइवेट लिमिटेड
2997	यू62200डीएल2005 पीटीसी132437	मैसर्स सेनरजी एरो एण्ड अलाईड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
2998	यू55202डीएल2005 पीटीसी132475	मैसर्स ली चायनीज कुइसीन प्राइवेट लिमिटेड
2999	यू31903डीएल2005 पीटीसी132653	मैसर्स एठेनाशक्ती सिक्यूरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3000	यू18101डीएल2005 पीटीसी132696	मैसर्स एवोलुशन गार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3001	यू31504डीएल2005 पीटीसी133480	मैसर्स टायरीद लाईटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3002	यू34300डीएल2005 पीटीसी133808	मैसर्स प्रुडेन्स ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
3003	यू18101डीएल2005 पीटीसी133941	मैसर्स प्रुडेन्स फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3004	यू25209डीएल2005 पीटीसी134138	मैसर्स प्राइड पॉलीमर्ज प्राइवेट लिमिटेड
3005	यू00309डीएल2005 पीटीसी134812	मैसर्स कॉफीडेंटडेन्टल मैन्युफैक्चरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

एम. के. बार्मिड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सारा डिट्जेंट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 7 फरवरी 2007

सं. एल.सी./560/एस.ई.एस./11662--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सारा डिट्जेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. एल.सी./560/एस.ई.एस./3031--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के सम्बन्ध में

जयपुर, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. आर.ओ.सी./एस.ई.एस./2005/95--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान, जयपुर

क्र. कम्पनी नम्बर सं.		कम्पनी का नाम	1	2	3
1	2	3			
1	यू26933आरजे2000 पीटीसी016384	मैसर्स निर्मला सेरामिक प्राईवेट लिमिटेड	20	यू51101आरजे1994 पीटीसी008140	मैसर्स डायमेशनल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
2	यू15440आरजे2002 पीटीसी017791	मैसर्स कूकस फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	21	यू80302आरजे2004 पीटीसी019452	मैसर्स गोविन्द मुरारी गर्ग सूबा लाल इन्स्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
3	यू63040आरजे1985 पीटीसी009197	मैसर्स हाईलैण्ड द्यूरिज्म कं. प्राईवेट लिमिटेड	22	यू14102आरजे1995 पीटीसी010082	मैसर्स कुमार प्रानीमार्मो प्राईवेट लिमिटेड
4	यू30001आरजे1996 पीटीसी011423	मैसर्स जिनियस ऑफिस इक्विपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	23	यू65910आरजे1994 पीटीसी008245	मैसर्स जगन फाइननेस एण्ड लिजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5	यू72200आरजे2002 पीटीसी017440	मैसर्स रेड ट्रे टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	24	यू19201आरजे1991 पीटीसी006342	मैसर्स फूटमेच लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड
6	यू51101आरजे1994 पीएलसी008361	मैसर्स अनुवर्तित बिजनेस (इण्डिया) लिमिटेड	25	यू72200आरजे2003 पीटीसी018352	मैसर्स 4जीएल इन्फो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
7	यू51109आरजे1962 पीटीसी001145	मैसर्स स्टेण्डर्ड ऑटोपार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	26	यू72200आरजे2002 पीटीसी017578	मैसर्स थार टच सोफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
8	यू24302आरजे1999 पीटीसी016013	मैसर्स सन्दीप स्पूटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	27	यू65923आरजे1995 पीटीसी010496	मैसर्स फाल्कन क्रेडिट्स लिमिटेड
9	यू67200आरजे2004 पीटीसी019287	मैसर्स द्वापर एसुरेन्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	28	यू65910आरजे1995 पीटीसी010494	मैसर्स चिनार फिनलीज लिमिटेड
10	यू26911आरजे1982 पीटीसी002486	मैसर्स सुपर पोटर्रीज प्राईवेट लिमिटेड	29	यू65923आरजे1995 पीटीसी010493	मैसर्स एसक्वायर क्रेडिट्स लिमिटेड
11	यू51101आरजे1994 पीटीसी008528	मैसर्स ट्रेड लिंक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	30	यू65910आरजे1995 पीटीसी010492	मैसर्स हिमगिरी फिनलीज लिमिटेड
12	यू31102आरजे1997 पीटीसी013291	मैसर्स सोनिका ट्रांसफार्मर प्राईवेट लिमिटेड	31	यू65910आरजे1995 पीटीसी010495	मैसर्स फ्लोरा फिनलीज लिमिटेड
13	यू51395आरजे1980 पीटीसी002055	मैसर्स मौलश्री इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	32	यू72200आरजे2002 पीटीसी017785	मैसर्स मेजोरिटी इन्फोसोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
14	यू85110आरजे1995 पीटीसी010943	मैसर्स सेवारां रामरतन हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड	33	यू63090आरजे1997 पीटीसी013723	मैसर्स इयूस सिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
15	यू72200आरजे2002 पीटीसी017503	मैसर्स हेमी इनफोरमेशन टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड	34	यू31300आरजे1997 पीटीसी014494	मैसर्स टी.जी. ट्रेडलिंक प्राईवेट लिमिटेड
16	यू24139आरजे1981 पीटीसी002163	मैसर्स ओरियन्ट गम इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	35	यू74995आरजे2004 पीटीसी019049	मैसर्स सिद्धि विनायक टोल्लस प्राईवेट लिमिटेड
17	यू67120आरजे1992 पीटीसी007106	मैसर्स स्टण्डर्ड चार्टर्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	36	यू52110आरजे2002 पीटीसी017599	मैसर्स कामधेनु होम पेक्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
18	यू01122आरजे1994 पीटीसी008693	मैसर्स रिया ब्लोसोम्स प्राईवेट लिमिटेड	37	यू27101आरजे1987 पीएलसी004096	मैसर्स हाई-टेक फोर्ज लिमिटेड
19	यू14101आरजे1992 पीटीसी006743	मैसर्स डायमेशनल स्टोन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	38	यू31902आरजे1985 पीएलसी003350	मैसर्स वेन्स (इण्डिया) लिमिटेड
			39	यू65910आरजे1996 पीटीसी012161	मैसर्स बह्मपुरी फाइननेस एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
40	यू74140आरजे1997 पीटीसी013450	मैसर्स राजदीप इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	60	यू17111आरजे1997 पीटीसी013590	मैसर्स नवदीप स्पीनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
41	यू65993आरजे1996 पीटीसी011696	मैसर्स सुर्याकिरण फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड	61	यू40101आरजे1996 पीटीसी012621	मैसर्स राज समंद पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
42	यू17122आरजे2000 पीटीसी016391	मैसर्स राजलक्ष्मी सिल्क एन सारीज प्राईवेट लिमिटेड	62	यू40101आरजे1996 पीटीसी012622	मैसर्स बांसवाड़ा पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
43	यू11101आरजे1997 पीटीसी013363	मैसर्स भरतपुर एगो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड	63	यू40101आरजे1996 पीटीसी012623	मैसर्स चित्तोड़गढ़ पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
44	यू28939आरजे1997 पीटीसी013679	मैसर्स मट्टा फेब्रीकेशंस एण्ड फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	64	यू18101आरजे1996 पीटीसी012619	मैसर्स भीलवाड़ा पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
45	यू15411आरजे1999 पीटीसी015525	मैसर्स लक्ष्मी ब्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड	65	यू55101आरजे1985 पीटीसी003319	मैसर्स राजस्थान मिडवेज एण्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
46	यू72200आरजे1998 पीटीसी015270	मैसर्स वत्सल कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	66	यू65993आरजे1988 पीटीसी004272	मैसर्स भीलवाड़ा इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
47	यू45201आरजे1992 पीटीसी006686	मैसर्स शंकर डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	67	यू31300आरजे1996 पीटीसी011739	मैसर्स सत्यम् रिफ्रेकट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
48	यू26943आरजे1991 पीटीसी006212	मैसर्स कसेरा सिमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	68	यू74999आरजे1996 पीटीसी012620	मैसर्स उदयपुर पावर प्राईवेट लिमिटेड
49	यू14102आरजे1995 पीटीसी010953	मैसर्स जया ग्रेनीमारमो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	69	यू26943आरजे1991 पीएलसी006267	मैसर्स श्री पदम सिमेन्ट लिमिटेड
50	यू72100आरजे1997 पीटीसी013934	मैसर्स नेट कामर्ज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	70	यू24124आरजे1999 पीएलसी015930	मैसर्स रिद्धि सिद्धि फॉस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
51	यू51311आरजे1997 पीटीसी013656	मैसर्स धारीवालस सोना एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	71	यू15142आरजे1998 पीटीसी014903	मैसर्स रिद्धि सिद्धि एडीबल ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
52	यू15499आरजे1998 पीटीसी014567	मैसर्स अंजनी पुत्रा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	72	यू34300आरजे1995 पीटीसी010801	मैसर्स मेघना वेन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
53	यू52190आरजे2002 पीटीसी017846	मैसर्स सन्नधी नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	73	यू14219आरजे1993 पीटीसी007279	मैसर्स निम्बस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
54	यू15204आरजे1992 पीटीसी007025	मैसर्स गुड्डू फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	74	यू70100आरजे2000 पीएलसी016755	मैसर्स जयपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
55	यू72100आरजे1987 पीटीसी004019	मैसर्स कम्प्यूटोनिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	75	यू01211आरजे1988 पीटीसी004241	मैसर्स रुद्राख हचरिज प्राईवेट लिमिटेड
56	यू50101आरजे2005 पीटीसी020311	मैसर्स मारवार आटोमार्ट प्राईवेट लिमिटेड	76	यू51311आरजे2002 पीटीसी017421	मैसर्स स्वपनील ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
57	यू31200आरजे1983 पीटीसी002810	मैसर्स वी.जी. मोहनोत एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	77	यू15433आरजे1991 पीटीसी005919	मैसर्स पूनम स्वीट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
58	यू85110आरजे2000 पीटीसी016488	मैसर्स सुशीला अशोपा हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड			
59	यू01119आरजे1992 पीटीसी006463	मैसर्स सत्यम गम्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
78	यू29120आरजे1995 पीटीसी009684	मैसर्स सिस्टेमैटिक हाइड्रो लिक्स प्राईवेट लिमिटेड	98	यू45201आरजे1996 पीटीसी013000	मैसर्स जोडीएक रेजीडेंसी प्राईवेट लिमिटेड
79	यू74999आरजे2004 पीटीसी019677	मैसर्स सरस्वति हैन्डीक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	99	यू51101आरजे1994 पीटीसी008922	मैसर्स जाया एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
80	यू72200आरजे2001 पीटीसी016910	मैसर्स प्रेम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	100	यू72200आरजे2003 पीटीसी018655	मैसर्स मरुधर ऑनलाइन प्राईवेट लिमिटेड
81	यू15141आरजे1991 पीटीसी006211	मैसर्स श्री सनराईज ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड	101	यू67120आरजे1996 पीटीसी012293	मैसर्स नीकसुंज फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
82	यू27101आरजे1993 पीटीसी007455	मैसर्स सुराना सन्स प्राईवेट लिमिटेड	102	यू67120आरजे1997 पीटीसी013223	मैसर्स मैया फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
83	यू63040आरजे1996 पीटीसी012351	मैसर्स रोमार्स टूर्स एण्ड ट्रेवेल्स प्राईवेट लिमिटेड	103	यू25209आरजे1996 पीटीसी012995	मैसर्स सुरगुजा प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
84	यू24139आरजे1982 पीटीसी002532	मैसर्स दिगविजय गमकेम प्राईवेट लिमिटेड	104	यू51101आरजे1994 पीटीसी009044	मैसर्स निम्बार्का एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
85	यू15511आरजे1997 पीटीसी014229	मैसर्स राहुल ग्रेषरीज प्राईवेट लिमिटेड	105	यू65923आरजे1997 पीटीसी013221	मैसर्स मॉ करनाल एग्रो फायनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
86	यू14101आरजे1995 पीटीसी009976	मैसर्स पंकज स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड	106	यू65993आरजे1983 पीटीसी002855	मैसर्स तमरा इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
87	यू72200आरजे2004 पीटीसी018872	मैसर्स मणीकादन सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	107	यू14101आरजे1996 पीटीसी012489	मैसर्स इम्पाला मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
88	यू67120आरजे1996 पीटीसी012467	मैसर्स मैग्नेटिक फाइनेंस लिमिटेड	108	यू24124आरजे1999 पीएलसी015737	मैसर्स गंगोत्री फॉस्फेट लिमिटेड
89	यू51101आरजे1994 पीटीसी008009	मैसर्स सैंडरोक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	109	यू14101आरजे1997 पीटीसी013502	मैसर्स रतन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
90	यू67120आरजे1995 पीटीसी009384	मैसर्स संचेती कैंपीटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	110	यू60221आरजे2000 पीटीसी016197	मैसर्स मोटीले परिवहन प्राईवेट लिमिटेड
91	यू45201आरजे1996 पीटीसी012521	मैसर्स अरूणोदय आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	111	यू67120आरजे1995 पीटीसी009796	मैसर्स कन्हैया सिक्कूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
92	यू45201आरजे1992 पीटीसी006978	मैसर्स अरूणोदय प्रोपर्टी एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	112	यू51109आरजे2002 पीटीसी017459	मैसर्स स्मार्ट एन्ट्रेस मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
93	यू52190आरजे2003 पीटीसी018518	मैसर्स भण्डारी ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	113	यू14107आरजे1998 पीटीसी015008	मैसर्स अजय लाईम्स प्राईवेट लिमिटेड
94	यू67120आरजे1995 पीटीसी010636	मैसर्स रामसब कैंपीटल प्राईवेट लिमिटेड	114	यू24117आरजे1998 पीटीसी014583	मैसर्स नाकोड़ा लाईम कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
95	यू21015आरजे1996 पीटीसी011465	मैसर्स फोटोकैक्स पेपर्स (राजस्थान) प्राईवेट लिमिटेड	115	यू67120आरजे1995 पीटीसी010534	मैसर्स बालार फाइनेंस लिमिटेड
96	यू21015आरजे1996 पीटीसी011464	मैसर्स अजय प्रिंटेपेप प्राईवेट लिमिटेड	116	यू15432आरजे1997 पीटीसी013372	मैसर्स विनायक कान्फैक्सनरीज प्राईवेट लिमिटेड
97	यू72200आरजे1998 पीटीसी015226	मैसर्स एस.आर. जे. ट्रांसमिशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड			



1	2	3	1	2	3
117	यू55102आरजे1996 पीटीसी011924	मैसर्स महालक्ष्मी होलीडे रिसोर्टस् प्राईवेट लिमिटेड	136	यू92114आरजे1997 पीटीसी013164	मैसर्स धरम ग्यान-चक्र प्राईवेट लिमिटेड
118	यू92120आरजे1996 पीटीसी012060	मैसर्स महालक्ष्मी एक्जीबिटर्स प्राईवेट लिमिटेड	137	यू52190आरजे2002 पीटीसी017819	मैसर्स एच. एफ. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
119	यू65993आरजे1987 पीटीसी004239	मैसर्स पराइमरोज इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	138	यू65910आरजे1995 पीटीसी009983	मैसर्स रैनबो फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
120	यू15499आरजे1988 पीटीसी004469	मैसर्स कोबी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	139	यू85110आरजे1998 पीटीसी014772	मैसर्स खारीवाल हॉस्पिटल एण्ड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
121	यू55101आरजे1995 पीटीसी010127	मैसर्स रजवाड़ा पैलेस रिसोर्ट होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	140	यू29299आरजे1992 पीटीसी007024	मैसर्स टूल्स फोरगिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
122	यू65910आरजे1996 पीटीसी012400	मैसर्स डी. एस. फिनलीज़ प्राईवेट लिमिटेड	141	यू74994आरजे2000 पीटीसी016411	मैसर्स सरस्वती आर्ट पैलेस प्राईवेट लिमिटेड
123	यू52190आरजे2002 पीटीसी017593	मैसर्स स्काईप्लेनैट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	142	यू18101आरजे1994 पीटीसी008748	मैसर्स शकुन परोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
124	यू14219आरजे1995 पीटीसी010213	मैसर्स रिमोनिक्स कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	143	यू24117आरजे1982 पीटीसी002590	मैसर्स मोनार्क केम्स एण्ड एलाईड परोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
125	यू72100आरजे1997 पीटीसी013536	मैसर्स जानिक्स सोलशन्स प्राईवेट लिमिटेड	144	यू40102आरजे1996 पीटीसी011821	मैसर्स जोधपुर इलेक्ट्रिक पॉवर कम्पनी लिमिटेड
126	यू65910आरजे1986 पीएलसी003621	मैसर्स गेटबेल लीजिंग लिमिटेड	145	यू17111आरजे1995 पीटीसी010664	मैसर्स एस के कॉटन एण्ड ऑयल प्राईवेट लिमिटेड
127	यू14101आरजे1989 पीटीसी005155	मैसर्स मयंक मारबल्स लिमिटेड	146	यू45201आरजे1999 पीटीसी015348	मैसर्स महादेव बिल्डकॉन एण्ड मरकेन्डाईज़ प्राईवेट लिमिटेड
128	यू14101आरजे2004 पीटीसी019582	मैसर्स बोझामली मारबल्स प्राईवेट लिमिटेड	147	यू74991आरजे1998 पीटीसी015075	मैसर्स गौरव एक्सपोकॉम प्राईवेट लिमिटेड
129	यू85110आरजे1993 पीटीसी007852	मैसर्स सन्सिटी हेल्थ क्लब प्राईवेट लिमिटेड	148	यू55102आरजे1990 पीटीसी005493	मैसर्स जेपीज टूरिस्ट विलेज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
130	यू92111आरजे1984 पीटीसी003099	मैसर्स मोनार्क फिल्मस् कम्बाइन्ड प्राईवेट लिमिटेड	149	यू24124आरजे2003 पीटीसी018460	मैसर्स आरयान औरगेनिक फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड
131	यू28992आरजे1995 पीटीसी009533	मैसर्स खूंटैया मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	150	यू24117आरजे1988 पीटीसी004366	मैसर्स यूनिक एक्जीबिटर्स प्राईवेट लिमिटेड
132	यू65910आरजे1995 पीटीसी009592	मैसर्स संचित लिफिन प्राईवेट लिमिटेड	151	यू51101आरजे2001 पीटीसी017186	मैसर्स द्वारका ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
133	यू24117आरजे1982 पीएलसी002391	मैसर्स समीता केमीकल्स एण्ड मेटल्स लिमिटेड	152	यू24119आरजे1984 पीटीसी003135	मैसर्स राजस्थान एक्टीवेटेड अर्थ केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
134	यू24117आरजे1980 पीटीसी001995	मैसर्स पिंगसीटी केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	153	यू67120आरजे1996 पीटीसी011672	मैसर्स जे.एन. जी. सेक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
135	यू29299आरजे1993 पीटीसी007375	मैसर्स भोजराज इंजिनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	154	यू70109आरजे1992 पीटीसी006895	मैसर्स पनसूमी फार्मस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
155	यू65992आरजे1990 पीटीसी005309	मैसर्स मागो चिट फण्ड एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	174	यू14101आरजे1997 पीटीसी014120	मैसर्स येस. कन्सल्टेन्सी एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
156	यू67120आरजे1995 पीटीसी011301	मैसर्स बालाजी म्यूजिक प्राईवेट लिमिटेड	175	यू51101आरजे1976 पीटीसी001669	मैसर्स संजय एन्टरप्राइजेज (फाईनेन्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
157	यू85195आरजे1996 पीटीसी011795	मैसर्स रिलेक्स पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड	176	यू31300आरजे1974 पीटीसी001554	मैसर्स लक्ष्मण प्राईवेट लिमिटेड
158	यू51102आरजे1996 पीटीसी012505	मैसर्स न्यूपॉइंट मार्केटिंग एसोसिएट लिमिटेड	177	यू14101आरजे1996 पीटीसी011688	मैसर्स लुसिफर मार्बल्स लिमिटेड
159	यू31909आरजे1996 पीटीसी011793	मैसर्स साउण्ड पॉइंट एक्सपोर्ट लिमिटेड	178	यू72200आरजे2001 पीटीसी016962	मैसर्स वरसा लाईट सिस-टेक प्राईवेट लिमिटेड
160	यू52190आरजे2002 पीटीसी017597	मैसर्स मैजोरिटी नेट मार्क प्राईवेट लिमिटेड	179	यू67120आरजे1996 पीटीसी012734	मैसर्स विमला फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड
161	यू44117आरजे1996 पीटीसी011364	मैसर्स यूनाइटेड यूनिफेड (इण्डिया) लिमिटेड	180	यू24232आरजे2002 पीटीसी017787	मैसर्स गिरनार हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
162	यू65993आरजे1997 पीटीसी013413	मैसर्स यूनाइटेड फिनट्रेड लिमिटेड	181	यू36911आरजे2003 पीटीसी018282	मैसर्स आस्था डाईमण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
163	यू51505आरजे1997 पीटीसी013412	मैसर्स लोर्डस् इण्डिया इक्वाइपमेन्ट्स लिमिटेड	182	यू74140आरजे1992 पीटीसी006746	मैसर्स नील कमल क्रेडिट एण्ड फाईनेन्स कन्सल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड
164	यू74140आरजे2001 पीटीसी017251	मैसर्स राजस्थान ट्रान्समॉस मीडिया प्राईवेट लिमिटेड	183	यू26932आरजे1980 पीटीसी002022	मैसर्स राजस्थान इक्विपमेन्ट्स मेन्यूफेक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड
165	यू29212आरजे1997 पीटीसी014503	मैसर्स ज्योति इरीगेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	184	यू70101आरजे1993 पीटीसी007717	मैसर्स तन्वीतुश प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
166	यू18101आरजे2002 पीटीसी017575	मैसर्स आर.पी.एम. सलज प्राईवेट लिमिटेड	185	यू01122आरजे1994 पीएलसी007934	मैसर्स वसुधा एग्रो लिमिटेड
167	यू51109आरजे1997 पीटीसी014010	मैसर्स चौधरी आटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	186	यू67120आरजे1994 पीएलसी007954	मैसर्स वसुधा फाईनेन्स लिमिटेड
168	यू51909आरजे2000 पीटीसी016398	मैसर्स सेंसटोनस इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	187	यू65999आरजे1995 पीटीसी010952	मैसर्स प्राईम फिन ग्रोथ प्राईवेट लिमिटेड
169	यू65993आरजे1995 पीटीसी009667	मैसर्स आशुतोष इनफिन प्राईवेट लिमिटेड	188	यू67120आरजे1996 पीटीसी012993	मैसर्स कुशाल फिन कोन प्राईवेट लिमिटेड
170	यू14219आरजे1988 पीटीसी004660	मैसर्स शालिमार मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	189	यू14102आरजे1995 पीटीसी010753	मैसर्स राजेन्द्रा ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
171	यू19201आरजे1994 पीएलसी008849	मैसर्स दिव्या फुटवियर्स लिमिटेड	190	यू18108आरजे1988 पीटीसी004683	मैसर्स सुन्दरम सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
172	यू26943आरजे1993 पीटीसी007673	मैसर्स महा शक्ति लाईम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	191	यू45201आरजे1992 पीटीसी006715	मैसर्स अम्बा कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
173	यू74940आरजे1996 पीटीसी011525	मैसर्स ए. सी. एल. फोटो फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	192	यू31300आरजे2001 पीटीसी017327	मैसर्स कमल केबल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
193	यू72200आरजे2001 पीटीसी016826	मैसर्स मिलेनियम कम्प्यू. एण्ड प्राईवेट लिमिटेड	212	यू45201आरजे1997 पीटीसी007711	मैसर्स सावित्री कोलिनाइजर प्राईवेट लिमिटेड
194	यू31300आरजे1994 पीटीसी008330	मैसर्स दानी केबल्स प्राईवेट लिमिटेड	213	यू70101आरजे1993 पीटीसी007711	मैसर्स पंचरतन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
195	यू18101आरजे1997 पीटीसी013785	मैसर्स हाईपर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	214	यू51101आरजे1990 पीटीसी005536	मैसर्स मिनल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
196	यू51109आरजे2000 पीटीसी016790	मैसर्स पर्ल मल्टी लेवल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	215	यू67120आरजे1997 पीटीसी013253	मैसर्स रुवातिया सिक्कूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
197	यू51101आरजे1993 पीटीसी007387	मैसर्स मल्हार सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	216	यू25201आरजे1996 पीटीसी012037	मैसर्स ब्रदर पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
198	यू14219आरजे1999 पीटीसी015618	मैसर्स नील कण्ठ केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	217	यू51109आरजे1995 पीटीसी010087	मैसर्स सनसिटी सिस्टम्स इण्डिया लिमिटेड
199	यू70101आरजे1993 पीटीसी007657	मैसर्स जोधपुर पावर्स प्राईवेट लिमिटेड	218	यू72100आरजे2000 पीटीसी016752	मैसर्स परतापुर आनलाईन डाट काम प्राईवेट लिमिटेड
200	यू51432आरजे1999 पीटीसी015615	मैसर्स ज्योति बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	219	यू24232आरजे1987 पीटीसी004123	मैसर्स बासील फारमा प्राईवेट लिमिटेड
201	यू67120आरजे1994 पीएलसी008940	मैसर्स ज्योति केपफिन लिमिटेड	220	यू31909आरजे1997 पीटीसी014191	मैसर्स सुक्रीत एनर्जीयस प्राईवेट लिमिटेड
202	यू28991आरजे2000 पीटीसी016714	मैसर्स जसपर आये फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	221	यू24222आरजे1998 पीटीसी014837	मैसर्स खेतान पेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
203	यू14107आरजे1997 पीटीसी014374	मैसर्स रेनाएसान्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	222	यू72160आरजे2000 पीटीसी0016170	मैसर्स शक्ति कम्प्यूट्रोनिक्स ( इण्डिया ) प्राईवेट लिमिटेड
204	यू15543आरजे1996 पीटीसी013049	मैसर्स ओम मिनरल्स वाटर प्राईवेट लिमिटेड	223	यू24117आरजे1992 पीटीसी006549	मैसर्स आदिनाथ सोलवेक्स प्राईवेट लिमिटेड
205	यू24303आरजे1989 पीटीसी005025	मैसर्स लोकमेन्ट पालिस्टर्स ( इण्डिया ) प्राईवेट लिमिटेड	224	यू14101आरजे1992 पीटीसी006704	मैसर्स सौरभ मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
206	यू15543आरजे1987 पीटीसी003988	मैसर्स अरिहन्त केमिन प्राईवेट लिमिटेड	225	यू14219आरजे1996 पीटीसी012419	मैसर्स मंद्रिका मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
207	यू67120आरजे1996 पीटीसी011796	मैसर्स पूजा फिन कॉन प्राईवेट लिमिटेड	226	यू27150आरजे1995 पीटीसी011025	मैसर्स अगवान स्टील्स रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
208	यू74210आरजे1998 पीटीसी015151	मैसर्स कफा इंजिनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	227	यू15491आरजे1986 पीटीसी003818	मैसर्स पिनकान टी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
209	यू64120आरजे1996 पीटीसी012739	मैसर्स सुपर स्पीड कोरियर प्राईवेट लिमिटेड	228	यू25202आरजे1995 पीटीसी010520	मैसर्स कल्याण प्लास्टोपेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
210	यू51211आरजे1998 पीटीसी014854	मैसर्स चन्द्रावली एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड	229	यू74920आरजे1999 पीटीसी015671	मैसर्स गौतम प्लेसमेंट एण्ड सिक्कूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
211	यू70101आरजे1990 पीटीसी005511	मैसर्स भोजनाघरवाला प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	230	यू52190आरजे2003 पीटीसी018121	मैसर्स रिलेक्स लाईफ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
231	यू24239आरजे1993 पीटीसी007632	मैसर्स एडवांस्ड आर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	250	यू25209आरजे1972 पीटीसी001438	मैसर्स प्रेम प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
232	यू74140आरजे1995 पीटीसी011254	मैसर्स अनुराग मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	251	यू14101आरजे1981 पीटीसी002219	मैसर्स मनीष मंजू मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
233	यू72200आरजे2002 पीटीसी017447	मैसर्स सोनिया इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	252	यू51101आरजे1994 पीटीसी008185	मैसर्स दुसाद ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
234	यू65910आरजे1997 पीटीसी013611	मैसर्स प्रज्ञा फिनलिज प्राईवेट लिमिटेड	253	यू55102आरजे1999 पीटीसी015444	मैसर्स मुंद्रा रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
235	यू14101आरजे1995 पीटीसी009593	मैसर्स गोपाल मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	254	यू52208आरजे2001 पीटीसी016853	मैसर्स जयपुर वाईन्स लिमिटेड
236	यू36911आरजे1995 पीटीसी010181	मैसर्स वीनस स्टून जैम्स प्राईवेट लिमिटेड	255	यू25201आरजे1994 पीटीसी008408	मैसर्स श्री सिन्टेक्स लिमिटेड
237	यू17117आरजे1996 पीटीसी012748	मैसर्स प्रेम सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	256	यू55102आरजे1999 पीटीसी015925	मैसर्स जी. के. वी. होलीडेज प्राईवेट लिमिटेड
238	यू28992आरजे1995 पीटीसी010991	मैसर्स चौसरिया पोलिपेक प्राईवेट लिमिटेड	257	यू72200आरजे2001 पीटीसी017202	मैसर्स विजन ईफेक्ट टेक्नो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
239	यू24291आरजे1997 पीटीसी013695	मैसर्स विजयलक्ष्मी मैचेज प्राईवेट लिमिटेड	258	यू80301आरजे2003 पीटीसी018223	मैसर्स एम. एम. क्वीन्स एंड किंग्स कालेज प्राईवेट लिमिटेड
240	यू80302आरजे2001 पीटीसी016902	मैसर्स एस. टी. पी. इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड	259	यू80301आरजे2003 पीटीसी018391	मैसर्स एम. एम. क्वीन्स कालेज प्राईवेट लिमिटेड
241	यू02001आरजे1993 पीटीसी007722	मैसर्स मधु प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	260	यू14101आरजे1997 पीटीसी013824	मैसर्स लियो मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
242	यू18101आरजे1995 पीटीसी010948	मैसर्स मधुर इण्डिया लिमिटेड	261	यू72200आरजे2001 पीटीसी016961	मैसर्स शक्ति कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
243	यू34300आरजे1995 पीटीसी010423	मैसर्स बी. एस. आटो मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	262	यू31300आरजे1998 पीटीसी015056	मैसर्स एस. जे. बल्ब एण्ड वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
244	यू65993आरजे1997 पीटीसी013689	मैसर्स श्री केपइन्वेस्ट लिमिटेड	263	यू45201आरजे1994 पीटीसी008702	मैसर्स करीम बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
245	यू14101आरजे1995 पीटीसी010640	मैसर्स वालकान मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	264	यू17124आरजे1988 पीटीसी004362	मैसर्स रिषभ फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
246	यू67120आरजे1996 पीटीसी012874	मैसर्स कर्नावट फिनकॉन प्राईवेट लिमिटेड	265	यू52190आरजे2002 पीटीसी017706	मैसर्स शुभम् प्रोग्रेसिव मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
247	यू85195आरजे1992 पीटीसी007056	मैसर्स नेपियन लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड	266	यू14102आरजे1985 पीटीसी003223	मैसर्स केसरी ग्रेनाइट एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
248	यू45201आरजे2004 पीटीसी019627	मैसर्स सत्या बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड	267	यू26960आरजे1999 पीटीसी015577	मैसर्स श्री कृष्णा स्टेनकृश प्राईवेट लिमिटेड
249	यू24232आरजे2000 पीटीसी016260	मैसर्स डिप्लोमेड फारमासियूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	268	यू72200आरजे2004 पीटीसी019150	मैसर्स रोयल इन्फोवेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
269	यू14232आरजे1998 पीटीसी014865	मैसर्स एमीकोस्मो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
270	यू70101आरजे1983 पीटीसी002766	मैसर्स मधूसूदन प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
271	यू45201आरजे1988 पीटीसी004716	मैसर्स आदित्या आवास प्राइवेट लिमिटेड
272	यू51397आरजे1998 पीटीसी014754	मैसर्स धर्मानन मेडिसिन चैनल प्राइवेट लिमिटेड
273	यू67120आरजे1996 पीटीसी011403	मैसर्स अदिनाथ पार्टीबूथ प्राइवेट लिमिटेड
274	यू20201आरजे1995 पीटीसी010547	मैसर्स सबू पोलीमर्स लिमिटेड
275	यू65922आरजे1995 पीटीसी011137	मैसर्स जिनियस लिफिन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
276	यू55201आरजे1998 पीटीसी014873	मैसर्स राजस्थान रेस्टोरेन्स प्राइवेट लिमिटेड

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लकी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. आर.ओ.सी./जे.टी.ए./560/2007/9630--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स लकी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. आर. दास  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गेलैक्सी मेटल एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. आर.ओ.सी./जे.टी.ए./560/2007/9633--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स गेलैक्सी मेटल एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. आर. दास  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एकलव्य मेटास्टील फोरजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. आर.ओ.सी./जे.टी.ए./560/2007/9636--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स एकलव्य मेटास्टील फोरजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. आर. दास  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बरोच वेल्कम फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. 124670/560/26/423--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बरोच वेल्कम फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. क.र./आईपीसी/560(एसएम)/07--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और निम्न कम्पनियाँ कम्पनी विघटित कर दी जायेंगी।

क्रम सं०	कम्पनी सं०	कम्पनी का नाम
1.	83825	21 क्रोटेक टेक्नॉ सर्विसेज प्रा०लि०
2.	29043	ए एण्ड ए एसोसियेट्स प्रा०लि०
3.	45423	ए बी बेवेरेगेज ( इण्डिया ) प्रा०लि०
4.	50079	ए सी एस कॉमर्शियल प्रा०लि०
5.	44786	ए एच बी इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
6.	13594	ए के बासु प्रा०लि०
7.	86884	ए के पॉलीप्रोडक्ट्स प्रा०लि०
8.	48108	ए कपूर एण्ड सन्स प्रा०लि०
9.	31129	ए करीम एलॉयज इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
10.	36464	ए एम बिजनेस एण्ड ट्रेडिंग प्रा०लि०
11.	21277	ए एन लाहा एण्ड कं० प्रा०लि०
12.	16399	ए एन लाहा एण्ड सन्स प्रा०लि०
13.	30867	ए एन टी दुल्स प्रा०लि०
14.	32397	ए पी कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
15.	19319	ए पंडित एण्ड ब्रदर्स (1916) प्रा०लि०
16.	77108	ए आर इन्जीनियरिंग एण्ड इक्युपमेंट्स प्रा०लि०
17.	48501	ए आर एस आर डायग्नोस्टिक्स प्रा०लि०
18.	63849	ए स्कवायर बी इन्जीनियरिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
19.	88703	ए टी पी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
20.	50460	ए टू जेड इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
21.	58137	ए टू जेड मार्केटिंग प्रा०लि०
22.	55284	ए.बी.सी.आर. ( एक्सपोर्टर्स ) प्रा०लि०
23.	51613	ए.जी.इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
24.	67145	ए.के.एडवाइजर्स प्रा०लि०
25.	71308	ए.के.मिनी राइस मिल प्रा०लि०
26.	72325	ए.एस.एडमारकॉन इण्डिया प्रा०लि०
27.	49438	ए.एस.डुप्ली कौपियर्स प्रा०लि०
28.	49616	ए.एस. वायर्स एण्ड केबल्स प्रा०लि०
29.	52174	ए.एस.ए.ऑटोमोटिव प्रा०लि०
30.	49667	ए.टी.पॉलीपैक प्रा०लि०
31.	87927	ए.टी. हाइड्रो एयर (इण्डिया) प्रा०लि०
32.	65048	आहुति इम्पेक्स प्रा०लि०
33.	67308	आकर्षण व्यापार प्रा०लि०
34.	58656	आकृती एक्सपोर्टर्स प्रा०लि०
35.	62704	आकृती प्लास्टिक्स प्रा०लि०
36.	67307	आलेखा सेल्स प्रा०लि०
37.	87912	एएएनआर ट्रेड डायरेक्टरी प्रा०लि०
38.	44620	अपार मुद्रण प्रा०लि०
39.	58711	एएआर वीडि एक्सपोर्टर्स प्रा०लि०
40.	52145	एएआर-टीइइ इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कम्पनी प्रा०लि०
41.	83936	आरेन एग्रीकल्चर प्रा०लि०
42.	47444	आरेन फेब्रिक्स प्रा०लि०
43.	48064	आरेन जूट ब्यूटीलिटीज प्रा०लि०
44.	44177	आरेक्स कॉमर्शियल प्रा०लि०
45.	57080	आशिता इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
46.	86691	आस्था कम्युनिकेशन्स प्रा०लि०

47.	46973	आरथा प्रोपर्टीज प्रा०लि०
48.	87548	आतिश एजेन्सीज प्रा०लि०
49.	77772	आतिश मार्केटिंग प्रा०लि०
50.	57888	एबाकस मार्केटाईल्स प्रा०लि०
51.	62184	एबालोन कम्प्यूटरेड्स प्रा०लि०
52.	79641	एबीबीए शूज प्रा०लि०
53.	54291	एबीबीई मार्केटिंग कन्सल्टेन्सी प्रा०लि०
54.	37160	एबीसी इन्टरनेशनल प्रा०लि०
55.	28734	एबकॉट्स इण्डिया प्रा०लि०
56.	41787	एबीइएनसी इन्जीनियर्स प्रा०लि०
57.	51754	आभा केमिकल एण्ड फिनवेस्ट प्रा०लि०
58.	51665	आभा एक्जीम एण्ड होल्डिंग्स प्रा०लि०
59.	47109	आभाष इरेक्टर्स प्रा०लि०
60.	49415	अभय स्टुड एण्ड एग्रीकल्चरल फार्म प्रा०लि०
61.	51631	अभी ट्रेड एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
62.	63081	अभिलाषा मेटल्स प्रा०लि०
63.	63389	अभिलाषा निर्यात प्रा०लि०
64.	31079	अभिनन्दन फुड सर्विसेज प्रा०लि०
65.	45927	अभिनव होटेल्स प्रा०लि०
66.	68317	अभिरुचि सिन्टेक्स प्रा०लि०
67.	35892	अभिष्ट सिदोही प्रा०लि०
68.	78505	अभियान ट्रेडिंग प्रा०लि०
69.	67790	अभपार टाई-अप प्रा०लि०
70.	39440	अबिनासी ट्रेडिंग प्रा०लि०
71.	23571	अबजानभ इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
72.	54857	एबीटी कैरियर्स (एक्स-सर्विसेमेन) प्रा०लि०
73.	42990	अबु पॉलीटेक्स प्रा०लि०
74.	78507	एक्कौटो ट्रेडिंग प्रा०लि०
75.	61526	एक्युरेसी मल्टी मीडिया प्रा०लि०
76.	62532	एक्युरेट सेल्स प्रमोशन प्रा०लि०
77.	87572	एक्युटेक नीडल प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
78.	39706	एसीटीकेम एण्ड ओरगेनिक लेवोलेकटीडीज प्रा०लि०
79.	26506	आचार्य कापोक मिल्स प्रा०लि०
80.	49257	अच्छी लेदर्स प्रा०लि०
81.	48098	एक्मे डेकल्स प्रा०लि०
82.	28742	एक्मे इलेक्ट्रो इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
83.	32856	एक्मे इण्डस्ट्रीयल एण्ड मार्केटिंग कंसल्टेन्ट्स प्रा०लि०
84.	59425	एकोलाइट कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्रा०लि०
85.	52285	एक्शन ट्रेड्स प्रा०लि०
86.	57675	एड्ड मेक एडवर्टिजिंग एजेन्सीज प्रा०लि०
87.	63101	एड-ओन-क्वील्स मार्केटिंग प्रा०लि०
88.	66502	अदभूत टाई-अप प्रा०लि०
89.	46939	एडकॉम एडवर्टिजिंग प्रा०लि०
90.	44507	अद्वैत हाउसिंग एण्ड लैंड डेवलपमेंट कं० प्रा०लि०
91.	41610	एदैक्स टायर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
92.	62421	एडवित्त्या हाउसिंग एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
93.	57188	एडिओ-मेडिटेक प्रा०लि०
94.	45581	एडिलेक इलेक्ट्रो प्रा०लि०

95.	67819	एडेन टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
96.	66350	आधुनिक इक्यु सर्विसेज प्रा०लि०
97.	83188	अदिती क्रेडिट प्रा०लि०
98.	49707	आदित्य एकजीम प्रा०लि०
99.	79030	आदित्य इन एण्ड रिसोर्ट्स प्रा०लि०
100.	32745	आदित्य वेयरस प्रा०लि०
101.	78363	एडमायर ट्रेडिंग प्रा०लि०
102.	67094	एडोनिस् प्लास्टिक्स प्रा०लि०
103.	67564	एडोनिस् ट्रेवेल्स प्रा०लि०
104.	66347	एडवैट इक्युसर्विसेज प्रा०लि०
105.	32455	एडवॉरड एप्पेरेटस (इलेक्ट्रीकल्स) प्रा०लि०
106.	84259	एडवॉरड इन्स्युट ओपी सिस्टम टेक्नोलॉजी प्रा०लि०
107.	53976	एडवॉरड सिस्टम्स इन्जीनियर्स प्रा०लि०
108.	52771	एड्डी रिरेलिंग प्रा०लि०
109.	70680	एड मेक मर्केन्टाईल्स एण्ड सेल्स प्रा०लि०
110.	39822	एड ऑन ड्रग इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
111.	90564	एड एस कुरियर एण्ड कार्गो प्रा०लि०
112.	62691	आगतुक कोम्मोट्रेड प्रा०लि०
113.	63619	अगरदूत कोम्मोडील प्रा०लि०
114.	39730	अग्रवाल एण्ड साहा प्रा०लि०
115.	48744	अग्रवाल इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
116.	45312	अग्रवाल मर्केन्टाईल्स कम्पनी प्रा०लि०
117.	19288	एजेन्सीज एण्ड सप्लायज प्रा०लि०
118.	44820	अग्रगंज प्रोपर्टीज प्रा०लि०
119.	75395	एग्रो एण्ड बायो-केम प्रा०लि०
120.	70553	आगतक डीलर्स प्रा०लि०
121.	52867	एएचवी प्रोपर्टीज प्रा०लि०
122.	2767	एआई चैम्पदानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
123.	87835	एआइआर एण्ड सरफेस ट्रेवेल्स प्रा०लि०
124.	88038	एआइआर-ओ-प्लस (इण्डिया) प्रा०लि०
125.	64211	एयरकॉन गुड्स एण्ड स्पलाई प्रा०लि०
126.	49459	एयरपैक इन्टरनेशनल प्रा०लि०
127.	44286	ऐश्वर्य लक्ष्मी फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी प्रा०लि०
128.	50149	ऐश्वर्य प्लान्टेशन प्रा०लि०
129.	74985	अजन्ता लेक्सीम प्रा०लि०
130.	30286	अजन्ता पोर्टलैण्ड पोर्जोलाना सीमेन्ट एण्ड मिनेरल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
131.	55096	अजन्ता रबड़ (इण्डिया) प्रा०लि०
132.	43486	अजय फिनान्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
133.	16189	अझापुर राइस हार्किंग एण्ड मिलिंग प्रा०लि०
134.	12636	अजय बैंक कोल कम्पनी प्रा०लि०
135.	19623	अजय प्रा०लि०
136.	54648	आकांक्षा फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
137.	62338	आकर्षक सेल्स प्रमोशन प्रा०लि०
138.	61355	आकाश इन्क्लेव प्रा०लि०
139.	83840	आकाश गंगा ट्रेवल प्रा०लि०
140.	51511	आकाश गियर कौपलिग्स प्रा०लि०
141.	87290	एकेजी हेल्थ केयर सेन्टर प्रा०लि०



142.	59270	अखिल एण्ड अरुण कोमोडिटीज प्रा०लि०
143.	78132	अखिलेश्वर मार्केटिंग प्रा०लि०
144.	55923	अकोक इण्डस्ट्रीयल कम्पनी प्रा०लि०
145.	64146	अकोला विनिमय प्रा०लि०
146.	49607	एकेआरसी मशीन टुल्स एण्ड स्पेयर्स प्रा०लि०
147.	57834	आकरॉन सेल्स प्रा०लि०
148.	37346	अकरून मेटेल्सजिकल्स प्रा०लि०
149.	46699	एकेएस डाटा कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
150.	56942	एकेएस सारदा इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
151.	78862	एकेएस व्यापार प्रा०लि०
152.	76800	अक्षय कोमोडिटीज प्रा०लि०
153.	88680	एकेवीके ट्रेडिंग प्रा०लि०
154.	44873	अलारिक स्ट्रक्चर प्रा०लि०
155.	65923	अलास्का मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
156.	56184	अलबैटोस एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
157.	83389	अलब्राइट मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
158.	62656	अलचेमी इन्जीनियर्स प्रा०लि०
159.	64699	अलकोबेक्स मर्चेन्डाइज प्रा०लि०
160.	85067	अल इण्डीसीओ बैटरीज प्रा०लि०
161.	58972	अल इम्बेक सेल्स प्रा०लि०
162.	17770	अलेक्स मिलर (मर्चेन्ट्स) प्रा०लि०
163.	44938	अल्फा फुड स्टप्स प्रा०लि०
164.	26678	अल्फा मैक प्रा०लि०
165.	52340	अल्फा ट्रेड एण्ड कॉमर्स प्रा०लि०
166.	71375	अलफिन इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
167.	64689	अल्फ्रेड गुड्स प्रा०लि०
168.	46040	अलीपुर प्रोडक्टशन्स प्रा०लि०
169.	65612	आलिशान टाई-अप प्रा०लि०
170.	78694	अलकानन्द सप्लायर्स प्रा०लि०
171.	50756	ऑल सेफ एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
172.	69264	ऑलब्लेस व्यापार प्रा०लि०
173.	67780	एलिगुईज मर्केन्टाईल प्रा०लि०
174.	85640	एलायड फेब्रिकेटर एण्ड इन्जीनियर्स प्रा०लि०
175.	48927	एलायड पॉलीसेट प्रा०लि०
176.	43150	ऑलविन बिल्डर्स प्रा०लि०
177.	32784	अलोक बिजनेस प्रा०लि०
178.	48874	अलोकमाला सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
179.	56757	अल्फा सेन्टोरी हेल्थ केयर प्रा०लि०
180.	45812	अल्फा मेकेनिकल प्रा०लि०
181.	57840	अल्फा मेटा ट्रेड प्रा०लि०
182.	46953	अल्फा वेक्टर मशीनरी प्रा०लि०
183.	64102	अल्पीक एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
184.	53502	अल्फाइन डेवलपमेंट एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
185.	33139	अल्फाइन ड्रग्स प्रा०लि०
186.	49825	अल्फाइन रिसोर्ट्स एण्ड होटेल्स प्रा०लि०
187.	66488	अल्फाइन विनकॉम प्रा०लि०
188.	68739	एएलपीएस कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
189.	53391	अल सा होल्डिंग्स प्रा०लि०

190.	49659	अल टा इन्टरनेशनल प्रा०लि०
191.	31917	अलुमिनेक्स ( जी बी ) प्रा०लि०
192.	76574	अमन कमर्शियल प्रा०लि०
193.	88690	अमन सप्लायर्स प्रा०लि०
194.	38154	अमन सेवा कोश प्रा०लि०
195.	25894	अमरज्योति क्लास वर्क्स प्रा०लि०
196.	88542	अमरनाथ राइस मिल्स प्रा०लि०
197.	75879	अमरशान्ति टाई-अप प्रा०लि०
198.	66771	अम्बरीश मर्केन्टाईल प्रा०लि०
199.	90731	अम्बे एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
200.	78322	अम्बर कमर्शियल्स प्रा०लि०
201.	59949	अम्बिका फिनदेव प्रा०लि०
202.	44494	एम्बीसियस जेनरल फिनान्स एण्ड हाउसिंग कम्पनी प्रा०लि०
203.	34043	एम्ब्रोसिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
204.	69228	एमेरिनों सप्लायर्स प्रा०लि०
205.	79726	अमिदेव बिल्डर्स प्रा०लि०
206.	12613	अमिजादिया फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
207.	42948	अमित क्रेडिट कम्पनी प्रा०लि०
208.	58888	अमित फिनक्रेडिट प्रा०लि०
209.	90302	एएमएन इन्फोटेक प्रा०लि०
210.	77275	अमोल टाई-अप प्रा०लि०
211.	65775	अमपुर कोम्मोड्रेड प्रा०लि०
212.	30605	अमराम इस्पात उद्योग प्रा०लि०
213.	63212	अमृत एक्जुआ (इण्डिया) प्रा०लि०
214.	50182	अमृत धारा क्रेडिट प्रा०लि०
215.	67763	अमरोहा टाई-अप प्रा०लि०
216.	89282	एम्प्रेड इम्पैक्स प्रा०लि०
217.	63349	अमृत्या प्रवा ट्रेडिंग प्रा०लि०
218.	51443	अनाकोन्डा एप्लीएन्सेज प्रा०लि०
219.	88664	अनालीटिकल इन्जीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
220.	57980	अनाम एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
221.	32688	आनन्द मेडिकल हॉल प्रा०लि०
222.	84571	आनन्द ओवरसीज प्रा०लि०
223.	88788	आनंदम सॉफ्टवेयर प्रा०लि०
224.	45200	आनंदलोक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
225.	66785	आनंदमंगल सेल्स प्रा०लि०
226.	43380	अनंत एपार्टमेंट्स प्रा०लि०
227.	52072	अनन्या कंसल्टेन्ट्स प्रा०लि०
228.	52998	अनापोल स्पेशियलाईज्ड मेडिकल सिस्टेम्स प्रा०लि०
229.	69763	अनासिसस फैशन्स प्रा०लि०
230.	69770	अनासिसस सप्लाय प्रा०लि०
231.	43557	अनाटेन्ना ईद-सिस्टेम प्रा०लि०
232.	32144	एकर फुड प्रा०लि०
233.	50768	एकर प्लाईवुड प्रा०लि०
234.	23614	एन्सीलेरी इण्डस्ट्रीज क्रेन्स प्रा०लि०
235.	23619	एन्सीलेरी इण्डस्ट्रीज फोरजिंग्स प्रा०लि०
236.	23615	एन्सीलेरी इण्डस्ट्रीज लंग्स प्रा०लि०
237.	39457	एन्डी फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०

238.	49056	एन्डीस इन्फोटेक सिस्टेम्स प्रा०लि०
239.	46102	एन्डरसन राइट (रामगढ़) प्रा०लि०
240.	44725	अन्देस कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
241.	26671	एन्डटसन हार्डवेयर एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०
242.	67576	अन्गाजा फैशन प्रा०लि०
243.	67562	अन्गाजा सिन्टेक्स प्रा०लि०
244.	31104	एन्जेल फिनान्स ( चिट ) एण्ड ट्रेडिंग कं० प्रा०लि०
245.	58069	एन्जेल शेयर एण्ड एजेन्सीज प्रा०लि०
246.	44888	एन्लीया पैकर्स प्रा०लि०
247.	84642	एन्गोड्रा सिन्टेक्स प्रा०लि०
248.	67330	एन्गोड्री सॉफ्ट प्रा०लि०
249.	58840	अनिका जिपर्स प्रा०लि०
250.	54002	अनिल होटेल रिसोर्ट्स प्रा०लि०
251.	49211	अनिल ऑक्सीजेन एण्ड एसेटीलीन प्रा०लि०
252.	75533	अंजली ट्रेडर्स प्रा०लि०
253.	57996	अंजन कॉमफीन प्रा०लि०
254.	23090	अंजन फिल्म्स प्रा०लि०
255.	86518	अन्जानेया बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा०लि०
256.	43612	अन्जु हिमघर प्रा०लि०
257.	61108	एएनके इक्युटी सर्विसेज प्रा०लि०
258.	58146	अन्कारा होल्डिंग्स प्रा०लि०
259.	57865	अन्किता ओवरसीज इन्वेस्टर्स प्रा०लि०
260.	64178	अन्केल सेल्स प्रा०लि०
261.	56692	अंकुश ट्रेक्जिम प्रा०लि०
262.	59659	अन्मोल एप्पेरेल्स प्रा०लि०
263.	56349	अन्मोल इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
264.	19491	अन्नपूर्णा फार्मिंग एण्ड फिशेरिज प्रा०लि०
265.	78736	अन्नपूर्णा कोमोडिटीज प्रा०लि०
266.	46232	अन्नु कमर्शियल प्रा०लि०
267.	86403	अन्पॉल फार्मा प्रा०लि०
268.	75427	एनरी इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
269.	42918	अंशू इन्वेस्टर्स प्रा०लि०
270.	84542	अंसूमान मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
271.	42410	अंटार्कटिक कूलर्स प्रा०लि०
272.	40899	अंटार्कटिका कमर्शियल कम्पनी प्रा०लि०
273.	62166	एन्टिक मर्चेन्डाईज प्रा०लि०
274.	55209	अनु मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा०लि०
275.	36259	अनुभा कार्बन्स प्रा०लि०
276.	64190	अनुकम्पा मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
277.	70076	अनुकम्पा व्यापार प्रा०लि०
278.	43684	अनुलश्री ट्रेड इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
279.	67672	अनुनिता ट्रेडर्स प्रा०लि०
280.	59506	अनुपम गृह निर्माण प्रा०लि०
281.	39767	अनुपम सप्लायर्स प्रा०लि०
282.	48321	अनुप्रिया डेवलपर्स प्रा०लि०
283.	61624	अनुरोध होल्डिंग्स प्रा०लि०
284.	71041	अनुसाला सेल्स प्रा०लि०
285.	19826	अनुशीलन एजेन्सी प्रा०लि०

286.	56053	अनुश्री इम्पेक्स प्रा०लि०
287.	87012	अनुष्का डेवलपर्स प्रा०लि०
288.	86904	अपरन कम्प्युटर प्रा०लि०
289.	64632	अपरुपा व्यापार प्रा०लि०
290.	39978	एपेक कॉनसोरटियम प्रा०लि०
291.	52874	एपी फैब्रीकेशन एण्ड इन्जनीयरींग प्रा०लि०
292.	62821	एपेक्स कोमोडिटीज ( इण्डिया ) प्रा०लि०
293.	49550	एपेक्स फलक्स एण्ड पिगमेंट्स प्रा०लि०
294.	89361	एपेक्स मर्केन्टाईल प्रा०लि०
295.	30399	एपेक्स फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
296.	78358	एपेक्स विनिमय प्रा०लि०
297.	40527	अपोलो कंसल्टेन्ट्स प्रा०लि०
298.	61949	अप्पु सर्विसेज प्रा०लि०
299.	85438	एपीएस पेट प्रा०लि०
300.	45857	अप्सा लेंदर प्रा०लि०
301.	43087	अप्सा टूल एण्ड डिजाइन इन्जीनियर्स प्रा०लि०
302.	78835	अप्सरा ट्रेडलिक प्रा०लि०
303.	34592	अप्सरा एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
304.	43653	अप्सरा लेदर स्टाईल्स प्रा०लि०
305.	69933	अप्सरा सिल्क्स प्रा०लि०
306.	69659	अपूर्णजय फुड्स प्रा०लि०
307.	43522	एक्युग्राफिक इण्डिया प्रा०लि०
308.	57732	आराधना फिनान्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
309.	57731	आराधना मर्चेन्डाइज प्रा०लि०
310.	54082	आरामबाघ टैन एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०
311.	69747	आरामस्क कोमोडिटीज प्रा०लि०
312.	49305	अराश इन्जीनियर्स प्रा०लि०
313.	49169	आरती सेविंग इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
314.	62709	आरावली कॉमर्स प्रा०लि०
315.	44082	अरबो केम प्रा०लि०
316.	28284	आर्च इण्डस्ट्रीज ( फाउण्ड्री इक्युपमेंट्स ) प्रा०लि०
317.	53531	आर्च वीयर प्रा०लि०
318.	89184	अर्चना कंफैक्शनर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
319.	52317	आरचिव होल्डिंग प्रा०लि०
320.	47504	अरको मल्टीफिन प्रा०लि०
321.	77147	एरियन एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
322.	87254	अरगोसी कॉस्मेटिक्स प्रा०लि०
323.	44199	अरहम ट्रेडसस प्रा०लि०
324.	78786	अरिहन्ट कोमोड्रेड प्रा०लि०
325.	55205	अरिहन्ट स्टॉक लिंक्स प्रा०लि०
326.	76883	अरिस बार्टर प्रा०लि०
327.	78063	एरिस्टो टेक्सकॉन प्रा०लि०
328.	69818	एरिस्टोडिक सेल्स प्रा०लि०
329.	61252	आरके इस्पात विनिमय प्रा०लि०
330.	88548	अरलिन इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
331.	62850	आरोल प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
332.	48848	एरोमेटिक तार ऑयल्स प्रा०लि०
333.	48746	अर्पण ट्रेड एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०

334.	56524	अर्पित होल्डिंग्स एण्ड प्रोपर्टीज प्रा०लि०
335.	63788	अर्पिता ओवरसीज प्रा०लि०
336.	50781	अरिस फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
337.	42869	एआरएस केमिकल्स प्रा०लि०
338.	7596	आर्ट फ्लोर्स प्रा०लि०
339.	79158	आर्टलाइन ट्रेकॉन प्रा०लि०
340.	43691	आर्टोनेक्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रा०लि०
341.	45463	अरुण पॉलीमर्स प्रा०लि०
342.	57147	अरुणा एजेन्सी प्रा०लि०
343.	45895	अरुनेश ट्रान्सपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
344.	86655	अरुणजय कंसल्टेन्ट्स प्रा०लि०
345.	79091	अरुणोदय कॉमर्स प्रा०लि०
346.	39915	अरविन्द इण्डस्ट्रीयल वर्क्स प्रा०लि०
347.	26292	अरविन्द स्टील्स प्रा०लि०
348.	60087	अरविन्द विनिमय प्रा०लि०
349.	90690	आर्य पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
350.	64610	आर्य कम्प्लेक्स प्रा०लि०
351.	84608	आर्यन टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
352.	66621	आर्यस्थान कॉमर्शियल प्रा०लि०
353.	88686	आरजू मर्चेन्डाईज प्रा०लि०
354.	31779	आसनसोल कन्जुमर्स एजेन्सी प्रा०लि०
355.	46154	आसनसोल स्मॉल स्केल कॉटेज उद्योग प्रा०लि०
356.	32189	एसएसपीसीएस इण्डिया प्रा०लि०
357.	48254	एस्कॉन बिजनेस प्रा०लि०
358.	52987	एस्कॉन इन्टरप्राइजर्स प्रा०लि०
359.	37592	एस्कॉट फिनिष्ड लेदर्स प्रा०लि०
360.	66788	एसेप्टीव व्यापार प्रा०लि०
361.	43652	आशा पावर इक्युपमेंट्स प्रा०लि०
362.	47535	आशार प्रदीप फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
363.	89030	आशाटिट कॉमर्शियल प्रा०लि०
364.	68091	आशिना एजेन्सीज प्रा०लि०
365.	88421	आर्शिवाद एजेन्सी प्रा०लि०
366.	88571	आर्शिवाद फाइब्रेस प्रा०लि०
367.	84666	आर्शिवाद टावर्स प्रा०लि०
368.	84114	आशिश जुटेक्स प्रा०लि०
369.	90333	आश्रय भूमि लेण्ड एण्ड हाउसिंग डेवलपमेंट प्रा०लि०
370.	32968	आशुतोष इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
371.	15425	एसियाटिक कंस्ट्रक्शन एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा०लि०
372.	19851	अशोक दत्ता एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
373.	23695	अशोक वायर प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
374.	66635	एस्पीनवाल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
375.	48114	एस्पों फार्म एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
376.	66759	एस्पोलाइट बार्टर प्रा०लि०
377.	24477	आसाम बिहार कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
378.	3543	आसाम सिल्वेट टी कम्पनी लिमिटेड
379.	34706	एससोक-सेन्नेन्टेशन (इण्डिया) प्रा०लि०
380.	18752	एसोसियेटेड एड्डीबीवाई इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
381.	23766	एसोसियेटेड कॉमर्शियल कम्पनी ऑफ इण्डिया प्रा०लि०

382.	86442	एसोसियेटेड इन्क्लेव प्रा०लि०
383.	48919	एसोसियेटेड एक्सट्रुजन एण्ड ग्रेवर्स प्रा०लि०
384.	45486	एसोसियेटेड मेरिन कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
385.	21770	एसोसियेटेड मर्केन्टाईल कॉरपोरेशन प्रा०लि०
386.	45508	एसोसियेटेड प्रेसीजन इन्जनीयरींग कम्पनी प्रा०लि०
387.	16845	एसोसियेटेड-स्टील कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
388.	65734	एसएसएसआर बेंगाल मार्केटिंग प्रा०लि०
389.	47991	आश्रायन हाउसिंग प्रा०लि०
390.	50167	एसोरेन्स होल्डिंग्स प्रा०लि०
391.	62946	एसिस्ट कंसल्टेन्सी एण्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
392.	31344	एस्तारमेन (इण्डिया) प्रा०लि०
393.	56487	एस्टोनिश प्रोमोटर्स प्रा०लि०
394.	39812	एस्ट्रा प्रोपर्टीज प्रा०लि०
395.	76446	एस्ट्रा सर्विसेज एण्ड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
396.	86781	एस्ट्राल फिस्कल प्रा०लि०
397.	88251	एटी इन्फोटेक सर्विसेज प्रा०लि०
398.	48085	एटीए रबड़ सेल्स प्रा०लि०
399.	36258	एटीसी फ्रेड्रिट मूवर्स प्रा०लि०
400.	84041	आतीश मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
401.	26736	अतिमान इन्जीनियर्स प्रा०लि०
402.	40016	एटिना इन्जीनियरींग कम्पनी प्रा०लि०
403.	49681	अतिनपुर टी कम्पनी प्रा०लि०
404.	7527	अतिनेक्सा इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
405.	62679	अतिउत्तम ट्रेडर्स प्रा०लि०
406.	43878	एटलस इम्पेक्स प्रा०लि०
407.	34428	एटनील्स कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
408.	56798	एटीओ जेड एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
409.	89207	एटोन फार्मासिउटिका प्रा०लि०
410.	67466	एटरून सप्लाय प्रा०लि०
411.	17378	एट्टा टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
412.	76609	अगस्त डीलर्स प्रा०लि०
413.	59013	औरा ऑफसेट प्रा०लि०
414.	73175	औरो शिखा विनिमय प्रा०लि०
415.	46032	औरोरा विडियो सेन्टर प्रा०लि०
416.	34123	औरम प्रोपर्टीज प्रा०लि०
417.	55542	औस्टर बैटरी प्रा०लि०
418.	38337	ऑटो ऑफसेट प्रा०लि०
419.	19944	ऑटो पावर (इण्डिया) प्रा०लि०
420.	22693	ऑटो टेक्नीकल प्रा०लि०
421.	26838	ऑटो टर्नर प्रा०लि०
422.	34439	ऑटोक्राफ्ट इन्जीनियरींग इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
423.	78699	ऑटोमोटिव सप्लायर्स प्रा०लि०
424.	50996	एवलॉन डिजाईन्स प्रा०लि०
425.	78137	अवाम सप्लायर्स प्रा०लि०
426.	62778	अवतार विनिमय प्रा०लि०
427.	48844	अविनन्दा फिल्म्स प्रा०लि०
428.	59876	अविनाश राज कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
429.	47768	आविष्कार ईस्टेट्स एण्ड होल्डिंग्स प्रा०लि०

430.	76988	आविष्कार इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
431.	37961	एवॉन इण्डिया प्रा०लि०
432.	59340	अवतार ट्रेक्जिम प्रा०लि०
433.	47482	अवध इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
434.	83839	अवन्तिका कोम्मोडील प्रा०लि०
435.	59133	आयुषी इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
436.	37658	आजाद हिन्द बॉन्डेड वेयरहाउस प्रा०लि०
437.	26058	आजाद रबड़ कम्पनी प्रा०लि०
438.	64783	आजेल कॉमर्शियल प्रा०लि०
439.	63221	आजुरे टेककॉम प्रा०लि०
440.	67828	आजुरे ट्रेकॉम प्रा०लि०
441.	57387	बी एण्ड पी प्रोपर्टीज प्रा०लि०
442.	60942	बी एण्ड आर फाउण्डेशन प्रा०लि०
443.	18928	बी बी सी प्रा०लि०
444.	84775	बी बी हाउसिंग प्रा०लि०
445.	42986	बी सी पॉल एण्ड ग्राण्ड सन्स प्रा०लि०
446.	22859	बी चक्रवर्ती एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
447.	44918	बी डी फैब क्रियेटर्स प्रा०लि०
448.	32723	बी डी शर्मा ऑटोमोबाईल्स प्रा०लि०
449.	50007	बी जी एगो बोर्ड प्रा०लि०
450.	43690	बी आई होल्डिंग्स प्रा०लि०
451.	20170	बी जिवॉन एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
452.	46943	बी के बिल्डर्स प्रा०लि०
453.	4273	बी के मुखर्जी कम्पनी प्रा०लि०
454.	23731	बी के साहा एण्ड सन्स प्रा०लि०
455.	15801	बी के सिरकर प्रा०लि०
456.	87740	बी एम जे डेवलपर्स प्रा०लि०
457.	18909	बी एम मान्त्री एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
458.	14872	बी एम सेन (एजेन्सी) प्रा०लि०
459.	48510	बी एन फोरजिंग वर्क्स प्रा०लि०
460.	10643	बी एन कुमार एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
461.	7302	बी एन सान्याल प्रा०लि०
462.	48713	बी एस एस मेटल्स प्रा०लि०
463.	88665	बी सिक फुड एण्ड बेवरेजेज प्रा०लि०
464.	43179	बी.ए.बी. एगो लिमिटेड
465.	23698	बी.ए.पी प्रोडक्शन्स प्रा०लि०
466.	51569	बी.ए.आर. मर्केन्टाईल्स प्रा०लि०
467.	53864	बी.ए.आर. कैरियर्स प्रा०लि०
468.	88208	बी.बी.आईस फैक्टरी प्रा०लि०
469.	62156	बी.बी.जे.इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
470.	33004	बी.बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
471.	46285	बी.डी.कॉन्ट्रेक्टर्स इन्टरप्राइज प्रा०लि०
472.	46830	बी.जी.कॉमर्शियल प्रा०लि०
473.	53697	बी.एम.रिसोर्सेज प्रा०लि०
474.	59954	बी.एम.प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा०लि०
475.	47051	बी.एम.फिनान्शियल कंसल्टेन्ट्स प्रा०लि०
476.	52714	बी.एस.टिकपोटर्स प्रा०लि०
477.	53867	बी.एस.थर्मोनिक्स प्रा०लि०

478.	39405	बी.एस.पेरौस प्रा०लि०
479.	55855	बी.वी. कैरियर्स प्रा०लि०
480.	57214	बाबा करुणामय हाउसिंग फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
481.	84842	बाबा लोकनाथ ट्रान्सपोर्ट प्रा०लि०
482.	79784	बैबेज बिजनेस सर्विस प्रा०लि०
483.	54353	बब्लू ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
484.	20813	बेथेक्स प्रा०लि०
485.	43767	बेवीलोन हटमेंट्स प्रा०लि०
486.	66701	बैक बोन मर्केन्टाईल प्रा०लि०
487.	67571	बैक्ट्रो सप्लाय प्रा०लि०
488.	59446	बादेन इन्वेस्टमेंट एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा०लि०
489.	16374	बद्री एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
490.	24238	बादु स्टील वर्क्स प्रा०लि०
491.	89068	बागची मार्केटिंग एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
492.	47569	बहन कैरियर्स प्रा०लि०
493.	17743	वाहनी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
494.	44192	बाहन स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर्स प्रा०लि०
495.	84682	बैद कोमुटेक प्रा०लि०
496.	84683	बैद इन्फोटेक प्रा०लि०
497.	62684	बेजनाथ विनिमय प्रा०लि०
498.	40020	बैशाली मस्तीलेयर्स प्रा०लि०
499.	36752	बैशनव व्यापार प्रा०लि०
500.	52563	वजाज स्टील एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
501.	53003	बजरंग टी एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
502.	52730	बजरंग टी प्लान्टेशन्स प्रा०लि०
503.	46395	बजरंगवली इण्डस्ट्रीयल केसेज प्रा०लि०
504.	68777	बजरंगवली निट प्रा०लि०
505.	14708	बक्शी मनोहर लाल एण्ड सन्स प्रा०लि०
506.	51437	बालाजी कोन इण्डस्ट्री प्रा०लि०
507.	65119	बालगोपाल मैनेजमेंट प्रा०लि०
508.	20352	बलिहारी कोलियरी कम्पनी प्रा०लि०
509.	70332	बालगोपाल विनिमय प्रा०लि०
510.	52239	बाली विल्ला प्रा०लि०
511.	37368	वाम इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
512.	65888	बामा कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
513.	36423	बामासन्स एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
514.	20364	बास्थव वस्त्रालय प्रा०लि०
515.	46160	बनर्जी एण्ड मुखर्जी प्रा०लि०
516.	42784	बंग लक्ष्मी फार्मा.केम प्रा०लि०
517.	45326	बंग माता सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
518.	16821	बंगाली सिल्वी प्रा०लि०
519.	18388	बानिक बंधा प्रा०लि०
520.	63969	बांकुरा एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
521.	18036	बांकुरा ऑटोमोबाईल कम्पनी प्रा०लि०
522.	18183	बांकुरा मोटर सर्विस प्रा०लि०
523.	34656	बांकुरा पोरसीलेन प्रा०लि०
524.	67158	वनमिला मर्चेन्डाईज प्रा०लि०

उज्जवल राय  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल



कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. आर ओ सी/एस ई सी/560(3)/7560--कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि इस तारीख के तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित के नाम इनके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गये तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
01.	15-003207	मैसर्स इम्पीरियल ग्रेनाइट एन्ड मिनरल्स प्रा. लिमिटेड
02.	15-003219	मैसर्स कुसुम एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
03.	15-003223	मैसर्स डिजिसोफ्ट कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
04.	15-003230	मैसर्स शिवा एस्टेट प्रा. लि.
05.	15-003232	मैसर्स लॉर्ड इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसिज प्रा. लि.
06.	15-003235	मैसर्स ब्राइट स्टार इंजीनियरिंग क्रॉसवेज प्रा. लि.
07.	15-003236	मैसर्स जय प्रकाश हाऊसिंग एंड बिल्डर्स प्रा. लि.
08.	15-003240	मैसर्स जे. जे. कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
09.	15-003244	मैसर्स पी. एंड पी. इंटरनेशनल प्रा. लि.
10.	15-003246	मैसर्स न्यू इंडिया म्यूजिकल एंड कैसैट कं. प्रा. लि.
11.	15-003251	मैसर्स कलिंगा टाइम्स प्रा. लि.
12.	15-003254	मैसर्स सिम्मी रबर्स प्रा. लि.
13.	15-003258	मैसर्स इस्टर्न इंडस्ट्रीयल सिक्क्यूरिटी सर्विसिज प्रा. लि.
14.	15-003262	मैसर्स उड़ीसा बिजनेस लिंकेज प्रा. लि.
15.	15-003272	मैसर्स लियोपैड इंडिया प्रा. लि.
16.	15-003274	मैसर्स कृष्णा स्टील प्रा. लि.
17.	15-003276	मैसर्स जियोमिन पोपुलैब प्रा. लि.
18.	15-003285	मैसर्स ह्युटल शक्ति प्रा. लि.
19.	15-003289	मैसर्स विरजोमैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा. लि.
20.	15-003292	मैसर्स मानीकान्ता फाइनेंशियल कं. प्रा. लि.
21.	15-003295	मैसर्स यूनाइटेड प्रान हैचरी प्रा. लि.
22.	15-003303	मैसर्स श्रीराम प्लान्टेसन्स एंड रिसोर्ट प्रा. लि.
23.	15-003307	मैसर्स पीटरबर्ग ब्रेवरीज प्रा. लि.

1	2	3
24.	15-003310	मैसर्स ईस्ट वेस्ट हाऊसिंग प्रा. लि.
25.	15-003311	मैसर्स गणपति इंजीनियरिंग प्रा. लि.
26.	15-003312	मैसर्स जैनश एक्वा एस्टेट प्रा. लि.
27.	15-003315	मैसर्स डैल्टा डबलपर्स प्रा. लि.
28.	15-003318	मैसर्स सुपरा सुपरफास्ट सर्विसेज प्रा. लि.
29.	15-003322	मैसर्स नैक्सकन कम्प्यूटिंग मशीन्ज प्रा. लि.
30.	15-003325	मैसर्स प्रैसटिज स्माल इन्वैस्टमेंट कं. प्रा. लि.
31.	15-003334	मैसर्स मारथा बिल्डर्स एंड सप्लायर्स प्रा. लि.
32.	15-003335	मैसर्स मैग सर्विसिज प्रा. लि.
33.	15-003336	मैसर्स उतकल सिक्क्यूरिटी सर्विसिज प्रा. लि.
34.	15-003337	मैसर्स साइमन बिजनेस लिंक प्रा. लि.
35.	15-003338	मैसर्स माधुरी वीडियो पार्लर प्रा. लि.
36.	15-003341	मैसर्स गणेशवर एक्सपोर्ट प्रा. लि.
37.	15-003345	मैसर्स झालानो पाइप्स प्रा. लि.
38.	15-003357	मैसर्स बाबा ग्रेनाइट्स प्रा. लि.
39.	15-003359	मैसर्स सिद्धिदाता हाइजीन्स प्रा. लि.
40.	15-003367	मैसर्स भुवनेश्वर कम्प्यूटर सेंटर प्रा. लि.
41.	15-003372	मैसर्स कल्पतरू प्लान्टेशंस प्रा. लि.
42.	15-003374	मैसर्स ग्रेट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
43.	15-003375	मैसर्स कन्हैया सोप एंड आयल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
44.	15-003376	मैसर्स मैत्री डबलपर्स प्रा. लि.
45.	15-003378	मैसर्स कलिंगा सेवा प्रकल्पा इन्वैस्टमेंट लि.
46.	15-003384	मैसर्स बायोटेक्नोलोजी प्रा. लि.
47.	15-003388	मैसर्स ए.बी.टी. इंजीनियर्स प्रा. लि.
48.	15-003392	मैसर्स एम.एम. बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्रा. लि.
49.	15-003395	मैसर्स ट्राइसेंट फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
50.	15-003402	मैसर्स शुक्ली एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.
51.	15-003404	मैसर्स सिल्पा एक्सपोर्ट प्रा. लि.
52.	15-003405	मैसर्स एक्स सर्विस कमर्शियल लिंक प्रा. लि.
53.	15-003418	मैसर्स डी.पी. एसोसिएट्स प्रा. लि.
54.	15-003422	मैसर्स सूर्या सिक्क्यूरिटी सर्विस प्रा. लि.
55.	15-003433	मैसर्स चौधरी इस्पात प्रा. लि.
56.	15-003436	मैसर्स हारमनी अट्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
57.	15-003440	मैसर्स राजधानी सिक्यूरिटी सर्विसिज प्रा. लि.	89.	15-003603	मैसर्स खेरावल एस्टेट्स प्रा. लि.
58.	15-003441	मैसर्स देब मेकटेक प्रा. लि.	90.	15-003608	मैसर्स जे.बी. फेरो एलॉइज प्रा. लि.
59.	15-003456	मैसर्स राज वीडियो पार्लर प्रा. लि.	91.	15-003617	मैसर्स डी. पी. एस. राइस मिल्ल प्रा. लि.
60.	15-003467	मैसर्स श्री क्षेत्रा मार्केटिंग प्रा. लि.	92.	15-003619	मैसर्स ट्रेवल प्लस प्रा. लि.
61.	15-003469	मैसर्स सितो सिक्यूरिटी सर्विसिज प्रा. लि.	93.	15-003621	मैसर्स सोलवो बिल्डर्स प्रा. लि.
62.	15-003470	मैसर्स नबा लक्ष्मी फॉर्मज प्रा. लि.	94.	15-003626	मैसर्स करम्बा मार्केट प्रा. लि.
63.	15-003472	मैसर्स ब्रिजा ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.	95.	15-003638	मैसर्स ओरीजीन बायोसैड्स (इंडिया) प्रा. लि.
64.	15-003475	मैसर्स कलिंगा मार्केटिंग प्रा. लि.	96.	15-003645	मैसर्स श्री जगन्नाथ जैम्ज एकेडमी प्रा. लि.
65.	15-003479	मैसर्स एवरग्रीन प्लांटेशन एंड हाऊसिंग फाइनैस प्रा. लि.	97.	15-003655	मैसर्स एम. एस. मिनरल्स प्रा. लि.
66.	15-003484	मैसर्स इन्फोसिस्टमज प्रा. लि.	98.	15-003661	मैसर्स रेजिंग फाइनैस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
67.	15-003486	मैसर्स समलाई पावर प्रा. लि.	99.	15-003662	मैसर्स प्राइम कंसल्टेंट एंड सर्विसिज प्रा. लि.
68.	15-003487	मैसर्स उडीसा कन्जूमर सर्विसिज प्रा. लि.	100.	15-003663	मैसर्स जे. बी. एस. डबलपर्ज प्रा. लि.
69.	15-003493	मैसर्स डिवाइन फाइनैस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	101.	15-003667	मैसर्स पुष्पाहंस प्लांटेशन एंड हिल रिसोर्ट्स प्रा. लि.
70.	15-003495	मैसर्स गैलेक्सी सिस्टम्ज प्रा. लि.	102.	15-003676	मैसर्स सुभाश्री वायर प्रोडक्स प्रा. लि.
71.	15-003496	मैसर्स कलिंगा ग्रीन प्लांटेशन प्रा. लि.	103.	15-003677	मैसर्स सनबे श्रीम्स प्रा. लि.
72.	15-003507	मैसर्स ओरिन एनर्जी सिस्टमज प्रा. लि.	104.	15-003692	मैसर्स लक्ष्मी प्रकाश स्टील्स प्रा. लि.
73.	15-003523	मैसर्स उत्कल ग्रीन प्लांटेशन एंड हाऊसिंग फाइनैस प्रा. लि.	105.	15-003693	मैसर्स ओसलैण्ड बायो-डाइनेस्टिक्स लि.
74.	15-003527	मैसर्स वैकन सिस्टम्ज प्रा. लि.	106.	15-003698	मैसर्स वैकट लक्ष्मी फार्मज प्रा. लि.
75.	15-003530	मैसर्स जय माता दी कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.	107.	15-003699	मैसर्स वीजीत एक्जिम प्रा. लि.
76.	15-003532	मैसर्स अशोका ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	108.	15-003702	मैसर्स समरपोन एक्वाकल्चर प्रा. लि.
77.	15-003533	मैसर्स नवीन पब्लिकेशन्स प्रा. लि.	109.	15-003711	मैसर्स महावीर ड्रग एंड कं. प्रा. लि.
78.	15-003536	मैसर्स एकलव्य प्लांटेशन प्रा. लि.	110.	15-003713	मैसर्स चोट नागपुर हर्बल एग्रो प्रा. लि.
79.	15-003549	मैसर्स पी. पी. एम. बिल्डर्स प्रोपर्टीज प्रा. लि.	111.	15-003719	मैसर्स औरो सिक्यूरिटीज प्रा. लि.
80.	15-003551	मैसर्स ब्रह्मणी पिस्सीकल्चर प्लांटेशन प्रा. लि.	112.	15-003724	मैसर्स कलिंगा कैश्यू प्रोसेसर्स प्रा. लि.
81.	15-003552	मैसर्स केयर फूड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	113.	15-003729	मैसर्स साई हाउसिंग एंड कन्स्ट्रक्शंस प्रा. लि.
82.	15-003555	मैसर्स पैराडाइज रिसोर्ट्स प्रा. लि.	114.	15-003730	मैसर्स हास्पिटलटी वेंचर्स प्रा. लि.
83.	15-003560	मैसर्स ग्रानी ब्रुक प्रा. लि.	115.	15-003732	मैसर्स सुप्रीम वुड एंड केमीकल्स प्रा. लि.
84.	15-003565	मैसर्स सीटी सर्विस प्रा. लि.	116.	15-003735	मैसर्स रोयल आयरन एंड स्पोक्स कं. प्रा. लि.
85.	15-003582	मैसर्स अलक्ष मार्केटिंग एंड लीजिंग प्रा. लि.	117.	15-003736	मैसर्स इंदू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
86.	15-003588	मैसर्स हाईटेक इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	118.	15-003742	मैसर्स श्री जगन्नाथ आयल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
87.	15-003590	मैसर्स एल.एम. फूड्स प्रा. लि.	119.	15-003747	मैसर्स मिडिया पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
88.	15-003596	मैसर्स विश्वाकर्मा रीयल एस्टेट प्रा. लि.	120.	15-003748	मैसर्स एम. एस. केमिकल्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
121.	15-003750	मै. नीलाद्री बिल्डर्स प्रा. लि.	151.	15-003971	मै. स्प्रिंगडेल कंस्ट्रक्शंस प्रा. लि.
122.	15-003753	„ सैमवैब ट्रेडिंग एण्ड एक्वा कल्चर प्रा. लि.	152.	15-003976	„ सनराईस फायनेंस प्रा. लि.
123.	15-003760	„ ललिता एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	153.	15-003980	„ मोहन्ती एण्ड मोहन्ती इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
124.	15-003771	„ वरुण मैरीन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	154.	15-003985	„ नेक्सस कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
125.	15-003772	„ कृष्णा हाउसिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कं. प्रा. लि.	155.	15-003995	„ जेनेक्स सर्विसेस प्रा. लि.
126.	15-003779	„ पणू मनोज एसोसिएट्स प्रा. लि.	156.	15-004000	„ राजी मिनरल्स प्रा. लि.
127.	15-003785	„ उड़ीसा ओर केलीब्रेटर्स प्रा. लि.	157.	15-004006	„ पेटको इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
128.	15-003789	„ सार्थक एक्वाटिक्स प्रा. लि.	158.	15-004007	„ केननमेट इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
129.	15-003794	„ फ्लाई ऐश ब्रिक्स एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	159.	15-004017	„ जे. जे. इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
130.	15-003803	„ पर्यावरण प्लांटेशंस प्रा. लि.	160.	15-004028	„ ब्लैक टायगर सिक्योरिटी सर्विसेस प्रा. लि.
131.	15-003819	„ एम. एच. सी. मिनरल एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.	161.	15-002035	„ इंडो-ग्लोबल एक्वाटिक्स प्रा. लि.
132.	15-003829	„ पात्रा एक्वा कल्चर प्रा. लि.	162.	15-004068	„ कार्तिक एजेंसीज प्रा. लि.
133.	15-003832	„ मेटल ट्रीट्स एण्ड प्रोसेसर्स प्रा. लि.	163.	15-004069	„ श्री दुर्गा ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.
134.	15-003833	„ सी एक्वाफर्म प्रा. लि.	164.	15-004077	„ इंडीकोम एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
135.	15-003835	„ इफोटेक कलिंगा प्रा. लि.	165.	15-004078	„ गोल्डन ट्रायएंगल रीयल एस्टेट एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
136.	15-003844	„ ईस्टर्न स्टार मार्केटिंग प्रा. लि.	166.	15-004080	„ श्री जगन्नाथ सिस्टम्स प्रा. लि.
137.	15-003848	„ सफ्फीरा मल्टी पर्पस एग्रीकल्चरल फार्म प्रा. लि.	167.	15-004088	„ यूनिटेक्स सिस्टम्स प्रा. लि.
138.	15-003849	„ सत्य कंस्ट्रक्शन एण्ड रिसर्च प्रा. लि.	168.	15-004089	„ आशीर्वाद इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस प्रा. लि.
139.	15-003853	„ मेघासन मैच बुड प्रा. लि.	169.	15-004094	„ जीरो इफॉर्मेटिक्स प्रा. लि.
140.	15-003859	„ एक्वा-मैरीस प्रा. लि.	170.	15-004097	„ होटल समुद्रा सम्राट एण्ड टूरिज्म प्रा. लि.
141.	15-003862	„ गीता राईस इंडस्ट्रीस प्रा. लि.	171.	15-004119	„ जोगा कालिया सिक्योरिटी सर्विसेस प्रा. लि.
142.	15-003867	„ के. बी. पेपर्स प्रा. लि.	172.	15-004120	„ ग्रीन स्केप (उड़ीसा) प्रा. लि.
143.	15-003875	„ बजरंग मैरीन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	173.	15-004127	„ ओरोमा कंसल्टेंसी सर्विसेस प्रा. लि.
144.	15-003877	„ गगन प्लांटेशन प्रा. लि.	174.	15-004138	„ ईस्टर्न लैंडर्स प्रा. लि.
145.	15-003887	„ माँ भैरबी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीस प्रा. लि.	175.	15-004144	„ रेनबो एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
146.	15-003931	„ नायक एण्ड नायक एलाईड एनर्जी सर्विसेस प्रा. लि.	176.	15-004150	„ नागाबली एगो इंडस्ट्रीस प्रा. लि.
147.	15-003959	„ रासी फूड्स प्रा. लि.	177.	15-004160	„ ग्रीनी प्लांट्स एण्ड एनीमल्स प्रा. लि.
148.	15-003968	„ झी वी एस्टेट डेवलपर्स प्रा. लि.	178.	15-004162	„ लाईफ लाईन प्रा. लि.
149.	15-003969	„ नीलाचल इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशंस प्रा. लि.	179.	15-004172	„ सुप्रा डेवलपर्स प्रा. लि.
150.	15-003970	„ ऊमा महेशवरी सिक्योरिटी सर्विसेस प्रा. लि.	180.	15-004176	„ श्री/अम्बिका राईस मिल प्रा. लि.
			181.	15-004186	„ ओरुअन इफॉर्मेटिक्स प्रा. लि.
			182.	15-004199	„ जैन थिरानी ओइन एण्ड प्लांटेशन इंडस्ट्रीस प्रा. लि.

1	2	3
183.	15-004222	मै. स्टालियन टेलीकोम प्रा. लि.
184.	15-004236	„ उत्कल जिक आक्सीडेक्स प्रा. लि.
185.	15-004248	„ केनाफ सीड्स प्रा. लि.
186.	15-004249	„ आफट्रेक ट्रेड एण्ड कामर्स इन्ट. प्रा. लि.
187.	15-004256	„ स्टील सीमेंट्स प्रा. लि.
188.	15-004257	„ पारा सिक्यूरिटी सर्विस प्रा. लि.
189.	15-004262	„ निशा फायनैशियल सर्विसेस प्रा. लि.
190.	15-004268	„ अल्फा एयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
191.	15-004279	„ जोगाकालिया लेबर सर्विसेस प्रा. लि.
192.	15-004281	„ सिम्पल एसोसिएट्स प्रा. लि.
193.	15-004285	„ विक्रम रिफ्रैक्ट्रीज प्रा. लि.
194.	15-004291	„ उडीसा लैमोनेटर्स प्रा. लि.
195.	15-004318	„ रत्नागिरी एस्टेट्स प्रा. लि.
196.	15-004321	„ मास कंस्ट्रक्शन एण्ड कंसल्टेंसी प्रा. लि.
197.	15-004332	„ होटल ओरोश्री इंटरनेशनल लि.
198.	15-004335	„ पद्मिनि कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
199.	15-004344	„ दिनेश (इंडिया) कंस्ट्रक्शन एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
200.	15-004353	„ रवि रंजन एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्रा. लि.
201.	15-004356	„ अल्मेक प्रा. लि.
202.	15-004358	„ नीलांचल बिल्डर्स प्रा. लि.
203.	15-004359	„ श्री गोपाल कम्पोजिट्स प्रा. लि.
204.	15-004366	„ गुप्ता इंफोटेक प्रा. लि.
205.	15-004368	„ छोट्टारे एस्टेट प्रा. लि.
206.	15-004379	„ मोडर्न सिक्यूरिटी प्रा. लि.
207.	15-004381	„ एल. ए. मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
208.	15-004389	„ सिंटेक इंजीनियर्स प्रा. लि.
209.	15-004394	„ ताज बिल्डर्स प्रोपर्टी डेवलपर्स प्रा. लि.
210.	15-004395	„ आराधना एस्टेट्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
211.	15-004401	„ आशिस् रोडलाईस प्रा. लि.
212.	15-004405	„ अमिन कंट्रोल सिस्टम्स प्रा. लि.
213.	15-004424	„ एक्स 2000 टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा. लि.
214.	15-004435	„ अनंता पोली, प्लास्ट प्रा. लि.

1	2	3
215.	15-004436	मै. जैसवाल पोलीपाईप्स प्रा. लि.
216.	15-004472	„ कलिंगा सेरामिक्स प्रा. लि.
217.	15-004479	„ अग्रवाल रोड कैरीयर्स प्रा. लि.
218.	15-005585	„ याह लायसनिंग एण्ड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि.
219.	15-004486	„ कोको फूड एण्ड बिबरेज प्रा. लि.
220.	15-004487	„ कलिंगा डेयरी लि.
221.	15-004492	„ अल्फा इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी सर्विस प्रा. लि.

बी. मोहन्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार, उडीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में  
कटक-753001, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. आर ओ सी/560(3)/6029/7562--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-005601	मै. गुप्तेश्वर माईन्स एण्ड जेम्स प्रा. लि.
2.	15-005602	मै. सोलार इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
3.	15-005603	मै. वेलकिन नेटवर्किंग सर्विसेज प्रा. लि.
4.	15-005616	मै. श्री लोकनाथ एस्टेट्स प्रा. लि.
5.	15-005632	मै. तृष्णा होलीडे रिसोर्ट्स प्रा. लि.
6.	15-005641	मै. दिवन सिटी इंजीनियर्स प्रा. लि.
7.	15-005703	मै. वेद ट्रान्सपोर्ट एण्ड शिपिंग प्रा. लि.
8.	15-005706	मै. एस. जे. सुप्रीम कन्सल्टेंट प्रा. लि.
9.	15-005708	मै. पी. पी. टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
10.	15-005719	मै. बरहामपुर गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
11.	15-005814	मै. आर. के. बिल्डकॉन्स प्रा. लि.
12.	15-005892	मै. प्रिन्स सप्लाय एजेन्सीज प्रा. लि.
13.	15-005971	मै. सोना मैराइन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
14.	15-005988	मै. राधा राम एग्रो प्रोसेसर्स प्रा. लि.

1	2	3
15.	15-005989	मै. शिल्पा इस्टकॉन प्रा. लि.
16.	15-006015	मै. प्रेम सिक्यूरिटीज एण्ड कोरियर सर्विसेज प्रा. लि.
17.	15-006027	मै. एलबर्ट होटल एण्ड एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
18.	15-006043	मै. बिनाईन इस्टेट्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
19.	15-006045	मै. वेगा बिल्डर्स प्रा. लि.
20.	15-006059	मै. बेहेरा बिल्डर्स प्रा. लि.
21.	15-006064	मै. रियन मार्केटिंग सर्विसेज प्रा. लि.
22.	15-006070	मै. माझीधारियनो केबल नेटवर्क प्रा. लि.
23.	15-006077	मै. मोहापात्रो पॉलरीज प्रा. लि.
24.	15-006083	मै. शिरीक्षेत्रा एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्रा. लि.
25.	15-006085	मै. शैलजा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रा. लि.
26.	15-006092	मै. सारदा कन्सट्रक्शन एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
27.	15-006100	मै. एम्पीरियन बिजनेस कार्ड प्रा. लि.
28.	15-006101	मै. शताब्दी कानटेक प्रा. लि.
29.	15-006104	मै. श्री गोपाल एपेरल्स प्रा. लि.
30.	15-006116	मै. वरसाटाईल कामिनीकेशन प्रा. लि.
31.	15-006118	मै. डी एस. एन. बिल्डर्स एण्ड डिवलपर्स प्रा. लि.
32.	15-006121	मै. कैपविन लैब्स प्रा. लि.
33.	15-006122	मै. एलाईन प्रोपर्टीज प्रा. लि.
34.	15-006123	मै. आई वर्क्स टेक्नोलाजीज प्रा. लि.
35.	15-006124	मै. ईस्टर्न इण्डिया बिजीनेस एसोसिएट्स प्रा. लि.
36.	15-006132	मै. सुष्मिता कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
37.	15-006135	मै. हनुमान एल पी जी सिलिण्डर्स प्रा. लि.
38.	15-006147	मै. कामिनी कृष्णा मार्केट कम्पलैक्स प्रा. लि.
39.	15-006149	मै. ओरेल इन्फोटेक प्रा. लि.
40.	15-006150	मै. डिजिटल लैक्सीज इन्फोटेक प्रा. लि.
41.	15-006156	मै. बी एण्ड एन सेल्स सिण्डीकेट प्रा. लि.
42.	15-006161	मै. लान्स आटो प्रा. लि.
43.	15-006167	मै. ओ एस एल इंजीनियरिंग प्रा. लि.
44.	15-006169	मै. मदन ग्रीन रिसोर्ट प्रा. लि.
45.	15-006188	मै. स्वागत बिल्डर्स प्रा. लि.
46.	15-006201	मै. कालिंगा लेयर्स प्रा. लि.

1	2	3
47.	15-006202	मै. खान प्रॉपर्टीज प्रा. लि.
48.	15-006203	मै. श्री चैतन्या टीकान्स प्रा. लि.
49.	15-006210	मै. रिवानी ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
50.	15-006212	मै. ला मार्केटिका प्रा. लि.
51.	15-006213	मै. सार्थक मिनिरल प्रा. लि.
52.	15-006214	मै. सिवा बिल्डर्स 4 प्रोमोटर्स प्रा. लि.
53.	15-006215	मै. गायत्री इरिक्टर्स प्रा. लि.
54.	15-006218	मै. नालिनी इन्फोटेक प्रा. लि.
55.	15-006220	मै. श्रीइन्फो टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
56.	15-006236	मै. गोजा बयानी कन्सट्रक्शन प्रा. लि.
57.	15-006240	मै. आशा इक्विपमेंट एण्ड इलैक्ट्रीकल्स सप्लाय प्रा. लि.
58.	15-006243	मै. पिंगक हैल्थ सर्विसेज प्रा. लि.
59.	15-006247	मै. ए बी एम एस्टेट्स एण्ड प्रोमोटर्स प्रा. लि.
60.	15-006248	मै. अवतार सर्विसेज प्रा. लि.
61.	15-006259	मै. उड़ीसा एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
62.	15-006275	मै. ऑंकार एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.
63.	15-006277	मै. बिनोरी सिस्टम्स प्रा. लि.
64.	15-006286	मै. प्रभात कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
65.	15-006293	मै. मार्क कम्प्यूनिवेशन्स एण्ड कन्सलटेंसी प्रा. लि.
66.	15-006301	मै. कलसोन इन्फोसरवेज प्रा. लि.
67.	15-006305	मै. एस विंध्याचल आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
68.	15-006315	मै. विपासा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
69.	15-006320	मै. गीतांजलि सर्विसेज प्रा. लि.
70.	15-006324	मै. जगन्नाथ गैस प्वाइंट प्रा. लि.
71.	15-006327	मै. आर्यभट्ट कन्सट्रक्शन प्रा. लि.
72.	15-006332	मै. ईस्टर्न एग्नेसिक्ज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
73.	15-006333	मै. शुभमश्री बिल्डकोन प्रा. लि.
74.	15-006337	मै. कनकोर्ड बिल्डकोन एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
75.	15-006339	मै. कन्हैयालाल एपेरल्स प्रा. लि.
76.	15-006340	मै. व्यासानगर ओइल्स प्रा. लि.
77.	15-006347	मै. नेक कम्प्यूटर्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
78.	15-006354	मै. अमृत एज्युकेशन कन्सल्टेंसी प्रा. लि.	111.	15-006531	मै. नीलसन इंजीनियर्स एण्ड कनसल्टेंट्स प्रा. लि.
79.	15-006355	मै. शिव शुभम् ईस्टकोन प्रा. लि.	112.	15-006535	मै. सागारिका आर्ट्स प्रा. लि.
80.	15-006361	मै. बी एस डिस्कवर टूर्स प्रा. लि.	113.	15-006537	मै. टेलीसोफ्ट इंटेली सिस्टम्स प्रा. लि.
81.	15-006371	मै. होटल भुवनाश्री प्रा. लि.	114.	15-006540	मै. इरास कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
82.	15-006376	मै. पार्श्वनाथ एस्टेट प्रा. लि.	115.	15-006550	मै. साइसिस सिस्टम्स एण्ड सोल्यूशंस प्रा. लि.
83.	15-006383	मै. मिलेनियम बिल्डकोन प्रा. लि.	116.	15-006560	मै. महावीर एसोसियेट्स प्रा. लि.
84.	15-006394	मै. डॉलफिन दूध प्रा. लि.	117.	15-006561	मै. कमला सिक्कोरिटी सर्विसेस प्रा. लि.
85.	15-006400	मै. सोफिया कम्यूटेक प्रा. लि.	118.	15-006566	मै. कान्हा वीडियो एण्ड ओडियो ग्राफिक्स प्रा. लि.
86.	15-006401	मै. पुरुषोत्तम मार्केटिंग सर्विसेज प्रा. लि.	119.	15-006576	मै. महन्ता सिक्कोरिटी सर्विसेज प्रा. लि.
87.	15-006402	मै. उडीसा मार्केटिंग एजेंसी प्रा. लि.	120.	15-006581	मै. सूर्या नोन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट एण्ड कोरोजन प्रिवेंशन सर्विसेज प्रा. लि.
88.	15-006406	मै. यू नाइट केयर प्रा. लि.	121.	15-006591	मै. जेड-3 सिक्कोरिटी सर्विसेज प्रा. लि.
89.	15-006412	मै. जगन्नाथ फेक्टरी एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.	122.	15-006592	मै. निराकर रियल इस्टेट एण्ड डवलपर्स प्रा. लि.
90.	15-006421	मै. कोनार्क कॉटेक प्रा. लि.	123.	15-006593	मै. इम्पीरियल कम्यूटर सॉफ्टवेयर स्टडीज प्रा. लि.
91.	15-006424	मै. दिव्या ज्योति स्टेन्स प्रा. लि.	124.	15-006596	मै. मेगासिस इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
92.	15-006426	मै. शिव शंकर ट्रेडर प्रा. लि.	125.	15-006597	मै. ओरीजीन टूर्स नेट इंडिया प्रा. लि.
93.	15-006435	मै. श्री वासुदेव प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	126.	15-006599	मै. ज्योतिरंजन मोहापात्रा कन्सल्टिंग प्रा. लि.
94.	15-006437	मै. अरसद इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रा. लि.	127.	15-006602	मै. स्पेस-लाइन कन्सल्टिंग प्रा. लि.
95.	15-006438	मै. शुभम बिल्डटेक प्रा. लि.	128.	15-006611	मै. लाल अमृत कन्सल्टिंग प्रा. लि.
96.	15-006442	मै. तारिनी रियल कोन प्रा. लि.	129.	15-006612	मै. प्रतिभा लाइजर एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
97.	15-006447	मै. नीरज ट्रेड एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर सिंडीकेट प्रा. लि.	130.	15-006614	मै. सहारा इंडस्ट्रियल गैसेज प्रा. लि.
98.	15-006450	मै. पेसीफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्रा. लि.	131.	15-006615	मै. एस आर वी एण्ड एसोसियेट्स प्रा. लि.
99.	15-006455	मै. एस डी क्रियेशन सर्विसेज प्रा. लि.	132.	15-006617	मै. जताधरी इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
100.	15-006457	मै. ट्रिपल-आर होटल्स प्रा. लि.	133.	15-006621	मै. एन एण्ड एस मेकेनाइज्ड ब्रिक्स प्रा. लि.
101.	15-006461	मै. श्रृष्टि बिल्डकोन प्रा. लि.	134.	15-006623	मै. एन. एन्ड एस. मैकानाइज्ड ब्रिक्स प्रा. लि.
102.	15-006470	मै. शुभम् इन्फोसिस प्रा. लि.	135.	15-006625	मै. टूथ लव एन्ड हैपीनेस मार्केटिंग सर्विसेज प्रा. लि.
103.	15-006482	मै. जूली एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	136.	15-006633	मै. साई इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
104.	15-006489	मै. बिबेकानंदा मिनरल्स प्रा. लि.	137.	15-006634	मै. नोबल एक्सिम (इन्डिया) प्रा. लि.
105.	15-006492	मै. मेडियाड टेक्नोलॉजी प्रा. लि.	138.	15-006635	मै. भुवनेश्वर लाइव स्टोक प्रा. लि.
106.	15-006493	मै. इन्वेनसिस सिस्टम्स प्रा. लि.	139.	15-006638	मै. शोरावली मिनरल्स एण्ड रिलायस प्रा. लि.
107.	15-006494	मै. सिस्टम्स एसोसियेट प्रा. लि.	140.	15-006651	मै. शक्ति गुड्स प्रा. लि.
108.	15-006496	मै. महाराजा रियलकोन प्रा. लि.			
109.	15-006498	मै. एसपेक्ट सॉफ्टवेयर प्रा. लि.			
110.	15-006504	मै. यूनाइटेड मैक्स प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
141.	15-006652	मै. मैक्स 'एन' ट्रेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	174.	15-006756	मै. उत्कल पिट्रो कैमिकल्स प्रा. लि.
142.	15-006653	मै. मद कब्बेडा मैटालिक्स प्रा. लि.	175.	15-006757	मै. जय जगदम्बे इन्डक्शन प्रा. लि.
143.	15-006662	मै. सेपा टेक्नो-कन्सल्टैन्सी प्रा. लि.	176.	15-006760	मै. आर्या मीडिया प्रा. लि.
144.	15-006666	मै. सुपर फैंसिलिटी एक्सल प्रा. लि.	177.	15-006761	मै. नीड्स कन्सल्टैन्स प्रा. लि.
145.	15-006674	मै. रानीसती एलॉयस प्रा. लि.	178.	15-006765	मै. मल्लिक टूल्स एन्ड इन्जीनियरिंग प्रा. लि.
146.	15-006676	मै. बयासा प्रापर्टीस प्रा. लि.	179.	15-006766	मै. मल्लिका मशीनरी एन्ड इक्विपमेंट्स प्रा. लि.
147.	15-006682	मै. लगन स्टेट एन्ड बिल्डर्स प्रा. लि.	180.	15-006770	मै. मधु एन्ड एम एस सोइल टेक्नोलॉजिस्ट प्रा. लि.
148.	15-006683	मै. उदय भानु मार्केटिंग एन्ड सर्विसिस प्रा. लि.	181.	15-006773	मै. अरविन्दो प्रोमोटर्स प्रा. लि.
149.	15-006684	मै. युनाइटेड आल-इन डायरेक्ट मार्केटिंग प्रा. लि.	182.	15-006778	मै. सुभद्रा बिल्डर्स प्रा. लि.
150.	15-006685	मै. अनिनदिता बिल्डर्स एन्ड डवलपर्स प्रा. लि.	183.	15-006780	मै. देवीदुर्गा ट्रेवल्स प्रा. लि.
151.	15-006691	मै. साइलवीनेट सोल्यूशन्स प्रा. लि.	184.	15-006781	मै. मा तारिमी बिल्डकॉन प्रा. लि.
152.	15-006693	मै. चिंतन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	185.	15-006786	मै. बीराजा गणेश सिस्टमस् प्रा. लि.
153.	15-006701	मै. नैटकोन मार्केटिंग प्रा. लि.	186.	15-006790	मै. स्टेपिन नेटवर्क प्रा. लि.
154.	15-006703	मै. गोविन्द राम कम्प्यूटैक प्रा. लि.	187.	15-006791	मै. लिंचपिन सोफटेक प्रा. लि.
155.	15-006706	मै. अबास मार्केटिंग सर्विसिज प्रा. लि.	188.	15-006797	मै. ओरिएन्ट फरनीशर्स प्रा. लि.
156.	15-006709	मै. बादल बिल्डर्स प्रा. लि.	189.	15-006801	मै. ऐसन कस्टुमर केयर प्रा. लि.
157.	15-006711	मै. गनानायक कन्सल्टैन्स प्रा. लि.	190.	15-006807	मै. ग्लोटेक कन्सल्टैन्सी सर्विसेज प्रा. लि.
158.	15-006712	मै. श्री सतीसाई एस्टेट एन्ड प्रोमोटर्स प्रा. लि.	191.	15-006808	मै. डियोमाली माईन्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि.
159.	15-006718	मै. दूम कैमीकल्स प्रा. लि.	192.	15-006809	मै. देशप्रिया सिक्कूरिटी सर्विसेज प्रा. लि.
160.	15-006720	मै. स्मृति इन्टरप्राइसिस प्रा. लि.	193.	15-006815	मै. सियना कन्सल्टैन्स प्रा. लि.
161.	15-006724	मै. जिवल रियल स्टेट्स प्रा. लि.	194.	15-006821	मै. विमल सोफ्टवेयर्स प्रा. लि.
162.	15-006726	मै. एम एस डाक्यूमेंटेशन एन्ड सर्विसिज प्रा. लि.	195.	15-006823	मै. नर्मदा नेटवर्क प्रा. लि.
163.	15-006727	मै. बिशनदयाल रिसोर्ट्स प्रा. लि.	196.	15-006825	मै. महावीर रियलकोन प्रा. लि.
164.	15-006729	मै. अर्णापूर्णा इस्टकान प्रा. लि.	197.	15-006827	मै. वान्डर रूट एण्ड रोट प्रा. लि.
165.	15-006731	मै. इलीक्सीर सोल्यूशन्स प्रा. लि.	198.	15-006828	मै. बेसनोवी ऐस्टेट्स एण्ड कन्सल्टैन्स प्रा. लि.
166.	15-006733	मै. सेनापथी रामा चन्दी मार्केटिंग प्रा. लि.	199.	15-006836	मै. एपोच डेवेलपर्स प्रा. लि.
167.	15-006738	मै. उत्कल एडुलिक कन्सल्टैन्सी प्रा. लि.	200.	15-006847	मै. अमानाह रियल ऐस्टेट्स एण्ड डेवेलपर्स प्रा. लि.
168.	15-006744	मै. ओरीटैक कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	201.	15-006869	मै. हिरनमेयी नेटवर्क प्रा. लि.
169.	15-006747	मै. ओम वेदव्यास विनायक स्टेट्स प्रा. लि.	202.	15-006870	मै. मेरेसपने नेट वर्क्स प्रा. लि.
170.	15-006749	मै. महिमा राइस मिल्स प्रा. लि.	203.	15-006871	मै. श्रीज्योति फाईनेन्स एण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा. लि.
171.	15-006750	मै. गिन्नी बेव्वी एन्ड ओसिएनिक प्रा. लि.	204.	15-006874	मै. सागीआरेन सिस्टम्स प्रा. लि.
172.	15-006751	मै. मिनर्वा मार्केटिंग प्रा. लि.			
173.	15-006753	मै. सौभाग्य मार्केटिंग प्रा. लि.			

1	2	3
205.	15-006886	मै. वोयाजर इनफोकॉम (इण्डिया) प्रा. लि.
206.	15-006886	मै. यूनीसन इलेक्ट्रोक्स प्रा. लि.
207.	15-006887	मै. मेगाव्यू सर्विसेज प्रा. लि.
208.	15-006889	मै. मोक्षा सोल्यूशन्स प्रा. लि.
209.	15-006892	मै. हॉरिजन सिस्टम्स एण्ड सोल्यूशनस प्रा. लि.
210.	15-006894	मै. कालिंगा एडवेंचर्स एण्ड एविएशन प्रा. लि.
211.	15-006896	मै. महावीर सिम्यूरिटी सर्विसेज प्रा. लि.
212.	15-006897	मै. मेरीना ओवरसीज प्रा. लि.
213.	15-006900	मै. मिलिनियम एक्सप्लोर्स प्रा. लि.
214.	15-006909	मै. बेस्ट केयर मार्किटिंग प्रा. लि.
215.	15-006911	मै. अर्थ लोजिस्टिक्स प्रा. लि.
216.	15-006916	मै. ए.एल.डी. ट्रेडिंग एंड प्रा. लि.
217.	15-006918	मै. वेन्डरॉय पिग्स प्रोजेक्ट प्रा. लि.
218.	15-006923	मै. नेटकॉन मल्टी मार्किटिंग प्रा. लि.
219.	15-006924	मै. पार्क बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्रा. लि.
220.	15-006925	मै. सब मेटल्स एण्ड अलायस प्रा. लि.
221.	15-006926	मै. फेबरी मार्किटिंग प्रा. लि.
222.	15-006927	मै. लाइमलिट्ज सोल्यूशंस प्रा. लि.
223.	15-006929	मै. उतकल एस्टेट एण्ड डेवेलपर्स प्रा. लि.

बी. मोहन्ती

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. आर ओ सी/560(3)/6029/7552--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इनके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-004517	मै. मोती बीच रिसोर्ट्स प्रा. लि.
2.	15-004524	मै. शक्ति विहार हाउसिंग प्रा. लि.
3.	15-004535	मै. लोकनाथ कामधेनु डेयरी प्रा. लि.

1	2	3
4.	15-004552	मै. पास कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
5.	15-004556	मै. परीवेष्ट एग्रो फोरेस्ट्री प्रा. लि.
6.	15-004561	मै. इंजिनियर्स इंडिया कंसलटेंसी एण्ड सर्वे प्रा. लि.
7.	15-004570	मै. लता प्लास्टिक्स प्रा. लि.
8.	15-004576	मै. सेवा सिम्योरिटी सर्विसेज प्रा. लि.
9.	15-004580	मै. पी. के. फार्मर्स एण्ड प्लांटेशंस प्रा. लि.
10.	15-004581	मै. इस्पात मेल पब्लिकेशन प्रा. लि.
11.	15-004588	मै. विकासता परिवहन प्रा. लि.
12.	15-004591	मै. पारकराम मिनरल्स प्रा. लि.
13.	15-004594	मै. के. सी. एम. टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
14.	15-004606	मै. अपेक्स कोनक्रेट्स एण्ड इंजिनियरिंग प्रा. लि.
15.	15-004654	मै. सुपरटेक कोमसटेट प्रा. लि.
16.	15-004661	मै. मेडल शोप प्रा. लि.
17.	15-004662	मै. के. वेस्ट सर्विसेज प्रा. लि.
18.	15-004664	मै. अम्बिका ग्रेनाइट्स प्रा. लि.
19.	15-004669	मै. श्री वेंकटेश्वरा वायर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
20.	15-004672	मै. ए. बी. एस. एक्सप्लोसिवज प्रा. लि.
21.	15-004679	मै. ऐशरया प्रोमोटर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
22.	15-004683	मै. केलीबर एस्टेट्स प्रा. लि.
23.	15-004697	मै. बलदेव ज्यूव फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
24.	15-004703	मै. नोर्थ एक्स-सर्विसेज सिम्योरिटी सर्विस प्रा. लि.
25.	15-004720	मै. खांदीगिरी सिम्योरिटी सर्विस प्रा. लि.
26.	15-004732	मै. उड़ीसा मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
27.	15-004739	मै. सागर रियल एस्टेट्स एण्ड प्रोमोटर्स प्रा. लि.
28.	15-004746	मै. भारती एस्टेट्स प्रा. लि.
29.	15-004752	मै. लिटिल अर्थ रियल एस्टेट्स प्रा. लि.
30.	15-004758	मै. फोनेटिक इनफॉर्मेशन पार्क प्रा. लि.
31.	15-004764	मै. ओवरकम इंटरप्राइसिज प्रा. लि.
32.	15-004768	मै. कोट फूड्स प्रा. लि.
33.	15-004773	मै. नोर्थ-ईस्ट मेराइन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
34.	15-004776	मै. ऑटोमेटिक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
35.	15-004777	मै. जे. बी. एस. एग्रो प्रा. लि.



1	2	3
36.	15-004781	मै. जी. एम. एल्यूमिनियम एक्सट्रुशंस प्रा. लि.
37.	15-004782	मै. सहारा एल्यूमिनियम एक्सट्रुशंस प्रा. लि.
38.	15-004788	मै. गंधर्व ग्रीन फोरेस्ट एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
39.	15-004790	मै. तारा तारीनी इंजीनियरिंग एण्ड कंसट्रक्शन प्रा. लि.
40.	15-004799	मै. बी. एच. रोलर फ्लोअर मिल्स प्रा. लि.
41.	15-004836	मै. नन्दी घोष गारमेंट्स (इण्डिया) प्रा. लि.
42.	15-004849	मै. रमेश मेटल्स प्रा. लि.
43.	15-004850	मै. जुगांतर होटल्स एण्ड प्रोपर्टीज प्रा. लि.
44.	15-004851	मै. राज फूड्स प्रा. लि.
45.	15-004860	मै. सूनानी कंसट्रक्शंस प्रा. लि.
46.	15-004868	मै. भूबनेश्वर मार्केटिंग प्रा. लि.
47.	15-004874	मै. लोर्ड बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा. लि.
48.	15-004882	मै. ओडिसी जैक्स प्रा. लि.
49.	15-004887	मै. माँ समलेश्वरी पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
50.	15-004891	मै. डेडली फर्स्ट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा. लि.
51.	15-004903	मै. जेस्मीन एप्रोटेक प्रा. लि.
52.	15-004904	मै. खेमका बिल्डर्स प्रा. लि.
53.	15-004910	मै. जय माता दी कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
54.	15-004915	मै. जे. एस. बिल्डर्स प्रा. लि.
55.	15-004919	मै. श्याम रियल्टर्स एण्ड कंसट्रक्शन प्रा. लि.
56.	15-004920	मै. बजरंग फोरजिंग प्रा. लि.
57.	15-004935	मैसर्स सलेम एस्टेट एण्ड इंजीनियरिंग कंसट्रक्शंस प्रा. लि.
58.	15-004952	मैसर्स महाकाली कार्बन प्रा. लि.
59.	15-004955	मैसर्स अभिनाश कम्यूटर्स प्रा. लि.
60.	15-004960	मैसर्स शिल्पी गैसेज प्रा. लि.
61.	15-004963	मैसर्स सोवर्णा फूड मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि.
62.	15-004972	मैसर्स यूनाइटेड कारगो सर्विसेज प्रा. लि.
63.	15-004982	मैसर्स वूडलैंड बोटलिंग एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
64.	15-004989	मैसर्स लोड्स सिक्योरिटी गार्ड प्रा. लि.
65.	15-004991	मैसर्स डायामास एक्स-सर्विसमेन ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.
66.	15-005007	मैसर्स कोनार्क इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.

1	2	3
67.	15-005013	मैसर्स इनफोक्स एडवर्टाईजिंग प्रा. लि.
68.	15-005015	मैसर्स केपीटल कंसलटेंट्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा. लि.
69.	15-005023	मैसर्स औरा इक्विपमेंट्स प्रा. लि.
70.	15-005035	मैसर्स बसेरा कंसट्रक्शन प्रा. लि.
71.	15-005037	मैसर्स मोडल्स इण्डिया प्रा. लि.
72.	15-005044	मैसर्स खारवेला प्रीजिंग कम्पनी प्रा. लि.
73.	15-005051	मैसर्स गौड़ गजेन्द्र हॉस्पिटल प्रा. लि.
74.	15-005052	मैसर्स अंकुल ट्रेडिंग प्रा. लि.
75.	15-005053	मैसर्स बिश्वारूपा डेवलेपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
76.	15-005054	मैसर्स इनटेक्ट इक्विपमेंट्स प्रा. लि.
77.	15-005068	मैसर्स गुप्ता मोल्डर्स प्रा. लि.
78.	15-005075	मैसर्स मैत्रिय बिल्डर्स एण्ड कंसलटेंट्स प्रा. लि.
79.	15-005077	मैसर्स आशा एग्रो बायो-टेक इण्डिया प्रा. लि.
80.	15-005089	मैसर्स मौसम स्टील्स प्रा. लि.
81.	15-005090	मैसर्स कल्याणी फूड्स प्रा. लि.
82.	15-005093	मैसर्स इलैक्ट्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कंसलटेंसी प्रा. लि.
83.	15-005100	मैसर्स नीलकंठ बिल्डर एण्ड डेवलेपर्स प्रा. लि.
84.	15-005103	मैसर्स अनुपम लोज प्रा. लि.
85.	15-005109	मैसर्स कृष्ण-कन्हैया बिल्डर्स एण्ड रियल एस्टेट प्रा. लि.
86.	15-005110	मैसर्स शाबाश स्पाईसिस प्रा. लि.
87.	15-005115	मैसर्स चेरीओट कंसट्रक्शन प्रा. लि.
88.	15-005119	मैसर्स नागाबाली सिक्यूरिटी सर्विसेज प्रा. लि.
89.	15-005120	मैसर्स साईं टॉकिस प्रा. लि.
90.	15-005121	मैसर्स असीम बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा. लि.
91.	15-005125	मैसर्स गैलेक्सी टेली सिस्टम्स प्रा. लि.
92.	15-005128	मैसर्स ज्वालामुखी एडवर्टाईजिंग एण्ड कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
93.	15-005131	मैसर्स एडेन कंसट्रक्शन एण्ड बिल्डर्स (उड़ीसा) प्रा. लि.
94.	15-005132	मैसर्स जयवीर हनुमान प्रोमोटर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
95.	15-005139	मैसर्स अनुपम आईस् फैक्ट्री प्रा. लि.

1	2	3
96.	15-005146	मैसर्स एलीट एग्रो प्लांटेशंस प्रा. लि.
97.	15-005147	मैसर्स इंटेक पार्कस प्रा. लि.
98.	15-005150	मैसर्स डे-स्टार कंसल्टिंग एण्ड इंजिनियर्स प्रा. लि.
99.	15-005153	मैसर्स सत्या साईं कंसल्टिंग प्रा. लि.
100.	15-005154	मैसर्स ऋषि कुल्या बिल्डर्स प्रा. लि.
101.	15-005155	मैसर्स मीरा रियल एस्टेट्स प्रा. लि.
102.	15-005172	मैसर्स अमेटी कंसल्टिंग एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
103.	15-005183	मैसर्स बाना भारती प्रा. लि.
104.	15-005186	मैसर्स स्वागतम डवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
105.	15-005192	मैसर्स बाबूश्री फार्म्स प्रा. लि.
106.	15-001618	मैसर्स एक्मे आइस-फ्लो प्रा. लि.

1	2	3
107.	15-001742	मैसर्स अलकोक प्रिंसीसिएन इन्टरनैट्स कं. उड़ीसा प्रा. लि.
108.	15-006748	मैसर्स मोहाबीर हैचरीस प्रा. लि.

बी. मोहन्ती

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, उड़ीसा

कंपनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में  
बंगलोर, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. टीए/एच/एस. 560(5)/एसईएस-2003/जनरल 06--कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि :-

1. मैसर्स इट्रिक्स साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2. मैसर्स कॉन्डूर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3. मैसर्स क्रायोगार्ड लेबोरेट्रिस प्राइवेट लिमिटेड
4. मैसर्स किलोस्कर ऑटो कॉम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार-  
कर्नाटक

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 1st February 2007

No. F. 6/2007-SCA(I).—Shri S. Chatterjee, Officiating Additional Registrar, Shri Vijay Kumar Sharma, Officiating Joint Registrar, Shri Nirmal Kumar, Officiating Deputy Registrar and Shri Kamal Ram Tomar, Officiating Assistant Registrar, have retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of January 31, 2007 on their attaining the age of superannuation.

HEMANT SAMPAT  
Registrar (Admn.)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 11th January 2007

No. A-19014/19/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training order No. 5/8/2006-CS. I (Desk) (Pt.) dated 12th December, 2006, the President is pleased to appoint Shri G. Roy (D.O.B. 04.05.1954) (CSL No. 5646), a regular Section Officer of CSS Cadre of Ministry of Labour & Employment to the Grade I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in the Office of the UPSC in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 27th December 2006 until further orders :

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely, or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

No. A-19014/20/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training order No. 5/8/2006-CS. I (Desk) (Pt.) dated 12th December, 2006, the President is pleased to appoint Shri K. K. Jha (D. O. B. 04.01.1958) (CSL No. 5633), a regular Section Officer of CSS cadre of Ministry of Urban Development to the Grade I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in the Office of the UPSC in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 26th December, 2006 (forenoon) until further orders :

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely, or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.

- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

No. A-19014/23/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training order No. 5/8/2006-CS. I (Desk) (Pt.) dated 12th December, 2006, the President is pleased to appoint Shri A. N. Jena (D.O.B. 21.11.1961) (CSL No. 5519), a regular Section Officer of CSS Cadre of Planning Commission to the Grade I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in the Office of the UPSC in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 29th December 2006 until further orders.

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely, or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 31st January 2007

No. A. 38014/9/2006-Admn. II.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri Kirori Lal, Supdt. (DP) in the office of Union Public Service Commission has retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.01.2007 (Thirty first January, 2007).

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE  
ACADEMY

Hyderabad-500 052, the 1st February 2007

No. 15011/8/2002-Estt.—On the recommendation of the Union Public Service Commission vide their letter No. 3/24(22)/2006-ADT-3 dated 07.12.2006 Shri K. Senthil Nathan, Assistant Commandant, CRPF (IRLA No. 5894) is appointed as Chief Drill Instructor in the SVP National Police Academy, Hyderabad in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier with effect from the forenoon of 03rd January, 2007 on usual terms and conditions of deputation.

2. He will have the option either to draw the pay in his parent department scale of pay or the pay in the scale of pay

of the deputation post in the Academy i.e. Rs. 8,000—13,500/- plus allowances as admissible under the relevant rules. The option has to be exercised within one month of his joining the post and the option once exercised shall be final and binding.

Dr. G. S. RAJAGOPAL  
Director

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 1st February 2007

No. P. III-2/2007-Pers.-3.—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of superannuation, Shri Jagdish Prasad (IRLA-5503) of Adm-3 Branch of Dte. General, CRPF, New Delhi, has relinquished the charge of the post of Administrative/Section Officer in the afternoon of 30.11.2006.

K. K. SIVA PRASAD  
Addl. DIGP (Pers-III)

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 31st January 2007

No. E-28017/06/Noti/2007/Pers. II/249.—Consequent to his retirement from Govt. Service on attaining the age of superannuation, Shri Mukunda Lal Bhattacharya, relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, ISP Bampur in the afternoon of 31.12.2006.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-31013(1)/5/2006/Pers. II/263.—The President is pleased to appoint Shri M. C. Biswas, Commandant (since retired on superannuation on 31.12.2005) on promotion notionally to the rank of Senior Commandant in CISF on regular basis with effect from 26.01.2002 (afternoon) in the pay-scale of Rs. 14,300-400-18,300/-.

2. He is entitled for arrears of pay and allowances of the post of Senior Commandant with effect from 27.01.2002 to 31.12.2005 as per approval of appointing authority.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR  
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 8th February 2007

No. 666-GE-I/13-2006.—The following IA&AS officer have retired on superannuation/retired voluntarily/resigned

from Government service from the date shown against their names :—

- |    |                 |  |
|----|-----------------|--|
|    | S/Shri          |  |
| 1. | U. Bhattacharya | Retired on superannuation wef. 31.01.2007 (AN) |
| 2. | V. R. Pohurkar  | Retired on superannuation wef 31.01.2007 (AN)  |
| 3. | A. K. Prabhakar | Retired voluntarily wef 05.01.2007 (FN)        |
| 4. | B. C. Mallick   | Resigned wef. 15.12.2006 (AN)                  |

DEEPAK NARAIN  
Asstt. Comptr. and Auditor General (P)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (AUDIT), WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 29th January 2007

No. Admn. III/Pen/5-2/Vol. VI/420.—Shri Chanchal Kumar Chakraborty, Sr. Audit Officer, and Shri Kalpan Choudhury, Audit Officer of the O/o the A. G. (Receipt, Works & L. B. Audit) W. B. retired from service on superannuation on 31.12.2006 (AN).

B. K. MUKHERJEE  
DAG (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 2nd February 2007

No. WM-I/Estt/279.—Under the order of the Accountant General (A & E), West Bengal the following Divisional Accounts Officers Gr-II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in the temporary and officiating capacity with effect from the date of assumption of charges as D.A.O.-I in the present Divisions/Division until further order. They will be on probation for a period of 2 (two) years from the date of promotion.

Such promotions are in the interest of the public service.

Sl. Name  
No.

- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 1. | Shri Moloy Chattopadhyay |
| 2. | Shri Mahadeb Das         |

The above named Officers may submit their option under F. R. 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as Divisional Accounts Officer Gr.-I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accounts (A/cs & VLC)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500 004, the 2nd January 2007

No. Admn. I/A&E/I/4-39/2006-07/115.—The Accountant General (A&E), A. P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Accounts Officers to officiate as Sr. Accounts Officers in the Scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of Charge as Sr. A. O.
1.	Shri S. Nagalakshmi	02.01.2007 (FN)
2.	Shri Y. Sai Prasada Rao	02.01.2007 (FN)
3.	Shri A. Vivekananda Rao	02.01.2007 (FN)
4.	Shri V. S. Suryanarayana	02.01.2007 (FN)
5.	Shri K. Rama Murthy	02.01.2007 (FN)
6.	Shri O Ramakrishna Rao	02.01.2007 (FN)
7.	Shri Ch. Nalasekhar Rao	02.01.2007 (FN)
8.	Smt. G. Usha Rani	02.01.2007 (FN)
9.	Smt. P. Sujatha Devi	02.01.2007 (FN)
10.	Smt. P. Uma Saraswathi	02.01.2007 (FN)
11.	Shri K. Subbarayudu	02.01.2007 (FN)
12.	Shri V. S. Prakasa Rao	02.01.2007 (FN)

The promotions ordered are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

R. K. SHASTRI  
Dy. Accountant General (Admin.)

No. Admn. I/A&E/I/4-6/2006-07/149.—Accountant General (A & E), A.P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date shown against his name :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of Charge as Sr. A. O.
1.	Y. Ravi Kumar	02.01.2007 (FN)

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admin.)

Hyderabad-500 004, the 2nd January 2007

No. Admn. I/I/4-26/2006-07/150.—Accountant General (A&E) is pleased to promote the following Section Officers to officiate as Assistant Accounts Officers, until further orders, in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 02.01.2007 F. N. or from the date of their taking over charge, whichever is later :—

S/Shri/Ms.

1. U. V. Annapurna
2. I. Lakshmana Murthy
3. R. Sudhakar
4. N. Rangababu
5. R. Chandra Sekhar
6. Janaki Diwakaran
7. S. Rajasri
8. K. Mythili Mukundan
9. Vanitha Varadarajan
10. P. Mrinalini
11. K. Lakshmi Vijaya Durga
12. M. Hari Hara Prasad
13. Ch. Veerabhadra Rao
14. Ch. Indira Jyothi

The promotions ordered are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Their pay will be fixed under the provisions of F. R. 22. I (a)(1). They should exercise option within one month from the date of issue of this order in terms of Government of India O. M. No. F. 7/1/80-Estt. P. I dated 26.9.1981.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admin.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
ORISSA

Bhubaneswar, the 22nd January 2007

No. Admn.-I/IAD-PF-Gr. 'B'/1850.—The Accountant General (A&E) has been pleased to allow Shri Prahallad Das, A. O. (on deputation to O/o Sr. D. A. G. (LBA &A), Orissa, Bhubaneswar) to officiate as Sr. Accounts Officer in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- consequent on acceptance of offer of promotion issued vide OOC No. 695 dated 2.1.2007, w.e.f. 2.1.2007 the date on which his junior reported to duty as Sr. A. O. (as per the provision laid down in Next Below Rule under FR-22).

Shri Prahallad Das will rank above Shri D. Ramprasad and below Miss Nilotpala Mohanty in the cadre of Sr. Accounts Officer.

The promotion is subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/Central Administrative Tribunal, if any, and without prejudice to the claims of his seniors.

B. K. MOHANTY  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn.-I-AD-Gr. 'B'-1852.—Consequent on their acceptance of offer of promotion vide this office OOC No. 685 dated 02.01.2007, the Accountant General (A&E), Orissa has been pleased to promote the following Assistant Accounts Officers as Accounts Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date of their taking over charges i.e. on 02.01.2007 FN as per the provision in the IA&AD (Accounts Officer) recruitment Rule 2001.

1. Shri Rajkishor Tripathy
2. Shri Mahendra Nath Das

The promotion is subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any without prejudice to the claim of their seniors.

B. K. MOHANTY  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn.-I-AD-Gr. 'B'-1854.—Consequent on their acceptance of offer of promotion vide this office OOC No. 684 dated 02.01.2007, the Accountant General (A&E) Orissa has been pleased to allow the following Accounts Officers to officiate as Sr. Accounts Officers in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the date of their taking over charges i.e. 02.01.2007 FN without prejudice to the claim of their seniors.

1. Shri Rabi Narayan Dash
2. Miss Niloptala Mohanty
3. Shri D. Ramprasad

The promotion is subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any.

B. K. MOHANTY  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ORISSA  
(COMMERCIAL, WORKS & RECEIPT AUDIT)

Bhubaneswar, the 31st January 2007

No. Admn. (CW&RA)/17-2(Coml) Vol-IX/1297.—In pursuance of Hq. Qrs. office sectional office order No. CA-I/Admn/01 dt. 02.01.2007, communicated vide this office OOC No. 496 dt. 04.01.2007, Shri Parameswar Pattanayak, AO (Coml) on his promotion has assumed charge as Sr. Audit Officer (Coml) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-

w.e.f. 05.01.2007 (F/N) in the Commercial Audit Wing of the O/o the Accountant General (CW&RA), Orissa, Bhubaneswar.

The promotion to cadre of Sr. Audit Officer (Coml) is subject to the final decision of Hon'ble High Court/Supreme Court/CAT etc. on the cases, if any, subjudice in Tribunals/Courts and without prejudice to the claims of his seniors.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
KERALA

Thiruvananthapuram, the 30th January 2007

No. Admn. V/9-86/VI.—The Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Accounts Officers of this office as Senior Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 1.1.2007 F. N.

1. Smt. Aleyukutta K. A.
2. Smt. Florence Betsy Francis
3. Smt. Sujatha K. R.
4. Shri Gopalakrishnan Nair N. (No. 3)
5. Smt. Sarada M. K.
6. Smt. Elsy V. T.
7. Smt. Suisamma Thomas
8. Shri Devassia E. M.
9. Shri Golden M. V.
10. Shri Parangodan K. C.
11. Smt. Radha M. C.
12. Smt. Claramma Abraham T.
13. Smt. Premakumari K.

M. RAJAN PANICKER  
Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. V/9-86/V.—The Accountant General (A&E) has been pleased to appoint Smt. S. Lakshmy, Assistant Accounts Officer of this office as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,500/- with effect from 1.11.2006 FN.

M. RAJAN PANICKER  
Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. V/9-86/VI.—The Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Section Officers

of this office as Assistant Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the dates noted against each officer.

1. Shri Joy Palayoor	1.1.2007 FN
2. Shri Ganesh Kumar S.	1.1.2007 FN
3. Smt. Malini C. V.	1.1.2007 FN
4. Shri Muraleedharan K. M.	1.1.2007 FN
5. Shri Sureshkumar N.	1.1.2007 FN
6. Smt. Padmini P.	1.1.2007 FN
7. Shri Jayakumar K. P.	1.1.2007 FN
8. Smt. Ajitha M. M.	1.1.2007 FN
9. Shri Krishnan T. V.	1.1.2007 FN
10. Shri Jayakumar K. K.	1.1.2007 FN
11. Shri Natarajan V.	1.1.2007 FN
12. Smt. Sheeba K. R.	1.1.2007 FN
13. Smt. Mallika C. J.	2.1.2007 FN
14. Smt. Suleihal L.	1.1.2007 FN

M. RAJAN PANICKER  
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT  
LABOUR BUREAU

Shimla-171 004, the 31st January 2007

No. 5/1/2006-N.C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 remained stationary at 127 (one hundred & twenty seven) for the month of December, 2006.

VIRENDER SINGH  
Dy. Director

MINISTRY OF TEXTILES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
FOR HANDLOOMS

New Delhi, the 23rd January 2007

No. 12025/1/2006-DCH/Estt-I.—The President is pleased to appoint Shri T. P. Ananthanarayanan as Assistant Director Grade-I (Group 'A') on promotion basis in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Hd. Qtrs.) with effect from the forenoon of 12.01.2007 until further orders.

Dr. D. S. GANGWAR  
Addl. Development Commissioner for Handlooms

No. 12025/1/2006-DCH/Estt-I.—The President is pleased to appoint Smt. Charumathi Krishnan as Assistant Director Grade-I (Group 'A') on promotion basis in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the office of the Development

Commissioner for Handlooms (Hd. Qtrs.) with effect from the forenoon of 12.01.2007 until further orders.

Dr. D. S. GANGWAR  
Addl. Development Commissioner for Handlooms

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 22nd January 2007

No. A-19018/1327/94-Admn (G).—President is pleased to permit Smt. Malabika Chowdhury, Assistant Director Grade-I (Chemical), Small Industries Service Institute, Kolkata to retire voluntarily from Government Service with effect from 01.12.2006 (FN).

SARITA PURI  
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 18th January 2007

No. A-19011/448/2006-Estt. A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri M. S. Waghmare, Senior Asstt. Control of Mines is promoted to the post of Deputy Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Regional Office, Bangalore w.e.f. 26.12.2006 (A.N.)

S. DASGUPTA  
Sr. Administrative Officer  
for Controller General

No. A-19011/445/06-Estt. A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri K. S. Yadav, Senior Asstt. Controller of Mines, is promoted to the post of Deputy Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Dehradun w.e.f. 29.12.2006 (Forenoon).

S. DASGUPTA  
Senior Administrative Officer  
for Controller General

No. A-19011/447/2006-Estt. A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri Harkesh Meena, Senior Asstt. Controller of Mines is promoted to the post of Deputy Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Regional Office, Jabalpur w.e.f. 26.12.2006 (A. N.)

S. DASGUPTA  
Senior Administrative Officer  
for Controller General

## GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 15th December 2006

## CORRIGENDUM

No. 2494/B/A-35018/CVO/2006/19C.—In partial modification of this office Notification No. 2197A to 2223A & 4132SP to 4144SP/A-35018/CVO/2006/19A dated 12.12.06, the name of officer and office appearing at line 2 and line 6 of the Notification may be read as Smt. Arti C. Srivastava instead of Smt. Arti Srivastava and Indian Ordinance Factory Services (90) instead of Indian Ordinance Factory Services (90).

The other contents of the Notification will remain unchanged.

D. T. SYIEMLEH  
Director (P & A)  
for Director General

## SURVEY OF INDIA

## SURVEYOR GENERAL'S SERVICES

Dehradun-248001, the 31st January 2007

No. C-22/718-A.—The undermentioned Office Superintendent is hereby promoted as Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Post) in Survey of India in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- on regular basis with effect from the date as shown against his name :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri H. B. Heddaoo (ST)	17.11.2006

M. GOPAL RAO  
Major General  
Surveyor General of India

No. C-29/707.—The undermentioned Group 'C' Division-I (Surveyors/Survey Assistants) are promoted as Officer Surveyor, Group 'B' Post in Survey of India on regular basis in the Scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date(s) as shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
1.	Shri U. V. Puranik	02.08.2006
2.	Shri Dinesh Singh Rana	26.07.2006
3.	Shri Sunder Lal Jadli	04.09.2006
4.	Shri P. Ravindran	27.07.2006
5.	Shri P. S. Bhandari	25.09.2006
6.	Shri D. Ramakrishna Kurup	26.07.2006
7.	Shri J. P. Nautiyal	28.07.2006 (AN)

1	2	3
8.	Shri N. P. Shahi	23.08.2006
9.	Shri Rajendra Prasad	20.09.2006
10.	Shri Gulzar Singh (SC)	27.07.2006
11.	Shri Prafulla K. Panigrahi	27.07.2006
12.	Shri Bachchi Prasad Singh	27.07.2006
13.	Shri Krishna Kant Singh	23.08.2006
14.	Shri Viraj Kumar Sharma	04.09.2006
15.	Shri Devendra Prasad Khanduri	23.08.2006
16.	Shri Ajay Kumar	23.08.2006 (AN)
17.	Shri Harish Prakash	23.08.2006
18.	Shri P. K. Uniyal	23.08.2006
19.	Shri Narayan Paital	23.08.2006
20.	Shri Ranjit Chandra Paul	21.08.2006
21.	Shri S. K. Sharma	23.08.2006
22.	Shri Viveka Nand	01.09.2006
23.	Shri Durgadas Das	21.08.2006
24.	Shri Shiv Nath Thakur	04.09.2006
25.	Shri Baishnab Behera	23.08.2006
26.	Shri R. B. Thapa	12.09.2006
27.	Shri M. M. Chopra	09.10.2006
28.	Shri N. M. Sirsika (ST)	02.08.2006
29.	Shri P. K. Prasad (ST)	31.10.2006
30.	Shri Mahendra Singh (SC)	24.08.2006
31.	Shri Ved Prakash (SC)	31.07.2006
32.	Shri Balbir Singh (ST)	27.12.2006

M. GOPAL RAO  
Major General  
Surveyor General of India

## ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-110011, the 18th January 2007

No. 17/43/2004-M.—In exercise of the powers conferred under Rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, D. R. Gehlot, Director (Monuments) hereby direct that no entry fee shall be charged at Sun Temple, Modhera from the visitors on the occasion of "Uttarardh Utsav from 20th to 22nd January, 2007.

D. R. GEHLOT  
Director (Monuments)  
for Director General

## DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 5th February 2007

No. A-38013/3/2006-Admn. I.—On attaining the age of superannuation Shri Balbir Singh Sandhu, Section Officer in the Directorate General of Health Services retired



from Government service with effect from 31.1.2007 (Afternoon).

A. K. DHINGRS  
Dy. Director Admn. (AKD)

No. A-38012/5/2006-Admn. I.—On attaining the age of superannuation Shri Hukam Chand, Director Administration in the Directorate General of Health Services retired from Government service with effect from 31.1.2007 (Afternoon).

A. K. DHINGRS  
Dy. Director Admn. (AKD)

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400 085, the 24th January 2007

No. PD/11(2)/2006-R-III/07/911.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri V. J. Reddiar, Assistant Accountant, as Asstt. Accounts Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/-, with effect from 27.11.2006 (FN) to 29.12.2006 (AN).

Smt. V. T. RAJAN  
Dy. Establishment Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 15th January 2007

No. 3/12/2006-Adm./76.—The President is pleased to appoint Smt. Uma Chandolla, Assistant Public Relations Officer (scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-), Department of Atomic Energy, Br. Sectt., N. Delhi as Public Relations Officer in the Scale of pay Rs. 8,000-275-13,500/- in the same Department with effect from the forenoon of December 27, 2006, until further orders.

P. P. MADHAVAN KUTTY  
Under Secy.

No. 6(2328)/2001-Admn./77.—The President is pleased to appoint Shri Hariharan P. Iyer, Assistant Public Relations Officer (scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-), Department of Atomic Energy, Mumbai as Public Relations Officer in the Scale of pay Rs. 8,000-275-13,500/- in the same Department with effect from the forenoon of December 27, 2006, until further orders.

P. P. MADHAVAN KUTTY  
Under Secy.

The 16th January 2007

No. 6 (2345)/2002-Adm./85.—The President is pleased to appoint Shri D. Surendran, Under Secretary (Scale of pay

of Rs. 10,000-325,15,200/-), Department of Atomic Energy as Officer-on-Special Duty in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same Department for a period of one year with effect from December 20, 2006 or until further orders whichever is earlier.

P. P. MADHAVAN KUTTY  
Under Secy.

The 5th February 2007

No. 6 (2391)/04-Admn./782.—The President is pleased to appoint Shri R. C. Joshi, IAS (MH : 73), Additional Secretary as Special Secretary in the rank and pay of Secretary, to the Government of India, Department of Atomic Energy, Mumbai with effect from the forenoon of January 2, 2007, until further orders.

P. P. MADHAVAN KUTTY  
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 6th February 2007

No. AEC-1(1) 07/335.—The President is pleased to reconstitute the Atomic Energy Commission (AEC) for the year 2007 as given below :

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Anil Kakodkar            | Chairman     |
| Secretary to the Govt. of India | (ex-officio) |
| Department of Atomic Energy     |              |
| 2. Shri Prithviraj Chavan       | Member       |
| Minister of State,              |              |
| Prime Minister's Office         |              |
| 3. Shri M. K. Narayanan         | Member       |
| National Security Advisor       |              |
| 4. Shri T. K. A. Nair           | Member       |
| Principal Secretary to the      |              |
| Prime Minister                  |              |
| 5. Shri B. K. Chaturvedi        | Member       |
| Cabinet Secretary               |              |
| 6. Shri A. K. Jha               | Member for   |
| Finance Secretary and           | Finance      |
| Secretary, Department of        |              |
| Economic Affairs                |              |
| 7. Prof. C. N. R. Rao           | Member       |
| Honorary President, Jawaharlal  |              |
| Nehru Centre for Advanced       |              |
| Scientific Research, Bangalore  |              |
| 8. Dr. M. R. Srinivasan         | Member       |
| Former Chairman, AEC            |              |
| 9. Prof. P. Rama Rao            | Member       |
| ISRO Dr. Brahm Prakash          |              |
| Distinguished Professor         |              |
| 10. Dr. S. Banerjee             | Member       |
| Director, Bhabha Atomic         |              |
| Research Centre, Mumbai         |              |

K. MURALIDHAR  
Secy. to the Atomic Energy Commission

### RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 31st January 2007

No. RRCAT/Adm/R-904/79.—The President is pleased to appoint Shri Pravin Sharma as Personal Relation Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a substantive capacity with effect from the forenoon of 2nd January, 2007 in the Raja Rammanna Centre for Advanced Technology, Indore.

D. S. RAO  
Chief Administrative Officer

### HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 25th January 2007

No. HWB/R/1(53)/2007/134.—The President is pleased to appoint Shri Sandip Mohan Waghmare to officiate as 'Scientific Officer/C (Instrumentation)' in a temporary capacity in Heavy Water Board (Central Office), Mumbai in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from January 10, 2007 (FN) until further orders.

N. J. SIMON  
Administrative Officer

### INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603 102, the 24th January 2007

No. IGCA/A-1013/2006-R/151.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalapakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 8,000/- in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the date indicated against each in a temporary capacity until further orders :—

Sl. No.	IC No./ Divn.	Name	Date of Appointment
1.	6577/ FRFCF	Shri Solomon Nesakumar S.	05.12.2006 (FN)
2.	6578/ FRFCF	Shri Uthravarman M.	05.12.2006 (FN)
3.	6579/ FRFCF	Shri Venkateshwara John Hunter D.	05.12.2006 (FN)
4.	6582/ FRTG	Kum. Revathy K.	15.12.2006 (FN)
5.	65783/ FRFCF	Shri Ashok S.	22.12.2006 (FN)

V. DAYALAN  
Chief Administrative Officer

### OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 25th January 2007

No. A-32013/2/2006-E.II.—The President is pleased to extend the period of ad hoc appointment of Shri A. K.

Sharan, Deputy Director General in the pay scale of Rs. - 16,400-450-20,000/- on ad hoc basis for a further period of 6 months, with effect from the forenoon of 25th January, 2007 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

SUSHIL T. WILLIAMS  
Dy. Director of Administration

The 29th January 2007

No. A. 38012/7/2006-E. II.—On attaining the age of superannuation, Shri P. K. Chattopadhyay, Joint Director General in this office, stands retired from Government service with effect from 31.1.2007 (AN).

SUSHIL T. WILLIAMS  
Dy. Director of Administration

### CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT DIRECTORATE GENERAL OF WORKS

New Delhi-110011, the 31st January 2007

No. 27/89/91-CA(NR)/Estt./115-21.—Smt. Inder Kaur Kochhar, Assistant (AD) of this office retires from Government service on attaining the age of superannuation on 31.01.2007 (AN).

S. M. MATHUR  
Architect/LO to CA (NR)

### MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Imperial Pigments Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/05/30437/8231.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Imperial Pigments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trishul Impex India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th December 2005

No. SES-2003/560(5)/55/10652/8912.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Trishul Impex India Private Limited has this day been struck off from the

Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Keso Engineering Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES-2003/560(5)/05/32443/8996.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Keso Engineering Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sundaram Leasfin Cap Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/69392/13255.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sundaram Leasfin Cap Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Diy Solutions Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/105444/17276.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Diy Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Three Aces Services Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/92410/17278.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Three Aces Services Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Exquisite Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/30620/19484.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Exquisite Builders Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arohan Vinyles Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/65268/21734.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arohan Vinyles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

New Delhi-110 019, the 31st January 2007

No. ROC/Delhi & Haryana/560/SES-2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that under Simplified Exist Scheme of 2005, the names of the undermentioned Companies from Serial Number 1 to 3005 have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies, Delhi and Haryana and are dissolved :—

LIST OF SES 2005			
NSNO	CIN		CMPNY_NAME
1	U51909DL	1949PTC001578	P D GUPTA(1939)PVT LTD
2	U99999DL	1949PTC001618	BETTER THEATERS PVT LTD
3	U45201DL	1950PTC001865	MAHAVIR CONSTRUCTION CO PVT LTD
4	U45201DL	1952PTC002138	MALSH ENTERPRISES PVT. LTD.
5	U99999DL	1956PTC002613	DELHI STEEL CORPN LTD
6	U99999DL	1956PTC002641	S MOHAN SINGH ARORA AND CO PVT LTD
7	U99999DL	1956PTC002685	SHAHJI AND SONS PVT LTD
8	U24231DL	1957PLC002786	DR JAI SINGH SON AND CO LTD
9	U51109DL	1957PTC002807	SHARCO INDUSTRIES PVT LTD
10	U74140DL	1960PTC003315	KINSMEN PVT LTD
11	U22121DL	1964PTC004142	PURVODAYA PVT. LTD.
12	U35923DL	1964PTC004303	SAHNI MALVIA AUTOMOBILE INDUSTRIES PVT LTD
13	U51909DL	1909PTC004341	INDISCHEN CHEMICALS MANUFACTURING CO.PVT.LTD.
14	U74899DL	1965PTC004404	HEMKUNT FINANCIERS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
15	U99999DL	1968PTC004824	DPG SALES LTD
16	U99999DL	1969PTC005034	DIAMOND COATED PAPERS LTD
17	UXXXXDL	1969PTC005044	NEW FRIEND AND CO PVT LTD
18	U74899DL	1969PTC005098	CHANAKYA SERVICE STATION PRIVATE LIMITED
19	U22219DL	1970PTC005206	TRADE PUBLICATIONS PVT LTD
20	U74140DL	1970PTC005380	EXPORT MARKETING AND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
21	U29260DL	1901PLC005729	SANSAR MACHINES LTD.
22	U24119DL	1971PTC005757	DDON SYNTHETICS AND CHEMICALS PVT LTD
23	U34300DL	1971PTC005789	PERMA BOND PVT LTD
24	U55101DL	1971PTC005820	APSARA HOTELS PVT LTD
25	U26956DL	1971PTC005835	CONSTRUCTION MATERIALS PVT LTD
26	U74999DL	1971PTC005864	IDCO DYES AND CHEMICALS PVT LTD
27	U31300DL	1971PTC005880	JYOTI CABLE AND CONDUCTORS PVT.LTD.
28	U24221DL	1971PTC005922	HARYANA POTTERIES LTD
29	U74899DL	1971PTC005923	NEEL TEXTILE AGENCY PVT LTD
30	U99999DL	1972PTC005998	KAVISA EXPORTS PVT LTD
31	U24299DL	1972PTC006006	HARYANA LABORATORIES PVT LTD
32	U31300DL	1972PLC006171	ANGAD CONDUCTORS PVT LTD
33	U99999DL	1972PTC006214	TIGER LOCKS LTD
34	U65993DL	1972PLC006223	VENKETSA INVESTMENTS LTD
35	U22212DL	1972PTC006231	PRESS ASIA INTERNATIONAL PVT LTD
36	U74899DL	1972PTC006256	KIRAN EXPORTS PVT LTD
37	U74899DL	1972PTC006259	OMEGA SWITCH GEARS PVT LTD
38	U74899DL	1972PTC006393	OM PRAKASH AND ASSOCIATES PVT LTD
39	U51420DL	1972PTC006412	FERRO STEEL PVT LTD
40	U70109DL	1973PTC006531	HITKARI INVESTMENT PVT.LTD.
41	U27107DL	1973PTC006690	SHIDDHARTHA STEEL PVT LTD
42	U34300DL	1973PTC006748	RAWEL INDUSTRIES PVT LTD
43	U63090DL	1973PTC006790	DOLLY TRANSPORTER AND CONTRACTORS PVT.LTD.

44	U51909DL1973PTC006802	GENERAL REFRACTDRIES INDIA PVT LTD
45	U29197DL1973PTC006808	HARYANA FILTER MANUFACTURERS PVT LTD
46	U21012DL1973PLC006853	RAJKAMAL PAPER MILLS LIMITED
47	U74140DL1973PTC006945	INDUSTRIAL AND CDMMERICAL INFDRMATIDN (DVERSEAS) PVT LTD
48	U74899DL1973PTC006978	HYPDIDS(INDIA) PVT LTD
49	U18101HR1973PTC006999	SETH SURAJMAL CDTTDN GINNING MILLS PVT LTD
50	U74899DL1974PTC007100	AMARPALI SAJAWAT PVT LTD
51	U74140DL1974PTC007106	INTER SEAS MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
52	U99999DL1974PTC007128	MEENA INVESTMENTS LTD
53	L74899DL1974PLC007159	DUNCAN GILBERG AND MATHESDN INDIA LTD
54	U65992DL1974PTC007204	PRESTIGE FINANCE AND CHIT FUND CD PVT LTD
55	U27101DL1974PTC007329	SUPER ALLDYS (INDIA) PVT LTD
56	U18101DL1974PTC007331	SDNU GARMENTS PVT LTD
57	U65993DL1974PLC007366	VEER INVESTMENT LIMITED
58	U99999DL1974PTC007390	RAJGARHIA CDNSULTANTS PVT LTD
59	U17299DL1974PLC007413	SHARMA CLDTHIERS PVT LTD
60	U74899DL1975PTC007587	MANASMANU INTERNATIDNAL PRIVATE LIMITED
61	U51909DL1975PTC007632	GENERAL DVERSEAS MARKETING PVT LTD
62	U74899DL1975PTC007666	SHASHANK CDNFECTIONERS PRIVATE LIMITED
63	U99999DL1975PTC007713	NDTRH INDIA MARKETING CD PVT LTD
64	U24299DL1975PTC007991	AJAY DYE CHEM INDUSTRIES PVT LTD
65	U99999DL1975PTC008020	A S RIHAL AND CD PVT LTD
66	U01409DL1976PTC008178	BISWIN SADI PUBLICATIDNS PVT LTD
67	U24222DL1976PTC008188	SUGAN CHAND MURARILAL PVT LTD
68	U34300DL1976PTC008208	MEKASTER TDDLS MANUFACTURING PVT LTD
69	U74899DL1976PTC008217	DEE EXPDRTS AND FRIGHT PRIVATE LIMITEAD
70	U74899DL1976PTC008266	DELHI RDCKWDDL CO PVT LTD
71	U25199DL1976PLC008396	CHAUDRI ASSDCIATES (P) LTD
72	U24119DL1976PTC008449	SDNA FINECHEM PVT LTD
73	U51909DL1977PTC008506	LINKERS INTERNATIDNAL EXPDRTS PVT LTD
74	U24239DL1977PTC008761	LIBRD PHARMACEU TICALS PVT LTD
75	U24222DL1977PTC008765	WILSDN CHEMICALS AND PAINTS(DELHI) PVT LTD
76	U99999DL1977PTC008771	KHANNA ASSDCIATES PVT LTD
77	U34140DL1978PLC008846	BLUE CHRDME LIMITED
78	U74999DL1978PTC008849	SARIKA MDVIES PVT LTD
79	U74899DL1978PTC008882	INTERLINES CDNSTRUCTION PVT LTD
80	U18101DL1978PTC008960	G S I EXPORTS UNTERNEHMUNGEN (INDIA) PVT. LTD.
81	U99999DL1978PTC008979	VISHAL EXPDRTSANDMARKETING PVT LTD
82	U74899DL1978PTC009013	EASTERN EXPDRT SERVICE (INDIA) RIVATE LIMITED
83	U24222DL1978PTC009022	DEKORA PIGMENTS AND PAINTS PVT LTD
84	U24299DL1978PTC009111	BRITE DYES AND CHEMICALS PVT LTD
85	U61100DL1978PTC009152	GDLDEN HIND SHIPPING INDIA PVT LTD
86	U51109DL1978PTC009226	SUPER INTERNATIDNAL PVT LTD
87	U99999DL1978PTC009253	UNIVERSAL LINKERS AND BRAKES PVT LTD
88	U74899DL1983PTC009291	BAJAJ TAPE MANUFACTURING CDMPANY PVT LTD

89	U74300DL1978	PTC009360	GUPTA PACKAGING PVT LTD
90	U74899DL1978	PTC009371	LIMSUN DRINKS PRIVATE LIMITED
91	U51909HR1979	PTC009456	AMBAL AUTO SALES PVT LTD
92	U15137DL1979	PTC009462	HIMACHAL PRESERVED FOODS PVT.LTD.
93	U99999DL1979	PTC009464	HAPURIA PAPER MILLS PVT LTD
94	U74899DL1979	PTC009490	ASHOK ZIP FASTENERS PVT LTD
95	U51909DL1979	PTC009519	VENUS MOTORS PVT LTD
96	U67120DL1979	PTC009528	SHREE MANGLAM FINANCE PRIVATE LIMITED
97	U14101HR1979	PTC009565	ADARSH AGRO ENGINEERS PVT LTD
98	U99999DL1979	PTC009577	RAJEEV PRINTERS PVT LTD
99	U99999DL1979	PTC009662	ANAND ASSOCIATES PVT LTD
100	U21012DL1979	PTC009686	BAJAJ PAPER MILLS PVT LTD
101	U51311DL1979	PTC009710	RABCO EXPORTS(INDIA) PVT LTD
102	U99999DL1979	PTC009712	DIAMOND LITHOGRAPHERS PVT LTD
103	U74992DL1979	PTC009803	PUNJAB RE-ROLLING PVT LTD
104	U99999DL1979	PTC009847	RAJ CYLINDERS AND CONTAINERS PVT LTD
105	U74999DL1979	PTC009860	BALJIT KRISHAN PVT LTD
106	U25199DL1979	PTC009883	MODERN TYRE MOULDS (INDIA) PVT LTD
107	U67120DL1979	PTC009884	DEEPAK HOLDINGS PVT LTD
108	U24239DL1979	PTC010025	NECTARINE PHARMACY PVT LTD
109	U31909DL1979	PLC010050	.1.3EX ELECTRICALS LTD
110	U51909DL1979	PTC010093	INTERCONTINENTAL MARKETING COMPANY PVT LTD
111	U51109DL1980	PTC010105	T S G CONSULTANTS PVT LTD
112	U74699DL1980	PTC010132	B M KHANNA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
113	U15321DL1980	PTC010235	SOLBLEACH(INDIA) PVT LTD
114	U74899DL1980	PTC010326	GALAXY MARITRONICS PVT LTD
115	U65992DL1980	PTC010360	GAWRI FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD
116	U28939DL1980	PLC010404	UNIVERSAL RHEIN NADEL LTD
117	U74899DL1980	PTC010405	ARUN PRECISION PRODUCTS PRIVATE LIMITED
118	U25119DL1980	PTC010408	CALCUTTA RUBBER FACTORY PVT LTD
119	U15419DL1980	PTC010554	SAMER FOODS PVT LTD
120	U65992DL1980	PTC010588	STUTEE CHIT AND FINANCE PVT LTD
121	U22219DL1980	PTC010637	INNOVATION INDIA PVT LTD
122	U92330DL1980	PTC010665	BANDHAVGARH WILD LIFE CAMP AND SAFARI PVT LTD
123	U99999DL1980	PTC010696	A V ELECTRONIC SYSTEMS PVT LTD
124	U65992DL1980	PTC010703	SHREE RAM CHIT AND FINANCE CO PVT LTD
125	U99999DL1980	PTC010740	SOMANI PLASTIC INDUSTRIES LTD
126	U24232DL1980	PTC010742	ARORA PHARMA INDIA PVT LTD
127	U65992DL1980	PTC010852	ASHU CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD
128	U24248DL1980	PTC010961	WOXPORT INDIA PVT LTD
129	U29191DL1980	PTC010985	RACI INDIA PVT LTD
130	U92113DL1980	PTC010991	GRAPEVINE MEDIA PVT LTD
131	U67120DL1980	PTC011084	SAKOO FINANCIERS PVT LTD
132	U74899DL1980	PTC011109	ANGAD TRADING AND ARJUN SHIPPING CO PVT LTD
133	U99999DL1981	PTC011248	BHAWANI FINANCE CO PVT LTD

134	U74899DL1981PTC011275	ANJNA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
135	U74899DL1981PTC011402	QUEEN CHIT FUND PVT LTD
138	U19129DL1981PTC011411	JAYAPARULS PVT LTD
137	U99999DL1981PTC011507	AGGARWAL OIL TRADERS PVT LTD
138	U99999DL1981PTC011538	KULMER PAPERS LTD
139	U74899DL1981PTC011584	VINLAB ENGINEERS PVT LTD
140	U99999DL1981PTC011629	PALIKA CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD
141	U74210DL1981PTC011658	SACHDEV SON ENTERPRISES PVT LTD
142	U74899DL1981PTC011682	INTEGRATED DEVICES PRIVATE LIMITED
143	U74899DL1981PTC011689	KAYCEE BUSINESS MACHINES PRIVATE LIMITED
144	U99999DL1981PTC011814	PVC MACHINES PVT LTD
145	U25209DL1981PTC011848	DUA POLYMERS PVT LTD
146	U99999DL1981PTC012103	PANTH CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD
147	U74899DL1981PTC012240	JETHANI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
148	U19129DL1981PTC012263	STAR LEATHERWARE PVT LTD
149	U65902DL1981PTC012343	RUBY CHIT FUND AND FINANCE PVT. LTD.
150	U99999DL1981PTC012344	MALMEC PAPER BOARDS PVT LTD
151	U27204DL1981PTC012352	NARBADA INPEX PVT. LTD.
152	U99999DL1981PTC012396	N K M INDUSTRIALS FABRICS PVT LTD
153	U99999DL1981PTC012403	ALLIED CONSTRUCTIONS PVT LTD
154	U39109HR1981PTC012509	MARI GOLD ENGINEERS PVT LTD
155	U99999DL1981PTC012795	A B C METAL INDUSTRIES PVT LTD
156	U31909DL1981PTC012880	KAYPEE CONTRACT SYSTEMS PVT LTD
157	U26941DL1981PTC012902	LORD KRISHNA CEMENT INDUSTRIES PVT LTD
158	U65992DL1982PTC012944	SHREE AGGARSON CHIT AND FINANCE CO PVT LTD
159	U26103DL1982PTC012993	SWADESHI BOTTLING CO PVT LTD
160	U74899DL1982PTC013008	MULTI BUILDERS AND CONSTRUCTION CO PVT LTD
161	U99999DL1982PTC013022	MADHU CHAWLA PVT LTD
162	U74899DL1982PTC013092	NARAIN INTERNATIONAL PVT LTD
163	U74899DL1982PTC013103	CITY TRADING AND LEASING CO PVT LTD
164	U45203DL1982PTC013294	RUCHI ESTATE AND BUILDERS PVT LTD
165	U74899DL1982PTC013304	KOYO FINANCE AND CHIT FUND PRIVATE LIMITED
166	U70101DL1982PTC013416	BEDI CHAHAL CONSTRUCTIONS PVT LTD
167	U74140DL1982PTC013417	MASHAL SALES PVT LTD
168	U74899DL1982PTC013442	OVERSEAS ELECTRICAL PROJECTS PRIVATE LIMITED
169	U99999DL1982PTC013617	PRAKASH ENGINEERING PVT LTD
170	U25110DL1982PTC013633	MODERN VULCAN AND ALLIED EQUIPMENT (INDIA) PVT LTD
171	U21099DL1982PLC013670	MUKUL ENTERPRISES PVT LTD
172	U74899DL1982PTC013697	PRAKASH PRESSING PRIVATE LIMITED
173	U92111DL1982PTC013822	THIRD DIMENSION PVT LTD
174	U65992DL1982PTC013846	NAMRETA CHITFUND PVT LTD
175	U99999DL1982PTC013876	SURGE METAL PVT LTD
176	U74899DL1982PLC013934	SRF OFFICERS WELFARE FOUNDATION LTD
177	U99999DL1982PTC013949	MODERN TUBE AND FLAP MANUFACTURING CO PVT LTD
178	U27109DL1982PTC013955	MANOJ STEELS PVT LTD

179	U29129DL	982PTC013960	VAS ENGINEERS PVT.LTD.
180	U29302DL	982PTC014002	SHAKTI CHIRAG PVT LTD
181	U65992DL	982PTC014010	AVIL CHITS PVT LTD
182	U74899DL	982PTC014037	POONAM PRODUCT PROMOTION AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIM
183	U99999DL	982PTC014108	PARAS RUB CHEM PVT LTD
184	U74899DL	982PTC014154	ONKAR ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
185	U55101DL	982PTC014170	COMFORT GROUP OF HOTELS PVT LTD
186	U74999DL	982PLC014284	PANKAJ PAROOL LTD
187	U51496DL	982PTC014349	NARAIN CHEM DISTRIBUTORS (INDIA)PVT LTD
188	U74899DL	982PTC014385	DELHI STRONG PACK PRIVATE LIMITED
189	U51102DL	982PTC014443	G K ORIENTAL CRAFTS PVT LTD
190	U99999DL	982PTC014457	PROPKARI CHIT FUND CO. PVT LTD
191	U99999DL	982PTC014465	RUMBLE RAVELS PVT LTD
192	U51392DL	982PTC014467	SOPHISTICATED SURGICALS PVT LTD
193	U24231DL	982PTC014489	PROGRESSIVE PHARMACEUTICALS PVT LTD
194	U74899DL	982PTC014582	PARAS FIBRES PRIVATE LIMITED
195	U74899DL	982PTC014739	WINGS TRAVEL AND TOURS PRIVATE LIMITED
196	U34106DL	982PTC014752	A.G. AUTO MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS PVT LTD
197	U51909DL	982PTC014843	S AND G PRODUCTS PVT LTD
198	U51311DL	982PTC014907	SAIBA EXPORTS PVT. LTD.
199	U99999DL	982PTC014916	JAWAD INVESTMENT PVT LTD
200	U99999DL	983PTC014955	AKHIL AGENTS AND TRADERS LTD
201	U99999DL	983PTC015034	KHULLAR AND ASSOCIATES PVT LTD
202	U99999DL	983PTC015090	INTELLEC TECH PVT LTD
203	U99999DL	983PTC015094	SUMAN LEATHERCRAFT PVT LTD
204	U74140DL	983PTC015119	MANSHINGHAL ASSOCIATES PVT LTD
205	U99999DL	983PTC015124	APEX FLEXIBLES PVT LTD
206	U99999DL	983PTC015126	PRAGATI ADVANCED HEATING SYSTEMS PVT LTD
207	U85992DL	983PTC015214	DHAANAY FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD
208	U74899DL	983PTC015231	SINGH SPRINGS PRIVATE LIMITED
209	U74899DL	983PTC015283	SUPER HOLDING PRIVATE LIMITED
210	U74300DL	983PTC015325	SHIKHA ADVERTISING PVT LTD
211	U65992DL	983PTC015345	EKADASH CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD
212	U74899DL	983PTC015399	CONTINENTAL GENERATORS PRIVATE LIMITED
213	U99999DL	983PTC015440	CHUGH CHIT FUND PVT LTD
214	U31200DL	983PTC015465	ARUN FANS PVT LTD
215	U65992DL	983PTC015467	APEX CHITS PVT LTD
216	U33111DL	983PTC015483	MODERN MEDICALCARE PVT. TD.
217	U55101DL	983PTC015556	SUPERIOR HOTEL AND PROPERTIES PVT LTD.
218	U65992DL	983PTC015611	VISHAL CHIT FUND PVT LTD
219	U99999DL	983PTC015630	HARYANA LAMANITIES PVT LTD
220	U31909DL	983PTC015675	ECO ENGINEERS PVT LTD
221	U65992DL	983PTC015701	SUITABLE FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD
222	U99999DL	983PTC015730	LION BUILDERS PVT LTD
223	U99999DL	983PTC015737	AJAY PROCESSORS PVT LTD



224	U99999DL1983PTC015745	PARVAR ENGINEERING PVT LTD
225	U32109DL1983PTC015749	ARTITRON INDIA PVT LTD
226	U74992DL1983PTC015811	KRISHNA PACKAGING INDUSTRIES PVT LTD
227	U24299DL1983PTC015829	MURTHAL CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
228	U65993DL1983PLC015850	WELKIND INVESTMENT AND LEASING COMPANY LTD.
229	U51109DL1983PTC015970	KONARK SALES PVT LTD
230	U99999DL1983PTC016063	DAYAL METAL PRODUCTS PVT LTD
231	U74899DL2004PTC016082	CARGO MOTORS CRAJASTHAN PVT LTD
232	U99999DL1983PTC016137	SHRUTI LEASING CO LTD
233	U19129DL1983PTC016292	TANU LEATHERS PVT LTD
234	U74899DL1983PTC016314	SUMPA FINANCIAL RESEARCH PVT LTD
235	U99999DL1983PTC016333	MANSAROVER CHIT FUND PVT LTD
236	U74340DL1983PTC016362	METROPOLITAN PHOTOTYPE SETTERS AND PRINTERS PVT LTD
237	U99999DL1983PTC016383	DIMPLE INDUSTRIAL CORPN.PVT LTD
238	U29299DL1983PLC016386	ANUBHAV ENGINEERS PVT LTD
239	U99999DL1983PTC016390	COMBINE INVESTMENTS PVT LTD
240	U65992DL1983PLC016473	VOGUE CHITS AND FINANCE PVT LTD
241	U99999DL1983PTC016493	DEAR CHIT AND FINANCE PVT LTD
242	U99999DL1983PTC016725	COMPUTEEL FINANCE PVT LTD
243	U99999DL1983PTC016758	PARIKH AND RELAN AUTO PVT LTD
244	U34300DL1983PTC016798	V. AUTOWELD PVT LTD
245	U99999DL1983PTC016877	ANSUN TRADE ENTERPRISES PVT LTD
246	U74899DL1983PTC016933	VIPRAR CONTINENTAL PRIVATE LIMITED
247	U74899DL1983PTC016949	WELDON CHITS PRIVATE LIMITED
248	U26105DL1983PTC016973	JATIN ABHIJEET AND ASSOCIATES PVT LTD
249	U65992DL1983PTC017073	JULIET CHIT FUND PVT LTD
250	U74910DL1983PTC017112	MBA RESOURCES MANAGEMENT PVT LTD
251	U92111DL1983PTC017148	UNITED ARTISTS PVT LTD
252	U99999DL1983PTC017156	ECONTERM SYSTEMS PVT LTD
253	U18101DL1983PTC017184	KANTA IMPEX PVT LTD
254	U67120DL1983PTC017233	ATITHI FINANCE PVT.LTD.
255	U99999DL1984PTC017325	MULTITECH CONSULTANTS PVT LTD
256	U99999DL1984PTC017326	TECHNOCRAT CONSSULTANTS PVT LTD
257	U51909DL1984PTC017439	YASH PAUL GUPTA TRADERS PVT.LTD.
258	U65993DL1984PLC017575	RAJGARHIA LEASING AND FINANCE COMPANY LTD
259	U99999DL1984PTC017592	CHIBBER CHEMICALS PVT LTD
260	U65992DL1984PTC017622	KATARIA FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD
261	U51909DL1984PTC017641	PALCOS IMPEX PVT LTD
262	U74940DL1984PTC017747	RAINBOW COLOUR PHOTOS PVT LTD
263	U99999DL1984PTC017748	P K COMMUNICATION PVT LTD
264	U65992DL1984PTC017749	BHAGIRATH PLACE CHITS PVT LTD
265	U51909DL1984PTC017775	VIRGO TRADING CO PVT LTD
266	U99999DL1984PTC017829	ALANKAR TRADING CO PVT LTD
267	U99999DL1984PTC018076	HITAISHI ELECTRONICS PVT.LTD.
268	U18101DL1984PTC018110	AN BEE (MARKETING) PVT.LTD.

269	U99999	DL1984PTC018122	PROGRESSIVE MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
270	U65921	DL1984PTC018239	ASTEROIDS CONSTRUCTION PVT.LTD.
271	U99999	DL1984PTC018289	OM MARBLES LTD
272	U65992	DL1984PTC018324	PACIFIC CHITS PVT LTD
273	U65910	DL1984PTC018378	QMSHIVA LEASING AND FINANCE PVT LTD
274	U63090	DL1984PTC018413	MANDAVI CLEARING AGENTS PVT LTD
275	U99999	DL1984PTC018549	YORK APPARELS PVT LTD
276	U65992	DL1984PTC018575	SAV NAGAR CHIT FUND PVT LTD
277	U65923	DL1984PTC018642	ARDRA INVESTMENT CO PVT LTD
278	U74899	DL1984PTC018663	SANJAY HARDWARE MILL STORES PRIVATE LIMITED
279	U74899	DL1984PTC018665	OM SHANTI CHIT FUND COMPANY PRIVATE LIMITED
280	U99999	DL1984PTC018708	SPANGLE VINIYOG LTD
281	U65929	DL1984PTC018709	GAGANDEEP TRADING AND FINANCE COMPANY PVT.LTD.
282	U22219	DL1984PTC018755	MULTICOM ASSOCIATES PVT LTD
283	U99999	DL1984PTC018791	S.MOHAN CHIT FUND CO PVT LTD
284	U51909	DL1984PLC018849	PEAK EXPORTS LTD
285	U99999	DL1984PTC018898	GULMARG ELECTRONICS AND ELECTRICALS LIMITED
286	U29299	DL1984PTC018935	GHAZIABAD SILICATES PVT.LTD.
287	U21099	DL1984PTC018965	GEMS CARTONS AND PACKAGING PRODUCTS PVT.LTD.
288	U74899	DL1984PTC018969	O P M S ENGINEERS PRIVATE LIMITED
289	U99999	DL1984PTC018975	CHOKSONS CHIT FUND PVT.LTD.
290	U99999	DL1984PTC019047	INDO HOME PRODUCTS PVT LTD
291	U33119	DL1984PTC019061	TECHNOMED SYSTEMS PVT LTD
292	U70101	DL1984PTC019079	KOTHARI CINE ARTS PVT LTD
293	U74899	DL1984PTC019108	RAMPUR METAL DIE CAST PRIVATE LIMITED
294	U99999	DL1984PTC019125	RACHMANN KOSHATKINN PVT LTD
295	U99999	DL1984PTC019126	PAXMA COMPONENTS PVT LTD
296	U72200	DL1901PTC019132	CARAVAN BUSINESS MACHINES PVT. LTD.
297	U74899	DL1984PTC019210	ATITHI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
298	U74899	HR1984PTC019245	AJANTA PRINTING MACHINES PRIVATE LIMITED
299	U99999	DL1984PTC019377	GAURI SHANKAR CHIT FUND CO PVT LTD
300	U99999	DL1901PTC019395	INDIAN ENGINEERING AND COMMERCIAL CORPN. PVT LTD
301	U99999	DL1984PTC019529	AAREM SYSTEMS PVT LTD
302	U31909	DL1984PTC019537	SPECTRON ELECTRONICS PVT LTD
303	U74899	DL1984PTC019560	ANDHRA BENGAL ROADLINES PRIVATE LIMITED
304	U99999	DL1901PTC019737	SPEX SMELTING AND REFINING CO. PVT. LTD.
305	U74899	DL1985PTC019790	PICKSONIC ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
306	U99999	DL1985PTC019820	RUHI CHEMICALS INDUSTRIES PVT LTD
307	U99999	DL1985PTC019856	POLYCHEM RUBBAR PVT LTD
308	U99999	DL1985PTC019867	TARUN ENGINEERS PVT LTD
309	U32106	DL1985PTC019891	K.C.S. ELECTRONICS PVT. LTD.
310	U99999	DL1985PTC019900	LUCKNOW PAPER AND ALLIED CO.PVT.LTD.
311	U70101	DL1985PTC019950	ADLAKHA ESTATES PVT LTD
312	U65999	DL1985PTC019956	VED KAPUR FINANCE PVT LTD
313	U24131	DL1985PTC020038	OCEAN PLYWOOD INDUSTRIES PVT LTD

314	U52110DL1985PLC020048	ASIAN OVERSEAS AND SECURITIES LIMITED
315	U31101DL1985PLC020098	ERGODYNE ELECTRICALS LTD
316	U65992DL1985PTC020170	YOUR CHIT FUND PVT.LTD.
317	U74899DL1985PTC020171	K.P.KAPUR INVESTMENTS PVT LTD
318	U74899DL1985PTC020307	GEM TOOL ROOM PVT LTD
319	U74899DL1985PTC020321	NU LOOK CHITS PVT LTD
320	U29299DL1985PTC020334	ERODE GAGE INDIA PVT.LTD.
321	U99999DL1985PTC020380	LAKHOTIA INVESTMENT AND CONSULTANTS LTD
322	U27109DL1985PLC020382	KASHIPURA STEELS LIMITED
323	U99999DL1985PTC020516	PRAG MOTOR AND GENERAL FINANCE PVT LTD
324	U21012DL1985PTC020536	MACOBA TRADING CO.PVT LTD
325	U34300HR1985PLC020590	K.N.K.COMPONENTS PVT LTD
326	U99999DL1987PTC020590	KNK COORPONENTS PVT LTD
327	U30009DL1985PTC020608	MODULAS MANAGEMENT SYSTEM PVT LTD
328	U65992DL1985PTC020633	ISSAR TAKKAR CHIT FUND PVT LTD
329	U74899DL1985PTC020708	SUDHA PACKAGING PVT LTD
330	U85110DL1985PTC020798	SAMA NURSING HOME PVT LTD
331	U99999DL1985PTC020808	AGARWAL DISTRIBUTING CO.LIMITED
332	U99999DL1985PTC020880	TOPAN RESOURCES PVT LTD
333	U51909DL1985PTC020883	ROMA TECH PVT LTD
334	U74899DL1985PTC020904	SHUBHAM PACKSTRAP (INDIA) PVT LTD
335	U29199DL1985PTC020915	IMPTECH MACHINES PVT LTD
336	U99999DL1985PTC020924	HOME GADGETS PVT LTD
337	U74899DL1985PTC021115	BERRY CHIT FUND PRIVATE LIMITED
338	U18101DL1985PTC021162	KUMAR APPAREL ACCESSORIES CO. PVT LTD
339	U65992DL1985PTC021247	GANDHARWA CHITS PVT LTD
340	U51101DL1985PTC021250	LORD GARMENTS PVT LTD
341	U99999DL1985PTC021347	NORTHLAND INDUSTRIES LIMITED
342	U99999DL1985PTC021351	INDO JAPAN MEDICAL INSTRUMENTS LTD
343	U74899DL1985PTC021368	PARAM SHUBHAM CHIT-FUND PRIVATE LIMITED
344	U51311DL1985PTC021458	MID LINKS INDIA PVT LTD
345	U29120DL1985PTC021473	KAY CEE PUMPS AND MACHINES PVT LTD
346	U26922HR1985PTC021494	ANURAG TUBES PRIVATE LIMITED
347	U74899DL1983PTC021497	PRANAV ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
348	U99999DL1985PTC021510	DEEPSHIKHA CHIT FUND PVT LTD
349	U74899DL1985PTC021588	SATYA DEEP WELDMESH PRIVATE LIMITED
350	U74210DL1985PTC021589	A.I.COMMUNICATIONS PVT.LTD.
351	U24203DL1985PTC021617	MULTANI AYURVEDIC PHARMACY PVT LTD
352	U29212DL1985PTC021746	ACCURATE METAL AND ENGINEERING COMPANY PVT LTD
353	U99999DL1985PTC021789	K.K. CEMENT PVT LTD
354	U74899DL1985PTC021825	HITRONIX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
355	U34101DL1985PLC021981	ERGODYNE AUTOMOTIVE COMPONENTSLTD
356	U99999DL1985PTC022003	MATCHLESS ENGINEERS LTD
357	U21014DL1985PTC022021	CHITRA PLASTIC INDUSTRIES PVT.LTD.
358	U99999DL1985PTC022040	TYAGI SECURITY SERVICES PVT LTD

359	U17115DL	1985PTC022125	BALAJI POLYFAB PVT LTD
360	U99999DL	1985PTC022249	SUMIT BUILDERS PVT LTD
361	U99999DL	1985PTC022250	ATLANTIC ASSOCIATES PVT LTD
362	U99999DL	1985PTC022283	AMPHI CHITS PVT LTD
363	U65910DL	1985PTC022324	VARSHA LEASING PVT LTD
364	U65993DL	1985PTC022337	MEKASTER INVESTMENTS PVT LTD
365	U31909DL	1985PTC022558	GARDNER DENVER INDIA PVT LTD
366	U74899DL	1986PTC022588	WATCORPS COATINGS PRIVATE LIMITED
367	U55101DL	1985PTC022675	KAMAL LOCHAN HOTELS PVT LTD
368	U24239DL	1985PTC022735	MITEES HI-TECH (INDIA) PRIVATE LTD
369	U74899DL	1985PTC022740	COSMOS TANNERIES PVT LTD
370	U65999DL	1985PTC022776	SURYA GROWTH FUND PRIVATE LTD
371	U74899DL	1985PTC022889	PETER (S) MATCHES PVT LTD
372	U99999DL	1985PTC022896	GIRRAJ ELECTRONICS PVT LTD
373	U32100DL	1986PTC022995	ASTIR COMMUNICATION AND SECURITY SYSTEM PVT LTD
374	U99999DL	1986PTC023025	AMRIT PAL AND SAGGU ASSOCIATES PVT LTD
375	U99999DL	1986PTC023136	GIRRAJ ELECTRICALS PVT LTD
376	U74899DL	1986PTC023158	RAJSHI POLYMARB ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
377	U99999DL	1986PTC023167	SHIVALIK ERCETORS PVT LTD
378	U74899DL	1986PTC023189	MEHRA HOLDINGS PVT LTD
379	U45202DL	1986PLC023219	MADAAN CONSTRUCTION AND FINANCE LTD
380	U29150DL	1986PTC023266	DELTA EQUIPMENT PVT LTD
381	U99999DL	1986PTC023335	H.S. FINANCIAL CONSULTANTS PVT LTD
382	U65929DL	1986PTC023423	CENTURY 21ST FINANCIAL SERVICES PVT LTD
383	U45202DL	1986PTC023427	AMBUJA BUILDERS PVT LTD
384	U99999DL	1986PTC023441	KHANNA ESTATES PVT LTD
385	U99999DL	1986PTC023484	SVS HOLDINGS PVT LTD
386	U99999DL	1986PTC023525	DELTA PROMOTERS AND BUILDERS PVT LTD
387	U99999DL	1986PTC023582	CHAVICHAYA CHITS PVT LTD
388	U45203DL	1986PTC023606	SHIV SHAKTI CONSTRUCTIONS PVT LTD
389	U74210DL	1986PTC023614	SAFINA CONSULTANTS PVT LTD
390	U65992DL	1986PTC023658	ANDALUS CHIT FUND PVT LTD
391	U74899DL	1986PTC023665	S S ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
392	U34101DL	1986PLC023737	KAFILA AUTO UDYOG LIMITED
393	U30007DL	1986PTC023743	KAMRI COMPUTERS PVT LTD
394	U21011DL	1986PTC023769	SAKET NIWAS CO PVT LTD
395	U65999DL	1986PLC023780	SARVPRIYA LEASING AND INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
396	U99999DL	1986PTC023800	LEA EXPORTIQUE PVT.LTD.
397	U74899DL	1986PTC023848	ROCKWELL PRINTERS PRIVATE LIMITED
398	U73200DL	1986PTC023925	QUARTET DESIGN AND RESEARCH PVT.LTD.
399	U17115DL	1986PTC023998	WELCOME TEXTILE INDUSTRIES PVT.LTD.
400	U18101DL	1986PTC024009	MAIDEN FORM LINGERIES PVT.LTD.
401	U51909DL	1986PTC024019	INDIAN EXPRESSIONS PVT.LTD.
402	U65992DL	1986PTC024141	G.K.CHIT FUND P.LTD.
403	U65992DL	1986PTC024152	MOLESHREE CHIT FUND PVT. LTD.

404	U29295DL1986PTC024269	TORO STAMPINGS PVT. LTD.
405	U99999DL1986PTC024275	GIRRAJ BUILDERS P. LTD.
406	U65992DL1986PTC024286	RAJ PURA CHIT FUND PVT. LTD.
407	U99999OL1986PTC024331	KAMAL LOCHAN TIMES PVT. LTD.
408	U25191DL1986PTC024367	N.B.POLY PRODUCTS PVT. LTD.
409	U71230DL1986PTC024384	BALBIR LEASING PVT. LTD.
410	U63040DL1986PTC024484	AVT TRAVELS PVT. LTD.
411	U99999DL1986PTC024485	ROHAN FOOS PVT. LTD.
412	U45201OL1986PTC024532	PHALPHER BUILDERS PVT. LTD.
413	U99999DL1986PTC024591	MAAN IMPEX PVT. LTD.
414	U99999DL1986PTC024617	KARM CHIT FUND PVT. LTD.
415	U99999DL1986PTC024631	OVERSEAS STANDARDS DISTRIBUTORS PVT. LTD.
416	U74899DL1986PTC024637	SIF FINANCIAL PRIVATE LIMITED
417	U74899DL1986PTC024655	NICORO HI-TECH PRODUCTS PRIVATE LIMITED
418	U99999DL1986PTC024779	SPECIAL FASTENERS PVT. LTD.
419	U15409DL1986PTC024866	SARNA FAST FOOD PRODUCTS PVT. LTD.
420	U01111DL1986PLC024873	MARUDHAR FARMS LTD.
421	U65921DL1986PTC024907	COLTS LEASING PVT. LTD.
422	U15319DL1986PLC024924	TOKAS FOODS AND MARINES LTD.
423	U70101DL1986PTC025079	UPHILL CONSTRUCTION BUILDERS PVT. LTD.
424	U31200DL1986PTC025112	MODULAR SEMICONDUCTOR INDIA PVT. LTD.
425	U51909DL1986PTC025180	MAHAVIR REFRIGERATION PVT. LTD.
426	U00000DL1986PTC025240	ASTIR INTERMEDICA PRIVATE LIMITED
427	U65910DL1986PLC025358	LAKSHMI COMMERCIAL HOLDINGS LTD.
428	U70101DL1986PTC025360	BRIJ PROPERTIES PVT. LTD.
429	U99999DL1986PTC025392	SANTOSH POLYMERS PVT. LTD.
430	U99999DL1986PTC025412	KAMAL LOCHAN MINING AND CEMENT INDUSTRIES PVT. LTD.
431	U60210DL1986PTC025484	MEWAR CARRIERS PVT. LTD.
432	U45201DL1986PTC025532	INSTYLE CONTRACTS PVT. LTD.
433	U32204DL1986PLC025564	FRANK ELECTRONICS LTD
434	U74140DL1986PTC025623	I.M.G. ARCHITECTS PVT. LTD.
435	U74140DL1986PTC025634	NETWORK CONSULTANTS PVT. LTD.
436	U99999OL1986PTC025637	KAMAL LOCHAN CORPORATION (BHARAT) LTD.
437	U74899DL1986PTC025673	AMRITHA AGENCIES PRIVATE LIMITED
438	U99999DL1986PTC025733	PAVAN PROPERTIES LIMITED
439	U65992DL1986PTC025846	SUKHANAND CHIT FUND PVT. LTD.
440	U74992OL1986PTC025871	RALLAN FORMS PVT. LTD.
441	U45201DL1986PTC025909	GANESH FARM PVT. LTD.
442	U50300DL1986PTC025958	BHALLA AGENCIES PVT. LTD.
443	U34300DL1986PTC025959	BHALLA SALES PVT. LTD.
444	U74899DL1986PTC025997	GOLICHA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
445	U32204DL1986PTC026053	CLEMESSY ELECTRONIQUE INDIA PVT. LTD.
446	U99999DL1986PTC026140	B.K.ROLLER FLOUR MILLS PVT. LTD.
447	U65992OL1986PTC026194	BALBIR CHIT FUND PVT. LTD.
448	U51909DL1986PTC026215	EDX MARKETING PVT. LTD.

449	U74899DL	1986PTC026226	NAVPREET CHIT FUND PRIVATE LIMITED
450	U99999DL	1986PTC026269	HARJAS APARTMENTS PRIVATE LIMITED
451	U99999DL	1986PTC026289	GOLD FABS PVT. LTD.
452	U65993DL	1986PTC026331	SARAS INVESTMENTS PVT. LTD.
453	U65910DL	1986PTC026462	NIRMAL LEASING AND GROWTH FUND PVT. LTD.
454	U24239DL	1986PTC026516	KRISCH MARK ASSOCIATES PVT. LTD.
455	U74899DL	1987PTC026605	PALAM FINANCE AND LEASING PVT LTD
456	L29199DL	1987PLC026666	TECHNO MACHINES INTERNATIONAL LIMITED
457	U30007DL	1987PTC026628	GOLDEN SOFTWARES PVT LTD
458	U74899DL	1987PTC026637	SURYA RUBBERS PRIVATE LIMITED
459	U51311DL	1987PTC026667	D C P ASSOCIATES PVT LTD
460	U51109DL	1987PTC026735	SOBERS MARKETING PVT LTD
461	U74899DL	1987PTC026751	CHATTERJEE TOURS PVT LTD
462	U65992DL	1987PTC026755	PRATOSH CHITFUND PVT LTD
463	U17114HR	1987PLC026768	HARYANA POLYTEX LTD
464	U99999DL	1987PTC026823	EXQUISITE COLLECTIONS PVT LTD
465	U99999DL	1987PTC026834	WELMEC SWITCH GEARS PVT LTD
466	U74899DL	1987PTC026874	ATITHI LEASINGS PRIVATE LIMITED
467	U65992DL	1987PTC026935	ACTION CHITS PVT. LTD.
468	U65921DL	1987PTC026955	CHOWMUKHI FINANCE AND INVESTMENT PVT. LTD.
469	U51109DL	1987PTC026998	RAJNI MARKETING AND LEASING PVT. LTD.
470	U74140DL	1987PTC027047	GREAT CONTRACTORS AND SUPPLIERS PVT. LTD.
471	U65992DL	1987PTC027048	PARICHAY CHIT FUND PVT. LTD.
472	U74421DL	1987PTC027151	HIMALAYA PIPE INDUSTRIES PVT. LTD.
473	U63031DL	1987PTC027169	SUPER DELUXE MOVERS PVT. LTD.
474	U99999DL	1987PTC027194	CONAUGHT LOCKERS LEASING PVT. LD.
475	U65993DL	1987PTC027315	SHARDA FINANCIAL CONSULTANTS PVT. LTD.
476	U65993DL	1987PTC027317	DURGA TRADERS AND HOLDINGS PVT. LTD.
477	U65993DL	1987PTC027343	RELAN FINANCE PVT. LTD.
478	U74899DL	1987PTC027372	BHAGCHANDKA HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
479	U17299DL	1987PTC027379	GUNJAN FABRICS AND GARMENTS PVT. LTD.
480	U74995DL	1987PTC027384	MAHESHWARI LIASON AND INVESTMENT PVT. LTD.
481	U15143HR	1987PTC027413	SWASTIK PROTENS PVT LTD
482	U32303DL	1987PTC027428	GOLDTECH ELECTRONICS PVT. LTD.
483	U99999DL	1987PTC027496	BIGSTON ELECTRONICS LTD
484	U99999DL	1987PTC027500	SENIOR CHITS PVT LTD
485	U99999DL	1987PTC027526	DECCAN GUARDS PVT LTD
486	U99999DL	1987PTC027575	V.Y. CHIT FUND PVT. LTD
487	U17219DL	1987PTC027587	NAVJOBHAN TEXTILE PVT LTD
488	U01409DL	1987PTC027761	GREENLAND FORESTRY AND FARMS PVT LTD
489	U74899DL	1987PTC027897	KESEL CHIT FUND PRIVATE LIMITED
490	U92113DL	1987PTC027915	INDO VIDEO FILMS PVT LTD
491	U99999DL	1987PTC027921	INDO VISION THEATRES PVT LTD
492	U27202DL	1987PTC027937	CROWN TUBES PVT. LTD
493	U67120DL	1987PTC027986	SHIVA TRADERS AND HOLDINGS PVT LTD

494	U74899DL1987PTC027991	SAMTA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
495	U16003DL1987PTC028025	HARI DARSHAN TOBACCOS PVT.LTD
496	U74899DL1987PTC028114	ADHARSHILA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
497	U24231DL1987PTC028184	SMP PHARMA PVT LTD
498	U74899DL1987PTC028186	SIDHANT INTERNATIONAL PVT LTD
499	U72200DL1987PTC028189	REAL TIME INFORMATION TECHNOLOGY PVT LTD
500	U74899DL1987PTC028246	DIVIKAY ELECTRONICS PVT LTD
501	U51109DL1987PTC028255	SHIV DAYAL JUGAL KISHORE PVT LTD
502	U21099DL1987PLC028281	MDV SPECIALITY COATINGS PVT LTD
503	U74899DL1987PTC028286	TURN O MAT ASSOCIATES PVT LTD
504	U28301HR1987PTC028301	TIKAM CHITS PRIVATE LIMITED
505	U65992DL1987PTC028301	TIKAM CHITS PVT LTD
506	U99999DL1987PTC028309	J.R.B. ASSOCIATES PVT LTD
507	U45201DL1987PTC028310	INDRAPRASTHA ESTATES PVT LTD
508	U74140DL1987PTC028329	RELIEF CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
509	U74899DL1987PTC028330	SUREMA TRADING CO PRIVATE LIMITED
510	U25209DL1987PTC028353	ESCON POLYMERS PVT LTD
511	U29299DL1987PTC028375	RELIEF EQUIPMENT INAID PVT LTD
512	U99999DL1987PTC028421	SETHI ASSOCIATES PVT LTD
513	U99999DL1987PTC028458	ANKITA CARDIO INVASIVE PVT LTD
514	U99999DL1987PTC028460	SOMA TEXTILES INDUSTRIES PVT LTD
515	U36992DL1987PLC028470	S.R.S. ZIPPERS PVT LTD
516	U31200DL1987PTC028500	SRK ELECTRAMÉCON PVT LTD
517	U29211DL1987PLC028528	GOOD EARTH INTERNATIONAL LTD
518	U81100DL1987PTC028548	REMY SHIPPING PVT LTD
519	U65992DL1987PTC028587	RHYTHM CHITS PVT LTD
520	U74899DL1987PTC028626	ACE MERCANTILES PRIVATE LIMITED
521	U99999DL1987PTC028674	SHRUTI ESTATES PVT LTD
522	U45201DL1987PTC028685	SETHI COMMERCIALS PVT LTD
523	U52110DL1987PLC028686	IND IMPEX OVERSEAS LTD
524	U65992DL1987PTC028749	GARNET CHIT FUND PVT LTD
525	U74140DL1987PTC028757	FIRST CITY CONSULTANTS PVT LTD
526	U21022DL1987PTC028790	KLASS PACK PVT LTD
527	U65992HR1987PTC028798	BADKHAL CHIT FUND PVT LTD
528	U19201DL1987PTC028809	BEST BOOT AND SHOES PVT LTD
529	U74899DL1987PTC028841	SHIKHA ENGINEER PRIVATE LIMITED
530	U22219DL1987PTC028859	FORTUNE PRINT COMMUNICATION SERVICES PVT LTD
531	U33112DL1987PTC028866	IND KOEKI NEEDLES PVT LTD
532	U99999DL1987PTC028883	ALAM COMPUTER SERVICES PVT LTD
533	U45201DL1987PTC028940	ARC SERVICES PVT LTD
534	U18009DL1987PTC029065	PLESANT TRADERS PVT LTD
535	U23203DL1987PTC029090	SUPER SHINE STOVE INDUSTRIES PVT LTD
536	U45201DL1987PTC029118	G.S.BUILDERS PVT LTD
537	U15134DL1987PTC029153	NORTHLAND FRUIT INDUSTRIES PVT LTD
538	U65910DL1987PLC029190	FINCAP LEASING AND HOLDINGS LTD

539	U99999DL	1987PTC029211	ADHUNIK BUILDERS PVT LTD
540	U99999DL	1987PTC029227	RELAX AIRCONDITIONERS (INDIA) PVT LTD
541	U63013DL	1987PTC029254	BIRD CARGO PVT LTD
542	U92111DL	1987PTC029258	DELHI FILMS PVT LTD
543	U74899DL	1987PTC029335	SANCO CHIT FUND PRIVATE LIMITED
544	U65922DL	1987PTC029346	ORIENT HOUSING AND DEVELOPMENT PVT LTD
545	U51909DL	1987PTC029350	SAMANT APPLIANCES PVT LTD
546	U74899DL	1987PTC029359	ELCEE AUTO FINANCIERS PVT LTD
547	U74994DL	1987PTC029375	KASNEY INTERIORS PVT LTD
548	U24231DL	1987PTC029421	VISHWA CONSUMER GOODS PVT LTD
549	U74994DL	1987PTC029449	R.K. FUR-CON ENGINEERS PVT LTD
550	U99999DL	1987PTC029475	CHARISMA CONSULTANT PVT LTD
551	U74140DL	1987PTC029508	AISHWARYA MARKETING PVT LTD
552	U65993DL	1987PTC029549	M.B.IMPEX ENTERPRISES PVT LTD
553	U32109DL	1987PTC029590	KHERA SYSTEMS PVT LTD
554	U45201DL	1987PTC029659	UNIQUE ASSOCIATES PVT LTD
555	U45202HR	1987PTC029712	RAJHANS BUILDERS PRIVATE LIMITED
556	U71290DL	1987PTC029758	G M E SYSTEMS PVT LTD
557	U29803DL	1987PLC029803	USHABH METALS LIMITED
558	U74899DL	1989PTC029830	OVAL CHITS PRIVATE LIMITED
559	U21029DL	1987PTC029858	NEERAJ PACKAGINGS PVT LTD
560	U99999DL	1987PTC029914	JHULE LAL CHIT FUND PVT LTD
561	U74899DL	1987PTC029939	OM WRAPS PRIVATE LIMITED
562	U28992DL	1987PTC029992	UNI DEVICES PVT LTD
563	U74940DL	1987PTC030031	DEBONAIR FILMS (INDIA) PVT LTD
564	U63090DL	1987PTC030052	U A INVESTMENTS PVT LTD
565	U74899DL	1987PTC030082	LLOYD BITUMEN PRIVATE LIMITED
566	U33301DL	1987PTC030150	FOUR SEASONS ELECTRONICS PVT LTD
567	U74210DL	1987PTC030160	TELEMEK ELECTRONICS PVT LTD
568	U74899DL	1987PTC030168	SUPER INDIA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
569	U74899DL	1988PTC030177	GEMRAY DESIGNS PVT LTD
570	U74210DL	1988PTC030191	G.G. CONTRACTORS (INDIA) PVT LTD
571	U55101HR	1988PTC030230	BHARGAVA BROTHERS PVT LTD
572	U99999DL	1988PTC030249	S R EQUIPMENTS PVT LTD
573	U51497HR	1988PTC030287	J.S.M.AGRO MART PVT LTD
574	U65992DL	1988PTC030322	TALWAR CHITS PVT LTD
575	U65992DL	1988PTC030329	SEARS CHITS PVT LTD
576	U65992DL	1988PTC030331	RUCKOO CHITS PVT LTD
577	U65992HR	1988PTC030396	NAMIT CHIT FUND PRIVATE LIMITED
578	U65992HR	1988PTC030407	PROFILE CHIT FUND COMPANY PVT.LTD.
579	U29297HR	1988PTC030409	OCEANIA EQUIPMENTS PVT LTD.
580	U74899DL	1988PTC030415	CARRY MORE HOISTS PVT LTD
581	U99999DL	1988PTC030423	VIVA VIDEO LTD
582	U24110HR	1988PTC030437	IMPERIAL PIGMENTS PVT LTD
583	U65992HR	1989PTC030468	RALLY CHITS PVT LTD



584	U99999DL1988PTC030508	PARUL CONSTRUCTIONS PVT LTD
585	U15310HR1989PTC030509	VAIBHAV ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
586	U29297HR1989PTC030516	INDIAN VACCINES CORPORATION LTD.
587	U15203DL1988PTC030538	S.R. FOOD PRODUCTS PVT LTD
588	U70101DL1988PTC030548	M.K. ESTATES PVT LTD
589	U99999DL1988PTC030558	QUEST LEASING PVT LTD
590	U65992HR1989PTC030580	KAKS AND BABS CHITS PVT.LTD.
591	U65921HR1989PTC030581	BHASIN HIRE PURCHASE PVT.LTD.
592	U99999DL1988PTC030611	RAJ CUSHIONS PVT LTD
593	U70200HR1989PTC030618	V.K. CONTRACTORS PVT.LTD.
594	U31909HR1989PLC030625	AMERICAN ELECTRONICS LTD.
595	U45203DL1988PTC030656	KHADSE SAHA CONSTRUCTIONS PVT LTD
596	U25201DL1988PTC030885	ABSO POLYMERS PVT LTD
597	L36911DL1989PLC030687	ANAND JEWELLERS LTD
598	U70101HR1989PTC030723	PARKASH VIR UJJWAL PROPERTIES PVT.LTD.
599	U65992HR1989PTC030739	ROSH CHITS PVT.LTD.
600	U74899DL1988PTC030739	SUNSHINE HOLDINGS PRIVATE LIMITED
601	U21023DL1988PTC030744	IND BREVETS PVT LTD
602	U65992HR1989PTC030764	DAVIS CHITS PVT. LTD.
603	U51909DL1988PTC030808	RINKY MARKETING SYSTEMS PVT LTD
604	U45201DL1988PTC030818	DURGA PROMOTORS PVT LTD
605	U28992HR1990PTC030843	SKIPPER PACKAGING PRIVATE LIMITED
606	U74899DL1988PTC030850	MEDIA CONSULTANCY BUREAU P LTD
607	U65921HR1990PTC030864	PRIDE FINANCE AND LEASING PVT. LTD.
608	U14295HR1990PTC030900	THERMOCOUSTIC INDIA PVT. LTD.
609	U70101DL1988PTC030953	JUHI ASSOCIATES INDIA PVT LTD
610	U65992HR1990PTC031042	CHETALI CHITS PVT. LTD.
611	U33115HR1990PTC031043	ORSUR DRESSINGS (INDIA) PVT. LTD.
612	U74899DL1988PTC031074	MOTINAGAR CHITS PRIVATE LIMITED
613	U65992DL1988PTC031076	MANGLAM CHIT FUND PVT LTD
614	U29306HR1990PTC031083	ULTRA REFRIGERATOR PVT. LTD.
615	U65992HR1990PTC031112	PAVISH CHIT FUND PVT. LTD.
616	U65992HR1990PTC031148	PINE CHITS PVT. LTD.
617	U99999DL1988PTC031146	SATYAM CIRCUITS (INDIA) PVT LTD
618	U65992HR1991PTC031154	SARLA CHITS PVT.LTD.
619	U74899DL1988PTC031154	MEGHA DEVICES PVT LTD
620	U52392HR1991PTC031155	PACIFIC COMPUTERS PVT.LTD.
621	U99999DL1988PTC031156	S.P.I. BEVERAGES PVT LTD
622	U65992HR1991PTC031203	MAKHIJA CHIT FUND PVT. LTD.
623	U99999DL1988PTC031218	MARS CHIT FUND P. LTD.
624	U18101DL1988PTC031241	SHIVA FABRICS P. LTD.
625	U65992HR1991PTC031284	KUND KUND CHITS PVT. LTD.
626	U31300DL1988PTC031323	R.D. POWERLINES P. LTD.
627	U29302DL1988PTC031352	AGGARWAL APPLIANCES P. LTD.
828	U17297DL1988PTC031380	DELHI IMPEX AND PROCESSORS PVT LTD

629	U65992HR1991PTC031435	ANOKHI CHITS PVT.LTD.
630	U65923HR1991PLC031460	TRINETRA CREDITS HIRE AND LEASING LTD.
631	U65992HR1991PTC031474	DHARAM DEEP CHITS PVT.LTD.
632	U29141HR1992PTC031535	R.N. MAKKER AND CO. PVT. LTD.
633	U24299DL1988PTC031570	OZIN CHEMICALS PVT LTD.
634	U32730DL1988PTC031592	SAMRAT TUBE PVT LTD.
635	U65992HR1992PTC031645	SUPERFINE CHITS PRIVATE LIMITED
636	U72200DL1988PTC031647	MEKASTER SOFTWARE CENTRE PVT LTD.
637	U71302DL1988PTC031655	SAI CREATIVE VISIONS PVT LTD.
638	U01119DL1988PTC031694	PURI PLANTATIONS PVT LTD.
639	U65992HR1992PTC031699	SEVEN UP CHITS PRIVATE LIMITED
640	U27109HR1992PLC031718	SONA MIGMA FOUNDRY LTD.
641	U24241HR1992PTC031731	J.T. HEALTH CARE PVT. LTD.
642	U65992HR1992PTC031747	T.M.C. CHITS PVT. LTD.
643	U29170HR1992PTC031766	BATRA STEEL TUBES PVT LTD
644	U65910HR1992PTC031794	WELL LEASING AND FINANCE PVT. LTD.
645	U65992DL1988PTC031800	SAPTVARNA CHITS PVT LTD
646	U65992HR1992PTC031821	NAGI CHITS PVT LTD
647	U65992HR1992PTC031826	ATN CHITS PVT LTD
648	U22190DL1988PTC031828	SIDHARTHA FILMS PVT.LTD
649	U65993HR1992PTC031837	DECENCY LEASING AND FINANCE PVT LTD
650	U65992HR1992PTC031857	D.D.S.K. CHIT FUND PVT LTD
651	U99999DL1988PTC031910	GOKITA ELECTRIC COMPANY PVT LTD.
652	U65992HR1993PTC031914	VIJAY BHARAT CHIT FUND PVT LTD
653	U74899DL1988PTC031922	BALAJEE VAULTS PVT LTD
654	U74950DL1988PTC031950	PUNJAB BOTTLING COMPANY PVT LTD.
655	U65992HR1993PTC031968	ANIDEEP CHITS PVT LTD
656	U70950DL1988PTC031985	RITUAL PACKAGINGS PVT LTD.
657	U65992HR1993PTC031989	E.P. CHITS PVT LTD
658	U74899DL1988PTC031998	BREWRIES ENGINEERING PVT LTD.
659	U65992HR1993PTC032007	WALKER CHITS PVT LTD
660	U27106HR1993PTC032009	CLASSIC PRODUCTS PVT. LTD.
661	U15201HR1993PTC032048	YOGESH MILKOPRODUCTS PVT.LTD.
662	U65992HR1993PTC032051	ATINIV CHITS PVT LTD
663	U65992HR1993PTC032052	REWARI CHIT FUND PVT LTD
664	U74999HR1993PTC032068	KATARIA POTTERIES PVT LTD
665	U27106HR1993PTC032077	JAIJYOTI STEELS PVT LTD
666	U45201HR1993PTC032082	BOOTERS BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD
667	U70101DL1988PTC032086	MIK PROPERTIES PVT LTD.
668	U99999DL1988PTC032101	SUVIDHA EXPORTS PVT LTD.
669	U17115HR1993PTC032110	MEENAKSHI SPINNERS PVT LTD
670	U65992HR1993PTC032115	LARA CHIT FUND PVT LTD
671	U99999DL1988PTC032125	N.L.LEASING AND FINANCE PVT LTD.
672	U74899DL1988PTC032127	HARJIT BROS AND COMPANY PRIVATE LIMITED
673	U31909HR1993PTC032140	PARMDEEP EQUIPMENT PVT LTD

674	U85110HR1993PTC032146	SHANTI HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE PVT LTD
675	U65992HR1993PTC032152	KAY BHUSHAN CHITS PVT LTD
676	U74140HR1993PTC032153	NRV CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
677	U65992HR1993PTC032191	SHERRY CHITS PVT LTD
678	U15549HR1994PLC032196	MS LIQUORS LTD
679	U18101DL1988PTC032225	ELEGANCE EXPORTS PVT LTD
680	U65910DL1988PLC032251	RIDHI LEASING LTD.
681	U17231HR1994PTC032256	G.T. COTSYN PVT LTD
682	U27207HR1994PTC032267	MAHABIR REFOILS PVT. LTD.
683	U99999DL1988PTC032276	NAVYUVAK BUILDERS PVT LTD
684	U74899DL1988PTC032279	LAKHANPAL MARKETING AND CONSULTANCY SERVICE PVT LTD
685	U65992HR1994PTC032283	BASIL CHITS PVT LTD
686	U65992HR1994PTC032288	AYNA CHITS PVT LTD
687	U74140DL1988PTC032300	PRASAD ASSOCIATES PVT LTD.
688	U74130DL1988PTC032313	ORIENT COMMERCIAL SERVICES PVT LTD.
689	U36991DL1988PTC032316	DEEPEE STATIONERY SPECIALITIES PVT LTD.
690	U55101DL1988PTC032319	HAKIM RANGILAL JAIN AND SONS PVT LTD.
691	U34102HR1994PTC032333	PUSH AUTO COMPONENTS PVT LTD
692	U74899DL1994PTC032344	JAI GOPAL DEVELOPERS PVT LTD
693	U65992HR1994PTC032346	PUSHK KAMAL CHIT FUND PRIVATE LIMITED
694	U65921DL1988PTC032350	S.S. CREDITS PVT LTD.
695	U99999DL1988PTC032368	BRAJ NURSING HOME PVT LTD.
696	U19210DL1988PTC032374	LUCK FOOTWEAR PVT LTD.
697	U65992HR1994PTC032376	ACCORD CHITS PVT LTD
698	U18101HR1994PTC032402	N U TEX AND OILS PVT LTD
699	U74999HR1994PTC032403	CARBO SALES PVT LTD
700	U65992HR1994PTC032438	JAI MATA CHINTPURNI CHITS PVT LTD
701	U20221HR1994PTC032476	DIPLOMAT INDIA PLYWOOD PVT LTD
702	U65992HR1994PTC032479	ESTEEM CHITS PV TLTD
703	U65993HR1994PTC032483	SPRINT SECURITIES PVT. LTD.
704	U65993HR1994PTC032490	SHUBH LABH CHITS PVT LTD
705	U51909DL1988PTC032510	JAGDAMBA OVERSEAS PVT LTD
706	U15142HR1995PTC032516	PEE PEE AGROILS PVT LTD
707	U65992HR1995PTC032520	VEKA CHITS PVT. LTD.
708	U67190HR1995PTC032533	PERCY HOLDINGS PVT. LTD.
709	U67190HR1995PTC032550	SHREE SIDH BLYJI INVESTMENTS PVT. LTD.
710	U72200HR1995PTC032604	HYDROMECH TECHNOLOGIES PVT. LTD.
711	U99999DL1988PTC032604	SUMANT SOFTECH PVT LTD
712	U65992HR1995PTC032616	CHAINANI CHITS PVT LTD
713	U32309DL1988PTC032621	CRYSTAL CLEAR VIDEO PVT LTD
714	U52339HR1995PTC032641	MINTOO TRADERS AND MERCHANTS PVT. LTD.
715	U67120HR1995PTC032650	JDS CAPITAL AND SECURITIES PVT. LTD.
716	U51311DL1988PTC032672	'D' WEAR WELL KNITWEARS PRIVATE LIMITED
717	U99999DL1995PTC032680	BANSAL BIOTEK PVT. LTD.
718	U17119HR1995PTC032717	MANGLA JUTE AND FABRICS PVT. LTD.

719	U15412H	R1995PTC032732	BAJAJ BISCUITS INDUSTRY PVT. LTD.
720	U15140H	R1995PTC032737	FATEHABAD TRADERS PVT. LTD.
721	U65992H	R1995PTC032766	URDHAV CHITS PVT LTD
722	U27200H	R1995PTC032773	H.R. METALS PVT. LTD.
723	U51909D	L1988PTC032778	MANOHAR ELECTRIC AND MACHINEY STORES PVT LTD
724	U67120H	R1995PTC032780	TRINITY FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
725	U65992H	R1995PTC032842	MEGA BUCKS CHIT FUND PVT LTD.
726	U32900H	R1995PTC032843	TELESOFT SOLUTIONS PVT. LTD.
727	U85195H	R1995PTC032846	AMBALA C.T. SCAN AND RESEARCH LAB PVT. LTD.
728	U32109D	L1988PTC032854	SWIRE MAGNETICS PVT LTD
729	U51219H	R1995PLC032895	GUPTA GREEN EARTH PLANTATION LTD.
730	U17211H	R1995PTC032907	S.P. INDUSTRIAL TEXTILES PVT. LTD.
731	U65920H	R1995PLC032919	ELLAR CRELEASE LTD.
732	U74999H	R1995PTC032926	FARIDABAD LOCKERS PVT. LTD.
733	U65992D	L1988PTC032944	EVERSMILE CHITS PVT LTD
734	U70101D	L1988PTC032953	JASON LINKS BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD
735	U65992H	R1996PTC032965	KAVERI-GANGA CHITS PVT. LTD.
736	U65992H	R1996PTC032976	ANNEXE CHITS PVT. LTD.
737	U67190H	R1996PTC032977	TOSHNA INVESTMENTS PVT. LTD.
738	U65992H	R1996PTC032982	MAMAJI CHITS PVT. LTD.
739	U27310H	R1996PTC032992	CHAUDHARY METALS PVT LTD.
740	U67190H	R1996PTC032993	YUGLIPI FINLEASE PVT LTD.
741	U65992H	R1996PTC033004	CHITRAGUPT CHITS PVT. LTD.
742	U65992H	R1996PTC033049	GRANDWAY CHITS PVT. LTD.
743	U99999D	L1988PTC033058	VAT PLASTOCRAFT PVT LTD
744	U70101D	L1988PTC033059	PEACOCK FARMS PVT LTD
745	U65910H	R1996PTC033080	HITT FINLEASE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
746	U72200H	R1996PTC033123	CHETANA SOFTWARE SYSTEMS PVT. LTD.
747	U99999D	L1988PTC033135	C.S.S. POLYMECH PVT LTD
748	U31300H	R1996PTC033137	VENUS MANUFACTURING CO. PVT. LTD.
749	U70101D	L1988PTC033145	JANAK ASSOCIATES PVT LTD
750	U74140D	L1988PTC033152	BIP CONSULTANTS PVT LTD
751	U65921H	R1996PLC033166	DHANMAYA FINLEAS PVT. LTD.
752	U99999D	L1988PTC033166	RANIGANJ CHEMICALS LTD.
753	U65992H	R1996PTC033170	ADL CHITS PVT. LTD.
754	U65992H	R1996PTC033182	J.TANEJA CHITS PVT. LTD.
755	U74899D	L1988PTC033183	MEGA TOURS AND TRAVELS PVT LTD
756	U65992D	L1988PTC033186	MANDAKANI CHITS PVT LTD
757	U72200H	R1996PTC033192	INTELLECT NETWORK (INDIA) PVT. LTD.
758	U50403H	R1996PTC033287	AUTO SCOOTER (INDIA) PVT LTD
759	U36911D	L1988PTC033325	REGENT CULTURED DIAMONDS PVT LTD
760	U17297H	R1996PTC033331	OPK TEXTILES PVT. LTD.
761	U65992H	R1996PTC033359	TAMANA CHITS PVT LTD
762	U36941D	L1988PTC033396	NEWAGE ELECTRONICS PVT LTD
763	U74899D	L1988PTC033398	ABHISHANK CHITS PVT LTD

764	U51909DL1988PTC033409	PULLSTRONG CABLES PVT LTD
765	U74899DL1988PTC033453	N A AUTOWELD ENGINEERING COMPANY PVT LTD
766	U65992HR1997PTC033467	SUSHI CHITS PVT LTD
767	U24231HR1997PTC033538	YAMUNA PHARMACY PRIVATE LIMITED
768	U36101DL1988PTC033542	FUTRIC BUSINESS FURNITURES PVT LTD
769	U99999DL1988PTC033552	INDO ITALIAN AMUSEMENT PARK LIMITED
770	U65921HR1997PLC033571	JAI GANESH FINLEASE LIMITED
771	U74140DL1988PTC033643	KUCHHAL MANAGEMENT CONSULTANTS PVT LTD
772	U51392HR1997PTC033646	KATARIA CERAMICS PVT.LTD.
773	U65992DL1988PTC033671	SLEEK CHITS PRIVATE LIMITED
774	U65992HR1997PTC033692	AEROLITE CHIT FUND PVT.LTD.
775	U15209DL1988PTC033726	NUTRI CHICKEN PVT LTD
776	U99999DL1988PTC033727	NEHA DISTRIBUTORS PVT LTD
777	U99999DL1988PTC033728	SHELLY AGENCIES PVT LTD
778	U85110HR1997PTC033760	PALWAL STONE CLINIC (P) LTD.
779	U65992HR1997PTC033773	BABADEEP CHIT FUND PVT. LTD.
780	U65992HR1997PTC033794	MAA DHANLAXMI CHITS (PVT) LTD.
781	U65992HR1998PTC033847	DRT CHITS PVT. LTD.
782	U65992HR1998PTC033857	SKYLINE CHIT FUND (P) LTD.
783	U74899DL1998PTC033894	GROWEL DEVELOPERS PVT LTD
784	U65992HR1998PTC033925	NTER STOFF CHIT FUND PRIVATE LIMITED
785	U65992HR1998PTC033935	OM NAMAY SHIVAY CHITS PVT. LTD.
786	U27104HR1998PTC033942	M.V.J. STEELS PRIVATE LIMITED.
787	U45202HR1998PTC033958	NIRANJAN CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
788	U65992HR1998PTC033959	DEVYOG CHITS PVT. LTD.
789	U65910DL1988PLC033960	CHHATISGARH LEASING AND FINANCE LIMITED
790	U29191HR1998PTC033998	METALIGHT ENGG (INDIA) PVT. LTD.
791	U32109HR1998PTC034022	SHIVA FILMS AND MUSIC CO. (P) LTD.
792	U26109HR1998PTC034083	ROYALTECH DECORATING GLASS PVT.LTD.
793	U80211HR1998PTC034085	RKN EDUCATIONAL INSTITUTE PVT.LTD
794	U63040DL1988PTC034125	I.K. TRAVELS PVT LTD
795	U99999DL1999PTC034141	EXONE DRUGS CO. PRIVATE LIMITED
796	U74140HR1999PTC034175	PINNACLE CONSULTANTS PVT. LTD.
797	U30007DL1988PTC034175	BHARTI PLANTATIONS PVT LTD
798	U18101DL1988PTC034191	VALENTINUS FASHIONS PVT LTD
799	U18101DL1988PTC034193	ALPHA FASHIONS PVT LTD
800	U18101DL1988PTC034197	ACE FASHIONS PVT LTD
801	55034199	LOTUS FASHIONS PVT LTD
802	U18101DL1988PTC034202	AQUAPURE FASHIONS PVT LTD
803	U29211HR1999PTC034204	G.H.S. AUTOMATION PRIVATE LIMITED
804	U72203HR1999PTC034209	VISHESH INFOTECH PVT. LTD.
805	U67120DL1988PLC034234	UNIVERSAL PROFILES LTD.
806	U65992HR1999PTC034235	P. SINGH CHIT FUND PRIVATE LIMITED
807	U71230DL1988PTC034257	RHYTHM LEASING PVT LTD
808	U65992HR1999PTC034283	KADAMBRI CHITS PRIVATE LIMITED

809	U74999HR	999PTC034313	ULTRA PACKTECH PRIVATTE LIMITED
810	U99999DL	1988PTC034314	SUNINDRA TRASPORT COMPANY PVT LTD
811	U45203DL	1988PTC034348	KHATTAR BUILDERS PVT LTD
842	U34349HR	999PTC034349	DAHIMA SOFTWARE AND CONSULTANTS PVT LTD
813	U74999HR	999PTC034350	RESCON SERVICES PVT LTD
814	U02221DL	1988PTC034358	DISCOVER PRINTS (INDIA) PVT LTD
815	U27101HR	999PTC034362	NEW HARYANA STEEL ENGINEERS PRIVATE LIMITED
816	U72900HR	999PTC034363	AVANT GARDE WEBAD PRIVATE LIMITED
817	U45201HR	2000PTC034412	AL EXPERT INDIA PRIVATE LIMITED
818	U24239DL	1988PLC034442	HAMMER PHARMA LTD.
819	U74899DL	1988PTC034457	VINAR TECHNOLOGIES PVT LTD
820	U01112DL	1988PTC034469	DOABA AGRO PRODUCTS PVT LTD
821	U72200HR	2000PTC034493	PIXTEL COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
822	U72200HR	2000PTC034504	SOMESPACE INFOTECH PRIVATE LIMITED
823	U99999DL	1989PTC034525	RELIANCE DETERGENTS PVT LTD
824	U72200HR	2000PLC034534	FCH SOFTWARE INDIA LIMITED
825	U74899DL	1989PTC034557	SID SMI ENGINEERING ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
826	U51909DL	1989PLC034559	SARVA SALES LIMITED
827	U99999DL	1989PTC034582	ANALYSIS CONSTRUCTIONS LIMITED.
828	U24249DL	1989PLC034658	BHASKAR COLORS LTD.
829	U99999DL	2001PTC034662	NEW TELE INDIA ADVERTISERS PRIVATE LIMITED
830	U65992HR	2001PTC034709	DUDEJA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
831	U24232HR	2001PTC034713	HELICON HEALTHCARE PVT. LTD.
832	U74999HR	2001PTC034718	CANZ IMMIGRATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
833	U70101DL	1989PLC034733	INDO HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
834	U15312HR	2001PLC034739	R P BASMATI RICE LIMITED
835	U22110HR	2001PTC034794	GURGAON YELLOW PAGES PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
836	U72900HR	2002PTC034896	DE MATRIKS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
837	U74899DL	1989PTC034908	NARAIN BROTHERS PRIVATE LIMITED
838	U74899DL	1989PTC034935	PRAGATI CARRIERS PVT LTD
839	U64202HR	2002PTC034948	TRINET INDIA PRIVATE LIMITED
840	U74140DL	1989PTC034962	ISAM CONSULTANTS PVT LTD
841	U31909HR	2002PTC034982	DEVANSHU ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
842	U51909HR	2002PTC034996	MOUNT EVEREST NETWORK PRIVATE LIMITED
843	U51909HR	2002PTC035010	CRYSTAL INFOVISION PRIVATE LIMITED
844	U63090HR	2003PTC035040	DADA SINGHA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
845	U05151DL	1989PTC035045	RAJESH AGRO PRODUCTS PVT LTD
846	U67120DL	1989PTC035047	SRI HIMGIRI HOLDINGS PVT LTD
847	U60231DL	1989PTC035086	ANANTA SAINIK TRANSPORT PVT LTD
848	U74899DL	1989PTC035087	CHANAKYA SURGICALS PVT LTD
849	U99999DL	1989PTC035110	DÉCENT TOWERS PVT LTD
850	U51909HR	2003PTC035125	OZONE MERCANTILE (INDIA) PRIVATE LIMITED
851	U65992HR	2003PTC035168	RKG CHITS PRIVATE LIMITED
852	U22190DL	1989PTC035242	MICRO PRINT INDIA PVT LTD
853	U24129HR	2003PTC035256	HI-TECH (INDIA) PEST CONTROL PRIVATE LIMITED

854	U51909HR2004PTC035308	GROW FAITH VISION MARKETING PRIVATE LIMITED
855	U35914DL1989PTC035308	R.S. MACHINES PVT LTD
856	U51909DL1989PTC035375	ACE SALES PROMOTERS (INDIA) PVT LTD
857	U30007HR2004PLC035382	TCR DIGITAL TECHNOLOGIES LIMITED
858	U51109DL1989PTC035460	UNCLE AGENTS PVT LTD
859	U26921DL1989PTC035470	UNI-AGUAFLO SYSTEMS PVT LTD
860	U24111DL1989PLC035544	TELIC HI-CHEM INDIA LTD.
861	U74300DL1989PTC035555	MEGHDOOT ADVERTISING CONSULTANT PVT LTD
862	U29111DL1989PTC035585	CAPITAL SPRINGS PVT LTD
863	U99999DL1989PTC035590	P.L.F. INVESTMENTS PVT LTD
864	U99999DL1989PTC035619	T.R.V. ELECTRONICS COMPANY PRIVATE LIMITED
865	U51109DL1989PTC035785	MAXLON ZIPPERS PVT.LTD.
866	U74899DL1989PTC035819	LARA APPARELS AND CONSULTANTS PVT LTD
867	U65910DL1989PTC035967	SUN REFRACTORIES AND MINERALS PVT. LTD.
868	U74140DL1989PTC036006	GARG PAWAN KUMAR AND COMPANY PVT.LTD.
869	U99999DL1989PTC036105	REGENCY FOOTWEARS LTD.
870	U65910DL1989PTC036141	PACE LEASING PVT.LTD.
871	U70109DL1989PTC036218	SARA PROPERTIES PVT. LTD.
872	U51109DL1989PTC036286	SHERATON EXPORTS PVT.LTD.
873	U99999DL1989PTC036277	ISHAN ESTATES PVT. LTD.
874	U51420DL1989PTC036296	SIDDHARTHA CASTINGS PVT.LTD.
875	U32305DL1989PTC036331	CRAY MARTIN TELEVISE COMBINES PVT.LTD.
876	U74899DL1989PTC036363	INDO AMERICAN CHEMICALS PVT LTD
877	U45201DL1989PTC036381	PRABHA CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
878	U99999DL1989PTC036411	H.C. SEN AND CO. PHARMA PVT.LTD.
879	U51109DL1989PTC036469	TRECHAN DECORS PVT.LTD.
880	U51226DL1989PTC036556	CHOCKORI BERINAG TEA PVT.LTD.
881	U51109DL1989PTC036559	IMPRESSION EXPORT PVT.LTD.
882	U74899DL1989PTC036628	D C ADVERTISING AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
883	U17115DL1989PTC036642	GRACE FABRICS PVT. LTD.
884	U74899DL1989PTC036648	SONI SALES PRIVATE LIMITED
885	U51909DL1989PTC036663	RAM NATH MONGA DISTRIBUTORS PVT.LTD.
886	U74899DL1989PTC036733	SARSWATI ASSOCIATES PVT. LTD.
887	U72250DL1989PTC036815	INTREND SYSTEMS PVT. LTD.
888	U17111DL1989PLC036895	VINKY KNITS LTD.
889	U72300DL1989PTC036896	ABHA MEDIA PVT.LTD.
890	U30007DL1989PTC036912	VASP COMUTERS (INDIA) PVT. LTD
891	U74210DL1989PTC036940	INTEGRATED POWERTECH PVT.LTD.
892	U71100DL1989PTC036978	G.N. INFORMATICS PVT. LTD.
893	U74140DL1989PTC037071	PRIA CONSULTANTS PVT. LTD.
894	U29299DL1989PTC037166	SOMSONS FASTNERS PVT.LTD.
895	U70101DL1989PTC037197	BREMSON BUILDERS AND PROPERTIES PVT. LTD.
896	U67190DL1989PTC037214	BABUJI IMPEX SERVICES PVT LTD
897	U32109DL1989PTC037258	ACE TELECOM PVT.LTD.
898	U00330DL1989PTC037262	BAGREE ASSOCIATES PVT.LTD.

899	U30007DL1989	PTC037314	NEW ERA ELECTRONICS PVT. LTD.
900	U99999DL1989	PTC037392	MSOFT SYSTEMS PVT.LTD.
901	U45201DL1989	PTC037411	SAPNA CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
902	U99999DL1989	PTC037624	GOLD LINE ENGINEERING PVT.LTD.
903	U99999DL1989	PTC037682	SAMPATTI CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
904	U65903DL1989	PTC037711	SWAMI HOLDING PVT.LTD.
905	U99999DL1989	PTC037750	EKANG SOFTWARE PVT.LTD.
906	U99999DL1989	PTC037903	LMN AUTO DEALERS AND LESSORS PVT. LTD.
907	U99999DL1989	PTC037910	SCOPE ADVERTISING AND AGENCIES PVT. LTD.
908	U74899DL1989	PTC037952	BALCONS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
909	U29191DL1989	PTC038005	SUNDHANSHU ELECTRICALS PVT.LTD.
910	U29219DL1989	PTC038031	ANILINE FABRICATORS PVT. LTD.
911	U99999DL1989	PTC038055	SAMPATTI ESTATES PVT. LTD.
912	U65923DL1989	PTC038232	A.P. CREDITS AND LEASING PVT. LTD.
913	U50404DL1989	PTC038245	G.G. MOTORS PVT. LTD.
914	U65910DL1989	PTC038289	G.R. PROMOTERS PVT. LTD.
915	U36999DL1989	PTC038323	MEKASTER ELECTRONIC SERVICE CENTRE PVT.LTD.
916	U74899DL1989	PTC038426	P D STEEL PVT LTD
917	U51109DL1989	PTC038502	KAILASO EQUIPMENT PVT.LTD.
918	U99999DL1989	PTC038536	T.L. CHEMICALS PVT. LTD.
919	U99999DL1989	PTC038547	CHARANJIT BUILDERS AND PROMOTERS PVT. LTD.
920	U99999DL1989	PTC038624	ANU ELECTRONICS AND INSTRUMENTS PVT. LTD.
921	U31300DL1989	PTC038687	PALBRO CABLES PVT.LTD.
922	U99999DL1989	PTC038731	JOLLY FOODS (INDIA) PVT. LTD.
923	U74999DL1989	PTC038734	JVN ACONTHERM INSULATIONS PVT. LTD.
924	U74999DL1989	PTC038752	SYNERGY ELECTRONICS PVT.LTD.
925	U33119DL1989	PTC038753	ECHOCARD LABORATORIES PVT. LTD.
926	U45201DL1990	PTC038822	BRIJ TOWERS PVT. LTD.
927	U70200DL1990	PTC038831	RUP LAXMI ASSOCIATES PVT.LTD.
928	U74899DL1985	PTC038886	KAN ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
929	U67120DL1990	PTC038887	A.R. INTERGRATED SYSTEMS PVT.LTD.
930	U99999DL1990	PTC038950	RAJIV SALES AND CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
931	U74899DL1990	PTC038959	KWALITY CABLES PVT. LTD.
932	U31102DL1990	PTC039052	BLOOM TRANSMISSIONS PVT. LTD.
933	U99999DL1990	PTC039087	ARDEE IVO ENGINEERS PVT. LTD.
934	U74140DL1990	PTC039113	DHRUV MANAGEMENT CONSULTANTS AND SURVEYORS PVT. LTD.
935	U85110DL1990	PTC039114	EVERLIKE SALES PVT. LTD.
936	U99999DL1990	PTC039120	DOLPHIN COMPONENTS PVT. LTD.
937	U24299DL1990	PTC039127	DHIRAJ MACHINES PVT. LTD.
938	U74210DL1990	PTC039128	HIRA PROMOTERS PVT. LTD.
939	U74899DL1990	PTC039137	B.R. ENGINEERING PRIVATE LIMITEAD
940	U01111DL1990	PTC039233	MAHARANI FORESTS PVT. LTD.
941	U01122DL1990	PTC039234	RAMA PLANTATION PVT. LTD.
942	U63040DL1990	PTC039344	PENTHOUSE TRAVEL AND TOURS PVT. LTD.
943	U99999DL1990	PTC039353	V.P. APPLIANCES LTD.



944	U17117DL1990PTC039405	GOYAL FILAMENTS PVT. LTD.
945	U99999DL1990PTC039412	EKTA FURNISHERS PVT. LTD.
946	U74899DL1990PTC039426	CONCORD TRANSFORMERS PVT. LTD.
947	U51909DL1990PTC039442	PHILIPS THERMO PVT. LTD.
948	U34300DL1990PTC039471	DGS SPARES AND COMPONENTS PVT. LTD.
949	U74140DL1990PTC039537	FINTech MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD.
950	U99999DL1990PTC039541	MAHAVIR POWDERS PVT. LTD.
951	U74899DL1990PTC039573	N.S. OVERSEAS (INDIA) PVT. LTD.
952	U45201DL1990PTC039624	COMPACT ESTATES PVT. LTD.
953	U74140DL1990PTC039658	TASKY MANAGEMENT CONSULTANCY PVT. LTD.
954	U36109DL1990PTC039763	ATTIC INTERIORS PVT. LTD.
955	U65992DL1990PTC039767	JINVANI CHIT FUND PVT. LTD.
956	U72300DL1990PTC039912	R.B. PERIPHERALS PVT. LTD.
957	U28999DL1990PTC039942	S.B. CABLE ANCILLIARIES PVT. LTD.
958	U99999DL1990PTC039963	M.M. GRANITE PVT. LTD.
959	U74899DL1990PTC039975	RAJDOOT COATINGS PVT. LTD.
960	U65910DL1990PTC040035	SUMI PROPERTIES PVT. LTD.
961	U29295DL1990PTC040097	PUSHP WIRES PVT. LTD.
962	U36991DL1990PTC040104	KUSHANA JEWELS PVT. LTD.
963	U15142DL1990PLC040107	VALLABH REFINERIES LTD.
964	U32109DL1990PTC040128	ARJUN MAGNETIC TAPES PVT. LTD.
965	U51909DL1990PTC040165	EXPOSITION MARKETING PVT. LTD.
966	U51909DL1990PTC040171	EVEREST REFRIGERATION EQUIPMENT PVT. LTD.
967	U65992DL1990PTC040222	BABA LALJI CHIT FUND PVT. LTD.
968	U30006DL1990PTC040242	DESKTOP MICRO PRODUCTS PVT. LTD.
969	U24222DL1990PTC040434	NIRMAL PAINTS PVT. LTD.
970	U74899DL1990PTC040436	NEBULA CHITS PRIVATE LIMITED
971	U74899DL1990PTC040473	PRINK APPARELS PVT. LTD.
972	U45201DL1990PTC040576	DUA PROJECTS PVT. LTD.
973	U51909DL1990PTC040610	CEE JAY PEE IMPEX PVT. LTD.
974	U74300DL1990PTC040622	ADC ADVERTISING AND DISPLAY CONSULTANTS PVT. LTD.
975	U99999DL1990PTC040625	T.P.I. BEARINGS PVT. LTD.
976	U67120DL1990PTC040650	RAZZLE-DAZZLE HOLDINGS PVT. LTD.
977	U74899DL1990PTC040653	ADINATH TRAVELS PRIVATE LIMITED
978	U51496DL1990PTC040711	R.G. ENTERPRISES PVT. LTD.
979	U27109DL1990PTC040860	JHAJHARIA STEELS PVT. LTD.
980	U74899DL1990PTC040897	LAGHU CHITS PVT. LTD.
981	U70101DL1990PTC040905	JASWANT PROMOTERS AND BUILDERS PVT. LTD.
982	U74899DL1990PTC040951	ONKAR TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
983	U99999DL1990PTC040969	KARSAN LEASING AND FINANCE PVT. LTD.
984	U27109DL1990PTC040991	MAHENDRA SONS PVT. LTD.
985	U65992DL1990PTC041008	DAZZLE CHIT FUND PVT. LTD.
986	U74899DL1990PTC041009	ARYA PRINTERS PRIVATE LIMITED
987	U74899DL1990PTC041096	COLTS FINANCE PVT. LTD.
988	U65993DL1990PTC041207	PRIYA CREDITS PVT. LTD.

989	U51229DL	1990PTC041240	INDIAN SPICES AND PRDCESSSED FOODS PVT. LTD.
990		55041356	SWITZ MEDICAL SYSTEMS PVT. LTD.
991	U74899DL	1990PTC041443	HDLIHDCKS ENGINEERING PVT LTD
992	U57909DL	1990PTC041470	KRIBAL IMPEX PVT. LTD.
993	U74899DL	1990PTC041506	SUN BABY PRDDUCTS PVT LTD
994	U27109DL	1990PTC041526	SANT STEELS PVT.LTD.
995	U65929DL	1990PTC041617	VASUDHA FINANCE PVT. LTD.
996	U92111DL	1990PTC041626	SHELLY VIDEO VISIDN PVT. LTD.
997	U99999DL	1990PTC041647	BHIWADI ALLDYS PVT. LTD.
998	U74899DL	1990PTC041662	MIS HAEDES CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
999	U99999DL	1990PTC041680	R.VIKAS LEASING AND FINANCE PVT.LTD.
1000	U74899DL	1990PTC041688	TIGI WEAR EXPDRT INDIA PVT LTD
1001	U51311DL	1990PTC041689	RINKU KNITWEAR (INDIA) PVT. LTD.
1002	U29308DL	1990PTC041748	TITAN APPLIANCES PVT. LTD.
1003	U74140DL	1990PTC041768	SUBRAJIT MARKETING AND CDNSULTANCY SERVICES PVT.LTD.
1004	U74210DL	1990PTC041793	SEAFIN (INDIA) PVT. LTD.
1005	U23100DL	1990PTC041826	RANA COAL PVT. LTD.
1006	U51109DL	1990PTC041827	UNNATI DVERSEAS PVT. LTD.
1007	U24131DL	1990PTC041842	RJ PDLY FIBRE PVT. LTD.
1008	U65992DL	1990PTC041913	GANAUH CHITS PVT. LTD.
1009	U65921DL	1990PTC042031	CHAKRA LEASING PVT.LTD.
1010	U99999DL	1990PTC042068	RC INTERNATIDNAL PVT. LTD.
1011	U27100DL	1990PTC042103	ARJIT STEEL AND ALLDYS PVT.LTD.
1012	U99999DL	1990PTC042140	ARUSHI STEEL AND ALLDYS PVT.LTD.
1013	U74899DL	1990PTC042148	ANIKA EXTERPRISES PVT. LTD
1014	U27103DL	1990PTC042194	VIKRAM CASTINGS PVT. LTD.
1015	U34300DL	1990PLC042202	M.S.ELASTDMERS AND ALLIED INDUSTRIES PVT. LTD.
1016	U74899DL	1990PTC042231	PARUL FASHIDN EXPDRTS PVT LTD
1017	U51103DL	1990PTC042248	REGENCY SALES PVT. LTD.
1018	U45201DL	1990PTC042346	SHARDA LAND AND DEVELDPMENT PVT. LTD.
1019	U51909DL	1990PLC042409	KUMAR INTERNATIDNAL LTD.
1020	U51310DL	1990PLC042416	GURUTVA CDMMERICAL EXPDRTS LTD.
1021	U65910DL	1990PTC042482	DR. RAMJILAL SIKKA AND SONS FINANCIERS PVT.LTD.
1022	U72200DL	1990PTC042517	RDDP CHAND JEWELLERS PVT LTD
1023	U24139DL	1991PTC042586	ADVANCE PVC PROFILES (INDIA) PVT.LTD.
1024	U99999DL	1991PTC042658	NIRDS ADVERTISING PVT. LTD.
1025	U65992DL	1991PTC042736	SHER-I-PUNJAB CHIT FUND PVT. LTD.
1026	U65910DL	1991PTC042742	LIFETIME LEASING AND HDLDINGS PVT.. LTD.
1027	U65993DL	1991PTC042798	RAJENDRA MERCANTILE PVT.LTD.
1028	U32109DL	1991PTC042821	SHARPLINE CDMMUNICATIONS PVT.LTD.
1029	U51909DL	1991PTC042839	SUMAN OVERSEAS PVT. LTD.
1030	U99999DL	1991PTC042875	DECDTHERM ENGINEERING PRDJECTS PVT. LTD.
1031	U67120DL	1991PTC042906	ATDDT FINANCE AND TNVESTMENTS PVT.LTD
1032	U74999DL	1991PTC042968	N.A. ENGINEERS PVT.LTD.
1033	U18101DL	1991PLC043021	WIZARD APPARELS LTD.

1034	U99999DL1991PTC043032	SANJEEVANI PLAST INDUSTRIES PVT. LTD.
1035	U51909DL1991PTC043204	R. P. CREATIONS PVT. LTD.
1036	U24304DL1991PTC043266	BIMAL SYNTHETICS PVT. LTD.
1037	U74899DL1991PTC043276	JAY DEE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1038	U63040DL1991PTC043287	S.S. FREIGHT PVT. LTD.
1039	U18101DL1991PTC043381	TANA-BANA DESIGNS PVT. LTD.
1040	U74899DL1991PTC043401	EXPRESS HOLDINGS PVT. LTD.
1041	U99999DL1991PTC043561	NIRMAL RESINS PVT. LTD.
1042	U74899DL1991PTC043613	KAPOOR AND KAPOOR BUILDERS PRIVATE LIMITED
1043	U74994DL1991PTC043666	UNIQUE DESIGNERS PVT. LTD.
1044	U29193DL1991PTC043727	ACQUADUCT SYSTEMS PVT. LTD.
1045	U65910DL1991PTC043755	HANUMAN LEASINGS PVT. LTD.
1046	U74999DL1991PTC043770	CROSS PORT HANDLING FACILITIES PVT. LTD.
1047	U18101DL1991PTC043809	EAST WEST APPARELS PVT. LTD.
1048	U99999DL1991PTC043942	ANVIK SERVICES PVT. LTD.
1049	U74899DL1991PTC043977	BATLIVALA AND KARANI ASSETS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1050	U23201DL1991PTC043988	MODERN LUBRICANTS PVT. LTD.
1051	U63040DL1991PTC044004	SPLENDOR INDIA TRAVEL AND TOURS PVT. LTD.
1052	U99999DL1991PTC044020	H.H. TRADERS PVT. LTD.
1053	U65992DL1991PTC044034	MAGI CHITS PVT. LTD.
1054	U51909DL1991PTC044084	SARVODAYA MARKETING PVT. LTD.
1055	U70101DL1991PTC044101	HANUMAN PROMOTERS PVT. LTD.
1056	U24132DL1991PTC044145	R.G.R. POLYMER PVT. LTD.
1057	U70101DL1991PTC044154	MONGA BUILDERS AND PROMOTERS PVT. LTD.
1058	U36991DL1991PTC044167	EXCLUSIVE OFFICE AIDS PVT. LTD.
1059	U71290DL1991PTC044169	S.S.S. LEASING AND CREDITS PVT. LTD.
1060	U74899DL1991PTC044237	CENTURY LOGIC SYSTEMS PVT. LTD.
1061	U17231DL1991PTC044304	N. SINGLA SPINNING AND WEAVING MILLS PVT. LTD.
1062	U70101DL1991PTC044319	GHARONDHA DEVELOPERS AND BUILDERS PVT. LTD.
1063	U64120DL1991PTC044355	TWENTY FIRST CENTURY COURIERS PVT. LTD.
1064	U45201DL1991PTC044386	PENNY CONSTRUCTION PVT. LTD.
1065	U50101DL1991PTC044387	PEDIGREE CARS PVT. LTD.
1066	U35900DL1991PLC044390	ESSKAI'S MASS TRASIT SYSTEMS LIMITED
1067	U74140DL1991PTC044394	VRA CONSULTANTS PVT. LTD.
1068	U99999DL1991PTC044422	SYSTEMS INVESTMENTS PVT. LTD.
1069	U99999DL1991PTC044504	SAND EXPORTS PVT. LTD.
1070	U74899DL1991PTC044526	SOUTH DELHI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1071	U45203DL1991PTC044535	CARAVAN CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
1072	U26939DL1991PTC044549	SHRI GANGA POTTERIES PVT. LTD.
1073	U26109DL1991PTC044550	TIRIPUTI GLASS INDRUTRIES PVT. LTD.
1074	U32109DL1991PTC044601	ODELPHIA MARKETING PVT. LTD.
1075	U74899DL1991PTC044745	OM SHREE CREDITS PRIVATE LIMITED
1078	U74899DL1991PTC044785	EXCELON TECHNO ENGINEERS PVT LTD
1077	U15549DL1991PTC044888	PRAG BREWERIES PVT. LTD.
1078	U29299DL1991PTC044913	OCEANIC WATER ENGINEERS PVT. LTD.

1079	U51507DL	1991PTC044959	ZEETA LAB SERVICES PVT. LTD.
1080	U74999DL	1991PTC044965	PRINCE JEWELLERS PVT LTD
1081	U45201DL	1991PTC044994	LUCKNOW CONSTRUCTION COMPANY PVT.LTD.
1082	U99999DL	1991PTC045061	BULAND CEMENT WORKS PVT.LTD.
1083	U65910DL	1991PTC045067	A.S. CREDIT AND LEASING PVT.LTD.
1084	U21022DL	1991PTC045239	GITA CONTAINERS PVT. LTD.
1085	U29191DL	1991PTC045338	RELIANCE COOLING SYSTEMS PVT.LTD.
1086	U99999DL	1991PTC045415	PATRIOT EXPORTS PVT.LTD.
1087	U27101DL	1991PTC045421	RADIUM METALS PVT. LTD.
1088	U51909DL	1991PTC045444	AYUSHI AGRO INDUSTRIES PVT. LTD.
1089	U99999DL	1991PTC045472	MAGNUM INVESTMENTS PVT. LTD.
1090	U74999DL	1991PTC045477	ONLINE OVERSEAS PVT. LTD.
1091	U99999DL	1991PTC045482	PENGUIN REFRIERATION PVT.LTD.
1092	U45201DL	1991PTC045527	VINSON CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
1093	U99999DL	1991PTC045554	BHRAMAN TOURS AND TRAVELS PVT.LTD.
1094	U52399DL	1991PTC045617	SHABAB-E- KHAL PVT.LTD.
1095	U65992DL	1991PTC045685	ANUGREH CHIT FUND PVT. LTD.
1096	U74899DL	1991PTC045703	DEEP SAGAR CHITS PRIVATE LIMITED
1097	U45201DL	1991PTC045726	DHAKA BUILDERS AND FINANCIERS PVT.LTD.
1098	U99999DL	1991PTC045741	CAPRICON DATAMATIC PVT.LTD.
1099	U65929DL	1991PTC045774	NIDAAN GENERAL FINANCE AND LEASING PVT. LTD.
1100	U74899DL	1991PTC045882	TRIDEV COAL CONTRACTORS PVT LTD
1101	U45102DL	1991PTC045931	MADAN BUILDERS PVT. LTD.
1102	U51909DL	1991PTC046058	GROWELL TRADELINKS PRIVATE LIMITED
1103	U99999DL	1991PTC046088	BUNS LEASING LTD.
1104	U33119DL	1991PTC046180	DAWN MEDICAL DEVICES PVT. LTD.
1105	U74899DL	1991PTC046199	AMGROW FINANCE AND IVESTMENTS PVT LTD
1106	U99999DL	1991PTC046290	DANBROS EXPORTS PVT. LTD.
1107	U65992DL	1991PTC046315	SUNMUN CHITS PVT. LTD.
1108	U74899DL	1991PTC046603	WELCOME SERVIES PVT.LTD.
1109	U65993DL	1991PTC046657	DEVI CREDIT AND HOLDINGS PVT.LTD.
1110	U65993DL	1991PTC046659	JAI MATA CREDIT AND HOLDINGS PVT.LTD.
1111	U74899DL	1991PTC046678	SIYA RAM KUMAR PRECISION COMPONETS PRIVATE LIMITED.
1112	U74899DL	1991PTC046679	SIYA RAM KUMAR MANFLACTURING CO. PVT.LTD.
1113	U65993DL	1991PTC046686	JHEELUM CREDIT AND HOLDINGS PVT.LTD.
1114	U65993DL	1991PTC046687	UTTARKHAND CREDIT AND HOLDINGS PVT.LTD.
1115	U67120DL	1991PTC046689	PROFIN CREDIT AND HOLDINGS PVT.LTD.
1116	U65993DL	1991PTC046696	MANSA CREDIT AND HOLDING PVT.LTD.
1117	U99999DL	1991PTC046698	BROWNSHIELD MERCANTILE PVT.LTD.
1118	U74899DL	1991PTC046790	GOLDEN HILL AVIATION PRIVATE LIMITED.
1119	U65929DL	1991PTC046799	CIRCON CREDIT AND HOLDINGS PVT.LTD.
1120	U65929DL	1991PTC046801	SHATADRU CREDIT AND HOLDINGS PVT.LTD.
1121	U65929DL	1991PTC046802	MAHODAY FINANCE AND INVESTMENT PVT.LTD.
1122	U65929DL	1991PTC046809	GOODWAY CREDIT AND HOLDINGS PVT.LTD.
1123	U99999DL	1991PTC046925	SUDEV FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED

1124	U65992DL1992PTC046948	PAREEK CHIT FUND PVT. LTD.
1125	U65929DL1992PTC046949	GOOD FORTUNE LEASING AND FINANCE CO. PVT. LTD.
1126	U28910DL1992PLC047020	INDRAPRASTHA FORGINGS LTD.
1127	U99999DL1992PTC047037	QUALITY THERMO-STATE PVT.LTD.
1128	U99999DL1992PTC047095	HI-CHOICE LEASING AND FINANCE PVT.LTD.
1129	U70101DL1992PTC047134	YAGASH ESTATES AND INVESTMENT PVT. LTD.
1130	U99999DL1992PTC047139	MODENA APPARELS PVT. LTD.
1131	U99999DL1992PTC047280	SAM AIRCONDITIONING AND REFRIGERATIONS PVT. LTD.
1132	U51909DL1992PTC047302	IRM DVERSEAS PVT. LTD.
1133	U74210DL1992PTC047346	ANABROS LEASING PVT. LTD.
1134	U51909DL1992PTC047459	STANDARDS MEDIA (INDIA) PVT.LTD.
1135	U65910DL1992PTC047461	UDIT HOUSING PVT. LTD.
1136	U99999DL1992PTC047509	SATPPUSHP IMPEX PVT. LTD.
1137	U99999DL1992PTC047543	POLP STEEL TUBES PVT. LTD.
1138	U92432DL1992PTC047584	SUNRISE REDIO (INDIA) PVT.LTD.
1139	U51909DL1992PTC047589	DILRAJ IMPEX PVT.LTD.
1140	U74999DL1992PTC047599	DELHI SALES PROMDTION MACHINE PVT.LTD.
1141	U99999DL1992PTC047647	SUNSTAR INDUSTRIES LTD.
1142	U65910DL1992PTC047687	KAYCEE PLANTATIDNS PVT.LTD.
1143	U99999DL1992PTC047705	AAVIRT MARKETING PVT.LTD.
1144	U74899DL1992PTC047785	MGV CDNSULTANTS PVT LTD
1145	U74899DL1992PTC047797	GAJAL PARK OUTDOOR CATERERS PVT. LTD.
1146	U72300DL1992PTC047806	PRAKRITI SYSTEMS PVT. LTD.
1147	U65929DL1992PTC047817	KABIR CREDITS AND SECURITIES PVT.LTD.
1148	U63090DL1992PTC047851	DELHI SHDLAPUR ROADLINES PVT.LTD.
1149	U99999DL1992PTC047906	INTERTECH CONSTRUCTION-AND CDNSULTANTS PVT.LTD.
1150	U99999DL1992PTC047982	RADEY SHYAM DEVKI NANDAN PVT.LTD.
1151	U45201DL1992PTC048127	PARAMDUNT STRUCTURALS PVT.LTD.
1152	U99999DL1992PTC048136	INTACT LEASING AND FINANCE LTD.
1153	U74300DL1992PTC048152	MAGICAL DUTDDDR TALKIES PVT.LTD.
1154	U74899DL1992PTC048167	MDNET APPARELS PRIVATE LIMITED
1155	U74899DL1992PTC048182	PAXY DRUGS PRIVATE LIMITED
1156	U55101DL1992PTC048194	S AND W HDELS AND TRADING PVT. LTD.
1157	U74899DL1992PTC048230	SANUKI MERCHANDISING COMAPNY PVT LTD
1158	U19201DL1992PTC048275	SIRS LEATHER PVT. LTD.
1159	U99999DL1992PTC048317	S.M.L. BUILDERS PVT. LTD.
1160	U26921DL1992PTC048333	SHDBHIKA POTTERIES PVT. LTD.
1161	U74899DL1992PTC048363	J U S M EXPDRT SERVICES PVT LTD
1162	U99999DL1992PTC048408	NORTHLAND AGRO INDUSTRIES LTD.
1163	U65910DL1992PTC048452	LAJ LEASING AND CREDITS PVT.LTD.
1164	U99999DL1992PTC048524	JETTY HOTEL PVT.LTD.
1165	U21012DL1992PTC048546	RAM NATH AND SDNS PVT. LTD.
1166	U74999DL1992PTC048571	BCD SERVICES PVT.LTD.
1167	U99999DL1992PTC048653	ULTIMATE PRINTERS PVT. LTD.
1168	U70101DL1992PTC048700	ARKS FINANCE AND LEASING CO PVT.LTD.

1169	U74899DL1992PTC048701	AAKARSHAN COMPUTER SYSTEMS PVT LTD
1170	U31300DL1992PTC048722	SELECTRON CABLES PVT. LTD.
1171	U63040DL1992PTC048725	PUGDUNDEE JUNGLE SAFARIES INDIA PVT. LTD.
1172	U99999DL1992PTC048755	S AND A JEWELLERS PVT. LTD.
1173	U74899DL1992PTC048823	AVON SCALES PVT LIMITED
1174	U99999DL1992PTC048824	VIVA STEEL LTD
1175	U74899DL1992PTC048840	ELECTROMOBILE INDIA PRIVATE LIMITED
1176	U99999DL1992PTC048871	MASTER-TEX INDUSTRIES LTD
1177	U99999DL1992PTC048881	HGM CREDIT AND LEASING LTD.
1178	U99999DL1992PTC048939	MANAMA MOTELS AND RESORTS PVT. LTD.
1179	U99999DL1992PTC048949	ROSETTA CHITS PVT. LTD.
1180	U65921DL1992PTC048960	J.H. FINANCE PVT. LTD.
1181	U99999DL1992PTC048969	N.R. WOOLLEN AND SPINNING MILLS PVT. LTD.
1182	U99999DL1992PTC049010	BACHANI EXIM PVT. LTD.
1183	U27209DL1992PTC049086	VINKAY METALS AND MINERALS PVT. LTD.
1184	U72200DL1992PTC049171	ZAPPFAX BUSINESS SERVICES PVT. LTD.
1185	U18101DL1992PTC049187	ELVA FASHIONS PVT. LTD.
1186	U74999DL1992PTC049192	SALONI MARKETING COMPANY PVT. LTD.
1187	U99999DL1992PTC049341	RENYSON EXPORTS PVT. LTD.
1188	U99999DL1992PTC049354	M.R. MITTAL AND SONS PVT. LTD.
1189	U99999DL1992PTC049386	RR SUNFLOWER FARMS PVT. LTD.
1190	U01122DL1992PTC049440	J AND J AGRICULTURAL PVT. LTD.
1191	U27106DL1992PTC049525	NEELANCHAL STEELS PVT. LTD.
1192	U65910DL1992PTC049531	PANK FINANCE PVT. LTD.
1193	U65993DL1992PLC049564	SWARAJ FINANCE LIMITED
1194	U51505DL1992PLC049608	I.T.P. EXPORTS PVT. LTD.
1195	U74899DL1992PTC049619	N J DESIGN BUILD PRIVATE LIMITED
1196	U99999DL1992PTC049628	CMD DHATU CONSULTANTS PVT. LTD.
1197	U45402DL1992PTC049656	KINGSTON SANITARY APPLIANCES PVT. LTD.
1198	U14211DL1992PLC049674	SHUBHAM UNIVERSAL LIMITED
1199	U65993DL1992PLC049700	MEHRASONS LEASING AND FINANCE LIMITED
1200	U99999DL1992PTC049703	SANRAJ CREDITS AND LEASING PVT. LTD.
1201	U29299DL1992PTC049772	DUTTA MACHINES PVT. LTD.
1202	U99999DL1992PTC049847	MAHAMATI EXPORTS PVT. LTD.
1203	U74140DL1992PTC049883	SMIT SECURITIES PVT. LTD.
1204	U74999DL1992PTC049962	BRINDAVAN OVERSEAS PVT. LTD.
1205	U51109DL1992PTC050047	NEELAM BUSINESS PLACE PVT. LTD.
1206	U45201DL1992PTC050049	SMG CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
1207	U99999DL1992PTC050058	WONDER AGRO PLANTATIONS PVT. LTD.
1208	U51109DL1992PTC050063	B I O LINKERS PVT. LTD.
1209	U51909DL1992PTC050118	ULTRA MARKETING PVT. LTD.
1210	U99999DL1992PTC050123	PICK WICK FOOD PRODUCTS LTD.
1211	U99999DL1992PTC050149	SUDEV EXPORTS LTD.
1212	U99999DL1992PTC050224	SADHVI ART WORKS PVT. LTD.
1213	U66010DL1992PTC050303	MANLEY SHARMA ADJUSTORS PVT. LTD.

1214	U00000DL1992PTC050340	APOLLO CLOTHIERS PVT LTD
1215	U74899DL1992PTC050343	SUNDERRAJ CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1216	U29299DL1992PTC050356	AVIAFORT ENTERPRISES PVT. LTD.
1217	U72300DL1992PTC050361	PERFECT DATA SYSTEMS PVT. LTD.
1218	U21014DL1992PTC050442	SIMPLEX PRODUCTS PVT. LTD.
1219	U52104DL1992PTC050519	RIHA FOREIGN TRADERS PVT. LTD.
1220	U99999DL1992PTC050613	SATYASAI INDIA LTD.
1221	U63090DL1992PTC050625	NESET EXIM PVT LTD
1222	U99999DL1992PTC050676	TRIPSON HOLDINGS AND FINANCE PVT. LTD.
1223	U99999DL1992PTC050724	ACE AUTOCOMP PVT LTD
1224	U99999DL1992PTC050773	NORTHERN CONVEYORS (INDIA) LTD
1225	U99999DL1992PTC050857	ESS JEE PARENTERAL LTD
1226	U63040DL1992PTC050907	APN TRAVELS PVT LTD
1227	U67120DL1992PTC050968	T.M.C. TRADING AND INVESTMENTS PVT LTD
1228	U51109DL1992PTC050980	MARIRA EXPORTS PVT LTD
1229	U67190DL1992PTC050993	J.M. ANIL AND COMPANY PVT LTD
1230	U74899DL1992PTC051047	DHALL CHITIS PRIVATE LIMITED
1231	U74899DL1992PTC051099	BHARAT INFORMATION SERVICES PVT LTD
1232	U32101DL1992PTC051128	SIR S GOLD ELECTRONICS PVT LTD
1233	U22300DL1992PTC051196	NOORI FILMS PVT LTD
1234	U74999DL1992PTC051277	ASTRA TRADING PVT LTD
1235	U27106DL1992PTC051329	N.KUMAR METALS PVT. LTD.
1236	U21012DL1992PTC051332	AKHI TISSUES PVT LTD
1237	U51109DL1992PTC051342	RAJAT CRAFTS PVT LTD
1238	U74899DL1992PTC051363	MANGAL CHEMICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1239	U74899DL1992PTC051371	YOGESH TEXTILES PRIVATE LIMITED
1240	U74899DL1992PLC051453	VAKMER CONSULTANT LIMITED
1241	U67190DL1992PTC051518	ARCH CREDITS PVT LTD
1242	U99999DL1993PTC051613	M S LABORATORIES LTD.
1243	U99999DL1993PTC051666	V G AGRO INDUSTRIES LIMITED
1244	U74899DL1993PTC051763	THRAG ANAHH CONSULTANCY PVT LTD
1245	U65910DL1993PTC051895	SPARKLE PROPERTIES PVT LTD
1246	U99999DL1993PTC051909	ZEE DATA SYSTEM PVT LTD
1247	U99999DL1993PTC051912	NOIDA PAPER MART PVT LTD
1248	U74899DL1993PTC051915	DATALINE CONSULTANTS PVT LTD
1249	U99999DL1993PTC051919	SONIK ENTERPRISES LTD
1250	U29131DL1993PTC051928	SILVERLINE STAMPINGS PVT LTD
1251	U45201DL1993PTC051931	GEM AEROMTERES PVT LTD
1252	U74899DL1993PTC051939	CALDYN CONSULTANTS INDIA PRIVATE LIMITED
1253	U74210DL1993PTC051991	APEX DESIGNER HOUSES PVT LTD
1254	U74899DL1993PTC052166	SOOD CONSTRUCTION PVT LTD
1255	U51909DL1993PTC052207	AAR MERCHANDISING PVT LTD
1256	U51909DL1993PTC052231	MELANGE ENTERPRISES PVT LTD
1257	U27320DL1993PTC052290	REDLINE STEELS PVT LTD
1258	U17115DL1993PTC052429	GILLSON TEXKNIT INDUSTRIES PVT LTD

1259	U99999DL1	993PTC052529	IEPCL PROJECTS LTD
1260	U45201DL1	993PTC052566	S.J. PROPERTIES PVT LTD
1261	U74899DL1	993PTC052643	TURBO CONTROLS INDIA PRIVATE LIMITED
1262	U99999DL1	993PTC052711	RAJDHANI FOODS PVT LTD
1263	U99999DL1	993PTC052718	WELCOME CREDIT AND SECURITIES PVT LTD
1264	U92419DL1	993PTC052722	ACE AVIATION SERVICES PVT LTD
1265	U74899DL1	993PTC052730	NAVSAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1266	U65993DL1	993PTC052773	BIKALP HOLDINGS PVT LTD
1267	U74899DL2	004PTC052779	DUMPTCO ROADWAYS PVT LTD
1268	U74899DL1	993PLC052946	ALLITE LITECH HALOGEN LAMPS LIMITED
1269	U99999DL1	993PTC053015	TODAY AND TOMORROW INVESTMENTS AND FINANCE LTD
1270	U65921DL1	993PTC053096	VISHWA BHARTI HOUSING PVT LTD
1271	U99999DL1	993PTC053133	CEICO OVERSEAS PVT LTD
1272	U99999DL1	993PTC053142	AMBITIOUS POLYCHEM PVT LTD
1273	U67120DL1	993PTC053250	FIDELITY PORTFOLIO PVT LTD
1274	U99999DL1	993PTC053270	HARYANA SPINNERS PVT LTD
1275	U74899DL1	993PTC053325	COMPONENTS INDIA PRIVATE LIMITED
1276	U51311DL1	993PTC053340	IYER IMPEX PVT LTD
1277	U99999DL1	993PTC053409	MR. INDIA CHITS PVT LTD
1278	U74899DL1	993PTC053455	ARIHANT PURIFIER PRIVATE LIMITED
1279	U74899DL1	993PTC053510	AMY PROMOTERS PRIVATE LIMITED
1280	U74899DL1	992PTC053582	TALK FASHION PVT LTD
1281	U99999DL1	993PTC053646	SHERPURIA LEASING AND FINANCE PVT LTD
1282	U67120DL1	993PTC053699	SUJATA SECURITIES PVT. LTD.
1283	U22219DL1	993PTC053710	PRATAP MEDICAL PUBLISHERS PVT LTD.
1284	U99999DL1	993PTC053735	N S P CREDIT AND PORTFOLIO LTD
1285	U74899DL1	993PTC053897	BANKA AND BANKA MEDICAL SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
1286	U99999DL1	993PTC053923	TOKEN SHIMPS LTD
1287	U99999DL1	993PTC053937	JIFFY ENGINEERS PVT LTD.
1288	U67120DL1	993PTC053967	ASHOMAN CAPITAL PRIVATE LIMITED
1289	U99999DL1	993PTC053981	RATRA LEASING AND FINANCE PVT LTD.
1290	U72200DL1	993PTC054022	V R PROMPT COMPUTERS PVT LTD
1291	U51494DL1	993PTC054029	PIKWIK TRADING PVT LTD.
1292	U99999DL1	993PTC054075	TECHKIT ELECTRONICS PV TLTD
1293	U27109DL1	993PTC054082	EXCELLENT STEELS PVT LTD
1294	U99999DL1	993PTC054102	GITANJALI CREATIONS LTD.
1295	U74899DL1	993PTC054131	DASS KRISHNA FOODS PRIVATE LIMITED
1296	U72200DL1	993PTC054223	INFLUENCE SOFTWARE AND MARKETING PVT LTD
1297	U99999DL1	993PTC054252	S M L RESORTS AND HOTELS PVT LTD
1298	U99999DL1	993PTC054254	JME BHARAT LEATHER PVT LTD
1299	U92141DL1	993PTC054295	KRITI EXPRESSIONS PVT LTD
1300	U73100DL1	993PTC054357	DUTT ENERGY DEVICES PVT LTD
1301	U99999DL1	993PTC054415	POONAM PLANTATIONS LIMITED
1302	U74899DL1	993PLC054500	INDO AGRO EXPORTS LIMITED
1303	U74140DL1	993PTC054577	"D" SOUZA HUMAN RESOURCES PVT LTD



1304	U19121DL1993PTC054585	SCHOLAR BAGS PVT LTD
1305	U94940DL1993PTC054615	D.C. OFFSETTERS PVT LTD
1306	U51909DL1993PTC054617	GOODWILL MERCHANTS PVT LTD
1307	U99999DL1993PTC054630	NEXT GENERATION SYSTEMS LTD
1308	U99999DL1993PTC054648	TEJASVI LAMINATES PVT LTD
1309	U99999DL1993PTC054733	SURAKSHA VAULTS LTD
1310	U99999DL1993PTC054850	STERLING AIRWAYS PVT LTD
1311	U74899DL1993PTC054852	PAMPOSH EXPORTS PRIVATE LIMITED
1312	U99999DL1993PTC054897	ATESUA FARMS PVT LTD
1313	U99999DL1993PTC055090	TUSHAR FRICTIONS PVT LTD
1314	U51909DL1993PTC055092	SUMARA INTERNATIONAL PVT LTD
1315	U74899DL1993PTC055096	H D POLYMERS PVT LTD
1316	U74300DL1993PTC055137	LA CHIC ADS AND FILMS PVT LTD
1317	U99999DL1993PTC055144	SPS PACKAGINGS PVT LTD.
1318	U99999DL1993PTC055189	VILA CONSULTANTS PVT LTD
1319	U99999DL1993PTC055234	MICROWORLD ELECTRONICS PVT LTD
1320	U74140DL1993PTC055285	FIONA MARKETING AND CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
1321	U74140DL1993PTC055319	SPN TECHNICAL SERVICES PVT LTD
1322	U63040DL1993PTC055325	ASAHI TOURS SERVICES PVT LTD
1323	U99999DL1993PTC055338	ATESUA LEASING LTD
1324	U45402DL1993PTC055342	MAGNIFIQUE INTERIORS PVT LTD
1325	U99999DL1993PTC055363	A.P. RAUNAQ TRAVELS PVT LTD
1326	U74899DL1993PTC055366	COST PLUS PVT LTD
1327	U51505DL1993PTC055369	MULTI SCAN OVERSEAS PVT LTD
1328	U99999DL1993PTC055372	ROOPSHREE EXPORTS PVT LTD
1329	U74140DL1993PLC055395	ECO PRIME INDIA PVT LTD.
1330	U63040DL1993PTC055477	SHIVIKA TRAVELS PVT LTD
1331	U99999DL1993PTC055499	WELCOME SECURITIES LTD
1332	U99999DL1993PTC055521	BELVEDERE LAND AND FARMS PVT LTD
1333	U34300DL1993PTC055522	IXL CARDAN SHAFTS PVT LTD
1334	U24119DL1993PTC055684	S.SHANKAR CHEMICALS PVT LTD
1335	U74899DL1993PTC055723	MODI CREATA PROMOTION PVT LTD
1336	U51494DL1993PTC055763	KAS LEATHER PVT LTD
1337	U65910DL1993PTC055769	KAN FARMS PVT LTD
1338	U74140DL1993PTC055798	KANWAL ENGINEERS AND CONSULTANTS PVT LTD
1339	U34300DL1993PTC055840	DIESEL EQUIPMENTS SERVICES INDIA PVT LTD
1340	U74899DL1993PTC055855	DEV TELECOM CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1341	U51397DL1993PTC055874	ACHIVERA TRADE LINKS PVT LTD
1342	U72200DL1993PTC055882	J.C.E. CAD TECH SERVICES PVT LTD
1343	U51109DL1993PTC055914	ARK IMPEX PVT LTD
1344	U67210DL1993PTC055932	S.I. CONSULTANTS PVT LTD
1345	U24233DL1993PTC056153	SYSTEMIC LABORATORIES PVT LTD
1346	U99999DL1993PTC056223	SIDDHI SHREE PAPER CO. PVT LTD
1347	U99999DL1993PTC056377	INTER WORLD LTD
1348	U70101DL1993PTC056416	ACHARAYA ANDACHARAYA DEVELOPERS PVT LTD

1349	U65992DL1993PTC056431	MAA AMBA CHITS PVT LTD
1350	U74899DL1993PLC056462	SINDHUJA AGRO AND HOUSING INDIA LIMITED
1351	U74210DL1993PTC056471	AMRA CONSULTANTS PVT LTD
1352	U74899DL1993PTC056481	BOOK SELL INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED
1353	U99999DL1993PTC056493	SEEMA POTTERIES PVT LTD
1354	U24222DL1993PTC056497	N.D. RANGWALA PVT LTD
1355	U99999DL1993PTC056656	HANDIGES INDIA LTD
1356	U74899DL1994PLC056743	ZEE CORD ELECTRONICS LIMITED
1357	U57909DL1994PTC056749	SHEETAL AGENCIES PVT LTD
1358	U99999DL1994PTC056802	R.G. SECURITIES PVT LTD
1359	U74899DL1994PTC056988	YOGA VASISTHA FILMS PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
1360	U99999DL1994PTC057024	NATHOO MAL DES RAJ RANGWALA LIMITED
1361	U51909DL1994PTC057032	TRICON OVERSEAS PVT LTD
1362	U67120DL1994PTC057149	MBS ENGINEERS PVT LTD
1363	U99999DL1994PTC057168	ASIATIC PETROCHEMICALS LTD
1364	U74140DL1994PTC057229	SNERGY MALTO FOOD AND SERVICES PVT LTD
1365	U45909DL1994PTC057284	SHRI NATH IMPEX PVT LTD
1366	U74899DL1994PLC057293	JAKSON MOBILE COMPONENTS LIMITED
1367	U74899DL1994PTC057356	POLIS EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
1368	U99999DL1994PTC057364	LANDMARK IMPEX PVT LTD
1369	U24239DL1994PTC057411	MAXCURE FORMULATION PVT LTD
1370	U72200DL1994PTC057432	IH S INDIA PVT LTD
1371	U74899DL1994PTC057443	SINGLA SECURITIES PRIVATE LIMITED
1372	U74899DL1994PTC057471	RELIANCE PRECISION ENGINEERING COMPANY PVT. LTD.
1373	U99999DL1994PTC057485	COUNSEL TRADING AND INVESTMENT PVT LTD
1374	U74140DL1994PTC057566	TECHNOLOGICAL SERVICES INDIA PVT LTD
1375	U74899DL1994PTC057570	MONA HIRE PURCHASE PVT LTD
1376	U99999DL1994PTC057658	ARAVALI WOOD INDUSTRIES PVT LTD
1377	U51311DL1994PTC057662	PEARL ADVERTISING PVT LTD
1378	U67120DL1994PTC057670	ASSOCIATED SECURITIES PVT LTD
1379	U74899DL1994PTC057688	FAIR FRIENDS PACKAGING PRIVATE LIMITED
1380	U74899DL1994PTC057696	KAMTEX EXIM PRIVATE LIMITED
1381	U65952DL1994PTC057744	FLORIDA CHITS PVT LTD
1382	U74899DL1994PTC057780	VINU FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1383	U22219DL1994PTC057782	ANAMIKA PRINTERS PVT LTD
1384	U99999DL1994PTC057875	PMC FINANCE LTD
1385	U74899DL1994PTC057900	TTRV ELECTRONICS PROJECTS PRIVATE LIMITED
1386	U74899DL1994PTC057973	A K S C ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1387	U24246DL1994PTC058080	PRETTY HOTELS BODYCARE PVT LTD
1388	U30007DL1994PTC058138	J.C. NETWORK AND COMPUTERS PVT LTD
1389	U51494DL1994PTC058165	FINESSE MARKETING PVT LTD
1390	U25209DL1994PTC058177	GEETA INTERNATIONAL PVT LTD
1391	U73100DL1994PTC058320	VANDER LAVE INDIA PVT LTD
1392	U70101DL1994PTC058346	JEWANYAHYA AND ASSOCIATES PVT LTD
1393	U32204DL1994PTC058446	METCOM INDIA PVT LTD

1394	U99999DL1994PTC058465	HINDON FARMS LTD.
1395	U99999DL1994PTC058466	UNIQUE CORPORATE ADVANCERS LTD
1396	U99999DL1994PTC058507	SHRIG TECHNICAL AND INVESTMENTS CONSULTANTS LTD
1397	U51109DL1994PTC058524	LEELA ENTERPRISES PVT LTD
1398	U51311DL1994PTC058556	GAUTAM EXPORTS PVT LTD
1399	U74899DL1994PTC058590	G G ENERGY PRIVATE LIMITED
1400	U74899DL1994PTC058591	MALAV POLYMERS PVT LTD
1401	U99999DL1994PTC058616	KRISHI EXPORTS OVERSEAS INDIA LTD
1402	U74899DL1994PTC058660	J J LOCKS AND GRANITE INDIA PVT LTD
1403	U65992DL1994PTC058759	A.S. KUKREJA CHITS PVT LTD
1404	U99999DL1994PTC058762	VARDHMAN ELECTRODES LTD
1405	U99999DL1994PTC058888	SHASHANK TUBES AND PIPES PVT LTD
1406	U99999DL1994PTC058962	MEDTECH DIAGNOSTIC PVT LTD
1407	U30007DL1994PTC058970	E E ELECTRO EQUIPMENTS PVT LTD
1408	U74899DL1994PTC059058	HALDI RAM NAMKEEN BHANDAR PRIVATE LIMITED
1409	U74995DL1994PTC059257	VAISHNAVI OVERSEAS PVT LTD
1410	U74899DL1994PTC059258	SASHA FINANCE PRIVATE LIMITED
1411	U99999DL1994PTC059323	SHARTANVAL INVESTMENTS LTD
1412	U74250DL1994PTC059328	PREMIER ZINC PRODUCTS PVT LTD
1413	U99999DL1994PTC059367	NETCOM SOFTWARE AND SYSTEMS (INDIA) LIMITED
1414	U74899DL1994PTC059471	INT EXT DECORATORS PRIVATE LIMITED
1415	U74899DL1994PTC059491	RAVISH CHIT FUND PVT LTD
1416	U74899DL1994PLC059518	HCL GLOBAL ALLIANCES LIMITED
1417	U25202DL1994PTC059526	LAMCO CANS PVT LTD
1418	U74999DL1994PTC059533	UNITED NETWORK DELHI PVT LTD
1419	U99999DL1994PTC059667	VIKAS EFFECTS PVT LTD
1420	U74899DL1994PTC059696	KRITI LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1421	U74140DL1994PTC059806	CIVIL AND CIVIC INDIA PVT LTD
1422	U74899DL1994PTC059808	PROVINCE HOTELS PRIVATE LIMITED
1423	U99999DL1994PTC059819	ADONIS CREDITS PVT LTD
1424	U99999DL1994PTC059835	FAMILY PUBLICATIONS PVT LTD
1425	U74899DL1994PTC059898	BIORG FOODS PRIVATE LIMITED
1426	U99999DL1994PTC059913	MORGAN PORTFOLIO AND CAPITAL INVESTMENT PVT LTD
1427	U29220DL1994PTC059970	DEWAN EXPORTS PVT LTD
1428	U74899DL1994PTC059996	HAESUNG INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
1429	U65992DL1994PTC060019	ASSRA CHIT PVT LTD
1430	U74899DL1994PTC060085	AZRA TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1431	U45201DL1994PTC060094	BHARDWAJ CONSTRUCTIONS PVT LTD
1432	U74899DL1994PTC060155	COUGAR SERVICES PRIVATE LIMITED
1433	U99999DL1994PTC060173	QST CAPITAL SERVICES PVT LTD
1434	U55101DL1994PTC060181	REEAA HOTEL AND RESTURANT PVT LTD
1435	U99999DL1994PTC060225	R.S. ROADLINES PVT LTD
1436	U99999DL1994PTC060253	TECHCREED (INDIA) LIMITED
1437	U74899DL1994PTC060286	PLANT MAREKTING INDIA PRIVATE LIMITED
1438	U67120DL1994PTC060407	KLR SECURITIES PVT LTD

1439	U17112DL	1994PLC060549	ADHUNIK TEXTILES PVT. LTD.
1440	U99999DL	1994PTC060551	MEHAR EXIM PVT LTD
1441	U99999DL	1994PTC060578	SFS INVESTMENT AND FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1442	U67120DL	1994PTC060612	SAKUJA SECURITIES PVT. LTD.
1443	U99999DL	1994PTC060754	TRENDY TROPICAL FOODS LTD
1444	U99999DL	1994PTC060839	BARKLAYS FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
1445	U99999DL	1994PTC061025	GANPATI AIR PVT LTD
1446	U99999DL	1994PTC061082	PAVISH OVERSEAS INDIA PVT LTD
1447	U70101DL	1994PTC061198	ANIR ESTATE PVT LTD
1448	U74899DL	1994PTC061202	MEHRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1449	U51398DL	1994PTC061284	STONE PRODUCTS (INDIA) PVT LTD.
1450	U65992DL	1994PTC061319	DAVAR CHITS PVT. LTD.
1451	U99999DL	1994PTC061370	AXIS SOFTWARE AND SHARE SERVICES PVT LTD
1452	U32109DL	1994PTC061468	C AND COMPETENT ELECTRONICS PVT LTD
1453	U17222DL	1994PTC061488	AMERINO PVT LTD
1454	U74899DL	1994PTC061577	S K MEHRAS MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
1455	U74999DL	1994PTC061624	AERO INSULATION INDIA PVT LTD
1456	U31907DL	1994PTC061666	HEXAGON VISUAL COMMUNICATION PVT LTD
1457	U99999DL	1994PTC061711	MANALI TRAVELS AND TOURS PVT LTD
1458	U99999DL	1994PTC061723	HARIOM FOODS PVT LTD
1459	U18101DL	1994PTC061736	DEEPIKA FASHION PVT LTD
1460	U99999DL	1994PTC061832	SUN GLAZE ABRESIVES INDIA LTD
1461	U67120DL	1994PTC061839	JAGGI FINANCE AND INVESTMENTS PVT. LTD.
1462	U74899DL	1994PTC061906	LPR SALES PRIVATE LIMITED
1463	U74899DL	1994PTC061909	TASHIMA MARKETING AND CONSULTANCY PVT LTD
1464	U99999DL	1994PTC061913	FINON FINANCIAL AND CAPITAL SERVICES LTD
1465	U99999DL	1994PTC062047	DRUK CONSULTANTS PVT LTD
1466	U74899DL	1994PTC062128	COMFORTABLE GROWTH FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1467	U74899DL	1994PLC062138	ESCORTS HEALTH CARE SERVICES LIMITED
1468	U74899DL	1994PTC062153	BEE ESS AIR AND SHIPPING CARGO AGENTS PVT LTD
1469	U31300DL	1994PTC062208	RISHI ENTERPRISES PVT LTD
1470	U74899DL	1994PTC062292	DOLPHIN COATINGS PVT LTD
1471	U65921DL	1994PTC062335	TAPS PROPERTIES AND CONSULTANTS PVT LTD
1472	U29919DL	1994PTC062473	INDWES TUBETECH PVT LTD
1473	U74899DL	1994PTC062499	SWIFT NETWORKING PRIVATE LIMITED
1474	U74899DL	1994PTC062504	SHIKHAR MARKETING PRIVATE LIMITED
1475	U67120DL	1994PTC062517	AM-PRO GROUP HOLDINGS PVT LTD
1476	U14101DL	1994PTC062535	OASIS MARBRE PVT LTD
1477	U51311DL	1994PTC062560	SHRISTI SYNTHETICS PVT LTD
1478	U24244DL	1994PTC062658	RICHMAN COSMETICS PVT LTD
1479	U19122DL	1994PTC062735	BENISON LEATHER INDIA PVT LTD
1480	U74899DL	1994PTC062760	B N RUBBER PVT LTD
1481	U99999DL	1994PTC062767	NIROS COMFORTS PVT LTD
1482	U99999DL	1994PTC062850	ALTRA MODE PRINTS PVT LTD
1483	U74899DL	1994PLC062851	ESTEEM LEASING LIMITED

1484	U74920DL1994PTC062881	DUNHILL SECURITY SERVICES PVT LTD
1485	U74899DL1994PLC062904	ESTEEM CAPITAL SERVICES LTD.
1486	U15531DL1994PTC062906	FALCON DISTILLERIES AND BREWEIRES PVT LTD
1487	U67120DL1994PTC062927	TRIPATHI SECURITIES AND COMMERCE PVT LTD
1488	U99999DL1994PTC062983	URMASH INVESTMENT AND SECURITIES PVT. LTD.
1489	U67120DL1994PTC062988	AANDA SECURITIES PVT LTD
1490	U99999DL1994PTC063049	FORTUNE GEL LIMITED
1491	U55101DL1994PTC063094	PANCHSHEEL HOTELS AND RESORTS PVT. LTD.
1492	U74999DL1994PTC063281	ABHIJEET ASSOCIATES PVT. LTD.
1493	U74899DL1994PTC063292	SUPER STARLINE AUTOMOBILES PVT LTD
1494	U17299DL1994PTC063403	PRAG COTSPIN PVT. LTD.
1495	U99999DL1994PTC063499	CONCEPTION ENTERPRISES (H.K.) LTD.
1496	U74999DL1994PTC063610	SOUNDIC (INDIA) PVT LTD.
1497	U67120DL1994PTC063675	M AND M PORTFOLIO PVT. LTD.
1498	U74140DL1994PTC063695	MOIDORE SERVICES PVT. LTD.
1499	U55101DL1994PTC063699	CHAWLAS CHIC-INN-RESTAURANT PVT. LTD.
1500	U74899DL1994PTC063735	BANQUET ACQUA MINERALS LTD
1501	U70101DL1994PTC063744	NEELANCHAL DEVELOPERS PVT. LTD.
1502	U74999DL1994PTC063779	NOVELY EXPORTS PVT. LTD.
1503	U99999DL1994PTC063781	VERMA GRAPHICS PVT. LTD.
1504	U41000DL1994PTC063798	AARSNAL RESOURCE DEVELOPMENT AND MANGAEMENT PVT. LTD.
1505	U74899DL1994PTC063799	ZOOM SAVVY PHARMACEUTICALS INDIA PVT LTD
1506	U63040DL1994PTC063837	KANAV AIR SERVICES PVT. LTD.
1507	U74899DL1994PTC063843	KANHAIYA PLANTATION PVT LTD
1508	U74899DL1994PTC063888	CHARU SALES PVT LTD
1509	U67120DL1994PTC063914	PRADHAN FINLEASE PV TLTD
1510	U74899DL1995PTC063968	KINETIC BUILDERS PVT LTD
1511	U74899DL1995PTC064006	MANDI CONSTRUCTIONS PVT LTD
1512	U51211DL1995PTC064042	RICCI EXPORTS PVT. LTD.
1513	U31200DL1995PTC064070	PREMIER CONTROL ENGINEERS PVT. LTD.
1514	U99999DL1995PTC064120	HSML FINANCE LTD.
1515	U74899DL1996PTC064280	CKM AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
1516	U99999DL1995PTC064340	PAUL CAOCH SERVICES PVT. LTD.
1517	U74899DL1995PTC064449	MINDSEYE INFORMATION SYSTEMS PVT LTD
1518	U99999DL1995PTC064601	RASIWASIA FINANCE LTD.
1519	U51494DL1995PTC064618	PRADHAN EXIM PVT LTD
1520	U67120DL1995PTC064623	GOLD WORTH HOLDING PVT. LTD.
1521	U99999DL1995PTC064630	ANJUSHREE EXPO PVT LTD
1522	U99999DL1995PTC064640	MUKUL FINVEST (INDIA) LTD.
1523	U50102DL1995PTC064663	SEIGNIOR TRADERS PVT. LTD.
1524	U67110DL1995PTC064853	BOLUSANI ENTERPRISES PVT. LTD.
1525	U17222DL1995PTC064868	ART EMPORIUM PVT. LTD.
1526	U99999DL1995PTC064882	SHIVALIK PETROLEUM LTD
1527	U67120DL1995PTC065004	GURU HARKISHAN INVESTMENT AND LEASING PVT. LTD.
1528	U67120DL1995PTC065062	VOLCANO INVEST AND SOFTWARE PVT. LTD.

1529	U99999DL	1995PTC065087	AGROGOLD PLANTATIONS AND RESORTS LTD.
1530	U65929DL	1995PTC065110	NEWERA CAPITAL AND FINANCE PVT. LTD.
1531	U99999DL	1995PTC065118	SURINDRA FINCAP PVT. LTD.
1532	U74899DL	1995PLC065179	VKL SECURITIES FINANCE LTD
1533	U99999DL	1995PTC065190	DEW DROPS ORGANICS LTD
1534	U74899DL	1995PTC065268	AROHA VINYL PRIVATE LIMITED
1535	U74899DL	1995PTC065301	VITE PIGEONS PVT LTD.
1536	U74899DL	1995PTC065341	ARJAY TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1537	U99999DL	1995PTC065366	VERTEX ELEVATOR INDIA LTD.
1538	U99999DL	1995PTC065379	CHEERWORTH ESTATES PVT. LTD.
1539	U65910DL	1995PTC065415	L.K. FINLEASE PVT. LTD.
1540	U99999DL	1995PTC065422	VMM INVESTMENTS PVT. LTD.
1541	U36999DL	1995PTC065452	DHARSONS M AND R INDIA PVT. LTD.
1542	U74899DL	1995PLC065537	ZAKKI EXPORTS LIMITED
1543	U74899DL	1995PTC065631	B A T A INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1544	U99999DL	1995PTC065779	STAR BLDG. AND MAINTENANCE SERVICES PVT. LTD.
1545	U92114DL	1995PTC065800	ARUN KAUL PRODUCTIONS PVT. LTD.
1546	U99999DL	1995PTC065916	CHEMIMAS INDIA LTD.
1547	U99999DL	1995PTC065924	UMESNEH SECURITIES PVT LTD
1548	U67120DL	1995PTC066086	ARIHANT SHARE SERVICES PVT.LTD.
1549	U74899DL	1995PLC066095	SEAGULL PORTFOLIO LIMITED
1550	U99999DL	1995PTC066098	MODI COMMUNICATION SERVICES LTD.
1551	U99999DL	1995PTC066102	SEAGULL OVERSEAS LTD.
1552	U99999DL	1995PTC066130	RGR TRANSPORT PVT. LTD.
1553	U74899DL	1995PTC066155	DIFFERENT HUES EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
1554	U74140DL	1995PTC066174	M M FINAD PVT. LTD.
1555	U67110DL	1995PTC066203	PRECISION FINCAP PVT. LTD.
1556	U50101DL	1995PTC066364	EFFICIENT MOTORS PVT. LTD.
1557	U99999DL	1995PTC066392	DURGA TECHNOLOGIST PVT. LTD.
1558	U45210DL	1995PTC066415	KANWAR CONSTRUCTION PVT. LTD.
1559	U67120DL	1995PTC066523	BIG SHOWS INDIA PVT. LTD.
1560	U99999DL	1995PTC066529	NIRVAN CAPITAL AND FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1561	U99999DL	1995PTC066589	SHIKHAR SECURITIES AND FINANCE LTD.
1562	U99999DL	1995PTC066594	HORIZON LEASFIN PVT. LTD.
1563	U74899DL	1995PTC066608	UNNAT AGROCHEM PRIVATE LIMITED
1564	U99999DL	1995PTC066658	VISHAL FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
1565	U99999DL	1995PTC066753	DHAULADHAR TRAVEL SERVICES PVT. LTD.
1566	U74899DL	1995PTC066814	BAJAJ BUILDERS PRIVATE LIMITED
1567	U74899DL	1995PTC066851	T.M.A. FINANCE PVT. LTD.
1568	U74899DL	1995PLC066917	HANUNG TOYS LIMITED
1569	U74899DL	1995PTC066979	MASONS KWALITY DEVELOPERS PVT LTD
1570	U99999DL	1995PTC066997	DYNAMIC GARMENTS PVT. LTD.
1571	U99999DL	1995PTC067090	REGAL MEDICURE PVT. LTD.
1572	U65929DL	1995PTC067187	HPC FINANCE AND LEASING PVT. LTD.
1573	U99999DL	1995PTC067229	JAG MAHAVIRA TRADING PVT. LTD.

1574	U45201DL1995PTC067242	KRANTI ESTATES PVT. LTD.
1575	U72900DL1995PTC067265	MULTICOM INDIA PVT. LTD.
1576	U99999DL1995PTC067313	BHAGYASHREE FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
1577	U99999DL1995PTC067382	TABA CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
1578	U74899DL1995PTC067426	CHINAR EXIM PRIVATE LIMITED
1579	U99999DL1995PTC067435	PARAGON INVESTIGATIONS PVT. LTD.
1580	U99999DL1995PTC067532	BLOOMEN FLORA (INDIA) LTD.
1581	U99999DL1995PTC067539	VRM DISTRIBUTORS LIMITED
1582	U74899DL1995PTC067575	SHAKTI FINLEASE PVT LTD
1583	U21014DL1995PTC067636	PCM ENGINEERING PVT. LTD.
1584	U99999DL1995PTC067668	NRM TYRES LTD
1585	U31101DL1995PTC067752	BLACK EMERALD INDIA PVT LTD.
1586	U31909DL1995PTC067780	YASHI ENGINEERS PVT. LTD.
1587	U22219DL1995PTC067785	MULTICOM INTERACTIVE PVT. LTD.
1588	U74899DL1995PTC067973	TRISHUL SECURITIES PRIVATE LIMITED
1589	U74899DL1995PTC067977	LINOXI PLANTATION PRIVATE LIMITED
1590	U35111DL1995PTC067983	SEALINKS MARITIME (INDIA) PVT. LTD.
1591	U99999DL1995PTC068040	SUBHAM FINCAP PVT. LTD.
1592	U51909DL1995PLC068089	COMMODITIES MARKTING INDIA PVT LTD
1593	U99999DL1995PTC068174	META MEDIA INDICA PVT. LTD.
1594	U99999DL1995PTC068218	JINDAL GLOBAL FINANCIAL SERVICES LTD.
1595	U99999DL1995PTC068232	RAUNS OVERSEAS PVT. LTD.
1596	U63040DL1995PTC068257	COCO OVERSEAS PVT. LTD.
1597	U74899DL1995PTC068284	POISE TRAVELS PRIVATE LIMITED
1598	U99999DL1995PTC068289	GHANSHAYAM AGRO PVT. LTD.
1599	U65929DL1995PTC068299	HARSH LEASING AND FINANCE PVT. LTD.
1600	U99999DL1995PTC068352	VANISH OVERSEAS PVT. LTD.
1601	U99999DL1995PTC068407	AVRO FINANCIAL SERVICES LTD.
1602	U63040DL1995PTC068522	RUDRA TRAVEL JUNCTION PVT. LTD.
1603	U24231DL1995PTC068526	READY STOCK MEDEQUIP (INDIA) PVT. LTD.
1604	U74899DL1995PTC068635	STEEL PERFORATORS (INDIA) PVT. LTD.
1605	U99999DL1995PTC068665	EQUITORIAL SECURITIES PVT. LTD.
1606	U74899DL1995PTC068683	FAR HORIZON TRAVELS PRIVATE LIMITED
1607	U67120DL1995PTC068732	CHHETRI INVESTMENTS AND SECURITIES PVT. LTD.
1608	U65923DL1995PTC068755	SUKHMANI FINANCE PVT. LTD.
1609	U99999DL1995PTC068790	ALL STATE AGRICULTURE PVT. LTD.
1610	U74899DL1995PLC068799	SEAL FINANCE LIMITED
1611	U72300DL1995PTC068836	SYSTEMS DATAMATICS PVT. LTD.
1612	U99999DL1995PTC069000	RAJ RAJESHWARI FINLEASE LTD.
1613	U74899DL1995PTC069036	COMPUTER VILLA (INDIA) PRIVATE LIMITED
1614	U99999DL1995PTC069072	BRINELL SECURITIES LTD.
1615	U74899DL1995PTC069148	DIAMOND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1616	U99999DL1995PTC069149	SUNILA FINANCIAL SERVICES LTD.
1617	U74899DL1995PTC069257	SARIN FARMS PRIVATE LIMITED
1618	U74899DL1995PTC069301	ALKA IMPEX PRIVATE LIMITED

1619	U74899DL1995PTC069316	AMRIT WINES PVT LTD
1620	U74899DL1995PLC069370	ESCORTS TELECOM SERVICES LIMITED
1621	U74899DL1995PTC069398	METRO FRIENDS AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
1622	U27201DL1995PTC069487	JAI SHRI RAM METAL INDUSTRIES (P) LTD.
1623	U74899DL1995PTC069505	STOCKS R US PVT LTD
1624	U74899DL1995PTC069528	INVEX FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1625	U99999DL1995PTC069561	SAMSUN EXPORTS PVT. LTD.
1626	U99999DL1995PTC069577	TRIBHUVAN CREDITS LPVT LTD
1627	U67120DL1995PTC069578	SHRESHTHA HOLDINGS PVT LTD
1628	U99999DL1995PTC069710	AOSL STOCK BROKERS LTD.
1629	U99999DL1995PTC069816	ABRENT TRADING AND INVESTMENTS LTD.
1630	U67120DL1995PTC069843	PANDA SECURITIES PVT. LTD.
1631	U51102DL1995PTC069870	SUSAJOM EXPORTS PVT LTD.
1632	U99999DL1995PTC069881	AANCHAL ENTERPRISES (P) LTD.
1633	U99999DL1995PTC069882	TOUCH WOOD FINANCIALSERVICES LTD.
1634	U74899DL1995PTC069916	RAJEEV MINERALS PVT LTD
1635	U99999DL1995PTC069937	MEGA POWER DIESELS PVT. LTD.
1636	U45201DL1995PLC069943	MPG CONSTRUCTION PVT. LTD.
1637	U74899DL1995PTC069988	FINSTOCK INVESTMENTS (INDIA) PVT LTD
1638	U74899DL1995PTC069994	KUNJ INFORMATICS PRIVATE LIMITED
1639	U99999DL1995PTC070009	GENESIS GLOBAL LTD.
1640	U74899DL1995PTC070012	BEST CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
1641	U74899DL1995PTC070019	BEST CONTRACTOR PRIVATE LIMITED
1642	U99999DL1995PTC070052	PASUPATI SECURITIES LTD.
1643	U67120DL1995PTC070053	ORIENTAL CREATIONS PVT. LTD.
1644	U33301DL1995PTC070055	NEMEX INDIA PVT. LTD.
1645	U99999DL1995PTC070202	NANDAY CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
1646	U99999DL1995PTC070209	KUSH ESTATES PVT. LTD.
1647	U99999DL1995PTC070252	ISSO FABS EXPORTS PVT LTD
1648	U65992DL1995PTC070263	OM SHIV SAI CHITS PVT. LTD.
1649	U63040DL1995PTC070343	N.I. AIR TRAVEL SERVICE PVT. LTD.
1650	U99999DL1995PTC070353	CONTINENTAL TEX PRINTS PVT. LTD.
1651	U67120DL1995PTC070365	APT SECURITIES PVT. LTD.
1652	U74899DL1995PTC070377	PASUPATI HOLDINGS PVT LTD
1653	U99999DL1995PTC070436	SEHGAL IMPEX PVT. LTD.
1654	U74899DL1995PTC070536	R D EXPORTS PVT LTD
1655	U99999DL1995PTC070583	INTERSTAR SECURITIES LIMITED
1656	U18101DL1995PTC070607	SUNDER ASHITA TEXTILE COMPANY PVT. LTD.
1657	U74899DL1995PTC070629	INLIKE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1658	U99999DL1995PTC070668	PROMPT ELECTRONIC SYSTEMS LTD.
1659	U74899DL1995PTC070681	CAREWELL HOLDING PVT LTD.
1660	U65929DL1995PLC070769	ADDFIN LEASING AND HOLDING PVT. LTD.
1661	U74899DL1995PTC070781	GENUINE BUILDERS PRIVATE LIMITED
1662	U31200DL1995PTC070827	INFLUX ELECTRONICS (INDIA) PVT. LTD.
1663	U47101DL1995PTC070845	GREEN VIEW PROMOTERS PVT. LTD.



1664	U51909DL1995PTC070861	MAGNIFIQUE IMPEX PVT. LTD.
1665	U99999DL1995PTC070866	MUKESH SURFACE TRANSPORT LTD
1666	U74899DL1995PTC071107	ALICE FINCAP PVT LTD
1667	U65999DL1995PTC071154	YELLOW ROSE FINANCE AND INVESTMENT PVT. LTD.
1668	U11101DL1995PTC071170	MODI LUBRICANTS PVT. LTD.
1669	U35301DL1995PTC071307	PENCH POWER SERVICES PVT LTD
1670	U22121DL1995PTC071325	SEGMENT BOOK DISTRIBUTORS PVT. LTD.
1671	U18109DL1995PLC071327	PUNJAB BEARING CENTER PVT. LTD.
1672	U74899DL1995PTC071342	CITY OPTICIANS PRIVATE LIMITED
1673	U99999DL1995PTC071397	IJB INVESTMENTS PVT. LTD.
1674	U45201DL1995PTC071401	A.S. BUILDERS PVT. LTD.
1675	U99999DL1995PTC071421	R.R.B. PROFESSIONAL SERVICES PVT. LTD.
1676	U99999DL1995PTC071441	FIRST FRONT HOLDINGS PVT. LTD.
1677	U31101DL1995PTC071495	SECURE POWERTECH PVT. LTD.
1678	U99999DL1995PTC071560	A.V. LEASING AND FINANCE PVT. LTD.
1679	U99999DL1995PTC071562	RIMPSUN LEASING AND FINANCE PVT. LTD.
1680	U51109DL1995PTC071632	BODY BEST APPARELS PVT. LTD.
1681	U74300DL1995PTC071645	VICTORIA PUBLICITY PVT. LTD.
1682	U74899DL1995PTC071786	YLM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1683	U18101DL1995PTC071810	DEVIKA EXPORTS PVT. LTD.
1684	U30007DL1995PTC071836	NILAY COMPUTRONIX CONSULTANTS PVT. LTD.
1685	U99999DL1995PTC071873	ACCESS INVESTMENTS PVT LTD
1686	U51909DL1995PTC071944	SUKHMANI TRADE AND TOURS (P) LTD.
1687	U67120DL1995PTC072015	KLM FIN-VEST PVT. LTD.
1688	U99999DL1995PTC072126	CHEMIMAS ORGANICS LTD.
1689	U99999DL1995PTC072127	CHEMIMAS ENGINEERING LTD.
1690	U99999DL1995PTC072160	VERTEX INFOTECH PVT. LTD.
1691	U99999DL1995PTC072175	APPROACH INVESTMENT AND FINANCE PVT. LTD.
1692	U36999DL1995PTC072208	SUBROS-ASEC (INDIA) PVT. LTD.
1693	U74899DL1995PTC072224	RCM INVESTMENT NETWORK PRIVATE LIMITED
1694	U99999DL1995PTC072248	BLUECHIP FINLEASE PVT. LTD.
1695	U51311DL1995PTC072265	T M H MERCANDISING HOUSE PVT. LTD.
1696	U60210DL1995PTC072312	TRITAN TRAVELS PVT LTD.
1697	U10200DL1995PTC072358	PEE EL SONS COAL SALES PVT. LTD.
1698	U74899DL1995PTC072374	ISHWAR LEASEFIN PRIVATE LIMITED
1699	U74899DL1995PTC072404	RAJRATH SOFTWARES AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1700	U51211DL1995PTC072433	INCOM TRADING PVT. LTD.
1701	U99999DL1995PTC072498	RABCON (INDIA) PVT. LTD.
1702	U99999DL1995PTC072502	KMM DRUGS AGENCIES PVT. LTD.
1703	U99999DL1995PTC072519	SHIVA SHAKTI SERVICES PVT. LTD.
1704	U99999DL1995PTC072563	P.M.C. KNITS LTD.
1705	U63013DL1995PTC072700	ORBIT CARGO PVT. LTD.
1706	U99999DL1995PTC072849	APOORV ELECTRONICS PVT. LTD.
1707	U74899DL1995PTC072875	COSTPLUS VILAS PRIVATE LIMITED
1708	U99999DL1995PTC072954	RAJ SUNHIL CHITS PVT. LTD.

1709	U99999DL	1995PTC072962	SANYO FINANCE AND INVESTMENT PVT. LTD.
1710	U99999DL	1995PTC072967	SHAGUN LABORATORIES PVT. LTD.
1711	U74899DL	1995PTC072974	ROSHNI RESORTS PVT. LTD.
1712	U99999DL	1995PTC073065	MORUS CHEMICALS PVT. LTD.
1713	U32204DL	1995PTC073091	SHUBKIRAN CHITS PVT. LTD.
1714	U63040DL	1995PTC073095	REAL TOURISM (INDIA) PVT. LTD.
1715	U99999DL	1995PTC073123	AJANTA PLASTICS PVT. LTD.
1716	U99999DL	1995PTC073193	ASSOCIATED PROPERTIES PVT. LTD.
1717	U73100DL	1995PTC073199	RAM GANGA SEEDS PVT LTD
1718	U99999DL	1995PTC073224	E.I. SECURITIES PVT. LTD.
1719	U99999DL	1995PTC073280	COCO FINLEASE LTD.
1720	U99999DL	1995PTC073337	KAILASHPATI FINANCE AND LEASING LTD.
1721	U74899DL	1995PTC073357	GOELA SONS FINVEST PVT LTD
1722	U67110DL	1995PTC073441	J G G PORTFOLIO PVT. LTD.
1723	U65993DL	1995PTC073443	KASTURI HOLDINGS PVT. LTD.
1724	U99999DL	1995PTC073449	CALIFORNIA DESIGN AND CONSTRUCTION INDIA LTD.
1725	U99999DL	1995PTC073475	FUTURE GOLD SECURITIES PVT. LTD.
1726	U70101DL	1995PTC073485	BHIKAJI DEVELOPERS PVT LTD.
1727	U70101DL	1995PTC073487	BHIKAJI PROMOTERS PVT LTD.
1728	U99999DL	1995PTC073498	DWARKESH MUTUAL BENEFIT COMPANY LTD
1729	U99999DL	1995PTC073580	INTERGRAPH EXPORTS PVT. LTD.
1730	U74899DL	1995PTC073638	M-RAMAN METCHEM PRIVATE LIMITED
1731	U74899DL	1995PLC073663	KAMANI FINLEASEM AND INVESTMENT LTD.
1732	U99999DL	1995PTC073666	RMS FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
1733	U99999DL	1995PTC073785	R.J. HOTELS LTD.
1734	U99999DL	1995PTC074050	BIGOVESA LINI HEALTHCARE (INDIA) LIMITED
1735	U32109DL	1995PTC074078	LAMAS ELECTRONICS PVT. LTD.
1736	U99999DL	1995PTC074104	SANARTI SAFETY EQUIPMENT PVT LTD
1737	U74899DL	1995PTC074114	INNOVATIVE ESTATES PRIVATE LIMITED
1738	U51311DL	1995PTC074160	STIRLING-COOPER APPARELS PVT. LTD.
1739	U70101DL	1995PTC074192	REGLANT ESTATES PVT. LTD.
1740	U74899DL	1995PTC074218	SUNEHLI FLORITECH PRIVATE LIMITED
1741	U92111DL	1995PTC074251	AMALIN CINEGRAPHICS INDIA PVT. LTD.
1742	U74899DL	1995PTC074267	HB EXIMCO PRIVATE LIMITED
1743	U74899DL	1995PTC074275	REVEL INTERNATIONAL PVT LTD
1744	U99999DL	1995PTC074298	T.C.G. POWER LTD.
1745	U74899DL	1995PTC074306	KANHA GREEN FIELDS PRIVATE LIMITED
1746	U74899DL	1995PLC074352	RAYMUS TELESTUDIOS LIMITED
1747	U74899DL	1995PTC074377	SHIVALI FLORA PVT LTD
1748	U99999DL	1995PTC074402	SUTECH INDIA PVT. LTD.
1749	U99999DL	1995PTC074430	IEM INDIA LTD.
1750	U63013DL	1995PTC074494	ONWAY EXPRESS PVT. LTD.
1751	U74899DL	1995PTC074500	NOISECON INDIA PVT LTD
1752	U65992DL	1995PTC074506	AKANSHA CHITS PVT. LTD.
1753	U99999DL	1995PTC074513	RASTOGI FINSEC PVT LTD

1754	U74920DL1995PTC074600	POISE SECURITY CONSULTANTS PVT. LTD.
1755	U99999DL1995PTC074665	PELIKAN COMMUNICATIONS PVT. LTD.
1756	U99999DL1995PTC074677	SANG FROID FINANCIAL SERVICES P.LTD.
1757	U99999DL1995PTC074694	ANMOL DEVELOPERS PVT. LTD.
1758	U74899DL1995PTC074777	STYLISH ADVERTISING AND MARKETING SERVICES PVT LTD
1759	U99999DL1995PTC074802	SPRINT OVERSEAS PVT LTD
1760	U74899DL1995PTC074806	JSB LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1761	U99999DL1995PTC074809	OJAL CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
1762	U74899DL1995PTC074866	TAJPURIA INDIA PRIVATE LIMITED
1763	U99999DL1995PTC074878	CAPPE PROMOTERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.
1764	U74899DL1995PTC074979	TAJPURIA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1765	U63022DL1995PTC075011	PARMANAND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1766	U31200DL1996PTC075097	MODLEC CONTROLS (INDIA) PVT LTD
1767	U65910DL1996PTC075135	TAJPURIA FINCAP PRIVATE LIMITED
1768	U99999DL1996PTC075142	KAVERI GANGA FINVEST PRIVATE LIMITED
1769	U24246DL1996PTC075151	EVES NATURE CARE PRIVATE LIMITED
1770	U99999DL1996PTC075166	DEE PEE HORTICULTURE AND AGRO DEVELOPMENT LTD.
1771	U99999DL1996PTC075173	RENE EDUCTORS AND CONVEYING SYSTEM PVT. LTD.
1772	U99999DL1996PTC075177	ALL ALLUMINIUM ALLOYS CASTINGS PVT. LTD.
1773	U51909DL1996PTC075191	SINGHAL MULTISERVICES PVT. LTD.
1774	U99999DL1996PTC075239	JAGARTI SECURITIES PVT. LTD.
1775	U21012DL1996PLC075247	JEEVAN MEDIA INDIA LTD.
1776	U99999DL1996PTC075263	TRADEMEN (INDIA) PVT LTD
1777	U24139DL1996PTC075264	SAKURA MARKETING PVT LTD
1778	U51505DL1996PTC075302	RELIANT IMPEX PVT LTD
1779	U67120DL1996PTC075304	L.D.G. HOLDINGS PVT. LTD.
1780	U99999DL1996PTC075339	GOLDCROP SECURITIES PVT. LTD.
1781	U99999DL1996PTC075346	CENTURY REALTORS PVT. LTD.
1782	U99999DL1996PTC075355	ARYAN MOULDINGS PVT. LTD.
1783	U99999DL1996PTC075441	YOUNG BLOOD FINANCE PVT LTD
1784	U99999DL1996PTC075451	JMC TAPEX PVT. LTD.
1785	U99999DL1996PTC075527	TULA SECURITIES PVT. LTD.
1786	U99999DL1996PTC075549	SANDESH CONTROLS AND SYSTEMS PVT. LTD.
1787	U99999DL1996PTC075564	SHEENCOM INFOTECH PVT. LTD.
1788	U99999DL1996PTC075575	MEGA PERT TECHNOLOGIES PVT. LTD.
1789	U65910DL1996PLC075588	SINDHUJA FINLEASE INDIA LTD.
1790	U99999DL1996PTC075678	SUNARK DEVELOPERS PVT. LTD.
1791	U99999DL1996PTC075693	SATYABAL ELECTRONICS PVT LTD
1792	U01119DL1996PLC075696	SKD FLORITECH LTD.
1793	U60231DL1996PTC075699	SUNRISE FREIGHT LINKERS PVT LTD
1794	U99999DL1996PTC075733	AN GEE PHARMA CO. PVT. LTD.
1795	U65910DL1996PLC075734	SUNSTAR FINANCIAL SERVICES LTD.
1796	U99999DL1996PTC075741	SHRIYANS IMPEX PVT. LTD.
1797	U99999DL1996PTC075743	MICRO MARITIMES INDIA PVT. LTD.
1798	U99999DL1996PTC075759	KRITIKA APPARELS PVT LTD.

1799	U99999DL	1996PTC075762	SHAMMI ELECTRONICS PVT. LTD.
1800	U99999DL	1996PTC075763	DEWAN CHAND ASSOCIATES PVT. LTD.
1801	U99999DL	1996PTC075765	SANAM LABELS PVT LTD.
1802	U65910DL	1996PTC075790	ANNPURNA FINLEASING PVT LTD
1803	U70101DL	1996PTC075795	VARIETY ESTATES PVT LTD
1804	U29303DL	1996PTC075813	D P AIRON PRIVATE LIMITED
1805	U99999DL	1996PTC075860	NIKHANJ FINANCE PVT. LTD.
1806	U99999DL	1996PTC075876	MALTERS REAL ESTATE DEVELOPERS PVT. LTD.
1807	U99999DL	1996PTC075887	N.B. OVERSEAS PVT. LTD.
1808	U99999DL	1996PTC076040	WIN-DB COMPUTER SOLUTIONS PVT. LTD.
1809	U99999DL	1996PTC076075	SATI PLANTATION PVT LTD
1810	U99999DL	1996PTC076115	BITUMEN EMULSION MANUFACTURERS (INDIA) PVT. LTD.
1811	U74090DL	1996PTC076155	ARIZONA ADVERTISING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
1812	U99999DL	1996PTC076162	SHEFA TECHNOLOGY PVT. LTD.
1813	U52311DL	1996PLC076187	EXTOL (INDIA) LIMITED
1814	U99999DL	1996PTC076274	PASSIVE CONTROLS PVT. LTD.
1815	U99999DL	1996PTC076276	PLAYTIME CREATIONS PVT. LTD.
1816	U67120DL	1996PTC076332	J J STOCKFIN PVT LTD
1817	U99999DL	1996PTC076361	STIC FINVEST LTD.
1818	U99999DL	1996PTC076406	MORAY SECURITIES PVT. LTD.
1819	U52322DL	1996PLC076423	LOTUS FILAMENTS LTD.
1820	U01122DL	1996PLC076464	PRUDENT RESORTS AND FLORIESTATES LTD.
1821	U36911DL	1996PTC076468	B K JEWELLERS POINT PVT LTD
1822	U99999DL	1996PTC076512	PRAJAT FINANCE AND LEASING PVT. LTD.
1823	U74999DL	1996PTC076518	VALLEY SMELTERS AND REFINERS PRIVATE LIMITED
1824	U99999DL	1996PTC076543	PEREGRINE TOOLS PVT. LTD.
1825	U99999DL	1996PTC076599	FOREMOST COMPUTER TECHNOLOGIES PVT LTD
1826	U99999DL	1996PTC076635	SVK ENTERPRISES PVT. LTD.
1827	U99999DL	1996PTC076643	SEWAK APARTMENTS PVT. LTD.
1828	U51397DL	1996PTC076680	ANUPRAV INTERNATIONAL PVT LTD
1829	U74899DL	1996PTC076720	KPS FINVEST PRIVATE LIMITED
1830	U65992DL	1996PTC076730	LAJWANTI CHITS PRIVATE LIMITED
1831	U99999DL	1996PTC076760	NKM GAUGES PVT. LTD.
1832	U52335DL	1996PLC076824	ARAMCO INDIA LTD.
1833	U99999DL	1996PTC076858	AMAN DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1834	U99999DL	1996PTC076864	DEE KAY TELECONSULT PVT. LTD.
1835	U99999DL	1996PTC076875	TANEJA SONS PVT. LTD.
1836	U99999DL	1996PTC076938	SANG FROID IMPEX PVT. LTD.
1837	U65922DL	1996PLC077026	IMPERIAL BUILDCON LTD.
1838	U99999DL	1996PTC077029	SABHARWAL HOSPITALITY SERVICES PVT. LTD.
1839	U51909DL	1996PTC077075	N K BHARGAVA AND COMPANY PRIVATE LIMITED
1840	U51505DL	1996PTC077083	ANCIENT TECHNO CRAFT PRIVATE LIMITED
1841	U55101DL	1996PTC077132	ARAM RESORTS PVT. LTD.
1842	U99999DL	1996PTC077140	CIRCLE POINT NEWSPRINTS PVT. LTD.
1843	U65992DL	1996PTC077150	TIDAL CHIT FUND PRIVATE LIMITED

1844	U99999DL1996PTC077196	TIMES EDUCATION PVT. LTD.
1845	U51909DL1996PTC077207	CATALYSE EXPORTS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1846	U92990DL1996PTC077220	VIJAYAN KANNAMPILLY PRIVATE LIMITED
1847	U99999DL1996PTC077266	BRS HOLDINGS PVT. LTD.
1848	U65921DL1996PTC077275	SHIVANGI CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1849	U01117DL1996PTC077314	RAJDHANI PLANTS PRIVATE LIMITED
1850	U36911DL1996PTC077323	AGRAWAL ART JEWELL PRIVATE LIMITED
1851	U99999DL1996PTC077353	BLACK CAT COMPUTER SERVICES PVT. LTD.
1852	U99999DL1996PTC077416	UNITED INDIA AGROCHEM PVT. LTD.
1853	U99999DL1996PTC077417	UNITED INDIA BUILD-CON PVT. LTD.
1854	U15419DL1996PLC077422	JAIHIND FOOD AND ALLIED PRODUCTS LTD.
1855	U25209DL1996PTC077465	P P M ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1856	U65923DL1996PTC077474	TANEJA FINLEASE PRIVATE LIMITED
1857	U99999DL1996PTC077488	PARTEK VISION INDIA PVT. LTD.
1858	U99999DL1996PTC077496	PS FINLEASE PVT. LTD.
1859	U65921DL1996PLC077554	FORECAST FINANCIAL MANAGEMENT LTD.
1860	U99999DL1996PTC077585	SUDITI FINANCE AND LEASING PVT. LTD.
1861	U99999DL1996PTC077592	NTM EXPORTS PVT. LTD.
1862	U99999DL1996PTC077594	ANKIT FINLEASE PVT. LTD.
1863	U99999DL1996PTC077822	MAHADEV FINLEASE PVT. LTD.
1864	U32204DL1996PLC077842	INLAB TELECOM LTD
✓ 1865	U70101DL1996PTC077861	CONNEX BUILDING AND ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
1866	U99999DL1996PTC077874	CERES AND CHIRON PVT. LTD.
1867	U99999DL1996PTC077917	RAMPUSHPLON PVT. LTD.
1868	U99999DL1996PTC077940	PRASHANT HOUSING AND FINANCE PVT. LTD.
1869	U99999DL1996PTC077949	HARD WOOD PLANTATIONS PVT. LTD.
1870	U99999DL1996PTC077958	RA CORPORATE SERVICES PVT. LTD.
1871	U99999DL1996PTC077990	MUDRA TRAVEL PVT. LTD.
1872	U99999DL1996PTC078018	NAMI AQUA FAUCETS PVT. LTD.
1873	U99999DL1996PTC078046	AAKRITI IMPEX PVT LTD
1874	U99999DL1996PTC078052	UMESNEH LEASING AND CREDITS PVT LTD.
1875	U99999DL1996PTC078085	TANEJA CHITS PVT. LTD.
1876	U32305DL1996PTC078097	BLOOMING DALES MUSIC PRIVATE LIMITED
1877	U99999DL1996PTC078099	BLOOMING DALES COATING PVT. LTD.
1878	U00000DL1996PTC078125	TREASURE CHEST INDIA PRIVATE LIMITED
1879	U99999DL1996PTC078204	PACIFIC AIRCON PVT. LTD.
1880	U99999DL1996PTC078208	KARAM CHAND CHUNI LAL JEWELLERS PVT. LTD.
1881	U99999DL1996PTC078215	MANCHANDA IMPEX PVT. LTD.
1882	U99999DL1996PTC078307	RISING STAR LAND DEVELOPERS PVT. LTD.
1883	U99999DL1996PTC078320	NIWAS AGRO AND COLD STORAGE PVT. LTD.
1884	U51224DL1996PTC078372	RAJDHANI HOUSE PRODUCTS PVT LTD
1885	U01122DL1996PTC078415	RAJDHANI FLORITEC PRIVATE LIMITED
1886	U51909DL1996PTC078420	ABLE NETWORK PVT LTD
1887	U99999DL1996PTC078433	RAJDHANI INDOFOODS PVT LTD
1888	U99999DL1996PTC078600	ASTRAL TELE FOUNDATION PVT. LTD.

1889	U99999DL1	1996PTC078622	PRITHVI PRAKRITI ESTATES (INDIA) PVT. LTD.
1890	U99999DL1	1996PTC078632	HYDRATEC ENGINEERS AND CONSULTANTS (INDIA) PVT. LTD.
1891	U99999DL1	1996PTC078633	SAVITA OVERSEAS PVT. LTD.
1892	U99999DL1	1996PTC078642	TOTAL TELECOM (I) PVT. LTD.
1893	U99999DL1	1996PTC078690	SAMISHA FINVEST LTD.
1894	U99999DL1	1996PTC078793	CDC TECHNOCRATS PVT. LTD.
1895	U99999DL1	1996PTC078800	ONYX OVERSEAS PVT. LTD.
1896	U99999DL1	1996PTC078802	ABSOLUTE FINCAP PVT. LTD.
1897	U99999DL1	1996PTC078806	WELL KNOWN FINVEST PVT. LTD.
1898	U99999DL1	1996PTC078816	WAXON AGRO CHEMICALS PVT. LTD.
1899	U33112DL	1996PTC078929	ZUCKERRX PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1900	U99999DL1	1996PTC078974	AFL TRAVELS AND TOURS PVT. LTD.
1901	U99999DL1	1996PTC078991	SANKET FINLEASIN AND MARKETING LTD.
1902	U85110DL	1996PLC079001	ASTRON LABORATORIES LTD
1903	U99999DL1	1996PTC079091	J.D. BROTHERS PVT. LTD.
1904	U99999DL1	1996PTC079098	CODE INDIA SYSTEMS PVT. LTD.
1905	U99999DL1	1996PTC079147	SUNCHASER OVERSEAS PVT. LTD.
1906	U67120DL	1996PTC079243	PAHUJA PARTH HOLDINGS PVT LTD
1907	U99999DL1	1996PTC079269	UNITED INDIA TREXIM PVT. LTD.
1908	U99999DL1	1996PTC079313	SAHIBJI BEARINGS COMPANY (INDIA) PVT. LTD.
1909	U99999DL1	1996PTC079376	TANYA TIN CONTAINERS PVT. LTD.
1910	U99999DL1	1996PTC079420	SOUTH TOWN BUILDERS PVT. LTD.
1911	U27106DL	1996PTC079478	SHRI DHARI STEEL ROLLING MILLS PVT LTD
1912	U99999DL1	1996PTC079571	FRIENDS FILMS PVT. LTD.
1913	U99999DL1	1996PTC079760	MERIGOLD LAND DEVELOPERS PVT. LTD.
1914	U99999DL1	1996PTC079769	SHREMAN AGRO FARMS PVT. LTD.
1915	U99999DL1	1996PTC079830	STANDARD BOOKS PVT. LTD.
1916	U99999DL1	1996PTC079843	DEENANK FINANCE PVT. LTD.
1917	U99999DL1	1996PTC079988	UNITED INDIA RESORTS AND CLUBS PVT. LTD.
1918	U99999DL1	1996PTC080004	AMSONS DISTRIBUTORS PVT. LTD.
1919	U99999DL1	1996PTC080031	AS NETCOM NETWORKS PVT. LTD.
1920	U99999DL1	1996PTC080064	SACHDEVA CONSULTANTS PVT. LTD.
1921	U99999DL1	1996PTC080115	SHIVANI TRADE LINKS PVT LTD
1922	U63040DL	1996PTC080205	LEXUS TRAVELS PRIVATE LIMITED
1923	U99999DL1	1996PTC080251	NEW JANTA CARRIERS PVT. LTD.
1924	U99999DL1	1996PTC080263	CONSORTIUM HOTELS PVT LTD
1925	U99999DL1	1996PTC080264	ASTRA ENGINEERING PVT LTD
1926	U99999DL1	1996PTC080265	RADHA KRSNA CHITS PVT. LTD.
1927	U67120DL	1996PTC080293	ESQUIRE FINCAP PVT LTD
1928	U99999DL1	1996PTC080302	PAINTAL AND CO PVT LTD.
1929	U93999DL	1996PTC080335	PSB PLANTATIONS LTD.
1930	U99999DL1	1996PTC080350	INTERNET FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
1931	U64202DL	1996PTC080377	CLOBALSTAR INDIA SATELLITE SERVICE PVT LTD
1932	U99999DL1	1996PTC080379	ABACUS EXPORTS PVT LTD
1933	U99999DL1	1996PTC080442	INCESSANT EXPORTS PVT. LTD.

1934	U99999DL1996PTC080467	LIFETIME HOUSING PVT. LTD.
1935	U99999DL1996PTC080475	LIFETIME GREEN (INDIA) PVT. LTD.
1936	U99999DL1996PTC080480	DENIM AUTOMOBILE INDUSTRIES PVT. LTD.
1937	U99999DL1996PTC080484	ARCH TRADING CO PVT LTD
1938	U99999DL1996PTC080625	ATN FINVEST (INDIA) PVT. LTD.
1939	U63031DL1996PTC080663	BABA ROAD CARRIER PVT LTD
1940	U99999DL1996PTC080774	ARYAVRATA ELECTRONICS (INDIA) PVT. LTD.
1941	U99999DL1996PTC080827	NAYAR AGRO REAP PVT. LTD.
1942	U99999DL1996PTC080847	UNITED HOSPITALITY SERVICES PVT LTD
1943	U99999DL1996PTC080901	HIMALAYA REALTORS PVT. LTD.
1944	U74300DL1996PTC080958	ENCOMPASS PRODUCTIONS PVT LTD
1945	U74899DL1996PTC080971	AEROBE MEDICARE PRIVATE LIMITED
1946	U99999DL1996PTC081014	ANANYA ORGANICS PVT. LTD.
1947	U67110DL1996PTC081057	EMPLOYEE DATA CONSULTING PRIVATE LIMITED
1948	U99999DL1996PTC081059	PURI INTERNATIONAL (BOMBAY) PVT. LTD.
1949	U99999DL1996PTC081202	LIFETIME SPORTS INDUSTRIES PVT LTD.
1950	U99999DL1996PTC081203	LIFETIME ELECTRONICS PVT LTD.
1951	U99999DL1996PTC081252	VALLEY POWER PROJECTS PVT LTD
1952	U51909DL1996PTC081268	SONA INTERIORS PVT LTD
1953	U31909DL1996PTC081269	INFO POWER SOLUTIONS PVT LTD
1954	U51909DL1996PTC081270	DATA AND POWER (I) PVT LTD
1955	U99999DL1996PTC081279	PEE AAR WIRES AND CABLES PVT. LTD.
1956	U99999DL1996PTC081285	STAR TECH PVT LTD
1957	U64201DL1996PTC081289	PACER SALORA LINTERNATIONAL PVT LTD
1958	U99999DL1996PTC081301	SAMBHAV STEELS PVT. LTD.
1959	U99999DL1996PTC081361	MEHMA EXPORTS PVT LTD
1960	U99999DL1996PTC081411	ROSHINI PORTFOLIOS PVT. LTD.
1961	U99999DL1996PTC081454	D AND R TRADERS PVT. LTD.
1962	U99999DL1996PTC081471	DELHI POLLUTION CONTROL PVT LTD
1963	U01111DL1996PLC081510	ZEE PLANTATIONS LTD
1964	U99999DL1996PTC081512	TV MEDIA (INDIA) SUBBA PVT. LTD.
1965	U62100DL1996PLC081589	RELAX IN FLIGHT LTD
1966	U99999DL1996PTC081647	NISAG FIRE SYSTEMS PVT LTD
1967	U99999DL1996PTC081653	KHURANA ESTEEM ENTERPRISES PVT. LTD.
1968	U99999DL1996PTC081672	X-CALIBUR COMMUNICATIONS PVT LTD
1969	U99999DL1996PTC081809	BRUSH AND WOODS MULTI MODE PUBLICITY PVT LTD
1970	U65910DL1996PTC081814	T L LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1971	U25209DL1996PTC081914	GOODWILL PLASTCHEM PRIVATE LIMITED
1972	U24239DL1996PTC081943	DEVBHOOI HERBALS PRIVATE LIMITED
1973	U74140DL1996PLC081978	MANAGEMENT PEOPLE (INDIA) LIMITED
1974	U99999DL1996PTC081984	JAISHIV MINERALS (INDIA) LTD
1975	U99999DL1996PTC082154	LOTUS TABLEWARE PVT LTD
1976	U99999DL1996PTC082210	AMIGO ENERGY SYSTEMS LTD.
1977	U51109DL1996PLC082226	SHAKTI SONS MERCHANDISER LTD.
1978	U99999DL1996PTC082232	RISHI AYUR DRUGS PVT LTD

1979	U01111DL	1996PLC082296	KRISHNA FLORITECH LTD
1980	U99999DL	1996PTC082361	MAXWORTH MERCANTILE PVT LTD
1981	U99999DL	1996PTC082387	MEDITERRANEAN EXPORTS PVT LTD
1982	U99999DL	1996PTC082401	ASRA FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.
1983	U99999DL	1996PTC082481	SONALI BUILDERS PVT LTD
1984	U99999DL	1996PTC082483	AQUATECH INTERNATIONAL LTD
1985	U99999DL	1996PTC082500	ABHIVADAN IMPEX AND TRADERS LTD.
1986	U45207DL	1996PLC082550	OMPAC INFRASTRUCTURE AND PROJECTS LIMITED
1987	U99999DL	1996PTC082552	RAMAN GRAPHICS PVT LTD
1988	U99999DL	1996PTC082610	ASHNIDHI TRADERS PVT LTD
1989	U74300DL	1996PTC082612	CREATIVE ROUTES PVT LTD
1990	U99999DL	1996PTC082618	PALLAVI HOUSING PVT. LTD.
1991	U51311DL	1996PTC082757	NOIDA EXPORTS PVT LTD
1992	U32109DL	1996PLC082830	AMI ELECTRONICS (PACIFIC) LTD
1993	U25209DL	1996PTC082984	PARSOL ELECTRO PLAST PVT LTD
1994	U99999DL	1996PTC083075	HYUNDAI POWER INDIA LTD
1995	U74210DL	1996PTC083101	SCV CONSULTANTS PVT LTD
1996	U74140DL	1996PTC083159	SNG OUT SOURCING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1997	U99999DL	1996PTC083319	KAMAKSHI LAMINATORS PVT. LTD.
1998	U99999DL	1996PTC083345	RADHA KRIPA HOLDINGS PVT LTD
1999	U74995DL	1996PLC083366	CUSTOMER COMMUNICATION SERVICES LIMITED
2000	U99999DL	1996PTC083424	SRV CONSULTANT PVT LTD.
2001	U52520DL	1996PLC083466	PRADHAN PRODUCTS AND MARKETING LTD
2002	U99999DL	1996PTC083479	POOJAJYOT ENGINEERS AND BUILDERS PVT. LTD.
2003	U99999DL	1996PTC083481	PRADHAN MUTUAL BENEFITS LTD
2004	U34300DL	1996PTC083516	LAKSHMI MILLENIUM PRIVATE LIMITED
2005	U55101DL	1996PLC083528	PRADHAN TOURISM AND RESORTS DEVELOPMENT LTD
2006	U67120DL	1996PTC083678	BRIJWASI FINCAP SERVICES PVT LTD
2007	U51311DL	1996PLC083688	SANARMA EXPORTS LTD.
2008	U74999DL	1996PTC083693	SCANDIA CONSULT (INDIA) PRIVATE LIMITED
2009	U99999DL	1996PTC083698	AUROVILLE ESTATES PVT LTD
2010	U65923DL	1996PTC083725	ROHINYA FINVEST AND LEASE PVT. LTD
2011	U63040DL	1996PTC083800	VARUN INTERNATIONAL PVT LTD
2012	U63102DL	1996PTC083839	ANAPURNA CARGO MOVERS PVT LTD
2013	U99999DL	1996PTC083842	PAPYRUS INDIA PVT.LTD.
2014	U99999DL	1996PTC083860	KRISHNASHISH FINANCERS PVT LTD
2015	U99999DL	1996PTC083864	ABHASHISH FINANCERS PVT LTD
2016	U50300DL	1996PTC083922	JAI BABA ROADLINES PRIVATE LIMITED
2017	U99999DL	1996PTC083925	MONARK FINVEST PVT LTD
2018	U99999DL	1996PTC083928	SANDHU STRUCTURES PVT LTD
2019	U99999DL	1996PTC083974	PARYAS TEXTILES PVT LTD
2020	U99999DL	1996PTC084038	SPEEDEX FARMS PVT.LTD.
2021	U99999DL	1996PTC084093	C.C.P. ESTATE PVT LTD
2022	U99999DL	1996PTC084100	KARMA HOUSING AND BUILDING (P) LTD.
2023	U99999DL	1997PTC084172	AMS OVERSEAS (PVT) LTD.



2024	U99999DL1997PTC084175	PARAM INFOTECHNOLOGIES PVT LTD
2025	U99999DL1997PTC084176	U-LIKE TRAVELS AND CARGO PVT LTD
2026	U99999DL1997PTC084255	JAGUAR HOTELS PVT.LTD.
2027	U99999DL1997PTC084300	DVAL DESIGNS PVT LTD
2028	U99999DL1997PTC084344	CELL FONE HIRE COMPANY INDIA PVT LTD
2029	U99999DL1997PTC084351	KRISHANAVTAR LEASING AND FINANCE PVT.LTD.
2030	U36104DL1997PTC084490	MAXIM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2031	U99999DL1997PTC084539	BINUR TOOLS INDIA PVT LTD
2032	U18101DL1997PTC084595	SANYA FASHIDNS PVT. LTD.
2033	U99999DL1997PTC084598	KARTIKEYA ESTATES PVT LTD
2034	U65921DL1997PLC084684	CDZY FINLEASE LTD.
2035	U74999DL1997PTC084813	EXSIN INDIA PVT.LTD.
2036	U26941DL1997PLC084826	PANJIM CEMENT LTD
2037	U99999DL1997PTC084827	FIRST LEATHER PVT LTD
2038	U99999DL1997PTC084889	MAPLE MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
2039	U99999DL1997PTC084927	A-DNE DIL MILLS (P) LTD.
2040	U67190DL1997PLC084936	DRISTI FINANCE LTD
2041	U99999DL1997PTC085051	JAGBRO FINLEASE (P) LTD.
2042	U99999DL1997PTC085145	RUSSKY DIESEL MEGAPOWER PVT LTD
2043	U51109DL1997PTC085158	MARVELDUS MARKETING AND ADVERTISING PVT LTD
2044	U29113DL1997PTC085196	STI-SPECIAL TECHNDLDGY INDUSTRIES PVT. LTD.
2045	U99999DL1997PTC085209	MODULAR INDIA PVT.LTD.
2046	U99999DL1997PTC085247	M.M. TECHNDCRATS PVT LTD
2047	U99999DL1997PTC085285	D.K. SALES PVT LTD
2048	U65993DL1997PTC085317	VARDAMAN HDLDING AND TRADING PRIVATE LIMITED
2049	U99999DL1997PTC085432	TANVIN ENTERPRISES PVT LTD
2050	U99999DL1997PTC085547	JSY SECURITY AND SERVICES PVT LTD
2051	U99999DL1997PTC085550	TEJ BANDHU FARMS PVT. LTD.
2052	U99999DL1997PTC085589	RAJ SHARE HDLDING PVT. LTD.
2053	U99999DL1997PTC085628	SRI DURGA CARRIERS (P)LTD.
2054	U67120DL1997PTC085632	GROOVY SECURITIES PRIVATE LIMITED
2055	U36992DL1997PTC085641	K RAJPAL FASTNERS PRIVATE LIMITED
2056	U99999DL1997PTC085687	ARISYS AUTDMATION PRIVATE LIMITED
2057	U99999DL1997PTC085694	AASTHA FDDDS PVT.LTD.
2058	U99999DL1997PTC085719	MALLIKA DEVELDPERS PVT. LTD.
2059	U99999DL1997PTC085720	TULLIKA PROPERTIES PVT. LTD.
2060	U99999DL1997PTC085818	MATRIX RESOURCES (INDIA) PVT.LTD.
2061	U99999DL1997PTC085858	PUSHAP EXPORTS PVT. LTD.
2062	U99999DL1997PTC085876	M.D. FINLEASE PVT LTD
2063	U92199DL1997PTC085959	EVENT MANAGEMENT CDMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED
2064	U67120DL1997PLC085968	SHREEJI FINCAP LTD
2065	U36911DL1997PLC086048	INDO STONE LTD
2066	U99999DL1997PTC086054	BLACK CHANNEL CDNSULTANTS PVT.LTD.
2067	U99999DL1997PTC086108	AGGARWAL EXCLUSIVE SWEETS PVT LTD
2068	U99999DL1997PTC086128	ACTION PDLYMER SAND MARKETING PVT LTD

2069	U65993DL	1997PTC086168	BENGRAND INVESTMENTS PRIVATE LIMITEAD
2070	U51909DL	1997PTC086238	HIGH SKY TRADE LINKS PRIVATE LIMITE
2071	U99999DL	1997PTC086292	GENIUS MERCENTILE PVT LTD
2072	U99999DL	1997PTC086346	TOPS AIR AND SEA IMPEX PVT LTD
2073	U99999DL	1997PTC086362	AHUJA SYSTEMS PVT. LTD.
2074	U99999DL	1997PTC086383	MAXCORP FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
2075	U99999DL	1997PTC086409	ARORA CELLULAR PVT LTD
2076	U99999DL	1997PTC086500	CHOWDHARY CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
2077	U99999DL	1997PTC086502	PYRAMID MUSIC (P) LTD.
2078	U99999DL	1997PTC086517	ENGL ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2079	U99999DL	1997PTC086523	ABHISHEK CONVEST PVT. LTD.
2080	U31102DL	1997PTC086604	HAESUNG ELECTRONICS PVT LTD
2081	U99999DL	1997PTC086625	D.C. VAULTS (P) LTD.
2082	U99999DL	1997PTC086675	EQUINOX INFRASTRUCURE PVT LTD
2083	U99999DL	1997PTC086676	INDO TECH LTD
2084	U65922DL	1997PTC086790	KVM CHITS PVT LTD
2085	U01121DL	1997PTC086844	EMBARK AGRO PVT LTD
2086	U24231DL	1997PLC086972	APICAL TECHNOLOGIES LTD
2087	U99999DL	1997PTC087008	RADIUM SHOES PVT. LTD.
2088	U99999DL	1997PTC087103	SHREE BALAJI MEDICOS PVT. LTD.
2089	U51102DL	1997PTC087127	MARY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2090	U99999DL	1997PTC087220	SUMANG MANUFACTURING (INDIA) PVT LTD
2091	U55101DL	1997PTC087277	AHIMSA RESORTS PRIVATE LIMITED
2092	U99999DL	1997PTC087322	BB NETWORK INNOVATION SYSTEMS PVT. LTD.
2093	U99999DL	1997PTC087334	PAVNEET FINANCE PVT LTD
2094	U99999DL	1997PTC087349	T S V TRADING PVT LTD
2095	U99999DL	1997PTC087442	CZEN WEB MASTERS PVT LTD
2096	U24119DL	1997PTC087459	SAMEX PETROCHEM PVT. LTD.
2097	U99999DL	1997PTC087467	STYLEX CLOTHING PVT. LTD.
2098	U45205DL	1997PTC087596	KAPSONS BUILDERS PRIVATE LIMITED
2099	U30007DL	1997PTC087599	ICCS INFOCOM PRIVATE LIMITED
2100	U18101DL	1997PTC087626	MANIT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2101	U99999DL	1997PTC087686	NEW VISION AGENCY PVT LTD
2102	U99999DL	1997PTC087696	H.P. BOARD PVT LTD
2103	U99999DL	1997PTC087723	BROADCAST TECHNOLOGIES (INDIA) PVT. LTD.
2104	U99999DL	1997PTC087826	VE DESIGN PVT LTD
2105	U99999DL	1997PTC087831	PRIDE PHARMACEUTICALS PVT LTD
2106	U99999DL	1997PTC087971	ANUBHAV CONCESSIONAIRES PVT LTD
2107	U99999DL	1997PTC088072	DELVE COMPUTER ACADEMY PVT LTD
2108	U99999DL	1997PTC088077	SUNTEC SPRINGS PVT LTD
2109	U51909DL	1997PTC088091	VIRGOS TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
2110	U99999DL	1997PTC088108	JEET PAINTS PVT. LIMITD.
2111	U99999DL	1997PTC088116	TROJAN COMPUTERS PVT. LTD.
2112	U99999DL	1997PTC088127	PRAG HOTELS PVT. LTD.
2113	U99999DL	1997PTC088131	FM JV HOLDINGS PVT. LTD.

2114	U99999DL1997PTC088169	FROSTAIR PVT. LTD.
2115	U99999DL1997PTC088287	NANDA CENTURY FOODS PVT LTD
2116	U99999DL1997PTC088322	A.S.FASTNERS (P) LTD.
2117	U99999DL1997PTC088352	PIC-PAC PACKAGING PVT LTD
2118	U99999DL1997PTC088356	JMD FINLEASE PVT LTD
2119	U99999DL1997PTC088382	REGAL FIRE WORKS PVT LTD
2120	U99999DL1997PTC088525	M.N. SURVEYER SERVICE PVT. LTD.
2121	U99999DL1997PTC088571	ROMA EATABLES PVT. LTD.
2122	U01122DL1997PLC088577	SIDDHARTH FRUIT PROCESSING LTD.
2123	U99999DL1997PTC088619	FUTURISTIC INVESTMENTS PVT LTD
2124	U24231DL1997PLC088708	ASTEEM PHARMACEUTICAL (INDIA) LTD
2125	U99999DL1997PTC088729	BROTHERS PRINTER AND PUBLISHERS PVT LTD
2126	U99999DL1997PTC088740	REMEDY RESORTS PVT.LTD.
2127	U99999DL1997PTC088774	TIMEX SHARE SERVICES PVT LTD
2128	U99999DL1997PTC088799	CLUB HIMALAYA PVT LTD
2129	U67190DL1997PLC088807	RAJABHISHEK FINANCE LIMITED
2130	U55101DL1997PLC088836	WORLDWIDE HOLIDAYS LTD.
2131	U99999DL1997PTC088906	WILSON ART INDIA PVT LTD
2132	U99999DL1997PTC088916	VARDAAN AIR TRAVELS PVT. LTD.
2133	U18101DL1997PTC088936	AQUARIUS NARROW FABRICS PRIVATE LIMITED
2134	U70102DL1997PTC089043	MAGMA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2135	U99999DL1997PTC089065	SJS ELECTRONICS LTD
2136	U99999DL1997PTC089079	AROS HAIR MAGIC (P) LTD.
2137	U99999DL1997PTC089082	AROS MAGIC EXPORTS (P) LTD.
2138	U51105DL1997PTC089128	CINE VIDEO POWER PRIVATE LIMITED
2139	U99999DL1997PTC089221	SLM SECURITIES PRIVATE LIMITED
2140	U99999DL1997PTC089243	I.S.S. FINANCE PVT LTD
2141	U65993DL1997PTC089246	GURDIAL FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
2142	U99999DL1997PTC089256	AEP ENGINEERING PROJECTS PVT LTD
2143	U67190DL1997PTC089275	FAIR VIEW CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2144	U99999DL1997PTC089291	MASTER FORMS PVT. LTD.
2145	U80302DL1997PTC089349	SAVITA COMPUTER EDUCATION AND TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
2146	U29130DL1997PLC089370	SMK STEERING SYSTEMS LTD.
2147	U99999DL1997PTC089417	FINANCE LINKERS (INDIA) PVT LTD
2148	U99999DL1997PTC089450	D.O. PLASTICS PRIVATE LIMITED
2149	U99999DL1997PTC089497	LG CARRIERS (P) LTD.
2150	U99999DL1997PTC089509	SAMADHAN POWERTRONIX P LTD.
2151	U99999DL1997PTC089510	SJS COMPONENTS PVT LTD
2152	U99999DL1997PTC089534	MBS. ENERGY (P) LTD.
2153	U41505DL1997PLC089615	EUROINDIA ENERGY LIMITED
2154	U99999DL1997PTC089625	HUKAM CHAND GUPTA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2155	U72200DL1997PLC089776	WINDMILL PRASHA LIMITED
2156	U01122DL1997PLC089803	LAMVRLL PLANTATION LTD.
2157	U99999DL1997PTC089829	ANUSHKA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2158	U72200DL1997PTC089830	VCAM GRAFIX PVT. LTD.

2159	U74899DL	1997PTC089846	ARTWORKS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2160	U99999DL	1997PTC089851	GENIUS TOYS AND GAMES PVT. LTD.
2161	U99999DL	1997PTC089956	MAGICTECH INDIA PRIVATE LIMITED
2162	U63040DL	1997PLC089960	GOODMAN TRAVELS LTD
2163	U24347DL	1997PLC089973	ARDEN ROSS OVERSEAS LIMITED
2164	U74300DL	1997PLC090023	ESSENEX ADVERTISING LTD.
2165	U29120DL	1997PTC090032	ARISE PUMPS PRIVATE LIMITED
2166	U99999DL	1997PTC090093	WELLDONE SALES PVT LTD
2167	U99999DL	1997PTC090143	MILAN CHITS PRIVATE LIMITED
2168	U02001DL	1997PLC090177	WOOD CARE PLANTATIONS LTD.
2169	U99999DL	1997PTC090215	YASHNA EXIM PVT. LTD.
2170	U70109DL	1997PTC090291	AAKAAR REALTORS PRIVATE LIMITED
2171	U99999DL	1997PTC090296	RELIANCE SILICA AND CHEMICALS (P) LTD.
2172	U45201DL	1997PTC090300	SWEETHOME BUILDCON AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2173	U01122DL	1997PLC090362	SAHAYAK FOREST (INDIA) LIMITED
2174	U99999DL	1997PTC090374	AVIATION SERVICES RAJDOOT PVT. LTD.
2175	U65992DL	1997PTC090391	YOURCHOICE CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2176	U74220DL	1997PTC090436	RELIABLE SURVEYORS PVT LTD
2177	U99999DL	1997PTC090445	APL APPLIANNCES (P) LTD.
2178	U73100DL	1997PTC090517	F C S SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2179	U99999DL	1997PTC090519	F.C.S.ALTERNATIVE ENERGIES PVT. LTD.
2180	U99999DL	1997PTC090520	F.C.S. GENETICS PRIVATE LIMITED
2181	U33119DL	1997PLC090563	F.C.S. BIOMEDIC LTD
2182	U99999DL	1997PTC090576	SYNERGIC CONSULTANCY AND SERVICES PVT. LTD.
2183	U99999DL	1997PTC090577	ACCORD AUTO OVERSEAS PVT. LTD.
2184	U99999DL	1997PTC090589	MKG PROPERTIS PVT LTD
2185	U74999DL	1997PTC090612	OZ LINK INDIA PRIVATE LIMITED
2186	U45201DL	1997PTC090643	ASTRA TRAMAC CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2187	U80302DL	1997PTC090745	ARS INFOTECH PRIVATE LIMITED
2188	U99999DL	1997PTC090783	BABA SUPERCHEM PVT. LTD.
2189	U99999DL	1997PTC090809	VARDHMAN POLYPIPES PRIVATE LIMITED
2190	U99999DL	1997PTC090810	HARI KRISHNA ENTERPRISES PVT. LTD.
2191	U72100DL	1997PTC090851	COMFAX INFOTECH PRIVATE LIMITED
2192	U99999DL	1997PTC090862	GREENSPAN TECHNOLOGY (INDIA) PVT. LTD.
2193	U99999DL	1997PTC090918	OVERSEAS MEDICAL EDUCATION CENTRE PVT. LTD.
2194	U51399DL	1997PTC090949	LRM ELECTRICALS PVT LTD
2195	U99999DL	1997PTC090970	AMBIENCE TEXTILELS (P) LTD.
2196	U99999DL	1997PTC091052	VAVASI OIL AND GAS PVT. LTD.
2197	U99999DL	1997PTC091082	K.S. RUBBER PVT. LTD.
2198	U99999DL	1997PTC091096	LIVING STONE INLAY DESIGNS PRIVATE LIMITED
2199	U24232DL	1997PTC091127	GALLANT HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
2200	U36911DL	1997PLC091178	AST GLOBAL LTD.
2201	U17119DL	1997PTC091224	VIBHUTI FILAMENTS PRIVATE LIMITED
2202	U99999DL	1997PTC091238	PROTECT HEALTH (INDIA) PVT. LTD.
2203	U99999DL	1997PTC091258	I.T. SKILL PLUS P VT. LTD.

2204	U99999DL1997PTC091277	EXPATRIATE ESSENTIALS INDIA PRIVATE LIMITED
2205	U99999DL1997PTC091308	GILL SANDHU CARRIERS PRIVATE LIMITED
2206	U99999DL1997PTC091414	THIRD ROCK (INDIA) PRIVATE LIMITED
2207	U99999DL1998PTC091445	SHREE SAI TRAVEL AND CARGO (P) LTD.
2208	U31200DL1998PTC091456	ABSOLUT POWER PRIVATE LIMITED.
2209	U99999DL1998PTC091464	NARSINGH COMMERCIAL PVT. LTD.
2210	U30009DL1998PTC091520	SOFTOUCH INFOTECH PRIVATE LIMITED
2211	U29262DL1998PTC091563	VRINDAVAN FABARICS PRIVATE LIMITED
2212	U33111DL1998PLC091571	DISAN LABS LTD.
2213	U99999DL1998PTC091575	GAURAV TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
2214	U99999DL1998PTC091593	MANJU MEMORIAL TRADE (P) LTD.
2215	U99999DL1998PTC091680	SUNGOLD FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2216	U99999DL1998PTC091791	REFERENCE POINT (INDIA) PVT. LTD.
2217	U99999DL1998PTC091800	RAJASTHAN MANUFACTURING AND TRADING (P) LTD.
2218	U74140DL1998PTC091838	QVISION TECHNOLOGIES PVT. LTD.
2219	U99999DL1998PTC091884	SAPTHAGIRI MEDISYSTEMS PVT. LTD.
2220	U92114DL1998PTC091907	FULL LIGHTS FILM CO. (INDIA) PRIVATE LIMITED
2221	U99999DL1998PTC092017	ALPS MARINES AND FINSTOCK PVT. LTD.
2222	U99999DL1998PTC092018	AKI MARINES AND INVESTMENTS PVT. LTD.
2223	U24120DL1998PLC092039	UTAMA ORGANIC FERTILIZER LIMITED
2224	U99999DL1998PTC092099	TRAC INFOTECH PRIVATE LIMITED
2225	U99999DL1998PTC092127	J.M.D. AVIATION PVT. LTD.
2226	U99999DL1998PTC092128	MARS AVIATIONS PVT. LTD.
2227	U72200DL1998PTC092163	MNC SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2228	U99999DL1998PTC092192	PAYAL STRIPS PVT. LTD.
2229	U24231DL1998PTC092240	HEMVIR CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2230	U99999DL1998PTC092246	SMRITI KIRAN T.V. TALKS AND TELECOMMUNICATIONS PVT. LTD.
2231	U99999DL1998PTC092293	UNICOOL FOOD AND DRINKS PVT. LTD.
2232	U99999DL1998PTC092339	BSS INDIA PRIVATE LIMITED
2233	U99999DL1998PTC092340	UDBHAV ASSOCIATES PVT. LTD.
2234	U99999DL1998PTC092385	G.R. ELECTRO MECHANICAL DEVICES PVT. LTD.
2235	U74899DL1998PTC092405	ANKUR GOOD LIVING APPLIANCES INDIA PVT LTD
2236	U74140DL1998PLC092410	THREE ACES SERVICES LTD.
2237	U99999DL1998PTC092428	ACCESS CONSULTING INSURERS AND CLAIM MANAGERS INDIA PVT. LTD.
2238	U99999DL1998PTC092457	RONIX PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2239	U99999DL1998PTC092511	LALIT FREIGHT MOVERS PVT LTD
2240	U99999DL1998PTC092571	S.P.S. ADHESIVE TAPES PRIVATE LIMITED
2241	U74140DL1998PTC092594	RASOI CONSULTANTS PVT. LTD.
2242	U65993DL1998PLC092605	F C S INVESTMENTS LIMITED
2243	U99999DL1998PTC092659	ZION MANAGEMENT SOLUTIONS (P) LTD.
2244	U99999DL1998PTC092730	ARVIK FINANACIAL CONSULTANTS PVT. LTD.
2245	U45202DL1998PTC092793	VANGUARD INTERIORS PVT LTD
2246	L51909DL1998PLC092804	F C S AIRWAYS LIMITED
2247	U51909HR1998PLC092804	F C S AIRWAYS LIMITED
2248	U99999DL1998PTC092830	IMAGE PACKAGING PRODUCTS PVT. LTD.

2249	U24231DL1998PLC092869	CARE REMEDIES (INDIA) LTD.
2250	U99999DL1998PTC092957	DYNAMOTIVE MOTORS PVT. LTD.
2251	U51397DL1998PTC092960	OMPAC NATURAL AND ENVIORNMENTAL LABORATORIES PVT.LTD.
2252	U99999DL1998PTC093032	LAJ ADHESIVES PRIVATE LIMITED
2253	U99999DL1998PTC093043	F.C.S. SUGAR LTD
2254	U99999DL1998PTC093048	RENUKA ENTERPRISES PVT. LTD.
2255	U51109DL1998PTC093113	VIDUSHI SALES PRIVATE LIMITED
2256	U74999DL1998PTC093190	INTERIOR DESIGN INDIA PVT LTD
2257	U99999DL1998PTC093191	AVIK GYM AND SPA PVT. LTD.
2258	U99999DL1998PTC093212	AUTO RISK MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD.
2259	U99999DL1998PTC093278	MATERIALS RESEARCH GROUP (INDIA) PVT LTD.
2260	U99999DL1998PTC093444	AAKSHITA OVERSEAS PVT.LTD.
2261	U99999DL1998PTC093466	K L M DESIGN (INDIA) PVT. LTD.
2262	U99999DL1998PTC093477	ALRAFI FOOD PRIVATE LIMITED
2263	U99999DL1998PTC093516	JUSTE FREIGHT LOGISTICS PVT. LTD.
2264	U32109DL1998PTC093559	GIGA TEST INDIA PRIVATE LIMITED
2265	U72300DL1998PTC093625	INFOVEND SERVICES PRIVATE LIMITED
2266	U45201DL1998PTC093656	GOGI BUILDERS PRIVATE LIMITED
2267	U99999DL1998PTC093712	LIBBY MARKETING PRIVATE LIMITED
2268	U24246DL1998PTC093727	MAZZEO MARKETING PRIVATE LIMITED
2269	U99999DL1998PTC093768	KAULAHIRI COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2270	U99999DL1998PTC093781	FOREVER LIVING HEALTHCARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2271	U99999DL1998PTC093821	G.V. CHIKITSALYA PVT. LTD.
2272	U70101DL1998PTC093836	BPS INDIA (P) LTD
2273	U99999DL1998PTC093841	MEF.RY GOLD SPRING WATER AGRO INDUSTRIES PVT. LTD.
2274	U36911DL1998PTC093912	BALA JI GEMS PRIVATE LIMITED
2275	U99999DL1998PTC093941	NR TOURISM PRIVATE LIMITED
2276	U99999DL1998PTC093942	MR EXIM PRIVATE LIMITED
2277	U99999DL1998PTC093958	SRISHTI FORESTS (INDIA) LTD.
2278	U99999DL1998PTC094131	COSMOPOLITAN COURIERS PVT. LTD.
2279	U24130DL1998PLC094251	CHAMPION FERTILIZERS AND CHEMICALS LTD.
2280	U99999DL1998PTC094268	MEGA HOTELS AND LEISURES PVT. LTD.
2281	U99999DL1998PTC094325	PELICAN HEALTH CARE (P) LTD.
2282	U74950DL1998PTC094489	RUPS PACKAGING INDUSTRY PVT LTD
2283	U99999DL1998PTC094531	PAXTRAK PRODUCTS (P) LTD.
2284	U99999DL1998PTC094602	MARS SURGICAL AND DRESSING PVT. LTD.
2285	U99999DL1998PTC094652	ANKIT POLYCHEM PVT. LTD.
2286	U74300DL1998PTC094721	WIN PACKERS AND MOVERS PVT.LTD
2287	U99999DL1998PTC094756	ARCO CABLES PRIVATE LIMITED
2288	U99999DL1998PTC094763	HEALTHCARE CONSULTING INDIA PVT. LTD.
2289	U99999DL1998PTC094780	RANGERS SECURITY AND INVESTIGATIONS PVT. LTD.
2290	U99999DL1998PTC094858	ANG MARKETING PRIVATE LIMITED
2291	U99999DL1998PTC094879	AGNIHOTRI CONSTRUCTION PVT.LTD.
2292	U99999DL1998PTC094886	BABA GORAKHNATH CHITS PVT. LTD.
2293	U74999DL1998PTC094888	YANSI EXPORTS PVT LTD

2294	U99999DL1998PTC094895	DINESH GOPAL SURVEYORS (PVT) LTD.
2295	U99999DL1998PTC094924	MINERVA PRESS (INDIA) PVT. LTD.
2296	U65910DL1998PTC094988	NAV DURGA LEASING AND FINANCE PVT LTD
2297	U99999DL1998PTC095004	BROST FASTFOODS PRIVATE LIMITED
2298	U99999DL1998PTC095008	J.R.G. COMMUNICATION (INDIA) PVT. LTD.
2299	U99999DL1998PTC095056	INSPIRATION TRAVELS AND EXIM PRIVATE LIMITED
2300	U18204DL1998PTC095077	KAPOOR EMBROIDRY MILLS (P) LTD.
2301	U99999DL1998PTC095082	MARS CRYSTALS PVT. LTD.
2302	U99999DL1998PTC095125	INDSTOCK INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LTD.
2303	L74899DL1998PLC095131	KUMAUN MINERALS AND CHEMICALS (INDIA) LIMITED.
2304	U99999DL1998PTC095241	SAVITRI JIWAN DEVELOPERS PVT. LTD.
2305	U74300DL1998PTC095243	MODEM ADVERTISING AND MARKETING PVT LTD
2306	U99999DL1998PTC095250	HAYWAY SALES PRIVATE LIMITED
2307	U99999DL1998PTC095313	ABC TECHNIQUES PVT. LTD.
2308	U99999DL1998PTC095389	BAJRANG INTERIORS (P) LTD.
2309	U99999DL1998PTC095397	N.B. INDIA PVT. LTD.
2310	U99999DL1998PTC095484	SPRINT PORTFOLIO AND RESEARCH PVT.LTD.
2311	U51904DL1998PTC095497	PELICAN IMPEX PRIVATE LIMITED
2312	U15315DL1998PTC095514	UTHKRISHT FOODS PRIVATE LIMITED
2313	U65992DL1998PTC095559	DISHU CHITS PRIVATE LIMITED
2314	U72400DL1998PTC095576	CADESIGN LEXICONS PVT. LTD.
2315	U99999DL1998PTC095588	SHARMIL PRINT AND PACK (P) LTD.
2316	U99999DL1998PTC095615	AMICO TRAVEL AND TOURS PRIVATE LIMITED
2317	U99999DL1998PTC095626	KCP CHITS PRIVATE LIMITED
2318	U99999DL1998PTC095648	HYO-SUNG (INDIA) PVT. LTD.
2319	U99999DL1998PTC095698	VOYAGERS INDIA PVT. LTD.
2320	U99999DL1998PTC095699	LAWMAN PUBLICATIONS PVT. LTD.
2321	U99999DL1998PTC095723	MEDICAL CENTRE OF BOSTON (INDIA) PVT. LTD.
2322	U72900DL1998PTC095732	INFORMICA INDIA PRIVATE LIMITED
2323	U99999DL1998PTC095867	SHIVANI GRAVURES (P) LTD.
2324	U99999DL1998PTC095890	OPTICAL CORNER INDIA PRIVATE LIMITED
2325	U99999DL1998PTC095953	THETA SOLUTIONS AND SYSTEMS LTD.
2326	U74899DL1998PLC095954	SAS EDUSOFT SYSTEMS LIMITED
2327	U99999DL1998PTC096098	INFOTAINMENT COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2328	U29219DL1998PTC096115	TOOLS AND TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
2329	U74210DL1998PTC096120	S K M ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
2330	U51397DL1998PTC096162	SARTOM TRADE IMPEX PRIVATE LIMITED
2331	U63090DL1998PTC096181	MEGA CARGO EXPORTS PVT. LTD.
2332	U99999DL1998PTC096203	SEKURIT INDIA (P) LTD.
2333	U74999DL1998PTC096221	MONITEX MARKETING SERVICES (P) LTD
2334	U99999DL1998PTC096245	RAMCO CHEMICALS LTD
2335	U74140DL1998PTC096261	CREDENCE PUBLIC RELATIONS PRIVATE LIMITED
2336	U80302DL1998PTC096343	BUILD WELL COMPUTER CENTRE (INDIA) PRIVATE LIMITED
2337	U22110DL1998PTC096353	COMDEX COMPUTER PUBLISHING P LTD
2338	U99999DL1998PTC096397	HARJI TRADING AND CONSTRUCTION CO. (PVT) LTD.

2339	U80302DL1998	PTC096506	AIMS ACADEMIC PRIVATE LIMITED
2340	U72200DL1998	PTC096608	DATA STAR SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2341	U99999DL1998	PTC096631	HAMEED OVERSEAS PRIVATE LIMITED
2342	U99999DL1998	PTC096640	R AND T SERVICES PRIVATE LTD.
2343	U99999DL1998	PTC096642	PRINT CONSULTANTS (INDIA) PVT. LTD.
2344	U40109DL1998	PTC096651	D E S I POWER (MAHANADI) PVT LTD
2345	U99999DL1998	PTC096693	MERITEC INDIA TRADING (P) LTD.
2346	U99999DL1998	PTC096732	SVASTIKA CONTROLS PVT. LTD.
2347	U99999DL1998	PTC096780	HARDY TRAVELS AND TOURS INDIA PVT. LTD.
2348	U30007DL1998	PTC096785	AMBIENCE INFOSYS PRIVATE LIMITED
2349	U99999DL1998	PTC096809	ATN HANGERS PVT. LTD.
2350	U99999DL1998	PTC096908	AAKRITI INTERNATIONAL CLOTHING CO. (P) LTD.
2351	U99999DL1998	PTC096939	CNN FINANCE AND LEASING PVT. LTD.
2352	U99999DL1998	PTC096964	MAXIM THREADS INDIA PVT. LTD.
2353	U99999DL1998	PTC097059	RATHOUR TEXTILE MILLS PVT. LTD.
2354	U99999DL1998	PTC097108	INFLEXA (INDIA) PRIVATE LIMITED
2355	U99999DL1998	PTC097163	SPEEDLINE COURIERS PVT. LTD.
2356	U99999DL1998	PTC097164	FAST CHAIN COURIERS PVT. LTD.
2357	U99999DL1998	PTC097165	PROMPTLINE COURIERS PVT. LTD.
2358	U99999DL1998	PTC097166	RIGHT TIME COURIERS PVT. LTD.
2359	U99999DL1998	PTC097194	IC INTRACOM INDIA PRIVATE LIMITED
2360	U22110DL1998	PTC097324	STANDARD LAW BOOK COMPANY PRIVATE LIMITED
2361	U70101DL1998	PTC097359	PRIME DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
2362	U99999DL1998	PTC097410	CRANEX INFOSYS PVT. LTD.
2363	U72200DL1998	PTC097483	SOFTWARE INFOCOM (INDIA) PRIVATE LIMITED.
2364	U99999DL1998	PTC097535	SAMPARK TECHNOLOGY PVT LTD.
2365	U51391DL1998	PTC097683	STAR NAILS INDIA PRIVATE LIMITED
2366	U29220DL1998	PLC097730	SHREE MAHALAXMI NARAIN FASTNERS (INDIA) LTD.
2367	U99999DL1998	PTC097741	WHITE STAR EDUCATIONS (P) LTD.
2368	U99999DL1998	PTC097743	GUMAN MANAGEMENT CONSULTANTS PVT. LTD.
2369	U99999DL1999	PTC097779	WHITE STAR CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
2370	U99999DL1999	PTC097817	HIMALAYAN AIR SERVICES (P) LTD.
2371	U99999DL1999	PTC097861	NIGHT FASHIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2372	U99999DL1999	PTC097920	AASHIRWAD FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2373	U99999DL1999	PTC098006	KURELE INFORMATION TECHNOLOGY PVT. LTD.
2374	U99999DL1999	PTC098053	SANU - ARCOM PRIVATE LIMITED
2375	U67190DL1999	PTC098118	SHREE SRINIWASA FOREX AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
2376	U99999DL1999	PTC098119	RUDRA DEEP SERVICES PVT. LTD.
2377	U99999DL1999	PTC098128	AKSHITA FOODS PRIVATE LIMITED
2378	U72200DL1999	PTC098221	GOLD REED INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
2379	U99999DL1999	PTC098255	TRIDENT GRAIN PVT. LTD.
2380	U18101DL1999	PTC098302	AMAN GARMENTS (PVT) LTD
2381	U24231DL1999	PTC098347	M B LABORATORIES PRIVATE LIMITED
2382	U99999DL1999	PTC098365	KAMAL MEHTA SERVICES PVT. LTD.
2383	U99999DL1999	PTC098464	TROIKA TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.



2384	U72900DL1999PTC098534	IOL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2385	U99999DL1999PTC098552	SHINE LABORATORIES PRIVATE LIMITED
2386	U74210DL1999PTC098567	TEXACO INDIA PRIVATE LIMITED
2387	U99999DL1999PTC098604	SPENCER CABLES LTD
2388	U31300DL1999PLC098605	AMBUJA CABLES LTD.
2389	U72200DL1999PTC098665	SURE SYSTEMS PVT LTD
2390	U99999DL1999PTC098691	MAHAN TRAEXIM PRIVATE LIMITED
2391	U99999DL1999PTC098695	TUSKER EQUIPMENTS PVT. LTD.
2392	U99999DL1999PTC098888	AHUJA INTELLIGENCE NETWORK PVT. LTD.
2393	U51109DL1999PTC098980	CHIVES INDIA PRIVATE LIMITED
2394	U51909DL1999PTC098982	PALOMINO INDIA PRIVATE LIMITED.
2395	U63090DL1999PTC098994	PS ATLANTIC FREIGHT LOGISTIC PVT. LTD.
2396	U99999DL1999PTC099078	TAURUS INFOWAY PVT. LTD.
2397	U99999DL1999PTC099095	ESS KAY DISTRIBUTORS PVT. LTD.
2398	U74899DL1999PLC099101	LUMAX MIRRORS LIMITED
2399	U63012DL1999PTC099104	NEW INDICA CARGO PVT LTD
2400	U99999DL1999PTC099113	WOODARCH CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
2401	U99999DL1999PTC099117	AXISTEL COMMUNICATIONS INDIA PVT. LTD.
2402	U99999DL1999PTC099120	ASCON POWERED FENCES PVT. LTD.
2403	U55101DL1999PTC099141	VIVA TOURS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2404	U99999DL1999PTC099144	CYBERNET SYSTEMS (INDIA) PVT. LTD.
2405	U99999DL1999PTC099164	ERMANCO INDIA PRIVATE LIMITED
2406	U99999DL1999PTC099166	ALLIANCE EXIM PVT. LTD.
2407	U99999DL1999PTC099232	MAHAVEER BIO-MASS ENERGY PVT. LTD.
2408	U99999DL1999PTC099244	SUNEYE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2409	U99999DL1999PTC099293	LAXMI BUILDERS AND CONSTRUCTION CO. PRIVATE LIMITED
2410	U99999DL1999PTC099350	SHREE TECHNO CRAFT (PVT) LTD.
2411	U99999DL1999PTC099353	BUEONS AIRES TRAVEL AND CARGO (PVT) LTD.
2412	U99999DL1999PTC099406	ANMOL GAGAN AUTO ELECTRICALS PVT. LTD.
2413	U99999DL1999PTC099428	SUBHA VENTURES (INDIA) PVT. LTD.
2414	U52395DL1999PLC099454	SHIV SHAKTI MINERAL TRADERS LTD.
2415	U99999DL1999PTC099465	ORION OVERSEAS PVT. LTD.
2416	U99999DL1999PTC099584	SCHMID BUILDERS (P) LTD.
2417	U51909DL1999PTC099607	MONAD IMPEX AND TRADERS PRIVATE LIMITED
2418	U30007DL1999PTC099750	SVS INFOTECH PRIVATE LIMITED
2419	U72300DL1999PTC099974	ASIAGET COMMERCE (PVT) LIMITED.
2420	U51909DL1999PTC100013	SAUBHAGYA SALES PVT LTD
2421	U72900DL1999PTC100127	NESTOR INFOSYS PRIVATE LIMITED
2422	U72900DL1999PLC100172	GANGA VISION LIMITED.
2423	U51311DL1999PTC100196	THREE SONS TRADING PRIVATE LIMITED
2424	U51909DL1999PTC100197	STALLONE TRADING PRIVATE LIMITED
2425	U72900DL1999PTC100198	CRUST TRADING PRIVATE LIMITED
2426	U51909DL1999PTC100199	ANSH TRADING PRIVATE LIMITED
2427	U52321DL1999PTC100200	JINGLE TRADING PRIVATE LIMITED
2428	U55101DL1999PTC100202	HOTWINGS RESTAURANT PRIVATE LIMITED

2429	U99999DL	1999PTC100306	SHAKUMBARI SEEDLINGS PVT. LTD.
2430	U24233DL	1999PTC100324	SPECTRUM BIOTECH PRIVATE LIMITED
2431	U34300DL	1999PTC100453	FUCLEAN (INDIA) PRIVATE LIMITED
2432	U31909DL	1999PTC100480	BEST POWER ELECTRIC INDIA PVT LTD
2433	U67120DL	1999PTC100523	AHUJA CAPSERVICES PVT. LTD.
2434	U55101DL	1999PTC100535	SNOW PLATTER RESORTS AND HOTELS (PVT) LTD.
2435	U17111DL	1999PTC100536	RASIWASIA FILAMENTS PRIVATE LIMITED
2436	U36911DL	1999PTC100604	HONEY JEWELLERS PVT. LTD.
2437	U52322DL	1999PTC100623	REEVA INDIA PRIVATE LIMITED.
2438	U52322DL	1999PTC100659	MAA RELIANCE YARN PVT. LTD.
2439	U51505DL	1999PTC100757	NAVAK ENTERPRISES PVT LTD
2440	U72200DL	1999PTC100821	SUDIN EDUSOFT SERVICES PVT. LTD.
2441	U72200DL	1999PTC100865	NEXAR INFOTECH PRIVATE LIMITED
2442	U63012DL	1999PTC100878	SEVENSEAS CARGO HOUSE PVT. LTD.
2443	U74920DL	1999PTC100885	SPENCER SECURITY INDIA (PVT) LTD.
2444	U72200DL	1999PTC100930	ETERNAL INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2445	U22219DL	1999PTC100980	JAINCO ART INDIA PVT. LTD.
2446	U24231DL	1999PLC100982	WAVE INSTITUTE OF HIGH TECHNOLOGIES LIMITED
2447	U52392DL	1999PTC100988	SEL PRODUCTS PVT.LTD.
2448	U52392DL	1999PTC101037	CYBERSMITH SOFTWARE SYNERGIES AND INFOTECH PVT. LTD.
2449	U18101DL	1999PTC101074	PRINK APPARELS EXPORTS PRIVATE LIMITED
2450	U51109DL	1999PTC101161	SKYLAND LOGISTICS PVT LTD
2451	U72200DL	1999PTC101172	AAA SOFTWARE EXPORTS PRIVATE LIMITED
2452	U51109DL	1999PTC101183	ALIYA IMPEX PRIVATE LIMITED
2453	L72200DL	1999PLC101190	P S J CHEMICALS LIMITED
2454	U72300DL	1999PTC101297	J.S. INDISOFT SYSTEMS CONSULTANTS PVT. LTD.
2455	U67120DL	1999PTC101312	MPK INVESTMENTS PVT. LTD.
2456	U74140DL	1999PTC101320	TIER SEVEN SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
2457	U74140DL	1999PTC101341	T Q M SERVICES PVT. LTD.
2458	U74899DL	1999PTC101373	PINNACLE AUTOMATION SYSTEMS AND SOLUTIONS PVT LTD
2459	U45201DL	1999PTC101396	GRAPACT ENGINEERS PVT. LTD.
2460	U55101DL	1999PTC101427	JAIN FOREX PRIVATE LIMITED
2461	U33119DL	1999PTC101446	SEHGAL NURSING HOME PVT. LTD.
2462	U52190DL	1999PTC101448	DAZZLING MARKETING AND SERVICES PVT LTD
2463	U18101DL	1999PTC101451	DCP IMPEX PVT LTD
2464	U79300DL	1999PTC101506	HEADWAY MARKETTING PRIVATE LIMITED
2465	U45201DL	1999PTC101516	SYNOPSIS BUILDCON PVT. LTD.
2466	U74899DL	1999PTC101632	FLUOR DANIEL GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2467	U25209DL	1999PTC101679	MASANIA PIPES PVT. LTD.
2468	U74899DL	1999PTC101794	MAIDEN VENTURE FOODS PRIVATE LIMITED
2469	U72300DL	1999PTC101824	CORPORATE EXTENDED WARRANTIES PVT.LTD.
2470	U99999DL	1999PTC101859	AQUA RESEARCH (INDIA) PVT. LTD.
2471	U74920DL	1999PTC101900	KASH SECURITY DETECTIVE AGENCIES PVT. LTD.
2472	U74140DL	1999PTC101904	SUNIL MARUT CONSULTANTS (PVT) LTD.
2473	U65910DL	1999PTC101914	SOLO FINLEASE PRIVATE LIMITED

2474	U18101DL1999PTC101955	BANSHEE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2475	U64120DL1999PLC101995	COUNTRYWIDE COURIERS LIMITED
2476	U22100DL1999PTC102019	ELIXIR PUBLISHERS PVT LTD
2477	U22110DL1999PTC102034	DIHWAR EXIM PRIVATE LIMITED
2478	U15549DL1999PTC102077	AQUASOFT WATER PVT LTD
2479	U74950DL1999PTC102091	AMIYA DUTTA GENERAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED.
2480	U24239DL1999PTC102094	PHOENICIAN HERBALS PRIVATE LIMITED.
2481	U23209DL1999PTC102097	PARRON MARKETING PVT LTD
2482	U22219DL1999PTC102100	CITI MEDIA PRIVATE LIMITED
2483	U72200DL1999PTC102117	MIGS ON SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2484	U24239DL1999PTC102155	ALBION PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED.
2485	U18101DL1999PTC102169	INTERSTAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
2486	U09211DL1999PTC102251	R.P.S. MASS COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
2487	U74899DL1999PTC102292	R.S.P. ENCORE COLD STORAGE PVT.LTD.
2488	U18101DL1999PTC102302	URBAN DESIGNS PRIVATE LIMITED
2489	U72100DL1999PTC102421	LOTUS INFOTECH SOLUTIONS (INIDA) PRIVATE LIMITED
2490	U09211DL1999PTC102427	GENX PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
2491	U31909DL1999PTC102475	VOILA I T SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2492	U15141DL1999PTC102550	R.I OILS AND FATS PRIVATE LIMITED
2493	U32109DL1999PTC102599	LAHER AUTO SPARES PVT LTD
2494	U32101DL1999PTC102602	AM TECH TOT PRIVATE LIMITED
2495	U74899DL1999PTC102609	INFOSHARE TECHNOLOGIES LIMITED
2496	U74140DL1999PTC102653	J AND V CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
2497	U60210DL1999PTC102687	GOEL FREIGHT COMPANY PRIVATE LIMITED
2498	U74140DL1999PTC102740	BEFA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
2499	U72900DL1999PTC102790	INFONET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED.
2500	U32101DL1999PTC102800	DAI-ICHI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED.
2501	U00000DL1999PTC102845	EMERGE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2502	U32101DL1999PTC102860	APT PUPIL PROMOTIONS PRIVATE LIMITED.
2503	U75111DL1999PTC102881	AMAR DECO PRODUCTS PRIVATE LIMITED. A
2504	U74140DL1999PLC102911	NET PERCEPTION LIMITED
2505	U29233DL1999PTC102923	SYNMEDIC PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED.
2506	U74899DL1999PTC102971	NATHUS CATERERS PVT. LTD.
2507	U27203DL1999PLC102984	SURAJ ALUMINIUM LIMITED
2508	U70101DL1999PTC102998	KNR CONSULTANTS PVT LTD
2509	U76120DL1999PTC103030	GS&C CAPITAL MARKET PRIVATE LIMITED.
2510	U25199DL2000PTC103075	KRISHNA TECHNOPLAST PRIVATE LIMITED
2511	U72900DL2000PTC103143	INTELLIGENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2512	U74999DL2000PTC103185	INDER NARAIN HAR NARAIN STEEL PVT.LTD.
2513	U45201DL2000PTC103233	SHREE GANGA BUILDERS PRIVATE LIMITED
2514	U72200DL2000PTC103280	SWARAN COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2515	U72900DL2000PTC103330	ASK PERIPHERAL PEOPLE PRIVATE LIMITED
2516	U72900DL2000PTC103351	AXON TECHSOFT PRIVATE LIMITED
2517	L74899DL2000PLC103360	EURO SOLUTION LIMITED
2518	U74899DL2000PTC103377	UNITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

2519	U74999DL2000PTC103566	V.G. FAB PRIVATE LIMITED
2520	U15209DL2000PTC103636	GMG CATTLE FEED PRIVATE LIMITED
2521	U72900DL2000PTC103682	VIRUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2522	U74899DL2000PTC103721	BIG TOP MARKETING PRIVATE LIMITED.
2523	U74899DL2000PTC103762	BNK INTRADE PRIVATE LIMITED
2524	U72900DL2000PTC103780	E-NET DEVELOPERS PRIVATE LIMITED.
2525	U30002DL2000PTC103788	INFOLINK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2526	U99999DL2000PTC103844	BLUE MOON MARKETING PRIVATE LIMITED
2527	U74899DL2000PTC103880	PRATUS PETROCHEM LIMITED.
2528	U72900DL2000PTC103962	INDIMART.COM SOFTWARE PRIVATE LIMITED.
2529	U24239DL2000PTC103985	VIROUSPT HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
2530	U99999DL2000PTC104083	IMS TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2531	U72200DL2000PTC104117	FLUXART ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2532	U45900DL2000PTC104151	NET GEMS INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED.
2533	U72200DL2000PTC104165	NUAMMS EXIM PRIVATE LIMITED
2534	U25209DL2000PTC104191	DIGAMBER FIBRE PRIVATE LIMITED
2535	U18101DL2000PTC104202	DAFFODILS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2536	U74899DL2000PLC104222	MICRO SOFTACE PRODUCTS LIMITED.
2537	U72200DL2000PTC104312	SAMKUL SOFTEK PRIVATE LIMITED
2538	U74899DL2000PTC104333	SKY ASSOCIATES EXPRESS LIMITED.
2539	U74899DL2000PTC104346	KUKU SECURITIES PRIVATE LIMITED
2540	U72900DL2000PTC104347	DIGITAL CRADLE CYBERASIA PRIVATE LIMITED
2541	U72900DL2000PTC104366	MOBIUS BAND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2542	U72300DL2000PTC104375	OST E-COMMERCE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
2543	U72200DL2000PTC104381	EONTEC SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2544	U74899DL2000PTC104398	PROGSOFT TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2545	U93010DL2000PTC104404	URS (INDIA) QUALITY REGISTRAR PVT LTD
2546	U72900DL2000PTC104472	MAGIC PERFORMANCE MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED
2547	U74300DL2000PTC104493	NECTOR MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
2548	U74140DL2000PTC104503	N ART CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2549	U63013DL2000PTC104553	NEXXUS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2550	U18101DL2000PTC104569	HEENA SELECTION PRIVATE LIMITED
2551	U72900DL2000PLC104575	IN E-COMMERCE SOFTECH LIMITED
2552	U74899DL2000PTC104603	THAKRAL ASSOCIATES PRIVATE LIMITED.
2553	U74899DL2000PTC104657	NUCLEUSSOFTWARE.COM PRIVATE LIMITED
2554	U74899DL2000PTC104662	ANALOGIC INFOTECH PRIVATE LIMITED
2555	U34101DL2000PTC104799	TRANS FAB PRIVATE LIMITED
2556	U51109DL2000PTC104833	SHIV KIRPA MARKETING PRIVATE LIMITED
2557	U32109DL2000PTC104851	MALBROS IT ENABLED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2558	U74999DL2000PTC104862	SHIVANGI OVERSEAS PRIVATE LIMITED
2559	U72900DL2000PTC104945	ESSJAY SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2560	U67120DL2000PTC104952	PRIMAL SECURITIES PRIVATE LIMITED
2561	U70101DL2000PTC104960	JAI ADYA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
2562	U24239DL2000PTC104973	ESTHER PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2563	U34300DL2000PTC105008	EURASIA ENGINEERING PRIVATE LIMITED

2564	U12900DL2000PTC105033	INSIDE EDUCATION PRIVATE LIMITED.
2565	U92120DL2000PTC105036	V.S. COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
2566	U74300DL2000PTC105118	AASHAYE ADVERTISING SERVICES PRIVATE LIMITED.
2567	U74899DL2000PTC105129	E-DIFFUSION.COM PRIVATE LIMITED
2568	U51109DL2000PTC105168	BS HOME SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
2569	U24119DL2000PTC105263	BIO INFORMATICS INDIA PRIVATE LIMITED
2570	U72900DL2000PTC105276	TRISHA INFOCOSM PRIVATE LIMITED
2571	U72900DL2000PTC105321	EASY INFOTECH PRIVATE LIMITED.
2572	U63013DL2000PTC105343	BME CARGO PRIVATE LIMITED
2573	U74899DL2000PTC105367	CORPBRAIN TECHNOLOGIES LIMITED
2574	U72900DL2000PTC105390	VIDYUT INFOTECH PRIVATE LIMITED
2575	U18101DL2000PTC105393	KRTSNA HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED.
2576	U72200DL2000PLC105400	LALAJEE INFOTECH LIMITED
2577	U72900DL2000PTC105444	DIY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2578	U45201DL2000PTC105496	INTEGRATED DESIGN AND BUILD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2579	U80903DL2000PTC105520	SUDIN TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED
2580	U74999DL2000PTC105533	AC.E.S. ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2581	U74140DL2000PTC105534	KNOWLEDGEPUB.COM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2582	U72900DL2000PTC105544	SMG SOFTWARE AND EDUCATION PRIVATE LIMITED
2583	U72900DL2000PTC105656	NASCENT NETWORKS PRIVATE LIMITED
2584	U72200DL2000PLC105677	GET WEB DOMAINS COM LIMITED
2585	U74899DL2000PTC105699	NUWEB INFOTECH PRIVATE LIMITED
2586	U72200DL2000PTC105719	INFINITE NETWORK PRIVATE LIMITED
2587	U00000DL2000PTC105720	GOL INDIA PORTAL PRIVATE LIMITED
2588	U72900DL2000PTC105724	TARANA.COM PRIVATE LIMITED
2589	U28939DL2000PTC105746	SURAT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2590	U22122DL2000PTC105803	BABA PUBLINKS PRIVATE LIMITED
2591	U72900DL2000PTC105809	AVA E-COM AND WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
2592	U51109DL2000PLC105839	SAFEX MAIL LIMITED
2593	U55101DL2000PTC105885	RAINBOW RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
2594	U72900DL2000PTC105900	SPIDERS DOT COM PRIVATE LIMITED
2595	U99999DL2000PLC105931	EWORKSTYLE.COM LIMITED
2596	U72900DL2000PTC105934	MINDSHARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2597	U29199DL2000PTC106014	PELIKAN AUTO PRIVATE LIMITED
2598	U72900DL2000PTC106061	NEURON WORKS DOT COM PRIVATE LIMITED
2599	U95000DL2000PTC106116	ABC PROTECTION PRIVATE LIMITED
2600	U92111DL2000PTC106122	ADWORX PRINT-O-PAC PRIVATE LIMITED
2601	U72900DL2000PTC106125	VENDING RESOURCE.COM PRIVATE LIMITED
2602	U51109DL2000PTC106221	JOY IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
2603	U70101DL2000PTC106265	A - Z HOME STORE PRIVATE LIMITED
2604	U80903DL2000PTC106339	OBT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2605	U74899DL2000PTC106369	ORIENT SALTS LIMITED
2606	U63040DL2000PTC106417	TIMEOUT PROGRAMMES PRIVATE LIMITED
2607	U72900DL2000PTC106535	TWINE SOFTECH PRIVATE LIMITED
2608	U72200DL2000PTC106547	MELANGE DREAMS ON LINE PRIVATE LIMITED

2609	U72900DL	2000PTC106561	SILICON INTEGRATED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2610	U72900DL	2000PTC106613	CRAFTSININDIA.COM PRIVATE LIMITED
2611	U55109DL	2000PTC106641	DYNASTY HOLIDAY HOMES PRIVATE LIMITED
2612	U40101DL	2000PTC106680	BPL ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2613	U74899DL	2000PLC106712	HALE TECHNOLOGY INDIA LIMITED.
2614	U72900DL	2000PTC106786	BEETLE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2615	U50101DL	2000PTC106826	SHIVA CARS PRIVATE LIMITED.
2616	U72100DL	2000PTC106834	NOW NETWORKS PRIVATE LIMITED
2617	U51197DL	2000PTC106870	PANDIT HERBOTIQUE PRIVATE LIMITED
2618	U74140DL	2000PTC106879	BACKOFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2619	U72900DL	2000PTC106886	INDIA INFRASTRUCTURE ON LINE SERVICES PRIVATE LIMITED
2620	U95000DL	2000PTC106913	G10 RESOURCE (INDIA) PRIVATE LIMITED
2621	U55101DL	2000PTC106916	B 1 BEVERAGES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2622	U74899DL	2000PTC106922	SOS COMPUTERS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2623	U15202DL	2000PTC106956	NISSDINN FOOD PRIVATE LIMITED
2624	U18101DL	2000PTC106996	THIRTEEN ONLINE PRIVATE LIMITED
2625	U27109DL	2000PTC107072	GANDT OIL AND GAS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2626	U45201DL	2000PTC107075	SHREE SAI NATH CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
2627	U72200DL	2000PTC107102	AGNIHOTRI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2628	U51109DL	2000PTC107105	RUDRA APPARELS PRIVATE LIMITED
2629	U18101DL	2000PTC107106	TRINETRA APPARELS PRIVATE LIMITED
2630	U51495DL	2000PTC107199	SAIVANA HOME FURNISHING PRIVATE LIMITED
2631	U31909DL	2000PTC107213	JAKSON POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED.
2632	U74899DL	2000PLC107214	SHANT IT CONSOLIDATIONS LIMITED
2633	U74899DL	2000PTC107271	RISHMAN FISHERIES PRIVATE LIMITED
2634	U74899DL	2000PTC107324	GAJA TARA TRAVEL PRIVATE LIMITED
2635	U72200DL	2000PTC107340	ADITYA COMPUTECH PRIVATE LIMITED
2636	U74920DL	2000PTC107403	DFN-SECURITY AND DETEKTEI SERVICES PRIVATE LIMITED
2637	U99999DL	2000PTC107424	DELHI IT VENTURE TWO THOUSAND LIMITED
2638	U74899DL	2000PLC107425	DELHI IT VENTURE CAPITAL LIMITED
2639	U72900DL	2000PTC107463	GEMPLEX INTERNET INDIA PRIVATE LIMITED
2640	U72900DL	2000PTC107536	LATERAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2641	U45220DL	2000PTC107590	D.K.INSULATION CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2642	U18101DL	2000PTC107646	MADHU JAIN CLOTHING COMPANY PRIVATE LIMITED
2643	U80903DL	2000PTC107670	UNZIP SOFTECH PRIVATE LIMITED
2644	U51311DL	2000PTC107686	ODDKIDS.COM PRIVATE LIMITED
2645	U52212DL	2000PTC107689	D.R. MARKETING PRIVATE LIMITED.
2646	U72100DL	2000PTC107691	DYNAMIC SURE-SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2647	U72200DL	2000PTC107763	EKRAFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2648	U51109DL	2000PTC107800	LANDSEND SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED
2649	U52392DL	2000PTC107802	JET INFORMATICS COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
2650	U51223DL	2000PTC107816	RISHMAN SEA FOODS PRIVATE LIMITED
2651	U64120DL	2000PTC107820	U.S. EXPRESS PRIVATE LIMITED
2652	U72900DL	2000PTC107874	QMGN (INDIA) PRIVATE LIMITED
2653	U92111DL	2000PTC107948	G.M. ENTERTAINMENT AND SOFTWARE PRIVATE LIMITED

2654	U51503DL2000PTC107957	MEETIKA TRADING PRIVATE LIMITED
2655	U64201DL2000PTC107958	TOTAL ACCESS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2656	U72300DL2000PTC108066	NEW ERA.COM PRIVATE LTD
2657	U72300DL2000PTC108098	VERTICALSPARES.COM PRIVATE LIMITED
2658	U65992DL2000PTC108102	HUMSANG CHITS PRIVATE LIMITED
2659	U74140DL2000PTC108103	GESTALT CAPITAL CONSULTANCY SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2660	U72200DL2000PTC108106	TANDON CLARETDENE MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED
2661	U72900DL2000PTC108188	NEXT SOFTWARES PRIVATE LIMITED
2662	U74899DL2000PTC108204	CIN MINERVA INFOTECH PRIVATE LIMITED
2663	U65992DL2000PTC108212	SUDI KSHA CHITS PRIVATE LIMITED
2664	U74140DL2000PTC108221	CROSSMIND NETWORK PRIVATE LIMITED
2665	U80101DL2000PTC108228	SARTHAK SHIKSHA PRIVATE LIMITED
2666	U63040DL2000PTC108267	JB MANAGEMENT PVT LTD
2667	U74140DL2000PTC108297	DESI JOB OPTIONS PVT. LTD.
2668	U99999DL2000PTC108321	MONARCH MARINE PRIVATE LIMITED
2669	U74920DL2000PTC108463	DARBHANGA BULLS SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED.
2670	U64202DL2000SGC108466	IEC INFO TELECOMMUNICATION (INDIA) LIMITED
2671	U14295DL2000PTC108474	SHIV RAM AGENCIES PVT LTD
2672	U60100DL2000PTC108484	RISHMAN MARINE PVT LTD
2673	U00000DL2000PTC108544	5NWAY NET WORK MARKETING PRIVATE LIMITED
2674	U74999DL2000PTC108571	DELTA AVIONICS MATERIALS PRIVATE LIMITED
2675	U00000DL2000PTC108574	KAMLA RATTAN AND SONS PRIVATE LIMITED
2676	U28291DL2000PTC108583	SUNTECH POLYMERS PRIVATE LIMITED
2677	U80101DL2000PTC108586	ADARSH EDUCATIONAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED.
2678	U00000DL2000PTC108649	DHARMYUG MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
2679	U00000DL2000PTC108658	BROKEN HILLS OVERSEAS PRIVATE LIMITED
2680	U72200DL2000PTC108689	VARDAN INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
2681	U74899DL2000PTC108696	DECOR DELIGHT.COM PRIVATE LIMITED
2682	U00000DL2000PTC108765	VASU IMPEX PRIVATE LIMITED
2683	U72200DL2000PTC108786	CORPORATE VALUE SOFTWARE PVT. LTD.
2684	U74899DL2000PTC108833	FISME SERVICES PRIVATE LIMITED
2685	U45201DL2000PTC108863	REGENT SQUARE PROMOTERS PRIVATE LIMITED
2686	U74899DL2000PTC108909	B B TRAVELS PRIVATE LIMITED
2687	U72200DL2000PLC108926	NIKKEI INFO TECHNOLOGIES LIMITED
2688	U00000DL2000PTC108981	FROZEN NATURAL IMPORT EXPORT PRIVATE LIMITED
2689	U74899DL2000PTC109022	ONLINE INDIAFX PRIVATE LIMITED
2690	U74899DL2001PTC109100	ANJU COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2691	U72900DL2001PTC109157	UNICOM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2692	U24231DL2001PTC109181	SIACO INDIA PRIVATE LIMITED
2693	U74899DL2001PTC109268	INMARK CONCEPTS (INDIA) PRIVATE LIMITED.
2694	U74899DL2001PTC109287	BALAJI PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
2695	U74899DL2001PTC109301	VAISHALI LEATHER PRIVATE LIMITED
2696	U72200DL2001PTC109361	COMTECH INFONEXT SERVICES PRIVATE LIMITED
2697	U74899DL2001PTC109362	SONI COMPUTERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2698	U74899DL2001PTC109450	MEGA TAPES PRIVATE LIMITED

2699	U74899DL	2001PLC109466	NETWAVE TECHNOLOGY LIMITED
2700	U74899DL	2001PTC109492	ACCENTS ADVERTISING PRIVATE LIMITED
2701	U72200DL	2001PTC109535	XYMORPH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2702	U74899DL	2001PTC109546	UNI-TEL COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2703	U72200DL	2001PTC109602	KARAN GANGA MULTISOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2704	U01409DL	2001PTC109635	CONCERNING PETS PRIVATE LIMITED
2705	U74899DL	2001PTC109639	ARSH TRAVEL AND TOURS PRIVATE LIMITED
2706	U45201DL	2001PTC109662	SINGH TOMAR CONST. COMPANY PRIVATE LIMITED
2707	U74899DL	2001PTC109697	NOBLE FASHION PRIVATE LIMITED
2708	U74899DL	2001PLC109699	PLUS INDEMNITY SERVICES LIMITED
2709	U00000DL	2001PTC109716	KIDARSON AND COMPANY IMPEX PRIVATE LIMITED
2710	U74899DL	2001PTC109754	DEVLOGICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2711	U74899DL	2001PTC109775	DRIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2712	U52392DL	2001PTC109806	TELFY INFOTECH PRIVATE LIMITED
2713	U63023DL	2001PTC109810	DIGITAL MOVEWAY PRIVATE LIMITED
2714	U74899DL	2001PTC109815	KINGSGATE RESOURCES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED KING
2715	U92199DL	2001PTC109974	R.M. ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
2716	U67110DL	2001PTC109976	INIX PUBLIC PEERING POINT PRIVATE LIMITED
2717	U92113DL	2001PTC110024	NEWSHOUND PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
2718	U72100DL	2001PTC110086	LOTUS DESIGN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2719	U67120DL	2001PTC110160	ONLINE INDIA CAPITAL BROKERAGES PRIVATE LIMITED
2720	U74994DL	2001PTC110174	DESIGNWAYS INTERIORS PRIVATE LIMITED
2721	U72900DL	2001PTC110302	DUKES SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2722	U72200DL	2001PTC110322	AARSH COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2723	U99999DL	2001PTC110398	MEDIA GLITZ (INDIA) PRIVATE LIMITED
2724	U72900DL	2001PTC110533	E2IQ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2725	U99999DL	2001PTC110539	YAG TRANSCRIPTS PVT. LTD.
2726	U99999DL	2001PTC110545	INDIANOIL PETROCHEM LTD.
2727	U52190DL	2001PTC110554	SABA INDUSHA EXIM PRIVATE LIMITED
2728	U72200DL	2001PTC110590	NOIDA COMPUTECH PVT LTD
2729	U67190DL	2001PTC110624	APEX PORTFOLIOS PRIVATE LIMITED
2730	U34100DL	2001PTC110644	TORELLE AUTO GAS EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
2731	U63011DL	2001PTC110712	HAG CARGO SERVICES PVT. LTD.
2732	U74300DL	2001PTC110811	NEW ADVERTISEMENT MEDIA ENTERTAINMENT PVT. LTD
2733	U99999DL	2001PTC110864	DISCOVERYFULL CIRCLE TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
2734	U72200DL	2001PTC111061	R S D INFOLITEPRIVATE LIMITED
2735	U72900DL	2001PTC111079	ABACA WEB SOLUTIONS PVT LTD
2736	U45203DL	2001PTC111119	HDDS PROJECTS PRIVATE LIMITED
2737	U99999DL	2001PTC111130	SPECIALISED SYSTEM COMPANY PVT. LTD.
2738	U72200DL	2001PTC111151	CLIMBTECH INFORMATION TECHNOLOGIES PVT. LTD.
2739	U74210DL	2001PTC111187	ONGIO INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2740	U74999DL	2001PTC111228	GEOCON ADVANCED SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2741	U74140DL	2001PTC111445	SOUTHEND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2742	U72200DL	2001PTC111463	LUTHRA I T PLANET PVT LTD
2743	U72200DL	2001PTC111488	AAKRITI SOFTWARE PVT. LTD.



2744	U51109DL2001PTC111520	APG IMPEX PVT. LTD.
2745	U31300DL2001PTC111546	NDIDA INSULATORS PRIVATE LIMITED
2746	U74300DL2001PTC111587	TPS MIND MAGNET PVT. LTD.
2747	U74999DL2001PTC111615	YDRKTON STEELS PVT. LTD.
2748	U74920DL2001PTC111619	MPA (INDIA) PVT. LTD.
2749	U35999DL2001PTC111675	TDRELLE GAS EQUIPMENTS PVT. LTD.
2750	U24233DL2001PTC111695	RIGHTLIFE PRODUCTS PVT. LTD.
2751	U72900DL2001PTC111715	SAMADHAN INFDSYSTEMS PRIVATE LIMITED
2752	U92112DL2001PTC111829	D K FILMS PVT LTD
2753	U33112DL2001PTC111858	DISHA HOSPITALS AND HEALTH CARE PVT. LTD.
2754	U66010DL2001PTC111906	ASSOCIATES INDIA INSURANCE AGENTS PVT. LTD.
2755	U63090DL2001PTC111913	IK TRAVEL GREENWAYS PVT. LTD.
2756	U18109DL2001PTC111916	KARMIC ATELIER PVT. LTD.
2757	U15412DL2001PTC111991	S A S FOODS PVT LTD
2758	U62100DL2001PTC112062	JETSTREAM AEROSPACE PVT. LTD.
2759	U27101DL2001PTC112086	MATSHINE ALLDYS PVT. LTD.
2760	U72900DL2001PTC112091	ARKA SYSTEMS PVT LTD
2761	U51900DL2001PTC112179	SAV EXPORT IMPORT PRIVATE LIMITED
2762	U74140DL2001PTC112206	TECS ENGINEERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2763	U74999DL2001PTC112280	GODDHME MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
2764	U92112DL2001PTC112295	WHIZZ FILMS PRIVATE LIMITED.
2765	U29142DL2001PTC112331	VCN ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2766	U19201DL2001PTC112334	FABTEX OVERSEAS PRIVATE LIMITED
2767	U74999DL2001PTC112336	TRUE VISION MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2768	U74999DL2001PTC112345	REAL WORTH DISCOUNT CARDS PRIVATE LIMITED
2769	U80301DL2001PTC112363	NETSITE EDUCATION PRIVATE LIMITED
2770	U74140DL2001PTC112389	SPAR CORPORATE RESOURCES PRIVATE LIMITED
2771	U72200DL2001PTC112473	NEBULA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
2772	U45202DL2001PTC112497	SANCHIT TOWERS PRIVATE LIMITED
2773	U72900DL2001PTC112576	ENQUIRY STATION NETWORK (INDIA) PRIVATE LIMITED
2774	U51399DL2001PTC112616	D.L. NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
2775	U22190DL2001PTC112634	PDSITIVE PRESS PRIVATE LIMITED
2776	U74999DL2001PTC112688	LIFE GUARD PRIVILEGE CARD PRIVATE LIMITED
2777	U22122DL2001PTC112751	SANSIN PUBLICATION PRIVATE LIMITED
2778	U52392DL2001PTC112755	N T VISION PRIVATE LIMITED
2779	U63040DL2001PTC112758	MERCURY AVIATION SERVICES PRIVATE LIMITED
2780	U72300DL2001PTC112823	ICE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2781	U18101DL2001PTC112829	A-TEX DESIGN INDIA PRIVATE LIMITED
2782	U74999DL2001PTC112853	O.J. INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
2783	U72900DL2001PTC112968	L.K. COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2784	U74999DL2001PTC112991	7AVIOUR SYSTEMS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2785	U65999DL2001PTC113043	LIFEGEN INSURANCE ADVISORS PRIVATE LIMITED
2786	U74999DL2001PTC113090	LIBRAN VICTORY NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
2787	U74999DL2001PTC113260	GOLDEN IMMIGRATION SERVICES PRIVATE LIMITED
2788	U51909DL2001PTC113335	PRATHAM EXIM PRIVATE LIMITED

2789	U74999DL2001PTC113445	SPA VISION INTERNAL DISCOUNT CARDS PRIVATE LIMITED
2790	U74140DL2001PTC113448	TRUTH AND VISION SERVICES PRIVATE LIMITED
2791	U72200DL2001PTC113478	OXSHOTT CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED
2792	U73200DL2001PTC113563	PARAMOUNT TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2793	U72200DL2001PTC113587	NUCLEUS SOFTECH PRIVATE LIMITED
2794	U72200DL2001PTC113615	I-PAD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2795	U72200DL2001PTC113616	PARAPHRASE INFOTECH PRIVATE LIMITED
2796	U72200DL2001PTC113617	PARADOX INFOTECH PRIVATE LIMITED
2797	U72200DL2001PTC113618	NOTION INFOTECH PRIVATE LIMITED
2798	U72200DL2001PTC113620	I-VAULT SOFTECH PRIVATE LIMITED
2799	U32109DL2002PTC113663	TAMSO ELECTRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2800	U72200DL2002PTC113720	HPS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2801	U74140DL2002PTC113754	ARBITRAGE CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
2802	U51397DL2002PLC113788	GEE SONS HEALTH CARE LIMITED
2803	U74999DL2002PTC113892	L.V NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
2804	U51909DL2002PTC113944	COMPLETE CONSUMER CARE MARKETING PRIVATE LIMITED
2805	U65992DL2002PTC113978	BEST LUCK CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2806	U72200DL2002PTC113988	V-GEN INFOTECH PRIVATE LIMITED
2807	U72200DL2002PTC113990	I-GEN INFOTECH PRIVATE LIMITED
2808	U51909DL2002PTC114038	MILLIONAIRES CHOICE MARKETING PRIVATE LIMITED
2809	U74999DL2002PTC114055	ANJANI MARSHALL (INDIA) PRIVATE LIMITED
2810	U18101DL2002PTC114120	NO KIDDING GARMENTS PRIVATE LIMITED
2811	U63090DL2002PTC114130	AAGMAN TOURS PRIVATE LIMITED
2812	U74920DL2002PTC114156	QUADRANT SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
2813	U72900DL2002PTC114167	NETRIUM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2814	U72900DL2002PTC114194	CORFUSION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED D
2815	U72200DL2002PTC114305	SIGNAGE SOFTECH PRIVATE LIMITED
2816	U72200DL2002PTC114307	CANDOR INFOTECH PRIVATE LIMITED
2817	U51397DL2002PTC114480	SANIDHYA EXPORTS PRIVATE LIMITED
2818	U51909DL2002PTC114539	GARV OVERSEAS PRIVATE LIMITED
2819	U51311DL2002PTC114551	JRG MART PRIVATE LIMITED
2820	U72200DL2002PTC114601	NETWORK CYBER INDIA PRIVATE LIMITED
2821	U74999DL2002PTC114673	TOPAZ CONTROLS AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2822	U72900DL2002PTC114678	SAN BROTHERS NETWORK PRIVATE LIMITED
2823	U64120DL2002PTC114737	AMTRAK PARCEL SERVICE PRIVATE LIMITED
2824	U25209DL2002PTC114763	BAIJNATH POLYMERS PRIVATE LIMITED
2825	U72900DL2002PTC114845	OM CALL CONNECT PRIVATE LIMITED
2826	U22219DL2002PTC114979	VECTOR AND RASTER DESIGNS PRIVATE LIMITED
2827	U34300DL2002PTC115054	PANCHSHEEL REGISTRATION PLATES PRIVATE LIMITED
2828	U72900DL2002PTC115220	ICON CONTACT CENTRE PRIVATE LIMITED
2829	U31909DL2002PTC115221	KRISTON ELECTRICAL ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2830	U63040DL2002PTC115337	S T S TRAVEL AND MARKETING NETWORK PRIVATE LIMITED
2831	U85110DL2002PTC115351	SIDDHANT HOSPITAL PRIVATE LIMITED
2832	U15531DL2002PTC115365	AICOBEV DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
2833	U18101DL2002PTC115451	OMEGA FABRICS PRIVATE LIMITED

2834	U51909DL2002PTC115490	TRUMP MARKETING PRIVATE LIMITED
2835	U64201DL2002PTC115514	REGENT TELE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
2836	U74140DL2002PTC115579	ADSP CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2837	U64120DL2002PTC115587	SUPERIOR COURIERS PRIVATE LIMITED
2838	U51909DL2002PTC115744	FAST GROW MARKETING PRIVATE LIMITED
2839	U22110DL2002PTC115787	GTE MARKETING AND ADVERTISING PRIVATE LIMITED
2840	U72200DL2002PTC115817	PROACTIVES SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2841	U92132DL2002PTC115821	MUSKAN MUSIC ENTERTAINER PRIVATE LIMITED
2842	U72900DL2002PTC115831	EDGE4BIZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2843	U51909DL2002PTC115905	NAVARUPAA TRADERS PRIVATE LIMITED
2844	U31200DL2002PTC115912	VAN-UNI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2845	U51909DL2002PTC115917	RIDDHI SIDHI NETWORK PRIVATE LIMITED
2846	U72900DL2002PTC115922	INVENTIV INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2847	U15122DL2002PTC115925	PRIYANSH SEA FOODS PRIVATE LIMITED
2848	U45202DL2002PTC115966	NARAYAN PROJECTS PRIVATE LIMITED
2849	U63013DL2002PLC115995	EAGLE LOGISTICS INDIA LIMITED
2850	U18101DL2002PTC116156	COTTON COLORS HOSIERY PRIVATE LIMITED
2851	U55101DL2002PTC116231	JASHAN SWEETS AND LITE BITES PRIVATE LIMITED
2852	U74994DL2002PTC116257	SINGH INTERIORS PRIVATE LIMITED
2853	U36911DL2002PTC116277	DIGEMS OVERSEAS PRIVATE LIMITED
2854	U72900DL2002PTC116286	STARLINKS INDIA PRIVATE LIMITED
2855	U51909DL2002PTC116328	GR TWENTY ONE MARKETING PRIVATE LIMITED
2856	U51909DL2002PTC116331	YOKEMATE MARKETING PRIVATE LIMITED
2857	U72900DL2002PTC116470	VITAL INFORMATION PRIVATE LIMITED
2858	U34300DL2002PTC116485	PURAN AUTO DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
2859	U72900DL2002PTC116491	U V DESIGN LAB PRIVATE LIMITED
2860	U51909DL2002PTC116568	NAGDEV SALES PRIVATE LIMITED
2861	U99999DL2002PTC116650	BGM ASIA MACHINERY PRIVATE LIMITED
2862	U51909DL2002PTC116716	NBH MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
2863	U51909DL2002PTC116834	EQUORUMNET MARKETING PRIVATE LIMITED
2864	U62100DL2002PTC116889	VISTA AIR SERVICES PRIVATE LIMITED
2865	U40108DL2002PTC116959	SATYA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
2866	U32109DL2002PTC116987	KEMIL MARKETING PRIVATE LIMITED
2867	U72900DL2002PTC117046	SAHASRARA HOMEBIZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2868	U32109DL2002PTC117100	INNOVATIVE PROTECH PRIVATE LIMITED
2869	U51311DL2002PTC117179	JOSS TEXTILE PRIVATE LIMITED
2870	U29299DL2002PLC117219	CLEAN POWER LIMITED TRS FROM T.N TO DELHI
2871	U51397DL2002PTC117236	EMBARK SALES PRIVATE LIMITED
2872	U74999DL2002PTC117271	CHOICE AIRCONDITIONING SYSTEM PRIVATE LIMITED
2873	U74140DL2002PTC117287	M.S. MARCON SERVICES PRIVATE LIMITED
2874	U45201DL2002PTC117385	BRINDAVAN REALTORS PRIVATE LIMITED
2875	U51909DL2002PTC117386	UDIT SUGAR WORKS PRIVATE LIMITED
2876	U51909DL2002PTC117398	LAKSTAR MARKETING PRIVATE LIMITED
2877	U45201DL2002PTC117413	ZENIA AND FERN ESTATES PRIVATE LIMITED
2878	U51397DL2002PTC117476	UMANG MERCANTILE SERVICES PRIVATE LIMITED

2879	U27203DL	2002PTC117583	ANKSAR METAL TEAK PRIVATE LIMITED
2880	U21012DL	2002PTC117602	ART MESH PAPER STORE PRIVATE LIMITED
2881	U51909DL	2002PTC117693	JOVE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
2882	U24231DL	2002PLC117699	AJIT MITTAL HEALTH CARE LIMITED
2883	U72900DL	2002PTC117737	BMG INFOTECH PRIVATE LIMITED
2884	U92199DL	2002PTC117880	THIRD EYE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
2885	U74140DL	2002PTC117903	GENESIS FISCAL LINX PRIVATE LIMITED
2886	U30007DL	2002PTC118046	DANG COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2887	U74300DL	2003PTC118352	INFOMAXX MEDIA PRIVATE LIMITED
2888	U45201DL	2003PTC118512	SKILLFUL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2889	U72900DL	2003PTC118537	FIDELIA TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
2890	U27109DL	2003PTC118608	KATARIA NICAST ALLOYS PRIVATE LIMITED
2891	U51909DL	2003PTC118661	SUNLEADING MARKETING PRIVATE LIMITED
2892	U74920DL	2003PTC118693	RPD SECURITY PLACEMENT PRIVATE LIMITED
2893	U51909DL	2003PTC118763	RACE FOR YOU MARKETING PRIVATE LIMITED
2894	U74140DL	2003PTC118799	G SIX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2895	U72200DL	2003PLC118925	AB(INDIA) INFOTECH LIMITED
2896	U51909DL	2003PTC119056	GEW CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
2897	U63090DL	2003PTC119167	P P TRANSPORT PRIVATE LIMITED
2898	U26959DL	2003PTC119187	UTILITY CONCRETE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2899	U72900DL	2003PTC119353	ELLVEE SOFTECH SERVICES PRIVATE LIMITED
2900	U80102DL	2003PTC119399	RIGHT STEP LEARNING SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED
2901	U51311DL	2003PTC119483	KSK EXIM PRIVATE LIMITED
2902	U63040DL	2003PTC119698	WESTERN HOLIDAYS AND TOURS PRIVATE LIMITED
2903	U74300DL	2003PTC119791	MAKEMYTRIP OUTSOURCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2904	U74140DL	2003PTC119860	CORPORATE HRD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2905	U65910DL	2003PTC119947	ELAND LEASING AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
2906	U74140DL	2003PTC119999	AUBURN CONSULTING PRIVATE LIMITED
2907	U63040DL	2003PTC120071	PERFECT SOLUTION TOURLITE PRIVATE LIMITED
2908	U33130DL	2003PTC120078	INSIST AVTOMATIKA INDIA PRIVATE LIMITED
2909	U24231DL	2003PTC120146	RADIANT LIFETREE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
2910	U24239DL	2003PTC120158	F PHARMA PRIVATE LIMITED
2911	U34300DL	2003PTC120321	FAHRZEUGELEKTRIK PIRNA INDIA PRIVATE LIMITED
2912	U63040DL	2003PTC120332	TWINS TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
2913	U85110DL	2003PTC120377	DR.RITA SURGICAL LASER CLINIC PRIVATE LIMITED
2914	U32109DL	2003PTC120394	SADHNA HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
2915	U72900DL	2003PTC120422	SANJITA POWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2916	U74140DL	2003PTC120555	HAMILTON IMMIGRATION SERVICES PRIVATE LIMITED
2917	U51909DL	2003PTC120556	NEO VINE MARKETING PRIVATE LIMITED
2918	U24231DL	2003PTC120730	D P HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
2919	U22219DL	2003PTC120845	SPECTRAVISION DESIGNS AND PRINTS PRIVATE LIMITED
2920	U80211DL	2003PTC120856	SHAKUN OVERSEAS EDUCATION PRIVATE LIMITED
2921	U32109DL	2003PTC120929	SPEEC APPLIANCES PRIVATE LIMITED
2922	U51909DL	2003PTC120974	BAJAJ TOPLINE MERCHANDISING PRIVATE LIMITED
2923	U74140DL	2003PTC120984	A.K.LEARNING DIMENSION PRIVATE LIMITED

2924	U15209DL2003PTC121027	D S DAIRY AIDS PRIVATE LIMITED
2925	U72900DL2003PTC121155	MERCURY ECOM PRIVATE LIMITED
2926	U51909DL2003PTC121219	STYLETTE EXPORTS PRIVATE LIMITED
2927	U24231DL2003PTC121269	ADVANTAGE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2928	U92111DL2003PTC121346	COMPETENT PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
2929	U72900DL2003PTC121584	SRIJAN COMPUTECH SERVICES PRIVATE LIMITED
2930	U63013DL2003PTC121662	TIRUPATI BALAJI CARGO PACKERS AND MOVERS PRIVATE LIMITED
2931	U51909DL2003PTC121731	KINKO IMPEX PRIVATE LIMITED
2932	U51311DL2003PTC121764	ALPS FURNISHING PRIVATE LIMITED
2933	U80903DL2003PTC121820	INFINITY EDU-PORT PRIVATE LIMITED
2934	U74999DL2003PTC121861	SABHERWAL CREDIT COLLECTION PRIVATE LIMITED
2935	U74930DL2003PTC121914	STUTI FACILITIES SERVICES PRIVATE LIMITED
2936	U50300DL2003PTC122045	APG AUTO SERVICES PRIVATE LIMITED
2937	U74999DL2003PTC122177	KMG FOREX PRIVATE LIMITED
2938	U45200DL2003PTC122292	DVS PROJECTS PRIVATE LIMITED
2939	U72900DL2003PTC122438	ACCESS ARCHIVE TECHNDLDGY PRIVATE LIMITED
2940	U24239DL2003PTC122526	DELHI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2941	U55201DL2003PTC122531	MUGHLAI KITCHEN PRIVATE LIMITED
2942	U51909DL2003FTC122638	SWAJAN MARKETING PRIVATE LIMITED
2943	U74994DL2003PTC122796	LEPTONS SIGNAGES PRIVATE LIMITED
2944	U51909DL2003PTC122973	MOMENTUM MARKETING PRIVATE LIMITED
2945	U72900DL2003PTC122985	ABRIDGE INFQTECH INDIA PRIVATE LIMITED
2946	U50300DL2003PTC123027	ECO PEARL AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
2947	U51909DL2003PTC123069	OPPORTUNITY NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
2948	U74300DL2003PTC123173	NUVU STUDIO INDIA PRIVATE LIMITED
2949	U18101DL2003PTC123187	LEPTONS FASHIONS PRIVATE LIMITED
2950	U51909DL2003PTC123286	SIGN NETWORK CONCEPTS PRIVATE LIMITED
2951	U72900DL2003PTC123311	RV COMMVOICE TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2952	U72900DL2003PTC123567	ULTIMEDIA APPS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2953	U63040DL2003PTC123607	NOMADIC TRAVELS PRIVATE LIMITED
2954	U72900DL2003PTC123636	PACIFIC ITES OUTSOURCE PRIVATE LIMITED
2955	U74899DL2003PTC123731	SUNHILL IMPEX PRIVATE LIMITED
2956	U72900DL2003PTC123744	TRILTON SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2957	U74899DL2003PTC123760	UNIQUE CRICKET CHALLENGE.COM PRIVATE LIMITED
2958	U74110DL2004PTC124187	DWIVEDI LAW OFFICE PRIVATE LIMITED
2959	U74999DL2004PTC124214	HERMIT BUILDMAT PRIVATE LIMITED
2960	U51909DL2004PTC124405	SHERRY MARKETING PRIVATE LIMITED
2961	U63040DL2004PTC124473	SKYDEALS VOYAGE PRIVATE LIMITED
2962	U29199DL2004PTC124478	Q.S. CONTROLS INTEGRATORS PRIVATE LIMITED
2963	U29199DL2004PTC124635	KOVROV ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED
2964	U74110DL2004PTC124658	KDB LIQUIDATION SERVICES PRIVATE LIMITED
2965	U65910DL2004PLC124716	TELEVISION EIGHTEEN FINCAP LIMITED
2966	U74999DL2004PTC125022	FRESHWAYS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2967	U45201DL2004PTC125025	ULTRA CONSTRUCTION AND ENGINEERING COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED
2968	U24239DL2004PTC125031	HERBOREX BIOTECH PRIVATE LIMITED

2969	U55201DL2004PTC125039	WAVENS AFFINITIES HIGHWAY RESORTS PRIVATE LIMITED
2970	U74300DL2004PTC125261	SUPER SIGNAGES PRIVATE LIMITED
2971	U63090DL2004PTC125536	B L LOGISTICS PRIVATE LIMITED
2972	U74140DL2004PTC125569	TECHSPEEDIA HR MANAGMENT SERVICES PRIVATE LIMITED.
2973	U92312DL2004PTC125648	I.P.MUSIC PRIVATE LIMITED
2974	U72900DL2004PTC125722	OSCON E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2975	U50300DL2004PTC125905	GANPAT BREAK AND CLUTCH PRIVATE LIMITED
2976	U74140DL2004PTC125921	EFFICIENT SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED
2977	U50200DL2004PTC125929	GANPATI CARCARE PRIVATE LIMITED
2978	U45201DL2004PTC125992	PRUDENCE BUILDCON PRIVATE LIMITED
2979	U55204DL2004PTC126461	PGS CATERERS PRIVATE LIMITED
2980	U63040DL2004PTC126607	NUGEN TRAVELS PRIVATE LIMITED
2981	U80301DL2004PTC126991	TAKEONE SCHOOL OF MASS COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
2982	U51909DL2004PTC127060	R.V.D. ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2983	U51909DL2004PTC127422	PARMARTH IMPEX PRIVATE LIMITED
2984	U74220DL2004PTC127470	NEW ERA CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED
2985	U51311DL2004PTC127755	PURE HC GARMENT ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
2986	U72300DL2004PTC128094	ADA INFOTECH PRIVATE LIMITED
2987	U27109DL2004PTC128157	R M B METAL CRAFTS PRIVATE LIMITED
2988	U41000DL2004PTC128487	RAINBOW AQUA TECH PRIVATE LIMITED
2989	U74140DL2004PTC128718	MENON AND MENON MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2990	U85110DL2004PLC129076	CEDNA HEALTH CARE LIMITED
2991	U64292DL2004PTC129089	PRIMUS TELECOMUNICATIONS MOBILES SERVICES PRIVATE LIMITED
2992	U32109DL2004PTC130550	A.A. POWER LINE EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
2993	U74999DL2004PTC130969	TAJIMART IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
2994	U18101DL2004PTC131234	KYMS GARMENTS PRIVATE LIMITED
2995	U74999DL2005PTC132239	CHASING INFINITY HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2996	U18101DL2005PTC132341	VICTOR KNITFAB PRIVATE LIMITED
2997	U62200DL2005PTC132437	SENERGY AERO AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
2998	U55202DL2005PTC132475	LEE CHINESE CUISINE PRIVATE LIMITED
2999	U31903DL2005PTC132653	ATHENASHAKTI SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3000	U18101DL2005PTC132696	EVOLUTION GARMENTS PRIVATE LIMITED
3001	U31504DL2005PTC133480	TAMARIND LIGHTING PRIVATE LIMITED
3002	U34300DL2005PTC133808	PRUDENCE AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
3003	U18101DL2005PTC133941	PRUDENCE FASHIONS PRIVATE LIMITED
3004	U25209DL2005PTC134138	PRIDE POLYMERS PRIVATE LIMITED
3005	U00309DL2005PTC134812	CONFIDENT DENTAL MANUFACTURING (INDIA) PRIVATE LIMITED

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sara Detergent Private Limited

Kanpur-208 0001, the 7th February 2007

No. 560(5)/SES-05/11662/3299.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sara Detergents Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
U. P. and Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mohammodabad Peoples Tannery Limited

Kanpur-208 0001, the 31st January 2007

No. 560(5)/SES-05/3031/3301.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of M/s. Mohammodabad Peoples Tannery Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies are dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
U. P. and Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Jaipur-302 006, the 31st January 2007

No. ROC/SES/2005/95.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said Companies and are dissolved:—

Sl. No.	Co. Regd. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	U26933RJ2000 PTC016384	M/s. Nirmala Ceramics Private Limited
2.	U15440RJ2002 PTC017791	M/s. Kukas Food Products Private Limited
3.	U63040RJ1985 PTC009197	M/s. Highland Tourism Co. Private Limited
4.	U30001RJ1996 PTC011423	M/s. Genious Office Equipment Private Limited
5.	U72200RJ2002 PTC017440	M/s. Red Tray Technology Private Limited

1	2	3
6.	U51101RJ1994 PLC008361	M/s. Anuvrit Business (India) Limited
7.	U51109RJ1962 PTC001145	M/s. Standard Autoparts Private Limited
8.	U24302RJ1999 PTC 016013	M/s. Sandeep Spuntex Private Limited
9.	U67200RJ2004 PTC019287	M/s. Dwapar Assurance Services Private Limited
10.	U26911RJ1982 PTC002486	M/s. Super Potteries Private Limited
11.	U51101RJ1994 PTC08528	M/s. Trade Link Impex Private Limited
12.	U31102RJ1997 PTC013291	M/s. Sonika Transformer Private Limited
13.	U1395RJ1980 PTC002055	M/s. Maulshree India Private Limited
14.	U85110RJ1995 PTC010943	M/s. Sewa Ram Ramratan Hospital Private Limited
15.	U72200RJ2002 PTC017503	M/s. Haimee Information Technologies Private Limited
16.	U24139RJ1981 PTC002163	M/s. Orient Gum Industries Private Limited
17.	U67120RJ1992 PTC007106	M/s. Standard Chartered Consultants Private Limited
18.	U01122RJ1994 PTC008693	M/s. Reya Blossoms Private Limited
19.	U14101RJ1992 PTC006743	M/s. Dimensional Stones (India) Private Limited
20.	U51101RJ1994 PTC008140	M/s. Dimensional Sales Private Limited
21.	U80302RJ2004 PTC019452	M/s. Govind Murari Garg Suwal Institute Private Limited
22.	U14102RJ1995 PTC010082	M/s. Kumar Granimarmo Private Limited
23.	U65910RJ1994 PTC008245	M/s. Jagan Finance and Leasing Company Private Limited
24.	U19201RJ1999 PTC006342	M/s. Footmatch Leathers Private Limited
25.	U72200RJ2003 PTC018352	M/s. 4GL Info-Tech Private Limited
26.	U72200RJ2002 PTC017578	M/s. Thar Touch Software Solutions Private Limited

1	2	3	1	2	3
27.	U65923RJ1995 PTC010496	M/s. Falcon Credits Limited	48.	U26943RJ1991 PTC006212	M/s. Kasera Cements Private Limited
28.	U65910RJ1995 PTC010494	M/s. Chinar Finlease Limited	49.	U14102RJ1995 PTC010953	M/s. Jaya Granimarmo (India) Private Limited
29.	U65923RJ1995 PTC 010493	M/s. Esquire Credits Limited	50.	U72100RJ1997 PTC013934	M/s. Net Commerze (India) Private Limited
30.	U65910RJ1995 PTC010492	M/s. Himgiri Finlease Limited	51.	U51311RJ1997 PTC013656	M/s. Dhariwal's Sona Enterprises Private Limited
31.	U65910RJ1995 PTC010495	M/s. Flora Finlease Limited	52.	U15499RJ1998 PTC014567	M/s. Anjani Putra Foods Private Limited
32.	U72200RJ2002 PTC017785	M/s. Majority Infosolutions Private Limited	53.	U52190RJ2002 PTC017846	M/s. Samridhi Network Private Limited
33.	U63090RJ1997 PTC013723	M/s. Dunes Shipping Private Limited	54.	U15204RJ1992 PTC007025	M/s. Guddu Frozen Milk Products Private Limited
34.	U31300RJ1997 PTC 014494	M/s. T. G. Tradelink Private Limited	55.	U72100RJ1987 PTC004019	M/s. Computronics (India) Private Limited
35.	U74995RJ2004 PTC019049	M/s. Siddhi Vinayak Tolls Private Limited	56.	U50101RJ2005 PTC020311	M/s. Marwar Automart Private Limited
36.	U52110RJ2002 PTC017599	M/s. Kamdhenu Home Packs Marketing Private Limited	57.	U31200RJ1983 PTC002810	M/s. V. G. Mohnot and Co. Private Limited
37.	U27101RJ1987 PLC004096	M/s. Hi-Tech Forge Limited	58.	U85110RJ2000 PTC016488	M/s. Sushila Asopa Hospital Private Limited
38.	U31902RJ1985 PLC003350	M/s. Wens (India) Limited	59.	U01119RJ1992 PTC006463	M/s. Satyam Gums Private Limited
39.	U65910RJ1996 PTC 012161	M/s. Brahmampuri Finance and Leasing Private Limited	60.	U17111RJ1997 PTC013590	M/s. Navdeep Spinning Mills Private Limited
40.	U74140RJ1997 PTC013450	M/s. Rajdeep Enterprises Private Limited	61.	U40101RJ1996 PTC012621	M/s. Raj Samand Power Private Limited
41.	U65993RJ1996 PTC011696	M/s. Suryakiran Finvest (India) Limited	62.	U40101RJ1996 PTC012622	M/s. Banswara Power Private Limited
42.	U17122RJ2000 PTC016391	M/s. Rajlaxmi Silk N Sarees Private Limited	63.	U40101RJ1996 PTC012623	M/s. Chittaurgarh Power Private Limited
43.	U11101RJ1997 PTC013363	M/s. Bharatpur Agrofuels Private Limited	64.	U18101RJ1996 PTC012619	M/s. Bhilwara Power Private Limited
44.	U28939RJ1997 PTC013679	M/s. Matta Fabrications and Fabricators Private Limited	65.	U55101RJ1985 PTC003319	M/s. Rajasthan Midways and Motels Private Limited
45.	U15411RJ1999 PTC015525	M/s. Laxi Breads Private Limited	66.	U65993RJ1988 PTC004272	M/s. Bhilwara Investment Private Limited
46.	U72200RJ1998 PTC015270	M/s. Vatsal Computers Private Limited	67.	U31300RJ1996 PTC011739	M/s. Satyam Refractories Private Limited
47.	U45201RJ1992 PTC006686	M/s. Shanker Developers and Builders Private Limited	68.	U74999RJ1996 PTC012620	M/s. Udaipur Power Private Limited



1	2	3	1	2	3
69.	U26943RJ1991 PLC006267	M/s. Shree Padam Cement Limited	90.	U67120RJ1995 PTC009384	M/s. Sancheti Capital Services Private Limited
70.	U24124RJ1999 PLC015930	M/s. Riddhi Siddhi Phosphates and Fertilisers Limited	91.	U45201RJ1996 PTC012521	M/s. Arunodaya Arts and Crafts Private Limited
71.	U15142RJ1998 PTC014903	M/s. Ridhi Sidhi, Edible Oils Private Limited	92.	U45201RJ1992 PTC006978	M/s. Arunoday Property and Builders Private Limited
72.	U34300RJ1995 PTC010801	M/s. Meghna Ventures Private Limited	93.	U52190RJ2003 PTC018518	M/s. Bhandari Tradelinks Private Limited
73.	U14219RJ1993 PTC007279	M/s. Nimbus Systems Private Limited	94.	U67120RJ1995 PTC010636	M/s. Ramsab Capital Private Limited
74.	U70100RJ2000 PLC016755	M/s. Jaipur Infrastructures Limited	95.	U21015RJ1996 PTC011465	M/s. Photofax Papers (Rajasthan) Private Limited
75.	U01211RJ1998 PTC004241	M/s. Rudrakh Hatcheries Private Limited	96.	U21015RJ1996 PTC011464	M/s. Ajay Printopep Private Limited
76.	U51311RJ2002 PTC017421	M/s. Swapnil Tradelink Private Limited	97.	U72200RJ1998 PTC015226	M/s. SRJ Transmission Systems Private Limited
77.	U15433RJ1991 PTC005919	M/s. Poonam Sweet Products Private Limited	98.	U45201RJ1996 PTC013000	M/s. Zodiac Residency Private Limited
78.	U29120RJ1995 PTC009684	M/s. Systematic Hydraulics Private Limited	99.	U51101RJ1994 PTC008922	M/s. Jaya Exim Private Limited
79.	U74999RJ2004 PTC019677	M/s. Saraswati Handicrafts Private Limited	100.	U72200RJ2003 PTC018655	M/s. Marudhar Online Private Limited
80.	U72200RJ2001 PTC0016910	M/s. Prem Infotech Private Limited	101.	U67120RJ1996 PTC012293	M/s. Nikshunj Finance Private Limited
81.	U15141RJ1991 PTC006211	M/s. Shri Sunrise Oils Private Limited	102.	U67120RJ1997 PTC013223	M/s. Maiya Finance Private Limited
82.	U27101RJ1993 PTC007455	M/s. Surana Sons Private Limited	103.	U25209RJ1996 PTC012995	M/s. Surguja Plastics Private Limited
83.	U63040RJ1996 PTC012351	M/s. Ruomars Tours and Travels Private Limited	104.	U51101RJ1994 PTC009044	M/s. Nimbarka Exports Private Limited
84.	U24139RJ1982 PTC002532	M/s. Digvijay Gumchem Private Limited	105.	U65923RJ1997 PTC013221	M/s. Maa Karnal Agro Finance and Investment Limited
85.	U15511RJ1997 PTC014229	M/s. Rahul Breweries Private Limited	106.	U65993RJ1983 PTC002855	M/s. Tamra Investment Private Limited
86.	U14101RJ1995 PTC009976	M/s. Pankaj Stones Private Limited	107.	U14101RJ1996 PTC012489	M/s. Impala Marbles Private Limited
87.	U72200RJ2004 PTC018872	M/s. Manikandan Software Private Limited	108.	U24124RJ1999 PLC015737	M/s. Gangotri Phosphate Limited
88.	U67120RJ1996 PTC012467	M/s. Magnetic Finance Limited	109.	U14101RJ1997 PTC013502	M/s. Ratan Marbles Private Limited
89.	U51101RJ1994 PTC008009	M/s. Sandrock Exports Private Limited	110.	U60221RJ2000 PTC016197	M/s. Motile Parivahan Private Limited

1	2	3	1	2	3
111.	U67120RJ1995 PTC009796	M/s. Kanhai Securities Private Limited	132.	U65910RJ1995 PTC009592	M/s. Sanchit Leafin Private Limited
112.	U51109RJ2002 PTC017459	M/s. Sinart Entrance Marketing and Trading Company Private Limited	133.	U24117RJ1982 PIC002391	M/s. Smita Chemicals and Metals Limited
113.	U14107RJ1998 PTC015008	M/s. Ajay Limes Private Limited	134.	U24117RJ1980 PTC001995	M/s. Pink City Chemical Private Limited
114.	U24117RJ1998 PTC014583	M/s. Nakora Lime Chemicals Private Limited	135.	U29299RJ1993 PTC007375	M/s. Bhojraj Engineering Works Private Limited
115.	U67120RJ1995 PTC010534	M/s. Balar Finance Limited	136.	U92114RJ1997 PTC013164	M/s. Dharma Gyan-Chakra Private Limited
116.	U15432RJ1997 PTC013372	M/s. Vinayak Confectioneries Private Limited	137.	U52190RJ2002 PTC017819	M/s. H. F. Marketing Private Limited
117.	U55102RJ1996 PTC011924	M/s. Mahalaxmi Holiday Resorts Private Limited	138.	U65910RJ1995 PTC009983	M/s. Rainbow Finvest Private Limited
118.	U92120RJ1996 PTC012060	M/s. Mahalaxmi Exhibitors Private Limited	139.	U85110RJ1998 PTC014772	M/s. Khariwal Hospital and Fertility Research Centre Private Limited
119.	U65993RJ1987 PTC004239	M/s. Primrose Investments Private Limited	140.	U29299RJ1992 PTC007024	M/s. Tools Forging (India) Private Limited
120.	U15499RJ1988 PTC004469	M/s. Cozy Foods Private Limited	141.	U74994RJ2000 PTC016411	M/s. Saraswati Art Palace Private Limited
121.	U55101RJ1955 PTC010127	M/s. Rajwada Palace Resort Hotels Private Limited	142.	U18101RJ1994 PTC008748	M/s. Shakun Processors Private Limited
122.	U65910RJ1996 PTC012400	M/s. D. S. Finlease Private Limited	143.	U24117RJ1982 PTC002590	M/s. Monarch Chems and Allied Private Limited
123.	U52190RJ2002 PTC017593	M/s. Skyplanet Marketing Private Limited	144.	U40102RJ1996 PTC011821	M/s. Jodhpur Electric Power Company Limited
124.	U14219RJ1995 PTC010213	M/s. Remoniks Chemicals Private Limited	145.	U17111RJ1995 PTC010664	M/s. Ess Kay Cotton and Oil Private Limited
125.	U72100RJ1997 PTC013536	M/s. Zanix Solutions Private Limited	146.	U45201RJ1999 PTC015348	M/s. Mahadev Buildcon and Merchandise Private Limited
126.	U65910RJ1986 PLC003621	M/s. Getwell Leasing Limited	147.	U74991RJ1998 PTC015075	M/s. Gaurav Expocom Private Limited
127.	U14101RJ1989 PTC005155	M/s. Mayank Marbles Limited	148.	U55102RJ1990 PTC005493	M/s. JP's Tourist Village Resorts Private Limited
128.	U14101RJ2004 PTC019582	M/s. Bodamali Marbles Private Limited	149.	U24124RJ2003 PTC018460	M/s. Aryan Organic Farming Private Limited
129.	U85110RJ1993 PTC007852	M/s. Suncity Health Club Private Limited	150.	U24117RJ1988 PTC004366	M/s. Unique Exhibitors Private Limited
130.	U92111RJ1984 PTC003099	M/s. Monarch Films Combined Private Limited	151.	U51101RJ2001 PTC017186	M/s. Dwarka Tradelink Private Limited
131.	U28992RJ1995 PTC009533	M/s. Khunteta Metals Private Limited	152.	U24119RJ1984 PTC003135	M/s. Rajasthan Activated Earths Chemicals Private Limited

1	2	3	1	2	3
133.	U67120RJ1996 PTC011672	M/s. J. N. B. Securities Private Limited	174.	U14101RJ1997 PTC014120	M/s. Yes Consilancy and Services Private Limited
134.	U70109RJ1992 PTC006895	M/s. Punsumi Farms Private Limited	175.	U51101RJ1976 PTC001669	M/s. Sanjay Enterprises (Financiers and Traders) Private Limited
135.	U65992RJ1990 PTC005309	M/s. Maggo Chit Fund and Investment Company Private Limited	176.	U31300RJ1974 PTC001554	M/s. Laxman Private Limited
136.	U67120RJ1995 PTC011301	M/s. Balaji Music Private Limited	177.	U14101RJ1996 PTC011688	M/s. Lucifer Marbles Limited
137.	U85195RJ1996 PTC011795	M/s. Relax Point Laboratories Limited	178.	U72200RJ2001 PTC016962	M/s. Versatile Sys-Tech Private Limited
138.	U51102RJ1996 PTC012505	M/s. Newpoint Marketing Associates Limited	179.	U67120RJ1996 PTC012734	M/s. Vimla Fincap Limited
139.	U31909RJ1996 PTC011793	M/s. Sound Point Exports Limited	180.	U24732RJ2002 PTC017787	M/s. Girnar Healthcare Private Limited
140.	U52190RJ2002 PTC017597	M/s. Majority Net Mark Private Limited	181.	U36911RJ2003 PTC018282	M/s. Aastha Diamonds Private Limited
141.	U44117RJ1996 PTC011364	M/s. United Unichem (India) Limited	182.	U74140RJ1992 PTC006746	M/s. Neelkamal Credit and Finance Consultants Private Limited
142.	U65993RJ1997 PTC013413	M/s. United India Fitrade Limited	183.	U26932RJ1980 PTC002022	M/s. Rajasthan Equipment Manufacturers Private Limited
143.	U51505RJ1997 PTC013412	M/s. Lords India Equipments Limited	184.	U70101RJ1993 PTC007717	M/s. Tanvitush Properties Private Limited
144.	U74140RJ2001 PTC017251	M/s. Rajasthan Transmass Media Private Limited	185.	U01122RJ1994 PTC007934	M/s. Vasudha Agro Limited
145.	U29212RJ1997 PTC014503	M/s. Jyoti Irrigation System Private Limited	186.	U67120RJ1994 PTC007954	M/s. Vasudha Finance Limited
146.	U18101RJ2002 PTC017575	M/s. R. P. M. Sulz Private Limited	187.	U65999RJ1995 PTC010952	M/s. Prime Fingrowth Private Limited
147.	U51109RJ1997 PTC014010	M/s. Choudhary Automobiles Private Limited	188.	U67120RJ1996 PTC012993	M/s. Kushal Fincon Private Limited
148.	U51909RJ2000 PTC016398	M/s. Saistones Impex Private Limited	189.	U14102RJ1995 PTC010753	M/s. Rajendra Granites Private Limited
149.	U65993RJ1995 PTC009667	M/s. Ashotosh Infin Private Limited	190.	U18108RJ1988 PTC004683	M/s. Sundram Suitings Private Limited
150.	U14219RJ1988 PTC004660	M/s. Shalimar Minerals Private Limited	191.	U45201RJ1992 PTC006715	M/s. Amba Colonisers Private Limited
151.	U19201RJ1994 PLC008849	M/s. Divya Footwears Limited	192.	U31300RJ2001 PTC017327	M/s. Kamal Cables Private Limited
152.	U26943RJ1993 PTC007673	M/s. Mahashakti Lime Products Private Limited	193.	U72200RJ2001 PTC016826	M/s. Millennium Compu-ed Private Limited
153.	U74940RJ1996 PTC011525	M/s. A. C. L. Photo Films Private Limited	194.	U31300RJ1994 PTC008330	M/s. Dani Cables Private Limited

1	2	3	1	2	3
195.	U18101RJ1997 PTC013785	M/s. Hyper Marketing Private Limited	216.	U25201RJ1996 PTC012037	M/s. Brother Polymers Private Limited
196.	U51109RJ2000 PTC016790	M/s. Pearl Multi Level Marketing Private Limited	217.	U51109RJ1995 PTC010087	M/s. Suncity Systems India Limited
197.	U51101RJ1993 PTC007387	M/s. Malhar Sales and Marketing Private Limited	218.	U72100RJ2000 PTC016752	M/s. Partapur Online.Com Private Limited
198.	U14219RJ1999 PTC015618	M/s. Neelkanth Chemicals Private Limited	219.	U24232RJ1987 PTC004123	M/s. Basil Pharma Private Limited
199.	U70101RJ1993 PTC007657	M/s. Jodhpur Towers Private Limited	220.	U31909RJ1997 PTC014191	M/s. Sukrit Energies Private Limited
200.	U51432RJ1999 PTC015615	M/s. Jyoti Buildcon Private Limited	221.	U24222RJ1998 PTC014837	M/s. Khaitan Paints Private Limited
201.	U67120RJ1994 PLC008940	M/s. Vijay Capfin Limited	222.	U72160RJ2000 PTC016170	M/s. Shakti Computronix (India) Private Limited
202.	U28991RJ2000 PTC016714	M/s. Jasper Auto Fasteners Private Limited	223.	U24117RJ1992 PTC006549	M/s. Adhinath Solvex Private Limited
203.	U14107RJ1997 PTC014374	M/s. Renaissance Chemicals Private Limited	224.	U14101RJ1992 PTC006704	M/s. Saurabh Marbles Private Limited
204.	U15543RJ1996 PTC013049	M/s. Om Mineral Water Private Limited	225.	U14219RJ1996 PTC012419	M/s. Mandrika Minerals Private Limited
205.	U24303RJ1989 PTC005025	M/s. Lacment Polysters (India) Private Limited	226.	U27105RJ1995 PTC011025	M/s. Agwan Steel Rolling Mills Private Limited
206.	U15543RJ1987 PTC003988	M/s. Arihant Chemin Private Limited	227.	U15491RJ1986 PTC0032818	M/s. Pincan Tea Products Private Limited
207.	U67120RJ1996 PTC011796	M/s. Pooja Fin Con Private Limited	228.	U25202RJ1995 PTC010520	M/s. Kalyan Plastopackers Private Limited
208.	U74210RJ1998 PTC015151	M/s. Kafa Engineers and Consultants Private Limited	229.	U74920RJ1999 PTC015671	M/s. Gauttam Placement and Securities Private Limited
209.	U64120RJ1996 PTC012739	M/s. Super Speed Courier Private Limited	230.	U52190RJ2003 PTC018121	M/s. Relaxlife Marketing Private Limited
210.	U51211RJ1998 PTC014854	M/s. Chandrawali Agrotech Private Limited	231.	U24239RJ1993 PTC007632	M/s. Advanced Orthopaedic Products Private Limited
211.	U70101RJ1990 PTC005511	M/s. Bhojnagarwala Properties Private Limited	232.	U74140RJ1995 PTC011254	M/s. Anurag Marketing Private Limited
212.	U45201RJ1997 PTC013519	M/s. Savitri Colonizers Private Limited	233.	U72200RJ2002 PTC017447	M/s. Sonia Infotech Private Limited
213.	U70101RJ1993 PTC007711	M/s. Panchratna Properties Private Limited	234.	U65910RJ1997 PTC013611	M/s. Pragaya Finlease Private Limited
214.	U51101RJ1990 PTC005536	M/s. Minal Trading Private Limited	235.	U14101RJ1995 PTC009593	M/s. Gopal Marbles and Granites Private Limited
215.	U67120RJ1997 PTC013253	M/s. Ruwatia Securities Private Limited	236.	U36911RJ1995 PTC010181	M/s. Venus Sturn Gems Private Limited

1	2	3	1	2	3
237.	U17117RJ1996 PTC012748	M/s. Prem Synthetics Private Limited	258.	U80301RJ2003 PTC018223	M/s. M. M. Queens and Kings College Private Limited
238.	U28992RJ1995 PTC010991	M/s. Choraria Poly Pack Private Limited	259.	U80301RJ2003 PTC018391	M/s. M. M. Queens College Private Limited
239.	U24291RJ1997 PTC013695	M/s. Vijaylaxmi Matches Private Limited	260.	U14101RJ1997 PTC013824	M/s. Leo Marbles Private Limited
240.	U80302RJ2001 PTC016902	M/s. STP Information Technology Private Limited	261.	U72200RJ2001 PTC016961	M/s. Shakti Computech Private Limited
241.	U02001RJ1993 PTC007722	M/s. Madhu Plantations Private Limited	262.	U31300RJ1998 PTC015056	M/s. S. J. Bulbs and Wires Private Limited
242.	U18101RJ1995 PTC010948	M/s. Madhur India Limited	263.	U45201RJ1994 PTC008702	M/s. Karim Buildcon Private Limited
243.	U34300RJ1995 PTC010423	M/s. B. S. Auto Motors Private Limited	264.	U17124RJ1988 PTC004362	M/s. Rishabh Fabrics Private Limited
244.	U65993RJ1997 PLC013689	M/s. Shree Capinvest Limited	265.	U52190RJ2002 PTC017706	M/s. Shubham Progressive Marketing Private Limited
245.	U14101RJ1995 PTC010640	M/s. Vaalkan Marbles Private Limited	266.	U14102RJ1985 PTC003223	M/s. Kekari Granite and Marbles Private Limited
246.	U67120RJ1996 PTC012874	M/s. Karnawat Fincon Private Limited	267.	U26960RJ1999 PTC015577	M/s. Shree Krishna Stoncrush Private Limited
247.	U85195RJ1992 PTC007056	M/s. Napean Laboratories Private Limited	268.	U72200RJ2004 PTC019150	M/s. Royal Infoways Private Limited
248.	U45201RJ2004 PTC019627	M/s. Satya Buildtech Private Limited	269.	U14232RJ1998 PTC014865	M/s. Ameccosmo Distributors Private Limited
249.	U24232RJ2000 PTC016260	M/s. Duomed Pharmaceuticals Private Limited	270.	U70101RJ1983 PTC002766	M/s. Madhusudan Properties and Investment Private Limited
250.	U25209RJ1972 PTC001438	M/s. Prem Plastics Private Limited	271.	U45201RJ1988 PTC004716	M/s. Aditya Awass Private Limited
251.	U14101RJ1981 PTC002219	M/s. Manish Manju Marbles Private Limited	272.	U51397RJ1998 PTC014754	M/s. Dharmann Medicine Channel Private Limited
252.	U51101RJ1994 PTC008185	M/s. Dusad Trading Company Private Limited	273.	U67120RJ1996 PTC011403	M/s. Adinath Pratyabhoot Private Limited
253.	U55102RJ1999 PTC015444	M/s. Mundra Resorts Private Limited	274.	U20201RJ1995 PTC010547	M/s. Saboo Polymers Limited
254.	U52208RJ2001 PTC016853	M/s. Jaipur Wines Limited	275.	U65922RJ1995 PTC011137	M/s. Genius Leafin Homes Private Limited
255.	U25201RJ1994 PTC008408	M/s. Shree Syntex Limited	276.	U55201RJ1998 PTC014873	M/s. Rajasthan Restaurants Private Limited
256.	U55102RJ1999 PTC015925	M/s. G. K. V. Holidays Private Limited			
257.	U72200RJ2001 PTC017202	M/s. Vision Effect Techno Systems Private Limited			

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lucky Steels Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 29th January 2007

No. ROC/JTA/(KH)/U/s. 560(3)2007/9630.—Notice is hereby given that pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lucky Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

S. R. DARA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Galaxy Metal Alloys Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 29th January 2007

No. ROC/JTA/(KH)/U/s. 560(3)2007/9633.—Notice is hereby given that pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Galaxy Metal Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

S. R. DARA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Eklayva Metasteel Forging Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 29th January 2007

No. ROC/JTA/(KH)/U/s. 560(3)2007/9636.—Notice is hereby given that pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Eklayva Metasteel Forging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

S. R. DARA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Burroughs Wellcome Pharmaceuticals Limited

Mumbai-400 002, the 29th January 2007

No. 124670/560/26/4203.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Burroughs Wellcome Pharmaceuticals Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kolkata-700 020, the 31st January 2007

No. ROC/WB/IPC/560(SM)/07.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof, the name of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	ST Code	Regn. No.	Name of Company
1	2	3	4
1.	21	83825	M/s. 2I Crotech Techno Services Private Limited
2.	21	29043	M/s. A. & A. Associates Private Limited
3.	21	45423	M/s. A. B. Beverages (India) Private Limited
4.	21	50079	M/s. A. G. S. Commercial Private Limited
5.	21	44786	M/s. A. H. B. Engineers Industries Private Limited
6.	21	13594	M/s. A. K. Basu Private Limited
7.	21	86884	M/s. A. K. Poly Products Private Limited
8.	21	48108	M/s. A. Kapoor & Sons Private Limited
9.	21	31129	M/s. A. Karim Alloys Industries Private Limited
10.	21	36464	M/s. A. M. Business & Trading Private Limited
11.	21	21277	M/s. A. N. Laha & Co. Private Limited

1	2	3	4	1	2	3	4
12.	21	16399	M/s. A. N. Laha & Sons Private Limited	36.	21	67317	M/s. Aalekha Sales Private Limited
13.	21	30867	M/s. A. N. Y. Tools Private Limited	37.	21	87912	M/s. A. A. N. R. Trade Directory Private Limited
14.	21	32397	M/s. A. P. Constructions Private Limited	38.	21	44620	M/s. Aapaar Mudran Private Limited
15.	21	19319	M/s. A. Pandit & Brothers (1916) Private Limited	39.	21	51711	M/s. Aar Vee Exports Private Limited
16.	21	77108	M/s. A. R. Engineering & Equipments Private Limited	40.	21	52145	M/s. Aar-Tee Industrial Development Company Private Limited
17.	21	48501	M/s. A. R. S. R. Diagnostics Private Limited	41.	21	83936	M/s. Aaren Agriculture Private Limited
18.	21	63849	M/s. A Square B. Engineering & Marketing Private Limited	42.	21	47444	M/s. Aaren Fabrics Private Limited
19.	21	88703	M/s. A. T. P. Distributors Private Limited	43.	21	48064	M/s. Aaren Jute Beautilities Private Limited
20.	21	50460	M/s. A to Z Enterprises Private Limited	44.	21	44172	M/s. Aarex Commercial Private Limited
21.	21	58137	M/s. A to Z Marketing Private Limited	45.	21	57080	M/s. Aashita Investments Private Limited
22.	21	55284	M/s. A. B. C. R. (Exports) Private Limited	46.	21	86691	M/s. Aastha Communications Private Limited
23.	21	51613	M/s. A. G. Enterprises Private Limited	47.	21	46975	M/s. Aastha Properties Private Limited
24.	21	67145	M/s. A. K. Advisors Private Limited	48.	21	87548	M/s. Aatish Agencies Private Limited
25.	21	71308	M/s. Mini Rice Mill Private Limited	49.	21	77772	M/s. Aatish Marketing Private Limited
26.	21	72325	M/s. A. S. Admarcon India Private Limited	50.	21	57888	M/s. Abacus Mercantiles Private Limited
27.	21	49438	M/s. A. S. Dupli Copiers Private Limited	51.	21	62184	M/s. Abalone Commotradors Private Limited
28.	21	49616	M/s. A. S. Wires & Cables Private Limited	52.	21	79641	M/s. Abba Shoes Private Limited
29.	21	52174	M/s. A. S. A. Automotive Private Limited	53.	21	54291	M/s. Abbe Marketing Consultancy Private Limited
30.	21	49667	M/s. A. T. Polypack Private Limited	54.	21	37166	M/s. A. B. C. International Private Limited
31.	21	87927	M/s. A. Z. Hydro Air (India) Private Limited	55.	21	28734	M/s. Abcots India Private Limited
32.	21	65048	M/s. Aahuti Impex Private Limited	56.	21	41787	M/s. Abeng Engineers Private Limited
33.	21	67308	M/s. Aakarshan Vyapaar Private Limited	57.	21	51754	M/s. Abha Chemical & Finvest Private Limited
34.	21	58656	M/s. Aakruti Exports Private Limited	58.	21	51665	M/s. Abha Exim & Holdings Private Limited
35.	21	62704	M/s. Aakruti Plastics Private Limited				

1	2	3	4	1	2	3	4
59.	21	47109	M/s. Abhas Erectors Private Limited	83.	21	32856	M/s. Acme Industrial and Marketing Consultants Private Limited
60.	21	49415	M/s. Abhay Stud & Agricultural Farm Private Limited	84.	21	59425	M/s. Acolyte Construction Company Private Limited
61.	21	51631	M/s. Abhi Trade & Credit Private Limited	85.	21	52225	M/s. Action Traders Private Limited
62.	21	63081	M/s. Abhilasha Metals Private Limited	86.	21	57675	M/s. Ad Make Advertising Agencies Private Limited
63.	21	63389	M/s. Abhilasha Niryat Private Limited	87.	21	63101	M/s. Ad-on-Wheels Marketing Private Limited
64.	21	31079	M/s. Abhinandan Food Services Private Limited	88.	21	66502	M/s. Ad Blut Tie-up Private Limited
65.	21	45927	M/s. Abhinava Hotels Private Limited	89.	21	46939	M/s. Adcom Advertising Private Limited
66.	21	68317	M/s. Abhiruchi Syntex Private Limited	90.	21	44507	M/s. Addaitya Housing and Land Development Company Private Limited
67.	21	35892	M/s. Abhista Siddhi Private Limited	91.	21	41610	M/s. Addax Tyres (India) Private Limited
68.	21	78505	M/s. Abhiyan Trading Private Limited	92.	21	62421	M/s. Addwitiya Housing & Finance Private Limited
69.	21	67790	M/s. Abhpara Tie-up Private Limited	93.	21	57188	M/s. Adeic-Meditec Private Limited
70.	21	39440	M/s. Abhinashi Trading Private Limited	94.	21	45581	M/s. Adelac Elected Private Limited
71.	21	23571	M/s. Abjanabh Industries Private Limited	95.	21	67819	M/s. Private Aden Textiles Limited
72.	21	54857	M/s. A. B. T. Carriers (Ex-Servicemen) Private Limited	96.	21	66350	M/s. Adhunik Equit Services Private Limited
73.	21	42990	M/s. Abu Polytex Private Limited	97.	21	83188	M/s. Aditi Credit Private Limited
74.	21	78507	M/s. Accauto Trading Private Limited	98.	21	49707	M/s. Aditya Exim Private Limited
75.	21	61526	M/s. Accuracy Multi Media Private Limited	99.	21	79030	M/s. Aditya Inn and Resorts Private Limited
76.	21	62532	M/s. Accurate Sales Promotion Private Limited	100.	21	32745	M/s. Private Aditya Wares Limited
77.	21	87572	M/s. Accutech Needle Products Private Limited	101.	21	78363	M/s. Admire Trading Private Limited
78.	21	39706	M/s. Acetochem & Organic Lavolactities Private Limited	102.	21	67094	M/s. Adonis Plastics Private Limited
79.	21	26806	M/s. Acharya Kapok Mills Private Limited	103.	21	67564	M/s. Adonis Travels Private Limited
80.	21	49257	M/s. Achi Leathers Private Limited	104.	21	66347	M/s. Advait Equiservices Private Limited
81.	21	48098	M/s. Acme Decals Private Limited	105.	21	32455	M/s. Advanced Apparatus (Electricals) Private Limited
82.	21	28742	M/s. Acme Electro Industries Private Limited	106.	21	84259	M/s. Advanced Institute of System Technology Technology Private Limited



1	2	3	4	1	2	3	4
107.	21	53976	M/s. Advanced Systems Engineers Private Limited	128.	21	50149	M/s. Aishwarya Plantation Private Limited
108.	21	52771	M/s. AEC Rerailing Private Limited	129.	21	74985	M/s. Ajanta Lexim Private Limited
109.	21	70680	M/s. Acmech Mercantile & Sakes Private Limited	130.	21	30286	M/s. Ajanta Portland Pozzolana Ceement & Mineral Industries Private Limited
110.	21	39822	M/s. Aeon Drug Industries Private Limited	131.	21	55096	M/s. Ajanta Rubber (India) Private Limited
111.	21	90564	M/s. AES Couries & Cargo Private Limited	132.	21	43486	M/s. Ajay finance & Trading Co. Private Limited
112.	21	62691	M/s. Agantuk Commotrade Private Limited	133.	21	16189	M/s. Ajhapur Rice Husking & Milling Private Limited
113.	21	63619	M/s. Agardoot Commodeal Private Limited	134.	21	12636	M/s. Ajoy Bank Coal Co. Private Limited
114.	21	39730	M/s. Aggarwal & Saha Private Limited	135.	21	19623	M/s. Ajoy Private Limited
115.	21	48744	M/s. Agarwal Enterprises Private Limited	136.	21	54648	M/s. Akancha Finance & Investment Company Private Limited
116.	21	45312	M/s. Agarwal Mercantile Company Private Limited	137.	21	62338	M/s. Akarshak Sales Promotion Private Limited
117.	21	19288	M/s. Agencies & Supplies Private Limited	138.	21	61355	M/s. Akash Enclave Private Limited
118.	21	44820	M/s. Agragami Properties Private Limited	139.	21	83840	M/s. Akash Ganga Travel Private Limited
119.	21	75395	M/s. Agro & Bio-Chem Private Limited	140.	21	51511	M/s. Akash Gear Couplings Travel Private Limited
120.	21	70553	M/s. Agantuk Dealers Private Limited	141.	21	87290	M/s. AKG Health Care Centre Travel Private Limited
121.	21	52367	M/s. AHV Properties Private Limited	142.	21	59270	M/s. Akhil & Arun Commodities Private Limited
122.	21	2767	M/s. AI Champdany Industries Private Limited	143.	21	78132	M/s. Akhileswar Marketing Private Limited
123.	21	87835	M/s. Air and Surface Travels Private Limited	144.	21	55923	M/s. Alok Indistrial Company Private Limited
124.	21	88038	M/s. Air-O-Plus (India) Private Limited	145.	21	64146	M/s. Akola Vinimay Private Limited
125.	21	64211	M/s. Aircon Goods & Supply Private Limited	146.	21	49607	M/s. AKRC Machine Tools & Spares Private Limited
126.	21	49459	M/s. Airpack International Private Limited	147.	21	57834	M/s. Akron Sales Private Limited
127.	21	44286	M/s. Aishwarjalakshmi Finance & Investments Company Private Limited	148.	21	37346	M/s. Travel Private Limited
				149.	21	46699	M/s. AKS Data Consultants Private Limited
				150.	21	56942	M/s. AKS Sarada Enterprises Private Limited

1	2	3	4	1	2	3	4
151.	21	78862	M/s. AKS Vyapaar Private Limited	174.	21	85640	M/s. Allied Fabricator & Engineers Private Limited
152.	21	76800	M/s. Akshay Commodities Private Limited	175.	21	48927	M/s. Allied Polyset Private Limited
153.	21	88680	M/s. AK VK Trading Private Limited	176.	21	43150	M/s. Allwin Builders Private Limited
154.	21	44873	M/s. Alaric Structures Private Limited	177.	21	32784	M/s. Alok Business Private Limited
155.	21	65923	M/s. Alaska Merchants Private Limiteds	178.	21	48874	M/s. Alok Mala Savings & Investment Company Private Limited
156.	21	56184	M/s. Albatross Exports Private Limited	179.	21	56757	M/s. Alpha Centauri Health Care Private Limited
157.	21	83389	M/s. Albright Merchants Private Limited	180.	21	45812	M/s. Alpha Mechanical Private Limited
158.	21	62656	M/s. Alchemy Engineers Private Limited	181.	21	57840	M/s. Alpha Meta Trade Private Limited
159.	21	64699	M/s. Alcdbex Merchandise Private Limited	182.	21	46953	M/s. Alpha Vector Machinery Private Limited
160.	21	85067	M/s. AlEadco Batteries Private Limited	183.	21	64102	M/s. Alpic Exports Private Limited
161.	21	58972	M/s. AlEmbic Sales Private Limited	184.	21	53502	M/s. Alpine Development & Finance Private Limited
162.	21	17770	M/s. AlEx Miller (Merchants) Private Limited	185.	21	33139	M/s. Alpine Drugs Private Limited
163.	21	44938	M/s. Alfa Food Stuffs Private Limited	186.	21	49825	M/s. Alpine Resorts & Hotels Private Limited
164.	21	26678	M/s. Alfa Nach Private Limited	187.	21	66433	M/s. Alpine Vincom Private Limited
165.	21	52340	M/s. Alfa Trade & Commerce Private Limited	188.	21	68739	M/s. Alps Construction Private Limited
166.	21	71375	M/s. Alfin Investment Private Limited	189.	21	53391	M/s. Alsa Holdings Private Limited
167.	21	64689	M/s. Alfred Goods Private Limited	190.	21	49659	M/s. Alta International Private Limited
168.	21	46040	M/s. Alipur Productions Private Limited	191.	21	31917	M/s. Aluminex (G B) Private Limited
169.	21	65612	M/s. Alishan Tie-Up Private Limited	192.	21	76574	M/s. Aman Commercial Private Limited
170.	21	78694	M/s. Alkananda Suppliers Private Limited	193.	21	88690	M/s. Aman Suppliers Private Limited
171.	21	50756	M/s. All Safe Exports Private Limited	194.	21	38154	M/s. Amar Seva Kosh Private Limited
172.	21	69264	M/s. Allbless Vyapaar Private Limited	195.	21	25894	M/s. Amar Jyoti Glass Works Private Limited
173.	21	67780	M/s. Alliaguiz Mercantile Private Limited	196.	21	88542	M/s. Amarnath Rice Mills Private Limited
				197.	21	75879	M/s. Amarsakti Tie-Up Private Limited
				198.	21	66771	M/s. Ambareesh Mercantile Private Limited

1	2	3	4	1	2	3	4
199.	21	90731	M/s. Ambay Agro Products Private Limited	223.	21	88788	M/s. Anandam Software Private Limited
200.	21	78322	M/s. Amber Commercials Private Limited	224.	21	45200	M/s. Anandlok Development Projects Private Limited
201.	21	59949	M/s. Ambika Findev Private Limited	225.	21	66785	M/s. Anandmangal Sales Private Limited
202.	21	44494	M/s. Ambitious General Finance & Housing Company Private Limited	226.	21	43380	M/s. Anant Apartments Private Limited
203.	21	34043	M/s. Ambrosia Savings and Investment Co. Private Limited	227.	21	52072	M/s. Ananya Consultants Private Limited
204.	21	69228	M/s. Amerino Suppliers Private Limited	228.	21	52998	M/s. Anapol Specialised Medical Systems Private Limited
205.	21	79726	M/s. Amidev Builders Private Limited	229.	21	69763	M/s. Anarcissus Fashion Private Limited
206.	21	12613	M/s. Amijadia Food Products Private Limited	230.	21	69770	M/s. Anarcissus Supply Private Limited
207.	21	42948	M/s. Amit Credit Co. Private Limited	231.	21	43557	M/s. Anatenna Id-System Private Limited
208.	21	58888	M/s. Amit Fincredit Private Limited	232.	21	32144	M/s. Anchor Food Private Limited
209.	21	90302	M/s. A M N Infotech Private Limited	233.	21	50768	M/s. Anchor Plywood Private Limited
210.	21	77275	M/s. Amol Tie-up Private Limited	234.	21	23614	M/s. Ancillary Industries Cranks Private Limited
211.	21	66775	M/s. Ampur Commotrade Private Limited	235.	21	23619	M/s. Ancillary Industries Forgings Private Limited
212.	21	30605	M/s. Amram Ispat Udyog Private Limited	236.	21	23615	M/s. Ancillary Industries Lugs Private Limited
213.	21	63212	M/s. Amrit Aqua (India) Private Limited	237.	21	39457	M/s. Andee Pharmaceuticals Private Limited
214.	21	50182	M/s. Amrita Dhara Credit Private Limited	238.	21	49056	M/s. Andees Infotech Systems Private Limited
215.	21	67763	M/s. Amroha Tie-up Private Limited	239.	21	16102	M/s. Anderson Wright (Ramgarh) Private Limited
216.	21	89282	M/s. Amtrade Impex Private Limited	240.	21	44725	M/s. Andes Constructions Private Limited
217.	21	63349	M/s. Amulya Prava Trading Private Limited	241.	21	26671	M/s. Andutson Hardware & Chemicals Private Limited
218.	21	51443	M/s. Anaconda Appliances Private Limited	242.	21	67576	M/s. Angaja Fashion Private Limited
219.	21	88664	M/s. Analytical Engineers & Consultants Private Limited	243.	21	67562	M/s. Angaja Syntex Private Limited
220.	21	57980	M/s. Anam Exports Private Limited	244.	21	31104	M/s. Angel Finance (Chit) & Trading Co. Private Limited
221.	21	32688	M/s. Anand Medical Hall Private Limited				
222.	21	84571	M/s. Anand Overseas Private Limited				

1	2	3	4	1	2	3	4
245.	21	58069	M/s. Angel Share & Agencies Private Limited	271.	21	42410	M/s. Antarctic Coolers Private Limited
246.	21	44888	M/s. Anglia Packers Private Limited	272.	21	40899	M/s. Antarticka Commercial Company Private Limited
247.	21	84642	M/s. Angoori Syntex Private Limited	273.	21	62166	M/s. Antique Merchandise Private Limited
248.	21	67330	M/s. Angoori Software Private Limited	274.	21	55202	M/s. Anu Management Services Private Limited
249.	21	58840	M/s. Anika Zippers Private Limited	275.	21	36259	M/s. Anubha Carbons Private Limited
250.	21	54002	M/s. Anil Hotel Resorts Private Limited	276.	21	64190	M/s. Anukampa Merchants Private Limited
251.	21	49211	M/s. Anil Oxygen and Acetylene Private Limited	277.	21	70076	M/s. Anukampa Vyapaar Private Limited
252.	21	75538	M/s. Anjali Traders Private Limited	278.	21	43684	M/s. Anul Shree Trade Enterprises Private Limited
253.	21	57996	M/s. Anjan Comfin Private Limited	279.	21	67672	M/s. Anunita Traders Private Limited
254.	21	23090	M/s. Anjan Films Private Limited	280.	21	59506	M/s. Anupam Griha Nirman Private Limited
255.	21	86518	M/s. Anjaneya Builders & Promoters Private Limited	281.	21	39767	M/s. Anupam Suppliers Private Limited
256.	21	43612	M/s. Anju Himghar Private Limited	282.	21	48321	M/s. Anupriya Developers Private Limited
257.	21	61108	M/s. Ank Equity Services Private Limited	283.	21	61624	M/s. Anurodh Holdings Private Limited
258.	21	58146	M/s. Ankara Holdings Private Limited	284.	21	71041	M/s. Anusala Sales Private Limited
259.	21	57865	M/s. Ankit Overseas Investors Private Limited	285.	21	19826	M/s. Anushilan Agency Private Limited
260.	21	64178	M/s. Ankle Sales Private Limited	286.	21	56053	M/s. Anushree Impex Private Limited
261.	21	56692	M/s. Ankush Trexim Private Limited	287.	21	87012	M/s. Anuska Developers Private Limited
262.	21	59659	M/s. Anmol Apparels Private Limited	288.	21	86904	M/s. Aparan Computer Private Limited
263.	21	56349	M/s. Anmol Investments Private Limited	289.	21	64632	M/s. Aparupa Vyapaar Private Limited
264.	21	19491	M/s. Annapurna Farming and Fisheries Private Limited	290.	21	39978	M/s. Apec Consortium Private Limited
265.	21	78736	M/s. Annapurna Commodities Private Limited	291.	21	52874	M/s. Apee Fabrication & Engineering Private Limited
266.	21	46232	M/s. Annu Commercial Private Limited	292.	21	62821	M/s. Apex Commodities (India) Private Limited
267.	21	86403	M/s. Anpoul Pharma Private Limited				
268.	21	75427	M/s. Anree Investment Private Limited				
269.	21	42918	M/s. Anshu Investors Private Limited				
270.	21	84042	M/s. Ansuman Merchants Private Limited				

1	2	3	4	1	2	3	4
293.	21	49550	M/s. Apex Flux and Pigments Private Limited	317.	21	53531	M/s. Arch Wear Private Limited
294.	21	89361	M/s. Apex Mercantile Private Limited	318.	21	89184	M/s. Archana Confectioners (India) Private Limited
295.	21	30399	M/s. Apex Pharmaceuticals Private Limited	319.	21	52317	M/s. Archieve Holding Private Limited
296.	21	78358	M/s. Apex Vinimay Private Limited	320.	21	47504	M/s. Arco Multifin Private Limited
297.	21	40527	M/s. Apollo Consultants Private Limited	321.	21	77147	M/s. Arcan Exports Private Limited
298.	21	61949	M/s. Appu Services Private Limited	322.	21	87254	M/s. Argosi Cosmetics Private Limited
299.	21	85438	M/s. APS Pet Private Limited	323.	21	44199	M/s. Arham Traders Private Limited
300.	21	45857	M/s. Apsa Leather Private Limited	324.	21	78786	M/s. Arihant Commotrade Private Limited
301.	21	43087	M/s. Apsa Tool & Design Engineers Private Limited	325.	21	55205	M/s. Arihant Stock Links Private Limited
302.	21	78835	M/s. Apsara Tradelink Private Limited	326.	21	76833	M/s. Aris Barter Private Limited
303.	21	34592	M/s. Apsara Exports Private Limited	327.	21	78063	M/s. Aristo Texcon Private Limited
304.	21	43653	M/s. Apsara Leather Styles Private Limited	328.	21	69818	M/s. Aristodic Sales Private Limited
305.	21	69433	M/s. Apsara Silks Private Limited	329.	21	61252	M/s. Arkay Ispat Vinimay Private Limited
306.	21	69659	M/s. Apurnajay Foods Private Limited	330.	21	88548	M/s. Arlin Enterprises Private Limited
307.	21	43522	M/s. Aquagraphic India Private Limited	331.	21	62850	M/s. Arol Products Private Limited
308.	21	57732	M/s. Aradhana Financial Services Private Limited	332.	21	48848	M/s. Aromatic Tar Oils Private Limited
309.	21	57731	M/s. Aradhana Merchandise Private Limited	333.	21	48746	M/s. Arpan Trade & Credit Private Limited
310.	21	54082	M/s. Arambagh Tar & Chemicals Private Limited	334.	21	56524	M/s. Arpit Holdings & Properties Private Limited
311.	21	69747	M/s. Aramusk Commodities Private Limited	335.	21	63788	M/s. Arpita Overseas Private Limited
312.	21	49305	M/s. Arash Engineers Private Limited	336.	21	50781	M/s. Arris Food Products Private Limited
313.	21	49169	M/s. Arati Saving Investment Company Private Limited	337.	21	42869	M/s. Ars Chemicals Private Limited
314.	21	62709	M/s. Aravali Commerce Private Limited	338.	21	7596	M/s. Art Floors Private Limited
315.	21	44082	M/s. Arbo Chem Private Limited	339.	21	79158	M/s. Artline Tracon Private Limited
316.	21	28284	M/s. Arch Industries (Foundry Equipments) Private Limited	340.	21	43691	M/s. Artonex Export Import Private Limited
				341.	21	45463	M/s. Arun Polymers Private Limited
				342.	21	57147	M/s. Aruna Agency Private Limited
				343.	21	45895	M/s. Arunesh Transport & Construction Company Private Limited

1	2	3	4	1	2	3	4
344.	21	86655	M/s. Arunjay Consultants Private Limited	368.	21	84114	M/s. Ashis Jutex Private Limited
345.	21	79091	M/s. Arunoday Commerce Private Limited	369.	21	90333	M/s. Ashray Bhoomi Land & Housing Development Private Limited
346.	21	39915	M/s. Arvind Industrial Works Private Limited	370.	21	32968	M/s. Ashutosh Engineering Private Limited
347.	21	26292	M/s. Arvind Steels Private Limited	371.	21	15425	M/s. Asiatic Construction & Transport Co. Private Limited
348.	21	60087	M/s. Arvind Vinimay Private Limited	372.	21	19851	M/s. Asoke Dutta & Co. Private Limited
349.	21	90690	M/s. Arya Petro Products Private Limited	373.	21	23695	M/s. Asoke Wire Products Private Limited
350.	21	64610	M/s. Arya Complex Private Limited	374.	21	66635	M/s. Aspinwall Distributors Private Limited
351.	21	24608	M/s. Aryan Textiles Private Limited	375.	21	48114	M/s. Aspo Farm & Dairy Products Private Limited
352.	21	66621	M/s. Aryasthan Commercial Private Limited	376.	21	66759	M/s. Aspolight Barter Private Limited
353.	21	88686	M/s. Arzoo Merchandise Private Limited	377.	21	24477	M/s. Assam Bihar Construction Co. Private Limited
354.	21	31779	M/s. Asansol Consumers Agency Private Limited	378.	21	3543	M/s. Assam Sylhet Tea Co. Limited
355.	21	46154	M/s. Asansol Small Scale Cottage Udyog Private Limited	379.	21	34706	M/s. Assoc-Cenmentation (India) Private Limited
356.	21	32189	M/s. ASAPCS India Private Limited	380.	21	18752	M/s. Associated Aesby Industries Private Limited
357.	21	48254	M/s. Ascon Business Private Limited	381.	21	23766	M/s. Associated Commercial Co. of India Private Limited
358.	21	52987	M/s. Ascon Enterpriser Private Limited	382.	21	86442	M/s. Associated Enclave Private Limited
359.	21	37592	M/s. ASCOT Finished Leathers Private Limited	383.	21	48919	M/s. Associated Extrusion & Gravure Private Limited
360.	21	66788	M/s. Aseptive Vyapaar Private Limited	384.	21	45486	M/s. Associated Marine Consultants Private Limited
361.	21	43652	M/s. Asha Power Equipments Private Limited	385.	21	21770	M/s. Associated Mercantile Corporation Private Limited
362.	21	47535	M/s. Ashar Pradeep Finance & Investment Company Private Limited	386.	21	45508	M/s. Associated Precision Engineering Company Private Limited
363.	21	89030	M/s. Ashatit Commercial Private Limited	387.	21	16845	M/s. Associated Steel Construction Private Limited
364.	21	68091	M/s. Ashina Agencies Private Limited	388.	21	65734	M/s. ASSR Bengal Marketing Private Limited
365.	21	88421	M/s. Ashirbad Agency Private Limited				
366.	21	88571	M/s. Ashirbad Fibres Private Limited				
367.	21	84666	M/s. Ashirbad Towers Private Limited				

1	2	3	4	1	2	3	4
389.	21	47991	M/s. Assrayan Housing Private Limited	412.	21	76609	M/s. August Dealers Private Limited
390.	21	50167	M/s. Assurance Holdings Private Limited	413.	21	59013	M/s. Aura Offset Private Limited
391.	21	62946	M/s. Assyst Consultancy and Marketing Private Limited	414.	21	73175	M/s. Auro Shikha Vinimay Private Limited
392.	21	31344	M/s. Astarmen (India) Private Limited	415.	21	46032	M/s. Aurna Video Centre Private Limited
393.	21	56487	M/s. Astonish Promoters Private Limited	416.	21	34123	M/s. Aurum Properties Private Limited
394.	21	39812	M/s. Astra Properties Private Limited	417.	21	55542	M/s. Auster Battery Private Limited
395.	21	76446	M/s. Astra Services and Products Private Limited	418.	21	38337	M/s. Auto Offset Private Limited
396.	21	86781	M/s. Astral Fiscal Private Limited	419.	21	19944	M/s. Auto Power (India) Private Limited
397.	21	88251	M/s. At Infotech Services Private Limited	420.	21	22693	M/s. Auto Technical Private Limited
398.	21	48085	M/s. ATA Rubber Sales Private Limited	421.	21	26838	M/s. Auto Turner Private Limited
399.	21	36258	M/s. ATC Freight Movers Private Limited	422.	21	34439	M/s. autokraft Engineering Enterprises Private Limited
400.	21	84041	M/s. Ateesh Merchants Private Limited	423.	21	78699	M/s. Automotiv Suppliers Private Limited
401.	21	26736	M/s. Atiman Engineers Private Limited	424.	21	50996	M/s. Avalon Designs Private Limited
402.	21	40016	M/s. Atina Engineering Company Private Limited	425.	21	78137	M/s. Avam Suppliers Private Limited
403.	21	49681	M/s. Atinpur Tea Company Private Limited	426.	21	62778	M/s. Avatar Vinimay Private Limited
404.	21	7527	M/s. Atirex Investments Private Limited	427.	21	48844	M/s. Avinanda Films Private Limited
405.	21	62679	M/s. Atiuttam Traders Private Limited	428.	21	49876	M/s. Avinash Raj Constructions Private Limited
406.	21	43875	M/s. Atlas Impex Private Limited	429.	21	47768	M/s. Avishkar Estates & Holdings Private Limited
407.	21	34428	M/s. Atneels Consultants Private Limited	430.	21	76988	M/s. Avishkar Investments Private Limited
408.	21	56793	M/s. A to Z Exporters Private Limited	431.	21	37961	M/s. Avon India Private Limited
409.	21	89207	M/s. At One Pharmaceutical Private Limited	432.	21	59340	M/s. Avtar Trexim Private Limited
410.	21	67466	M/s. At Run Supply Private Limited	433.	21	47482	M/s. Awadh Investments Private Limited
411.	21	17378	M/s. Atta Textiles Private Limited	434.	21	83839	M/s. Awantika Commodeal Private Limited
				435.	21	59133	M/s. Ayushi Investments Private Limited
				436.	21	37658	M/s. Azad Hind Bonded Warehouse Private Limited
				437.	21	26058	M/s. Azad Rubber Company Private Limited

1	2	3	4	1	2	3	4
438.	21	64783	M/s. Azel Commercial Private Limited	463.	21	88665	M/s. B'Bicks Food & Beverages Private Limited
439.	21	63221	M/s. Azure Tehcom Private Limited	464.	21	43179	M/s. B. A. B. Agro Limited
440.	21	67828	M/s. Azure Tracom Private Limited	465.	21	23698	M/s. B. A. P. Productions Private Limited
441.	21	57387	M/s. B. & P. Properties Private Limited	466.	21	51569	M/s. B. A. R. Mercantiles Private Limited
442.	21	60942	M/s. B. & R. Foundation Private Limited	467.	21	53864	M/s. B. A. R. Carriers Private Limited
443.	21	18928	M/s. B. B. C. Private Limited	468.	21	88208	M/s. B. B. Ice Factory Private Limited
444.	21	84775	M/s. B. B. Housing Private Limited	469.	21	62156	M/s. B. B. J. Engineering Private Limited
445.	21	42986	M/s. B. C. Paul & Grand Sons Private Limited	470.	21	33004	M/s. B. Builders & Constructions Company Private Limited
446.	21	22859	M/s. B. Chakraborty & Co. Private Limited	471.	21	46285	M/s. B. D. Contractors Enterprise Private Limited
447.	21	44918	M/s. B. D. Fab Creators Private Limited	472.	21	46830	M/s. B. G. Commercial Private Limited
448.	21	32723	M/s. B. D. Sharma Automobiles Private Limited	473.	21	53697	M/s. B. M. Resources Private Limited
449.	21	50007	M/s. B. G. Agro Board Private Limited	474.	21	59954	M/s. B. M. Promoters & Builders Private Limited
450.	21	43690	M/s. B. I. Holdings Private Limited	475.	21	47051	M/s. B. M. Financial Consultants Private Limited
451.	21	20170	M/s. B. Jiwaon & Co. Private Limited	476.	21	52714	M/s. B. S. Teaxports Private Limited
452.	21	46943	M/s. B. K. Builders Private Limited	477.	21	53867	M/s. B. S. Thermonics Private Limited
453.	21	4278	M/s. B. K. Mukherjee Co. Private Limited	478.	21	39405	M/s. B. S. Ferrous Private Limited
454.	21	23731	M/s. B. K. Saha & Sons Private Limited	479.	21	55855	M/s. B. V. Carriers Private Limited
455.	21	15801	M/s. B. K. Sirker Private Limited	480.	21	57214	M/s. Baba Karunamoy Housing Finance & Investment Private Limited
456.	21	67740	M/s. B. M. J. Developers Private Limited	481.	21	84842	M/s. Baba Lokenath Transport Private Limited
457.	21	18909	M/s. B. M. Mantri & Co. Private Limited	482.	21	79784	M/s. Babbage Business Service Private Limited
458.	21	14872	M/s. B. M. Sen (Agency) Private Limited	483.	21	54353	M/s. Babbu Trade & Investments Private Limited
459.	21	48510	M/s. B. N. Forging Works Private Limited	484.	21	20813	M/s. Babex Private Limited
460.	21	10643	M/s. B. N. Kumar & Co. Private Limited	485.	21	43767	M/s. Babylon Hutments Private Limited
461.	21	7302	M/s. B. N. Sanyal Private Limited	486.	21	66701	M/s. Back Bone Mercantile Private Limited
462.	21	48713	M/s. B. S. S. Metals Private Limited				



1	2	3	4
487.	21	67571	M/s. Bactro Supply Private Limited
488.	21	59446	M/s. Baden Investment & Finance Company Private Limited
489.	21	16374	M/s. Badri & Co. Private Limited
490.	21	24238	M/s. Badu Steel Works Private Limited
491.	21	89068	M/s. Bagchi Marketing & Services Private Limited
492.	21	47569	M/s. Bahan Carriers Private Limited
493.	21	17743	M/s. Bahari & Co. Private Limited
494.	21	44192	M/s. Bahn Space Frame Structures Private Limited
495.	21	84682	M/s. Baid Computech Private Limited
496.	21	84683	M/s. Baid Infotech Private Limited
497.	21	62684	M/s. Baijnath Vinimay Private Limited
498.	21	40020	M/s. Baishali Multilayers Private Limited
499.	21	36752	M/s. Baisnav Byapar Private Limited
500.	21	52563	M/s. Bajaj Steel & Trading Company Private Limited
501.	21	53003	M/s. Bajrang Tea Exports Private Limited
502.	21	52730	M/s. Bajrang Tea Plantations Private Limited
503.	21	46395	M/s. Bajrangbali Industrial Gases Private Limited
504.	21	68777	M/s. Bajrangbali Knit Private Limited
505.	21	14708	M/s. Bakshi Manohar Lal & Sons Private Limited
506.	21	51437	M/s. Balaji Coke Industry Private Limited
507.	21	65119	M/s. Balgopal Management Private Limited
508.	21	20352	M/s. Balihari Colliery Co. Private Limited
509.	21	70332	M/s. Ball Gopal Vinimay Private Limited
510.	21	52239	M/s. Bally Villa Private Limited

1	2	3	4
511.	21	37368	M/s. Bam Engineering Co. Private Limited
512.	21	65882	M/s. Bana Consultancy Services Private Limited
513.	21	36423	M/s. Bamasons and Co. Private Limited
514.	21	20364	M/s. Bandhab Bastralaya Private Limited
515.	21	46160	M/s. Banerjee & Mukherjee Private Limited
516.	21	42784	M/s. Banga Laxmi Pharma Chem Private Limited
517.	21	45326	M/s. Banga Mata Savings and Investment Company Private Limited
518.	21	16821	M/s. Bangalee Seelpi Private Limited
519.	21	18388	M/s. Banik Sangha Private Limited
520.	21	63969	M/s. Bankura Agro Products Private Limited
521.	21	18036	M/s. Bankura Automobile Co. Private Limited
522.	21	18183	M/s. Bankura Motor Service Private Limited
523.	21	34656	M/s. Bankura Porcelain Private Limited
524.	21	67158	M/s. Banmila Merchandise Private Limited

UJJWAL ROY  
Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Cuttack-753001, the 31st January 2007

No. ROC/SEC. 560 (3)/7560.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said companies will be dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-003207	M/s. Imperial Granite & Minerals Private Limited
2.	15-003219	M/s. Kusum Agro Products Private Limited

1	2	3
3.	15-003223	M/s. Digisoft Computers Private Limited
4.	15-003230	M/s. Shiva Estate Private Limited
5.	15-003232	M/s. Lord Engineering & Consultancy Services Private Limited
6.	15-003235	M/s. Brightstar Engineering Crossways Private Limited
7.	15-003236	M/s. Jai Prakash Housing and Builders Private Limited
8.	15-003240	M/s. J. J. Construction Private Limited
9.	15-003244	M/s. P. and P. International Private Limited
10.	15-003246	M/s. New India Musical and Cassette Co. Private Limited
11.	15-003251	M/s. Kalinga Times Private Limited
12.	15-003254	M/s. Rimmy Rubbers Private Limited
13.	15-003258	M/s. Eastern Industrial Security Services Private Limited
14.	15-003262	M/s. Orissa Business Linkage Private Limited
15.	15-003272	M/s. Leopad India Private Limited
16.	15-003274	M/s. Krishna Steel Private Limited
17.	15-003276	M/s. Geomin Polulab Private Limited
18.	15-003285	M/s. Hotel Shakti Private Limited
19.	15-003289	M/s. Virgomangement Consultancy Private Limited
20.	15-003292	M/s. Manikanta Financial Company Private Limited
21.	15-003295	M/s. United Prawn Hatchery Private Limited
22.	15-003303	M/s. Shriram Plantations & Resorts Private Limited
23.	15-003307	M/s. Peterberg Breweries Private Limited
24.	15-003310	M/s. East West Housing Private Limited
25.	15-003311	M/s. Ganpati Engineering Private Limited
26.	15-003312	M/s. Zenith Aqua Estates Private Limited
27.	15-003315	M/s. Delta Developers Private Limited
28.	15-003318	M/s. Supra Super Fast Services Private Limited
29.	15-003322	M/s. Nexcon Computing Machines Private Limited

1	2	3
30.	15-003325	M/s. Prestige Small Investment Co. Private Limited
31.	15-003334	M/s. Martha Builders and Suppliers Private Limited
32.	15-003335	M/s. Meg Services Private Limited
33.	15-003336	M/s. Utkal Security Services Private Limited
34.	15-003337	M/s. Simon Business Link Private Limited
35.	15-003338	M/s. Madhuri Video Parlour Private Limited
36.	15-003341	M/s. Ganeswar Exports Private Limited
37.	15-003345	M/s. Jhalani Pipes Private Limited
38.	15-003357	M/s. Baba Granites Private Limited
39.	15-003359	M/s. Siddhidata Hygienies Private Limited
40.	15-003367	M/s. Bhubaneswar Computer Centre Private Limited
41.	15-003372	M/s. Kalpataru Plantations Private Limited
42.	15-003374	M/s. Great India Pharmaceuticals Private Limited
43.	15-003375	M/s. Khanhaiya Soap & Oil Industries Private Limited
44.	15-003376	M/s. Maitree Developers Private Limited
45.	15-003378	M/s. Kalinga Seva Prakalpa Investment Limited
46.	15-003384	M/s. Biotechnologies Private Limited
47.	15-003388	M/s. A. B. T. Engineers Private Limited
48.	15-003392	M/s. M. M. Builders & Promoters Private Limited
49.	15-003395	M/s. Trisent Pharmaceuticals Private Limited
50.	15-003402	M/s. Shrushti Advertising Private Limited
51.	15-003404	M/s. Silpa Exports Private Limited
52.	15-003405	M/s. Ex-Service Commercial Link Private Limited
53.	15-003418	M/s. D. P. Associates Private Limited
54.	15-003422	M/s. Surya Security Service Private Limited
55.	15-003433	M/s. Chaudhury Ispat Private Limited

1	2	3	1	2	3
56.	15-003436	M/s. Harmony Apperments Private Limited	82.	15-003555	M/s.Paradise Resorts Private Limited
57.	15-003440	M/s. Rajdhani Security Services Private Limited	83.	15-003560	M/s. Grani Brook Private Limited
58.	15-003441	M/s. Deb Mechtek Private Limited	84.	15-003565	M/s. Citee Service Private Limited
59.	15-003456	M/s. Raj Video Parlour Private Limited	85.	15-003582	M/s. Alaksh Marketing & Leasing Private Limited
60.	15-003467	M/s. Shree Khetra Marketing Private Limited	86.	15-003588	M/s. Hitech Electric Industries Private Limited
61.	15-003469	M/s. City Security Services Private Limited	87.	15-003590	M/s. L. M. Foods Private Limited
62.	15-003470	M/s. Nabalaxmi Farms Private Limited	88.	15-003596	M/s. Viswakarma Real Estate Private Limited
63.	15-003472	M/s. Birja Transport Private Limited	89.	15-003603	M/s. Kharavel Estates Private Limited
64.	15-003475	M/s. Kalinga Marketing Private Limited	90.	15-003608	M/s. J. B. Ferro Alloys Private Limited
65.	15-003479	M/s. Evergreen Plantation & Housing Finance Private Limited	91.	15-003617	M/s. D. P. S. Rice Mills Private Limited
66.	15-003484	M/s. Infosystems Private Limited	92.	15-003619	M/s. Travel Plus Private Limited
67.	15-003486	M/s. Samlai Power Private Limited	93.	15-003621	M/s. Solvo Builders Private Limited
68.	15-003487	M/s. Orissa Consumer Services Private Limited	94.	15-003626	M/s. Caramba Marketing Private Limited
69.	15-003493	M/s. Devine Finance and Investment Private Limited	95.	15-003638	M/s. Origene Bioseds (India) Private Limited
70.	15-003495	M/s. Galaxy Systems Private Limited	96.	15-003645	M/s. Sri Jagannath Gems Academy Private Limited
71.	15-003496	M/s. Kalinga Green Plantation Private Limited	97.	15-003655	M/s. Emess Minerals Private Limited
72.	15-003507	M/s. Orient Energy Systems Private Limited	98.	15-003661	M/s. Raising Finance and Investment Private Limited
73.	15-003523	M/s. Utkal Green Plantation & Housing Finance Private Limited	99.	15-003662	M/s. Prime Consultant and Services Private Limited
74.	15-003527	M/s. Vecon Systems Private Limited	100.	15-003663	M/s. J. B. S. Developers Private Limited
75.	15-003530	M/s. Jai Matadi Cold Storage Private Limited	101.	15-003667	M/s. Puspahas Plantations and Hill Resorts Private Limited
76.	15-003532	M/s. Ashoka Trading & Exports Private Limited	102.	15-003676	M/s. Subhashree Wire Products Private Limited
77.	15-003533	M/s. Nabeen Publications Private Limited	103.	15-003677	M/s. Sunbay Shrimps Private Limited
78.	15-003536	M/s. Eklavya Plantations Private Limited	104.	15-003692	M/s. Laxmi Prakash Steels Private Limited
79.	15-003549	M/s. P. P. M. Builders Properties Private Limited	105.	15-003693	M/s. Oceland Bio-Dynastics Limited
80.	15-003551	M/s. Brahinni Pisciculture Plantation Private Limited	106.	15-003698	M/s. Venkat Laxmi Farms Private Limited
81.	15-003552	M/s. Care Food Industries Private Limited	107.	15-003699	M/s. Veejeet Exim Private Limited
			108.	15-003702	M/s. Samarpon Aqua Culture Private Limited
			109.	15-003711	M/s. Mahavir Drugs & Co. Private Limited

1	2	3
110.	15-003713 M/s.	Chotnagpur Herbal Agro Private Limited
111.	15-003719 M/s.	Auro Securities Private Limited
112.	15-003724 M/	Kalinga Cashew Processors Private Limited
113.	15-003729 M/s.	Sai Housing and Constructions Private Limited
114.	15-003730 M/s.	Hospitality Ventures Private Limited
115.	15-003732 M/s.	Suprem Wood and Chemicals Private Limited
116.	15-003735 M/s.	Royal Iron & Spokes Company Private Limited
117.	15-003736 M/s.	Indu Electronics Private Limited
118.	15-003742 M/s.	Sri Jagannath Oil Industries Private Limited
119.	15-003747 M/s.	Media Publications Private Limited
120.	15-003748 M/s.	M. S. Chemicals Private Limited
121.	15-003750 M/s.	Neeladri Builders Private Limited
122.	15-003753 M/s.	Samvab Trading & Aqua Culture Private Limited
123.	15-003760 M/s.	Lalita Aluminium Industries Private Limited
124.	15-003771 M/s.	Varun Marine Products Private Limited
125.	15-003772 M/s.	Krishna Housing & Construction Co. Private Limited
126.	15-003779 M/s.	Pappu Manoj Associates Private Limited
127.	15-003785 M/s.	Orissa Ore Calibrators Private Limited
128.	15-003789 M/s.	Sarthak Aquatics Private Limited
129.	15-003794 M/s.	Fly Ash Bricks & Allied Products Private Limited
130.	15-003803 M/s.	Paryavaran Plantations Private Limited
131.	15-003819 M/s.	M. H. C. Mineral & Resorts Private Limited
132.	15-003829 M/s.	Patra Aqua Culture Private Limited
133.	15-003832 M/s.	Metal Treats & Processors Private Limited
134.	15-003833 M/s.	See Aquafirm Private Limited

1	2	3
135.	15-003835 M/s.	Infotech Kalinga Private Limited
136.	15-003844 M/s.	Eastern Star Marketing Private Limited
137.	15-003848 M/s.	Sapphira Multi Purpose Agricultural Farm Private Limited
138.	15-003849 M/s.	Satya Construction & Research Private Limited
139.	15-003853 M/s.	Meghason Match Wood Private Limited
140.	15-003859 M/s.	Aqua-Marines Private Limited
141.	15-003862 M/s.	Gita Rice Industries Private Limited
142.	15-003867 M/s.	S. K. B. Papers Private Limited
143.	15-003875 M/s.	Bajrang Marine Products Private Limited
144.	15-003877 M/s.	Gagan Plantation Private Limited
145.	15-003887 M/s.	Maa Bhairabi Aluminium Industries Private Limited
146.	115-003931	M/s. Nayak & Nayak Allied Energy Services Limited
147.	15-003959 M/s.	Rasi Foods Private Limited
148.	15-003968 M/s.	Zee Vee Estate Developers Private Limited
149.	15-003969 M/s.	Neelachal Electronics & Telecommunications Private Limited
150.	15-003970 M/s.	Uma Maheswari Security Services Private Limited
151.	15-003971 M/s.	Spingdale Constructions Private Limited
152.	15-003976 M/s.	Sunrise Finance Private Limited
153.	15-003980 M/s.	Mohanty and Mohanty Engineering Works Private Limited
154.	15-003985 M/s.	Nexus Communications Private Limited
155.	15-003995 M/s.	Generx Services Private Limited
156.	15-004000 M/s.	Raagee Minerals Private Limited
157.	15-004006 M/s.	Petco Electronics Private Limited
158.	15-004007 M/s.	Cannonmate Electronics Private Limited
159.	15-004017 M/s.	J. J. Engineering Industries Private Limited

1	2	3	1	2	3
160.	15-004028	M/s. Black Tiger Security Services Private Limited	187.	15-004256	M/s. Steel Cements Private Limited
161.	15-002035	M/s. Indo-Global Aquatics Private Limited	188.	15-004257	M/s. Para Security Service Private Limited
162.	15-004068	M/s. Kartik Agencies Private Limited	189.	15-004262	M/s. Nisha Financial Services Private Limited
163.	15-004069	M/s. Shree Durga Transport Private Limited	190.	15-004268	M/s. Alfa Air Products Private Limited
164.	15-004077	M/s. Indicom Exports Private Limited	191.	15-004279	M/s. Jogakalia Labour Services Private Limited
165.	15-004078	M/s. Golden Triangle Real Estate & Developers Private Limited	192.	15-004281	M/s. Simple Associates Private Limited
166.	15-004080	M/s. Shree Jagannath Systems Private Limited	193.	15-004285	M/s. Vikram Refractories Private Limited
167.	15-004088	M/s. Unitek Systems Private Limited	194.	15-004291	M/s. Orissa Lamonators Private Limited
168.	15-004089	M/s. Ashirbad Investment & Finance Private Limited	195.	15-004318	M/s. Ratnagiri Estates Private Limited
169.	15-004094	M/s. Zyro Informatics Private Limited	196.	15-004321	M/s. Mass Construction & Consultancy Private Limited
170.	15-004097	M/s. Hotel Samudra Samrat & Tourism Private Limited	197.	15-004332	M/s. Hotel Auroshree International Limited
171.	15-004119	M/s. Joga Kalia Security Services Private Limited	198.	15-004335	M/s. Padmini Computers Private Limited
172.	15-004120	M/s. Green Scape (Orissa) Private Limited	199.	15-004344	M/s. Dinesh (India) Construction & Exports Private Limited
173.	15-004127	M/s. Auromaa Consultancy Services Private Limited	200.	15-004353	M/s. Ravi Ranjan Exports & Imports Private Limited
174.	15-004138	M/s. Eastern Leathers Private Limited	201.	15-004356	M/s. Almech Private Limited
175.	15-004144	M/s. Rainbow Exports Private Limited	202.	15-004358	M/s. Neelachal Builders Private Limited
176.	15-004150	M/s. Nagabali Agro Industries Private Limited	203.	15-004359	M/s. Sri Gopal Components Private Limited
177.	15-004160	M/s. Greeny Plants and Animals Private Limited	204.	15-004366	M/s. Gupta Infotech Private Limited
178.	15-004162	M/s. Life Line Private Limited	205.	15-004368	M/s. Chhotaray Estate Private Limited
179.	15-004172	M/s. Supra Developers Private Limited	206.	15-004379	M/s. Modern Security Private Limited
180.	15-004176	M/s. Shri Ambika Rice Mill Private Limited	207.	15-004381	M/s. L. A. Management Services Private Limited
181.	15-004186	M/s. Orian Informatics Private Limited	208.	15-004389	M/s. Sintech Engineers Private Limited
182.	15-004199	M/s. Jain Thirani Oin & Plantation Industries Private Limited	209.	15-004394	M/s. Taj Builders Property Developer Private Limited
183.	15-004222	M/s. Stallion Telecom Private Limited	210.	15-004395	M/s. Aradhana Estates & Builder Private Limited
184.	15-004236	M/s. Utkalzinc Oxidex Private Limited	211.	15-004401	M/s. Ashis Roadlines Private Limited
185.	15-004248	M/s. Kenaf Seeds Private Limited	212.	15-004405	M/s. Amen Control Systems Private Limited
186.	15-004249	M/s. Afirek Trade & Commerce Int. Private Limited	213.	15-004424	M/s. X 2000 Tours & Travels Private Limited
			214.	15-004435	M/s. Ananta Poly Plast Private Limited

1	2	3
215.	15-004436	M/s. Jaiswal Polypipes Private Limited
216.	15-004472	M/s. Kalinga Ceramics Private Limited
217.	15-004479	M/s. Agarwal Road Carriers Private Limited
218.	15-005585	M/s. Yah Liasioning and Marketing (I) Private Limited
219.	15-004486	M/s. Coco Food & Beverage Private Limited
220.	15-004487	M/s. Kalinga Dairy Limited
221.	15-004492	M/s. Alfa Industrial Security Service Private Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Cuttack-753001, the 31st January 2007

No. ROC/SEC. 560 (3)/7562.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said companies will be dissolved:—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-005601	M/s. Guptaeswar Mines and Gems Private Limited
2.	15-005602	M/s. Solar Enterprises Private Limited
3.	15-005603	M/s. Welkin Networking Services Private Limited
4.	15-005616	M/s. Shree Loknath Estates Private Limited
5.	15-005632	M/s. Trishna Holiday Resorts Private Limited
6.	15-005641	M/s. Twin City Engineers Private Limited
7.	15-005703	M/s. Ved Transport and Shipping Private Limited
8.	15-005706	M/s. S. J. Supreme Consultants Private Limited
9.	15-005708	M/s. P. P. Technologies Private Limited
10.	15-005719	M/s. Berhampur Gas Distributors Private Limited

1	2	3
11.	15-005814	M/s. R.K. Buildcons Private Limited
12.	15-005892	M/s. Prince Supply Agencies Private Limited
13.	15-005971	M/s. Sona Marine Exports Private Limited
14.	15-005988	M/s. Radha Ram Agro Processors Private Limited
15.	15-005989	M/s. Silpa Estcon Private Limited
16.	15-006015	M/s. Prem Securities and Courier Service Private Limited
17.	15-006027	M/s. Albert Hotels & Agro Industries Private Limited
18.	15-006043	M/s. Benign Estate and Builders Private Limited
19.	15-006045	M/s. Wega Builders Private Limited
20.	15-006059	M/s. Behera Builders Private Limited
21.	15-06064	M/s. Rian Marketing Services Private Limited
22.	15-006070	M/s. Majhighariani Cable Network Private Limited
23.	15-006077	M/s. Mohapatro Poultries Private Limited
24.	15-006083	M/s. Shreekshetra Export & Import Private Limited
25.	15-006085	M/s. Shailja Software Export Private Limited
26.	15-006092	M/s. Sarada Construction & Builders Private Limited
27.	15-006100	M/s. Amerian Business Card Private Limited
28.	15-006101	M/s. Satabdi Contech Private Limited
29.	15-006104	M/s. Shree Gopal Apparels Private Limited
30.	15-006116	M/s. Versatile Communications Private Limited
31.	15-006118	M/s. D. S. N. Builders & Developers Private Limited
32.	15-006121	M/s. Cappwin Labs Private Limited
33.	15-006122	M/s. Alien Properties Private Limited
34.	15-006123	M/s. Eye Workz Technologies Private Limited
35.	15-006124	M/s. Eastern India Business Associates Private Limited

1	2	3
36.	15-006132	M/s. Susmita Cold Storage Private Limited
37.	15-006135	M/s. Hanuman LPG Cylinders Private Limited
38.	15-006147	M/s. Kamini Krushna Market Complex Private Limited
39.	15-006149	M/s. Orel Infotech Private Limited
40.	15-006150	M/s. Digitalaxis Infotech Private Limited
41.	15-006156	M/s. B. & N. Sales Syndicate Private Limited
42.	15-006161	M/s. Lans Auto Private Limited
43.	15-006167	M/s. O. S. L. Engineering Private Limited
44.	15-006169	M/s. Mandan Green Resorts Private Limited
45.	15-006188	M/s. Swagat Builders Private Limited
46.	15-006201	M/s. Kalinga Layers Private Limited
47.	15-006202	M/s. Khan Properties Private Limited
48.	15-006203	M/s. Sree Chaitanya Tecons Private Limited
49.	15-006210	M/s. Revani Transport Industries Private Limited
50.	15-006212	M/s. La Marketica Private Limited
51.	15-006213	M/s. Sarthak Minerals Private Limited
52.	15-006214	M/s. Seva Builders & Promoters Private Limited
53.	15-006215	M/s. Gayatri Erectors Private Limited
54.	15-006218	M/s. Nalini Infotech Private Limited
55.	15-006220	M/s. Shreeinfo Technologies Private Limited
56.	15-006236	M/s. Goja Bayani Construction Private Limited
57.	15-006240	M/s. Asha Equipments & Electrical Supply Private Limited
58.	15-006243	M/s. Pink Health Services Private Limited
59.	15-006247	M/s. A. B. M. Estates & Promoters Private Limited
60.	15-006248	M/s. Avatar Services Private Limited
61.	15-006259	M/s. Orissa Agro Products Private Limited
62.	15-006275	M/s. Omkar Advertising Private Limited
63.	15-006277	M/s. Binori Systems Private Limited

1	2	3
64.	15-006286	M/s. Pravat Consultants Private Limited
65.	15-006293	M/s. Mark Communications & Consultancy Private Limited
66.	15-006301	M/s. Kalson Infoserve Private Limited
67.	15-006305	M/s. S. Vindhyachal Ice & Cold Storage Private Limited
68.	15-006315	M/s. Bipasha Builders & Developers Private Limited
69.	15-006320	M/s. Gitanjali Services Private Limited
70.	15-006324	M/s. Jaganath Gas Point Private Limited
71.	15-006327	M/s. Aryabrat Construction Private Limited
72.	15-006332	M/s. Eastern Abrasives & Allied Products Private Limited
73.	15-006333	M/s. Shubhamshree Buildcon Private Limited
74.	15-006337	M/s. Concord Buildcon & Developers Private Limited
75.	15-006339	M/s. Kanheyalal Apparels Private Limited
76.	15-006340	M/s. Vyasagar Oils Private Limited
77.	15-006347	M/s. Nec Computers Private Limited
78.	15-006354	M/s. Ambrit Education Consultancy Private Limited
79.	15-006355	M/s. Shiv Subham Estcon Private Limited
80.	15-006361	M/s. B. S. Discover Tours Private Limited
81.	15-006371	M/s. Hotel Bhuvanashree Private Limited
82.	15-006376	M/s. Parshavanath Estate Private Limited
83.	15-006383	M/s. Millennium Buildcon Private Limited
84.	15-006394	M/s. Dolphin Doodh Private Limited
85.	15-006400	M/s. Sophia Computech Private Limited
86.	15-006401	M/s. Purusottam marketing Services Private Limited
87.	15-006402	M/s. Orissa marketing Agency Private Limited
88.	15-006406	M/s. Unite Care Private Limited
89.	15-006412	M/s. Jaganath Factoring & Services Private Limited
90.	15-006421	M/s. Konark Contech Private Limited
91.	15-006424	M/s. Divyajyoti Stones Private Limited

1	2	3
92.	15-006426	M/s. Shivsankar Trader Private Limited
93.	15-006435	M/s. Sri Basudeb Projects Private Limited
94.	15-006437	M/s. Arshad's Information Technology Private Limited
95.	15-006438	M/s. Subham Buildtech Private Limited
96.	15-006442	M/s. Tarini Realcon Private Limited
97.	15-006447	M/s. Niraj Trade & Industrial Syndicate Private Limited
98.	15-006450	M/s. Pacific Information Systems Private Limited
99.	15-006455	M/s. S. D. Creation Services Private Limited
100.	15-006457	M/s. Triple-R Hotels Private Limited
101.	15-006461	M/s. Srusti Buildcon Private Limited
102.	15-006470	M/s. Subham Infosys Private Limited
103.	15-006482	M/s. Julie Exports Private Limited
104.	15-006489	M/s. Vivekananda Minerals Private Limited
105.	15-006492	M/s. Mediaid Technology Private Limited
106.	15-006493	M/s. Invensys Systems Private Limited
107.	15-006494	M/s. Systems Associates Private Limited
108.	15-006496	M/s. Maharaja Realcon Private Limited
109.	15-006498	M/s. Aspect Software Private Limited
110.	15-006504	M/s. United Max Private Limited
111.	15-006531	M/s. Neelson Engineers & Consultants Private Limited
112.	15-006535	M/s. Sagarika Arts Private Limited
113.	15-006537	M/s. Telesoft Intelli Systems Private Limited
114.	15-006540	M/s. Eras Communication Private Limited
115.	15-006550	M/s. Saisys Systems & Solution Private Limited
116.	15-006560	M/s. Mahavir Associates Private Limited
117.	15-006561	M/s. Kamla Security Services Private Limited
118.	15-006566	M/s. Kanha Video & Audio Graphics Private Limited
119.	15-006576	M/s. Mahanta Security Services Private Limited
120.	15-006581	M/s. Surya Non Destructive Test and Corrosion Prevention Services Private Limited

1	2	3
121.	15-006591	M/s. Zed-3 Security Services Private Limited
122.	15-006592	M/s. Nirakar Real Estate & Developers Private Limited
123.	15-006593	M/s. Imeprial Computer Software Studies Private Limited
124.	15-006596	M/s. Megasys Information Technologies Private Limited
125.	15-006597	M/s. Orivision Tours Net India Private Limited
126.	15-006599	M/s. Jyoti Ranjan Mohapatra Constructions Private Limited
127.	15-006602	M/s. Space-Line Constructions Private Limited
128.	15-006611	M/s. Lalanrut Constructions Private Limited
129.	15-006612	M/s. Prativa Leisure and Resorts Private Limited
130.	15-006614	M/s. Sahara Industrial Gases Private Limited
131.	15-006615	M/s. S. R. B. & Associates Private Limited
132.	15-006617	M/s. Jatadhari Engineering Works Private Limited
133.	15-006621	M/s. N. & S. Mechanised Bricks Private Limited
134.	15-006623	M/s. Iridium Soft & Hardware Private Limited
135.	15-006625	M/s. Truth Love and Happiness Marketing Services Private Limited
136.	15-006633	M/s. Sai Innovations Private Limited
137.	15-006634	M/s. Noble Exim (India) Private Limited
138.	15-006635	M/s. Bhubaneswar Livestock Private Limited
139.	15-006638	M/s. Sheravali Minerals & Alloys Private Limited
140.	15-006651	M/s. Shakti Goods Private Limited
141.	15-006652	M/s. Max 'N' Trax Electronics Private Limited
142.	15-006653	M/s. Matkambeda Metaliks Private Limited
143.	15-006662	M/s. Sepa Techno-Consultancy Private Limited



1	2	3
144.	15-006666	M/s. Super Facility Excel Private Limited
145.	15-006674	M/s. Ranisati Alloys Private Limited
146.	15-006676	M/s. Bayasha Properties Private Limited
147.	15-006682	M/s. Lagan Estate and Builders Private Limited
148.	15-006683	M/s. Udyabhanu Marketing & Services Private Limited
149.	15-006684	M/s. Unite All-in Direct Marketing Private Limited
150.	15-006685	M/s. Anindita Builders and Developers Private Limited
151.	15-006691	M/s. Sylveenet Solutions Private Limited
152.	15-006693	M/s. Chintan Technologies Private Limited
153.	15-006701	M/s. Netcon Marketing Private Limited
154.	15-006703	M/s. Govind Ram Computech Private Limited
155.	15-006706	M/s. Abas Marketing Services Private Limited
156.	15-006709	M/s. Badal Builders Private Limited
157.	15-006711	M/s. Gananayak Constructions Private Limited
158.	15-006712	M/s. Sri Satyasai Estate & Promoters Private Limited
159.	15-006718	M/s. Doom Chemicals Private Limited
160.	15-006720	M/s. Smruti Enterprises Private Limited
161.	15-006724	M/s. Jewel Real Estates Private Limited
162.	15-006726	M/s. M. S. Documentation & Services Private Limited
163.	15-006727	M/s. Bhishan Dayal Resorts Private Limited
164.	15-006729	M/s. Arnapura Eastcon Private Limited
165.	15-006731	M/s. Elixir Solutions Private Limited
166.	15-006733	M/s. Senapathi Rama Chandi Marketing Private Limited
167.	15-006738	M/s. Utkal Edulink Consultancy Private Limited
168.	15-006744	M/s. Oritech Computers Private Limited
169.	15-006747	M/s. Om Vedavyash Vinayak Estates Private Limited

1	2	3
170.	15-006749	M/s. Mahima Rice Mills Private Limited
171.	15-006750	M/s. Ginni Bevy & Oceanic Private Limited
172.	15-006751	M/s. Meenarva Marketing Private Limited
173.	15-006753	M/s. Saubhagya Marketing Private Limited
174.	15-006756	M/s. Utkal Petro Chemicals Private Limited
175.	15-006757	M/s. Jai Jagdambey Induction Private Limited
176.	15-006760	M/s. Aryan Media Private Limited
177.	15-006761	M/s. Needs Consultants Private Limited
178.	15-006765	M/s. Mallick Tools & Engineering Private Limited
179.	15-006766	M/s. Mallika Machinery & Equipments Private Limited
180.	15-006770	M/s. Madhu & M. S. Soil Technologist Private Limited
181.	15-006773	M/s. Arvindo Promoters Private Limited
182.	15-006778	M/s. Subhadra Builders Private Limited
183.	15-006780	M/s. Devidurga Travels Private Limited
184.	15-006781	M/s. Maa Tarini Buildcon Private Limited
185.	15-006786	M/s. Biraja Ganesh Systems Private Limited
186.	15-006790	M/s. Stepin Network Private Limited
187.	15-006791	M/s. Linchpin Softech Private Limited
188.	15-006797	M/s. Orienta Furnishers Private Limited
189.	15-006801	M/s. Essen Customer Care Private Limited
190.	15-006807	M/s. Glowtech Consultancy Services Private Limited
191.	15-006808	M/s. Deomali Mines and Minerals Private Limited
192.	15-006809	M/s. Deshpriya Security Services Private Limited
193.	15-006815	M/s. Siena Contruction Private Limited
194.	15-006821	M/s. Vimal Softwares Private Limited
195.	15-006823	M/s. Narmada Network Private Limited
196.	15-006825	M/s. Mahaveer Realcon Private Limited
197.	15-006827	M/s. Wonder Wroot & Wort Private Limited
198.	15-006828	M/s. Baisnovi Estates & Construction Private Limited

1	2	3
199.	15-006836	M/s. Epoch Developers Private Limited
200.	15-006847	M/s. Amanah Real Estates & Developers Private Limited
201.	15-006869	M/s. Hirnimayee Network Private Limited
202.	15-006870	M/s. Meresapne Net Works Private Limited
203.	15-006871	M/s. Shreejyotee Finance & Management Services Private Limited
204.	15-006874	M/s. Sagiari Systems Private Limited
205.	15-006886	M/s. Voyager Infocom (India) Private Limited
206.	15-006886	M/s. Unison Electronics Private Limited
207.	15-006887	M/s. Megaview Services Private Limited
208.	15-006889	M/s. Moksha Solutions Private Limited
209.	15-006892	M/s. Horizen Systems & Solutions Private Limited
210.	15-006894	M/s. Kalinga Adventures and Aviation Private Limited
211.	15-006896	M/s. Mahavir Security Services Private Limited
212.	15-006897	M/s. Marina Overseas Private Limited
213.	15-006900	M/s. Millinium Exports Private Limited
214.	15-006909	M/s. Best Care Marketing Private Limited
215.	15-006911	M/s. Earth Logistics Private Limited
216.	15-006916	M/s. Ald Trading & Exports Limited
217.	15-006918	M/s. Bandarai Pigs Project Private Limited
218.	15-006923	M/s. Netcon Multi Marketing Private Limited
219.	15-006924	M/s. Park Builders & Engineers Private Limited
220.	15-006925	M/s. S. A. B. B. Metals & Alloys Private Limited
221.	15-006926	M/s. Fairy Marketing Private Limited
222.	15-006927	M/s. Limelitz Solutions Private Limited
223.	15-006929	M/s. Utkal Estate & Developers Private Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Cuttack-753001, the 31st January 2007

No. ROC/SEC. 560 (3)/7552.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the sdate hereof, the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said companies will be dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-004517	M/s. Moti Beach Resorts Private Limited
2.	15-004524	M/s. Sakti Vihar Housing Private Limited
3.	15-004535	M/s. Loknath Kamadhenu Dairy Private Limited
4.	15-004552	M/s. Pas Communications Private Limited
5.	15-004556	M/s. Paribesh Agro Forestry Private Limited
6.	15-004561	M/s. Engineers India Consultancy and Survey Private Limited
7.	15-004570	M/s. Lata Plastics Private Limited
8.	15-004576	M/s. Seva Security Services Private Limited
9.	15-004580	M/s. Peekay Farms & Plantations Private Limited
10.	15-004581	M/s. Ispat Mail Publication Private Limited
11.	15-004588	M/s. Vikasta Pariwahan Private Limited
12.	15-004591	M/s. Parakram Minerals Private Limited
13.	15-004594	M/s. K. C. M. Textile Industries Private Limited
14.	15-004606	M/s. Apex Concretes & Engineering Private Limited
15.	15-004654	M/s. Supertech Comstat Private Limited
16.	15-004661	M/s. Medal Shape Private Limited
17.	15-004662	M/s. Kay West Services Private Limited
18.	15-004664	M/s. Ambica Granites Private Limited
19.	15-004669	M/s. Sri Venkateswara Wire Products Private Limited
20.	15-004672	M/s. A. B. S. Explosives Private Limited
21.	15-004679	M/s. Ashraya Promoters & Builders Private Limited

1	2	3	1	2	3
22.	15-004683	M/s. Kaliber Estates Private Limited	47.	15-004874	M/s. Lord Builders & Developers Private Limited
23.	15-004697	M/s. Baldev Jew Pharmaceuticals Private Limited	48.	15-004882	M/s. Odyssey Gems Private Limited
24.	15-004703	M/s. North Ex-Services Security Service Private Limited	49.	15-004887	M/s. Maa Samaleswari Paper Products Private Limited
25.	15-004720	M/s. Khandagiri Security Service Private Limited	50.	15-004891	M/s. Deadly First Security Services Private Limited
26.	15-004732	M/s. Orissa Minerals & Chemicals Private Limited	51.	15-004903	M/s. Jasmine Agritech Private Limited
27.	15-004739	M/s. Sagar Real Estates & Promoters Private Limited	52.	15-004904	M/s. Khemka Builders Private Limited
28.	15-004746	M/s. Bharati Estates Private Limited	53.	15-004910	M/s. Jai Matadi Communications Private Limited
29.	15-004752	M/s. Little Earth Real Estate Private Limited	54.	15-004915	M/s. J. S. Builders Private Limited
30.	15-004758	M/s. Fonatic Information Park Private Limited	55.	15-004919	M/s. Shyam Realtors & Construction Private Limited
31.	15-004764	M/s. Overcome Enterprisers Private Limited	56.	15-004920	M/s. Bajrang Forging Private Limited
32.	15-004768	M/s. Kota Foods Private Limited	57.	15-004935	M/s. Salem Estate & Engineering Constructions Private Limited
33.	15-004773	M/s. North-East Marine Products Private Limited	58.	15-004952	M/s. Mahakali Carbon Private Limited
34.	15-004776	M/s. Automatic Steel Industries Private Limited	59.	15-004955	M/s. Abhinash Computers Private Limited
35.	15-004777	M/s. J. B. S. Agro Private Limited	60.	15-004960	M/s. Shilpi Gases Private Limited
36.	15-004781	M/s. G. M. Aluminium Extrusions Private Limited	61.	15-004963	M/s. Sworna Food Manufacturing Private Limited
37.	15-004782	M/s. Sahara Aluminium Extrusions Private Limited	62.	15-004972	M/s. United Cargo Services Private Limited
38.	15-004788	M/s. Gandharva Green Forest & Resorts Private Limited	63.	15-004982	M/s. Woodland bottling and Agro Products Private Limited
39.	15-004790	M/s. Tara Tarini Engineering & Construction Private Limited	64.	15-004989	M/s. Lotus Security Guard Private Limited
40.	15-004799	M/s. B. H. Roller Flour Mills Private Limited	65.	15-004991	M/s. Diamas Ex-Servicemen Transport Private Limited
41.	15-004836	M/s. Nandighosh Garmwents (India) Private Limited	66.	15-005007	M/s. Konark Electronics Private Limited
42.	15-004849	M/s. Ramesh Metals Private Limited	67.	15-005013	M/s. Infocus Advertising Private Limited
43.	15-004850	M/s. Jugantar Hotels & Properties Private Limited	68.	15-005015	M/s. Capital Consultants and Developers Private Limited
44.	15-004851	M/s. Raj Foods Private Limited	69.	15-005023	M/s. Auro Equipments Private Limited
45.	15-004860	M/s. Sunani Constructions Private Limited	70.	15-005035	M/s. Basera Construction Private Limited
46.	15-004868	M/s. Bhubaneswar Marketing Private Limited	71.	15-005037	M/s. Models India Private Limited
			72.	15-005044	M/s. Kharvela Freezing Company Products Private Limited
			73.	15-005051	M/s. Gour Gajendra Hospital Private Limited
			74.	15-005052	M/s. Ankul Trading Private Limited
			75.	15-005053	M/s. Biswarupa Developers & Builders Private Limited
			76.	15-005054	M/s. Intact Equipments Private Limited

1	2	3
77.	15-005068	M/s. Gupta Moulders Private Limited
78.	15-005075	M/s. Maitreyee Builders and Consultants Private Limited
79.	15-005077	M/s. Asha Agro Bio-Tech India Private Limited
80.	15-005089	M/s. Mosam Steels Private Limited
81.	15-005090	M/s. Kalyani Foods Private Limited
82.	15-005093	M/s. Electro Infrastructure & Consultancy Private Limited
83.	15-005100	M/s. Neelakantha Builder and Developers Private Limited
84.	15-005103	M/s. Anupam Lodge Private Limited
85.	15-005109	M/s. Krishna Kanheya Builders & Real Estate Private Limited
86.	15-005110	M/s. Sabass Spices Private Limited
87.	15-005115	M/s. Chariot Construction Private Limited
88.	15-005119	M/s. Nagabali Saecurity Services Private Limited
89.	15-005120	M/s. Sai Talkies Private Limited
90.	15-005121	M/s. Ashim Builders & Developers Private Limited
91.	15-005125	M/s. Galaxy Telesystems Private Limited
92.	15-005128	M/s. Jwalamukhi Advertising & Communications Private Limited
93.	15-005131	M/s. Eden Construction & Builders (Orissa) Private Limited
94.	15-005132	M/s. Jay Veer Hanuman Promoters and Builders Private Limited
95.	15-005139	M/s. Anupam Ice Factory Private Limited
96.	15-005146	M/s. Elit Agro Plantations Private Limited
97.	15-005147	M/s. Intech Parks Private Limited
98.	15-005150	M/s. Daystar Constructions & Engineers Private Limited
99.	15-005153	M/s. Satya Sai Constructions Private Limited
100.	15-005154	M/s. Rushikulya Builders Private Limited

1	2	3
101.	15-005155	M/s. Meera Real Estates Private Limited
102.	15-005172	M/s. Amity Constructions and Builders Private Limited
103.	15-005183	M/s. Bana Bharatee Private Limited
104.	15-005186	M/s. Swagatam Developers & Builders Private Limited
105.	15-005192	M/s. Babushri Farms Private Limited
106.	15-001618	M/s. Acme Ice-Floe Private Limited
107.	15-001742	M/s. Alcock Precision Instruments Co. Orissa Private Limited
108.	15-006748	M/s. Mohabeer Hatcheries Private Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Bangalore, the 19th January 2007

No. TA/H/S. 560(5)/SES-2003 & General/06.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said Companies shall stand dissolved on the publication of this notice in the Official Gazette:—

Sl. No.	Name of the Company	Company number Corporate Identity Number/date of Registration
1.	M/s. Itrix Software Private Limited	U72200KA2002 PTC030740
2	M/s. Condor Infotech Private Limited	U00872KA1998 PTC024188
3.	M/s. Cryogard Laboratories Private Limited	U85199KA2000 PTC026183
4.	M/s. Kirloskar Auto Components Limited	U34300KA1999 PLC024922

SANJAY KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka